

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली



क्रम संख्या

काल नं०

स्वच्छ

Ki Sewa mandel

21 Janyagany. Jek

माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैनग्रन्थमाला, पुष्प ४५

जैनशिलालेखसंग्रहः

(द्वितीयो भागः २)

संग्रहकर्त्ता

पं० विजयमूर्ति एम० ए० शास्त्राचार्यः

प्रकाशिका

माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैनग्रन्थमालासमितिः

विक्रम संवत् २००९

मूल्यं ~~२०~~रुप्यकम्

— प्रकाशक —
नाथूराम प्रेमी,
मंत्री, माणिकचन्द्र-जैनग्रन्थमाला
हीराबाग, बम्बई ४

सितम्बर १९५२

— मुद्रक —
लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी
निर्णयसागर प्रेस,
२६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई २

स्वागत

जैनशिलालेखसंग्रहका प्रथम भाग आजसे चौबीस वर्ष पूर्व सन् १९२८ ईस्वीमें प्रकाशित हुआ था। उसके प्राथमिक वक्तव्यमें मैंने यह आशा प्रकट की थी कि यदि पाठकोंने चाहा, और भविष्य अनुकूल रहा तो अन्य शिलालेखोंका दूसरा संग्रह शीघ्र ही पाठकोंको भेंट किया जायगा। पाठकोंने चाहा तो खूब, और माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैनग्रंथमालाके परम उत्साही मंत्री पं० नाथूरामजी प्रेमीकी प्रेरणा भी रही, किन्तु मैं अपनी अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियोंके कारण इस कार्यको हाथमें न ले सका। तथापि चित्तमें इस कार्यकी आवश्यकता निरन्तर खटकती रही। अपने साहित्यिक सहयोगी डॉ० अदिनाथजी उपाध्येसे भी इस सम्बन्धमें अनेक बार परामर्श किया किन्तु शिलालेखोंका संग्रह करने करानेकी कोई सुविधा न निकल सकी। अतएव, जब कोई दो वर्ष पूर्व श्रद्धेय प्रेमीजीने मुझसे पूछा कि क्या पं० विजयमूर्तिजी एम० ए० (दर्शन, संस्कृत) शास्त्राचार्यद्वारा शिलालेखसंग्रहका कार्य प्रारम्भ कराया जावे, तब मैंने सहर्ष अपनी सम्मति दे दी। आनन्दकी बात है कि उक्त योजनानुसार जैनशिलालेखसंग्रहका यह द्वितीय भाग छपकर तैयार हो गया और अब पाठकोंके हाथोंमें पहुँच रहा है।

यह बतलानेकी तो अब आवश्यकता नहीं है कि प्राचीन शिलालेखोंका इतिहास-निर्माणके कार्यमें कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। जबसे जैन शिलालेखोंका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ, तबसे गत चौबीस वर्षोंमें जैनधर्म और साहित्यके इतिहाससम्बन्धी लेखोंमें एक विशेष प्रौढता और प्रामाणिकता दृष्टिगोचर होने लगी। यद्यपि वे शिलालेख उससे पूर्व ही प्रकाशित हो चुके थे, किन्तु वह सामग्री अंग्रेजीमें, पुरातत्त्वविभागके बहुमूल्य और बहुधा अप्राप्य प्रकाशनोंमें निहित होनेके कारण साधारण लेखकों तथा पाठकोंको सुलभ नहीं थी। इसीलिये समस्त प्रकाशित शिलालेखोंका सुलभ संग्रह नितान्त आवश्यक है।

जैनशिलालेखसंग्रह प्रथम भागमें पाँच सौ शिलालेख प्रकाशित किये गये थे। वे सब लेख श्रवणबेलगुल और उसके आसपासके कुछ स्थानोंके ही थे।

जैन-शिलालेख-संग्रह

द्वितीय भाग

१

दिल्ली (टोपरा) — प्राकृत ।

अशोकके सातवें धर्मशासन-लेखका अन्तिम भाग

[लगभग २४२ ईसवी पूर्व]

[१] धंमवट्ठिया च बाढं वट्ठिसत्ति [] एताये मे अठाये धंमसा-
वनानि सावापितानि धंमानुसाथिनि विविधानि आनपितानि [यथा मे
पुलि] सापि वहुने जनसि आयता एते पलियोवदिसंति पि पवियलि-
संतिपि [] लज्जका पि वहुकेसु पानसतसहसेसु आयता ते पि मे आन-
पिता [] हेवं च हेवं च पलियोवदाथ

[२] जनं धंमयुतं [] देवानं पिये पियदसि हेवं आहा [] एतमेव
मे अनुवेखमाने धंमयंभानि कटानि [] धंममहामाता कटा [] धंम-
[सावने] कटे [] देवानं पिये पियदसि लाजा हेवं आहा [] मगेसु पि मे
निगोहानि लोपापितानि [] छायोपगानि होसंति पसुमुनिसानं [] अंबा-
वडिक्या लोपापिता [] अट्ठकोसिक्यानि पि मे उट्ठुपानानि

[३] खानापितानि [] निसिधिया च कालापिता [] आपानानि मे
बहुकानि तत तत कालापितानि पटीभोगाये पसुमुनिसानं [] ल [हुके
चु] एस पटीभोगे नाम [] विविधायहि सुग्वायनाया पुलिमेहिपि लाजी

१. ए कनिंघम, Corpus inscriptionum indicarum, Vol. I,
Inscriptions of Asoka, p. 115, t.

जैन-शिलालेख-संग्रह

द्वितीय भाग

१

दिल्ली (टोपरा) — प्राकृत ।

अशोकके सातवें धर्मशासन-लेखका अन्तिम भाग

[लगभग २४२ ईसवी पूर्व]

[१] धंमवट्ठिया च व्राटं वट्ठिसति [1] एताये मे अठाये धंमसा-
वनानि सावापितानि धंमानुसार्थिन विविधानि आनपितानि [यथा मे
पुलि] मापि वट्ठने जनसि आयता एते पल्लियोवदिमंति पि पविथलि-
मंतिपि [1] उज्ज्वा पि वट्ठकेसु पानमतमहमेसु आयता ते पि मे आन-
पिता[2] हेवं च हेवं च पल्लियोवदाथ

[२] जन धंमयुने [1] देवानं पिये पियदसि हेवं आहा[2] एतमेव
मे अनुनेग्गमानं धंमयंभानि कटानि[2] धंममहामाता कटा[2] धंम-
[सावने] कटे [1] देवानं पिये पियदसि लाजा हेवं आहा[2] मगेसु पि मे
निगोहानि लोपापितानि[2] ह्ययोपगानि होसंति पसुमुनिसानं[2] अंवा-
वडिक्या लोपापिता[2] अट्ठकोसिक्यानि पि मे उट्ठुपानानि

[३] खानापितानि[2] निंसिधिया च कालापिता[2] आपानानि मे
वट्ठुकानि तत तत कालापितानि पटीभोगाये पसुमुनिसानं [1] उ[ट्ठुके
चु] एस पटीभोगे नाम [1] विविधाय्याहि सुग्वायनाया पुल्लिमेहिपि लाजी

१. ए कर्निषम, Corpus inscriptionum indicarum, Vol. I, Inscriptions of Asoka, p. 115, t.

हि ममया च सुखयिते^१ लोके [॥] इमं च धंमानुपटीपतीअनुपटी-
पजंतुति[.] एतदथा मे

[४] एस कटे [॥] देवानं पिये पियदसि हेवं आहा[:.] धंममहा-
मातापि मे ते बहुविधेसु अठेसु अनुगहिकेसु वियापटा से पवजीतानं चैव
गिहियानं च [.] सव[पासं]डेसु पि च वियापटा से [॥] संघठसि पि मे
कटे इमे वियापटा होहंतिति[.] हेमेव बाभनेसु आजीविकेसु पि मे कटे

[५] इमे वियापटा होहंतिति [॥] निगंठेसु पि मे कटे इमे
वियापटा होहंतिति[.] नानापासंडेसु पि मे कटे इमे वियापटा होहं-
तिति [॥] पटिविसठं पटीविसठं तेसु तेसु ते ते महामाता [॥] धंममहा-
माता च्चु मे एतेसु चैव वियापटा सवेसु च अंनेसु पासंडेसु [॥] देवानं
पिये पियदसि लाजा हेवं आहा[:.]

[६] एते च अंने च बहुका मुखा दानविसगसि वियापटा से मम
चैव देविनं च[.] सवसि च मे आलोधनसि ते बहुविधेन आ[का]
लेन तानि तानि तुठायतनानि पटी [पाडयंति] हिद चैव दिसासु च [॥]
दालकानं पि च मे कटे अनानं च देविकुमालानं इमे दानविसगोसु
वियापटा होहंति ति

[७] धंमपदानठाये धंमानुपटिपतिये [॥] एस हि धंमापदाने धंम-
पटीपति च या इयं दया दाने सचे सोचवे मदवे साधवे च लोकस हेवं
वट्टिसतिति [॥] देवानं पिये [पियद] सि लाजा हेवं आहा[:.] यानि हि
कानि चि ममिया साधवानि कटानि तं लोके अनूपटीपने तं च
अनुविधियंति[.] तेन वट्टिता च

[८] वढिसंति च मातापितुसु सुसुसाया गुल्लसु सुसुसाया वयोम-
हालकानं अनुपटीपतिया वामनसमनेसु कपनवलाकेसु आव दासभट-
केसु संपटीपतिया [१] देवानंपिये [पि]यदसि लाजा हेवं आहा[ः]
मुनिसानं चु या इयं धंमवढि वढिता दुवेहि येव आकालेहि धंमनियमेन
च निज्जतिया च

[९] तत च लहु से धंमनियमे[ः] निज्जतिया व भुये[१] धंमनियमे च
खो एस ये मे इयं कटे इमानि च इमानि जातानि अवधियानि[ः] अनानि
पि चु बहु [कानि] धंमनियमानि यानि मे कटानि[१] निज्जतिया व चु
भुये मुनिसानं धंमवढि वढिता अविहिंसाये भुतानं

[१०] अनालंभाये पानानं[१] से एताये अथाये इयं कटे[ः] पुता-
पपोतिके चंदमसुलियिके होतु ति[ः] तथा च अनुपटीपजंतु ति[१] हेवं हि
अनुपटीपजंतं ह्दिदतपालते आलघे होति[१] **सतुविसतिवसाभिसितेन**
मे इयं धंमलिबि लिखापापिताति[१] एतं देवानंपिये आहा[ः] इयं

[११] धमलिबि अत अथि सिलार्थंभानि वा सिलाफलकानि वा
तत कटविया एन एस चिलठितिके सिया ।

[यह धर्मशासन-लेख अशोकके द्वारा महासम्भोंपर लिखाये गये लेखों-
मेंसे अन्तिम है । इसको कोई-कोई आठवां धर्मशासन-लेख (Edict)
मानते हैं, तो कोई मात्र सातवें धर्मशासन-लेखका ही अन्तिम
भाग मानते हैं ।

इसमें बताया है कि सम्राट अशोकने अपने राज्याभिषेकसे २७ वें
वर्षमें यह धर्मशासन-लेख लिखाया था । इसमें उसने अपने द्वारा
निर्बोधित धर्ममहामार्गोंका उल्लेख किया है । ये धर्ममहामार्ग 'संव'
(बौद्धसंघ), आजीबक, ब्राह्मण और निर्भ्रन्थोंकी देखरेख रखनेके लिये

नियुक्त किये गये थे । यहां 'निर्ग्रन्थ' शब्दसे जैनोंका तात्पर्य है । इसपरसे मालूम पड़ता है कि उस समयके अनेक अग्रसर धर्मोंमें जैनधर्म भी एक था ।]

२

हाथीगुफाका शिलालेख—प्राकृत ।

जैन-सम्राट खारवेलका इतिहास ।

[मौर्यकाल १६५ वाँ वर्ष]

[१] नमो अरहंतानं [] नमो सवसिधानं [] ऐरेन महाराजेन
महामेघवाहनेन चेताराजवस-वधनेन पसथसुभलखनेन चतुरंतल
धुन-गुनोपहितेन कलिंगाधिपतिना सिरि खारवेलेन ।

[२] पन्दरसवसानि सिरि-कडार-सरीर-वता कीडिता कुमारकी-
डिका [] ततो लेखरूपगणना-व्यहार-विधिविसारदेन सवविजावदातेन
नववसानि योवरजं पसासित्तुं [] संपुण-चतुर्वीसति-वसो तदानि वधमा-
नसेसयोत्रे(=त्र) नाभिविजयो ततिये

(३) कलिंगराजवंसे पुरिसयुगे महाराजाभिसेचनं पापुनाति []
अभिसिनमतो च पधमे वसे वान-विहत-गोपुर-पाकार-निवेसनं पटिसंग्वा-
रयति [] कलिनगरि [] ख-वीरं इसि-नालं तडाग-पाडियो च बन्धा-
पयति [] सवुयान-पतिसंठपनं च

[४] कारयति [] पनतीसाहि सतसहसेहि पकतियो च रंजयति []
दुतिये च वसे अचितयिता सातकणि पछिमदिसं हय-गज-नर-रध-बहुलं
दंडं पथापयति [] कण्हबेनां गताय च सेनाय वितापति^१ मुसिक-
नगरं [] ततिये पुन वसे

१ जैनहितैषी, भाग १५, अंक ५, मार्च १९२१, पृष्ठ १३९-१४५ से उद्धृत । २ वितापितं इति वा ।

[५] गंधव-वेदबुधो दंत-नत-गीत-वादितसंदसनाहि उसध-समाज-कारापनाहि च कीडापयति नगरिं [1] तथा चबुधे वसे विजाधराधिवासं अहत-पुवं कालिंगपुवराजनिवेशितं.....वितध-मकूटे सबिलमदिते च निखित-छत-

[६] भिंगारे हित-रतन-सापतेये **सव-रठिक भोजके** पादे वंदाप-यति [1] पंचमे च दानी वसे **नंदराज** ति-वससत-ओघाटिनं तनसुलिय-वाटा पनाडिं नगरं पवेस[य]ति [1] सो [पि च वसे] छडम 'भिसितो च राजसुय ['] सन्दसयंतो सवकर-वणं

[७] अनुगह-अनेकानि सतसहसानि विसजति पोरं जानपदं[1] सतमं च वसं पसासतो वजिरघरवि **धुसि** ति घरिनी समतुक-पद-पुंना-सकुमार[1].....[1] अठमे च वसे महत्तिसेनाय मह[तभित्ति] गोर-धगिरिं

[८] घातापयिता **राजगहं** उपपीडापयति[1] एतिना च कम पदान-पनादेन संवितसेन-वाहिनीं विपमुंचितुं मधुरां अपयातो येव नरिदो [नाम].....[मोः] यछति [विछ].....पलवभरे

[९] कल्परुखे हय-गज-रध-सह-यंते सव-धरावास-परिवसने स अगिणठिये[1] सवगहनं च कारयितुं बम्हणानं जाति-पंति परिहारं ददाति[1] अरहत.....व.....न.....गिय

[१०].....[क] [ि] मानेहि रा[ज] संनिवासं महाविजयं पासादं कारापयति अठनिसाय सत-सहसेहि[1] दसमे च वसे महधीत' भिसमयो भरधवस-पथानं महिजयनं.....ति कारापयति.....[निरितय] उया तानं च मणि-रतना[नि] उपलभते ।

[११]मंडे च पुव-राजनिवेसित-पीथुडग-द[ल]भ-नंगले
नेकासयति जनपदभावनं च तेरस-वस-सत-केतुभद-तित' मरदेह-
संघातं[] वारसमे च वसे.....सेहि वितासयति उतरापथराजानो

[१२]मगधानं च विपुलं भयं जनेतो हथिसु गंगाय
पाययति[] मागधं च राजानं बहसतिमितं' पादे वंदापति[] नंदराज-
नीतं च कालिंग-जिन-संनिवेशंगहरतनान पडिहारेहि
अंगमागध-वसुं च नेयाति []

[१३]त जठर-लिखिल-बरानि सिहिरानि नीवेसयति
सत-विसिकनं परिहारेन[] अभुतमछरियं च हथि-नावन परीपुरं उ
[प-]देणह ह्यहथी-रतना-[मा]निकं पंडराजा एदानि अनेकानि मुत-
मणिरतनानि अहरापयति इध सत-[स] []

[१४]सिनो वसीकरोति [] तेरसमे च वसे सुपवत-विज-
यिचके कुमारीपवते अरहिते य[] प-खिम-व्यसंताहि काय्यनिसीदीयाय
थापनावकेहि राजभित्तिनि चिनवतानि बोसासितानि [] पूजानि कत-उ-
वासा खारवेल-सिरिना जीवदेव-सिरि-कल्पं राखिता []

[१५][ता] सु कतं समण-सुविहितानं (नुं ?) च
सातदिसानं (नुं ?) जातानं तपसइसिनं सघायनं (नुं ?) [;]
अरहतनिसीदिया समीपे पभारे वराकर-समुयापिताहि अनेक-योजना-
हिताहि.....सिल्लाहि सिंहपथ-राजियं धुसिय निसयानि

[१६]पटालिक्रोचतरे च वेडूरियगमे थंमे पतिटापयति []
पानतरिया सतसहसेहि [] मुरिय-कालं वोछिनं (नें ?) च चोयठि-

अगस-निकंतरियं उपादायति [i] खेमराजा स वढराजा स भिखुराजा
धमराजा पसंतो सुनंतो अनुभवंतो कलाणानि

[१७].....गुप्त-विसेस-कुसलो सवपासंडपूजको सव-देवायत-
नसंकारकारको [अ]पति-हत-चकि-वाहिनि-बलो चकधुर-गुतचको पवत-
चको राजसि-वस-कुल-विनिश्रितो महा-विजयो राजा खारवेल-सिरि

अनुवाद—[१] अर्हतोको नमस्कार । सर्व सिद्धोको नमस्कार । ऐल-
महाराज महामेघवाहन, चैत्रराजवंशवर्धन, प्रशस्तशुभलक्षणसम्पन्न,
अखिल-देशसम्भ, कलिङ्गाधिपति श्री खारवेलने

[२] पन्द्रह वर्षतक श्रीसम्पन्न और कठार (गन्धुमी) रंगवाले शरी-
रसे कुमार-क्रीड़ाई कीं । बादमें लेख, रूपगणना, व्यवहार-विधिमें उत्तम
योग्यता प्राप्त करके और समस्त विद्याओंमें प्रवीण होकर उसने नौ वर्षोंतक
युवराजकी भीति शासन किया ।

जब वह पूरा चौबीस वर्षका हो चुका तब उसने, जिसका शेष जीवन
विजयोंसे उत्तरोत्तर वृद्धिगत हुआ,—तृतीय

[३] कलिङ्गराजवंशमें, एक पुरुषयुगके लिये महाराज्याभिषेक पाया ।
अपने अभिषेकके पहले ही वर्षमें उसने वातबिहत (तूफानके बिगाड़े हुए)
गोपुर (फाटक), प्राकार (चहारदीवारी) और भवनोंका जीर्णोद्धार
कराया; कलिङ्ग नगरीके फव्वारेके कुण्ड, इषितल्ल (?) और तडागोंके
बाँधोंको बँधवाया; समस्त उद्यानोंका प्रतिसंस्थापन कराया और पैतीस
लक्ष प्रजाको सन्तुष्ट किया ।

[४] दूसरे वर्षमें, सातकर्णिकी चिन्ता न करके उसने पश्चिम देशको
बहुत-से हाथी, घोड़ों, मनुष्यों और रथोंकी एक बड़ी सेना भेजी । कृष्ण-
वेण नदीपर सेना पहुँचते ही, उसने उसके द्वारा मूषिक-नगरको सन्तापित
किया । तीसरे वर्षमें फिर

[५] उस गन्धर्व-वेदमें निपुणमतिये दंप, नृत्य, गीत, वाद्य, सन्दर्शन,
उत्सव और समाजके द्वारा नगरीका मनोरञ्जन किया ।

और चौथे वर्षमें, विद्याधर-निवासोंको, जो पहले कभी नष्ट नहीं हुए थे और जो कलिङ्गके पूर्व राजाओंके निर्माण किये हुए थे..... उनके मुकुटोंको व्यर्थ करके और उनके लोहेके टोपोंके दो खण्ड करके और उनके छत्र, [६] और भृंगारों (सुवर्णकलशों) को नष्ट करके तथा गिराकर, और उनके समस्त बहुमूल्य पदार्थों तथा रत्नोंका हरण करके, उसने समस्त राष्ट्रिकों और भोजकोंसे अपने घरणोंकी बन्दना कराई ।

इसके बाद पाँचवें वर्षमें उसने तनसुलिय मार्गसे नगरीमें उस प्रणाली (नहर) का प्रवेश किया जिसको नन्दराजने तीन सौ वर्ष पहले खुदवाया था ।

छठे वर्षमें उसने राजसूय-यज्ञ करके सब करोंको क्षमा कर दिया, [७] पौर और जानपद (संस्थाओं) पर अनेक क्षतसहस्र अनुग्रह वितरण किये ।

सातवें वर्ष राज्य करते हुए, वज्र धरानेकी धृष्टि (प्राकृत=धिसि) नाम्नी गृहिणीने मानुक पदको पूर्ण करके सुकुमार [१]... (१)

आठवें वर्षमें उसने (खारबेलने) बड़ी दीवारवाले गोरयगिरिपर एक बड़ी सेनाके द्वारा

[८] आक्रमण करके राजगृहको घेर लिया । पराक्रमके कार्योंके इस समाचारके कारण नरेन्द्र [नाम]... अपनी धिरी हुई सेनाको छुड़ानेके लिये मथुराको चला गया ।

(नवें वर्षमें) उसने दिये..... पल्लवयुक्त

[९] कल्पवृक्ष, सारथीसहित हय-गज-रथ और सबको अग्निवेदिका-सहित गृह, आवास और परिवसन । सब दानको ग्रहण कराये जानेके लिये उसने ब्राह्मणोंकी जातिपंक्ति (जातीय संस्थाओं) को भूमि प्रदान की । अर्हत्..... व..... न..... गया (?)

१ राजधानीकी संस्थाको 'पौर' और ग्रामोंकी संस्थाको 'जानपद' कहते थे । वर्तमान समयमें हम इन्हें 'म्युनिसिपल' और 'डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड'के नामसे पुकार सकते हैं ।

[१०] [क] [f] मानै: (?) उसने महाबिजय-प्रासाद नामक राजस-
बिधास, अड़तीस सहस्रकी लागतका बनवाया ।

दसवें वर्षमें उसने पवित्र विधानोंद्वारा युद्धकी तैयारी करके देश
जीतनेकी इच्छासे, भारतवर्ष (उत्तरी भारत) को प्रस्थान किया ।...
केश (?) से रहित.....उसने आक्रमण किये गये लोगोंके मणि और
रत्नोंको पाया ।

[११] (ग्यारहवें वर्षमें) पूर्व राजाओंके बनवाये हुए मण्डपमें,
जिसके पहिये और जिसकी लकड़ी मोटी, ऊंची और विशाल थी, जनपदसे
प्रतिष्ठित तेरहवें वर्ष पूर्वमें विद्यमान कंतुभद्रकी तिक्त (नीम) काष्ठकी
अमर मूर्तिको उसने उत्सवसे निकाला ।

बारहवें वर्षमें.....उसने उत्तरापथ (उत्तरी पञ्जाब और सीमान्त
प्रदेश) के राजाओंमें त्रास उत्पन्न किया ।

[१२].....और मगधके निवासियोंमें विपुल भय उत्पन्न करते
हुए उसने अपने हाथियोंको गंगा पार कराया और मगधके राजा बृह-
स्पतिमित्रसे अपने चरणोंकी बन्दना कराई.....(वह) कर्किग-
जिनकी मूर्तिको जिसे नन्दराज ले गया था, घर लौटा लाया और अंग
और मगधकी अमूल्य वस्तुओंको भी ले आया ।

[१३] उसने.....जठरोल्लिखित (जिनके भीतर लेख खुदे हैं)
उत्तम शिखर, सौ कारीगरोंको भूमि प्रदान करके, बनवाये और यह बड़े
आश्चर्यकी बात है कि वह पाण्डवराजसे हस्ति नावोंमें भरा कर श्रेष्ठ हय,
हस्ति, माणिक और बहुतसे मुक्ता और रत्न नजरानेमें लाया ।

[१४] उसने.....वशमें किया ।

फिर तेरहवें वर्षमें व्रत पूरा होनेपर (खारवेलने) उन याप-ज्ञापकोंको
जो पूज्य कुमारी पर्वतपर, जहाँ जिनका चक्र पूर्णरूपसे स्थापित है, समाधियों-
पर याप और क्षेमकी क्रियाओंमें प्रवृत्त थे; राजभृतियोंको वितरण किया ।
पूजा और अन्य उपासक कृत्योंके क्रमको श्रीजीवदेवकी भाँति खारवेलने
प्रचलित रखा ।

[१५] सुविहित भ्रमणोंके निमित्त शास्त्र-नेत्रके धारकों, ज्ञानियों और तपोबलसे पूर्ण ऋषियोंके लिये (उसके द्वारा) एक संधायन (एकत्र होनेका भवन) बनाया गया । अर्हतकी समाधि (निषद्या) के निकट, पहाड़की ढालपर, बहुत बोजनोंसे लाये हुए, और सुन्दर खानोंसे निकाले हुए पत्थरोंसे, अपनी सिंहप्रस्थी रानी 'चट्टी' के निमित्त विधामागार—

[१६] और उसने पाटालिकाओंमें रत्न-जटित स्तम्भोंको पचहत्तर लाख पणों (मुद्राओं) के व्ययसे प्रतिष्ठापित किया । वहै (इस समय) मुरिय कालके १६४ वें वर्षको पूर्ण करता है ।

वह क्षेमराज, वर्द्धराज, भिक्षुराज और धर्मराज है और कस्याणको देखता रहा है, सुनता रहा है और अनुभव करता रहा है ।

[१७] गुणविशेष-कुशल, सर्व मतोंकी पूजा (सन्मान) करनेवाला, सर्व देवाल्योंका संस्कार करानेवाला, जिसके रथ और जिसकी सेनाको कभी कोई रोक न सका, जिसका चक्र (सेना) चक्रधुर (सेना-पति) के द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसका चक्र प्रवृत्त है और जो राजपिंवंश-कुलमें उत्पन्न हुआ है, ऐसा महाविजयी राजा श्रीखारवेल है ।

इस शिलालेखकी प्रसिद्ध घटनाओंका तिथिपत्र—

बी. सी. (ईसाके पूर्व)

- | | |
|--------------------|---|
| „ १४६० (लगभग) | ... केतुभद्र |
| „ ... ४६० (लगभग) | ... कलिंगमें नन्दशासन |
| „ [२३० | ... अशोककी मृत्यु] |
| „ [२२० (लगभग) | ... कलिंगके तृतीय-राजवंश-
का स्थापन] |
| „ १९७ ... | ... खारवेलका जन्म |
| „ [१८८ ... | ... मौर्यवंशका अन्त और
पुष्यमित्रका राज्य प्राप्त करना] |
| „ १८२ ... | ... खारवेलका युवराज होना |
| „ [१८० (लगभग | ... सातकर्णिक प्रथमका राज्य-
प्रारम्भ] |

„ १७३ खारखेकका राज्याभिषेक
„ १७२ मूषिक-नगरपर आक्रमण
„ १६९ राष्ट्रिकों और भोजकोंका पराजय
„ १६७ राजसूय-यज्ञ
„ १६५ मगधपर प्रथम बार आक्रमण
„ १६१ उत्तरापथ और मगधपर आक्रमण, पाण्डवराजसे अदेय (नजराने) की प्राप्ति
„ १६० शिलालेखकी तिथि

३

वैकुण्ठ (स्वर्गपुरी) गुफा उदयगिरि—प्राकृत ।

[लगभग १६५ मौर्यकाल]

अरहन्तपसादनं कलिङ्ग.....य.....नानं लोनकाडतं रजिनोलस.....
हेधिसहसं पनोतसय.....कलिङ्ग.....वेल्स अगमहि पिडकाई

[इस शिलालेखमें अर्हन्तोंकी कृपाको प्राप्त गुहानिर्माण (Excavation) बताया गया है । इस लेखका शेषभाग इतना टूटा हुआ है कि वह पढ़नेमें नहीं आसकता । वैकुण्ठ गुफा, जिसके नामसे यह शिलालेख प्रसिद्ध है, राजा ललाकके द्वारा अर्हन्तों और कलिङ्गके भ्रमणोंके लाभ या उपयोगके लिये बनाई गई थी ।]

[JASB, VI, p. 1074]

४

मथुरा—प्राकृत ।

[बिना कालनिर्देशका] लेकिन करीब १५० ई० पूर्वका [बृहत्]-

समनस माहरखितास आंतेवासिस वछीपुत्रस सावकास उतर-
दासक[१] स पासादोतोरनं [॥]

अनुवाद—माहरखित (माघरक्षित) के शिष्य, वछी (वात्सी माता) के पुत्र उतरदासक (उत्तरदासक) श्रावकका (दान) यह मन्दिरका तोरण(ण) है।

[El, II, p^o XIV, n^o 1.]

५

मथुरा—प्राकृत ।

[महाक्षत्रप शोडाशके ४२ वें (?) वर्षका]

१. नम अरहतो वर्धमानस ।

२. ख[१]मिस महक्षत्रपस शोडासम सवत्सरे ४० (?) २
हेमंतमासे २ दिवसे ९ हरितिपुत्रस पालस भयाये ममसाविकाये^१

३. कोछिये अमोहिनिये सहा पुत्रेहि पालघोषेन पोठघोषेन
धनघोषेन आयवती प्रतिथापिता प्राय—[भ]—

४. आर्यवती अरहतपुजाये [॥]

अनुवाद—अर्हत वर्धमानको नमस्कार हो । स्वामी महाक्षत्रप शोडासके ४२ (?) वें वर्षकी शीतक्रतुके दूसरे महीनेके नौवें दिन, हरिति (हरिती या हारिती माता) के पुत्र पालकी स्त्री, तथा श्रमणोंकी श्राविका, कोछि (कौत्सी) अमोहिनि (अमोहिनी) के द्वारा अपने पुत्रों पालघोष, पोठघोष, (प्रोष्ठघोष) और धनघोषके साथ आयवती (आर्यवती) की स्थापना की गई थी ।

[El, II, n^o XIV, n^o 2]

६

पभोसा (अलाहाबादके पास)—संस्कृत ।

[द्वितीय या प्रथम ईसवी पूर्व (फ्यूरर)]

१ पढ़ो 'समनसाविकायें' ।

१. राज्ञो गोपालीपुत्रस
२. बहसतिमित्रस
३. मातुलेन गोपालीया
४. वैहिदरीपुत्रेन [आसा]
५. आसाढसेनेन लेनं
६. कारितं [उदाकस]^१ दस-
७. मे सवछरे कश्शीयानं अरहं-
८. [ता] न - - - - - ो [॥]

अनुवाद—गोपालीके पुत्र राजा बहसतिमित्र (बृहस्पतिमित्र) के मामा, तथा गोपाली वैहिदरी (अर्थात् वैहिदर-राजकन्या) के पुत्र आसाढसेनेने कश्शीय अरहंतोके.....दसवें वर्षमें एक गुफाका निर्माण कराया ।

[El, II, p. 242.]

७

पभोसा (प्रभात)—प्राकृत ।


[द्वितीय या प्रथम शताब्दि ई. पू.]

१. अधियछात्रा राज्ञो शोनकायनपुत्रस्य वंगपालस्य
२. पुत्रस्य राज्ञो तैवणीपुत्रस्य भागवतस्य पुत्रेण
३. वैहिदरीपुत्रेण आसाढसेनेन कारितं [॥]

अनुवाद—अधिल्लत्राके राजा शोनकायन (शौनकायन) के पुत्र राजा वंगपालके पुत्र (और) तैवणी (अर्थात् त्रैवर्ण-राजकन्या) के पुत्र राजा भागवतके पुत्र (तथा) वैहिदरी (अर्थात् वैहिदर-राजकन्या) के पुत्र आसाढसेनेने बनवाई ।

[नोट—शुङ्गकालके अक्षरोंसे मिलने-जुलनेके कारण दोनों शिलालेखोंका काल विश्वासके साथ द्वितीय या प्रथम शताब्दि ई० पूर्व निश्चित किया

जा सकता है। खास ऐतिहासिक चीज जो यहां अंकित करनेकी है वह अधिष्ठान्नाके प्राचीन राजाओंकी वंशावलि है। अधिष्ठान्ना किसी समय प्रतापी उत्तर पाञ्चालके राजाओंकी राजधानी थी। वंशावली इस प्रकार है:—



बहसतिमित्र कहांका राजा था और उसके पिताका नाम क्या था, यह नहीं बताया गया है। लेकिन, ए० फ्यूरर की सम्मतिमें हम उसे कौशाम्बीका राजा मान सकते हैं, क्योंकि वह (कौशाम्बी) प्रभास (पभोसा) के निकट है तथा बहुत-से उसके (बहसतिमित्रके) सिक्के कौशाम्बीमें मिले हैं।

[E], II, n° XIX, n° 2 (p. 243.)

८

मधुरा—प्राकृत।

[विना कालनिर्देशका]

१. नमो आरहतो वधमानस दण्दाये गणिका—
२. ये लेणशोभिकाये धितु शमणसाविकाये
३. नादाये गणिकाये वासये आरहता देविकुला
४. आयगसभा प्रपा शीलापटा पतिष्ठापितं निगमा—

५. ना अरहतायतने स [ह] मातरे भगिनिये धितरे पुत्रेण
६. सविन च परिजनेन अरहतपुजाये ।

अनुवाद—अर्हत वर्धमानको नमस्कार हो । श्रमणोंकी उपासिका (आशिका) गणिका नादा, गणिका दन्दाकी बेटी वासा, लेणशोभिकाने अर्हन्तोंकी पूजाके लिये व्यापरियोंके अर्हत्मन्दिरमें अपनी माँ, अपनी बहिन, अपनी पुत्री, अपने लड़केके साथ और अपने सारे परिजनोंके साथ मिलकर एक वेदी, एक पूजागृह, एक कुण्ड और पाषाणासन बनवाये ।

[I. A., XXXIII, p. 152-153.]

९

मथुरा—प्राकृत ।

(कालनिर्देश नहीं दिया है, किन्तु जे. एफ. फ्लीटके अनुसार लगभग १४-१३ ई० पूर्वका होना चाहिये)

१. [न] मो अरहतो वर्धमानस्य गोतिपुत्रस पोठयशक.

२. कालवालस

३. [भाययि] कोशिकिये शिमित्राये' अयागपटो प्रि [प्रति-
ष्ठापितो]

अनुवाद—वर्धमान अर्हन्तको नमस्कार हो । गोतिपुत्र (गौतीपुत्र) की स्त्री कौशिककुलोद्भूत शिवमित्राने एक अयागपट स्थापित किया । गोतिपुत्र पोठय और शक लोगोंके लिये काला सर्प (कालवाल) था ।

[EI, I, n° XLIV, n° 33]

१०

मथुरा—प्राकृत ।

[बिना कालनिर्देशका सम्भवतः १४-१३ ई० पूर्व]

१. मा अरहतपूजा[ये]

२. गोतीपुत्रस ईद्रपा[ल]....

अनुवाद—गौती (गौरी माता) के पुत्र इन्द्रपाल (इन्द्रपाल) के...
... बर्हन्तोकी पूजाके लिये.....प्रतिमा.....

[El, II, n° XIV, n° 9.]

११

गिरनारः—संस्कृत ।

[विक्रमसंवत् ५८]

हुमदके पवित्र स्थानके आङ्गनमें वृक्षके नीचे एक चौकोर खूबतरा है ।
उसके किनारेपर निम्नलिखित लिखा हुआ हैः—

सं० ५८ वर्षे चैत्र वदी २

मोमे धारागञ्जे

पं० नेमिचन्द्रशिष्य

पंचाणचंदमूर्ति

अनुवाद—संवत् ५८ के वर्षमें, सोमवार, चैत्र वदी २ को, धारागञ्जमें
नेमिचन्द्रके शिष्य पंचाणचंदकी मूर्ति ।

[ASI, XVI, p. 357, n° 20]

१२

मथुरा—प्राकृत ।

(विना कालनिर्देशका)

१. भदंतजयसेनस्य अतिवासिनीये

२. धामघोषायै दानो पासोदो [II]

अनुवाद—भदन्त जयसेनकी शिष्या धमघोषा (धर्मघोषा) के
दानस्वरूप यह मन्दिर है ।”

[El, II, n° XIV, n° 4]

१३

मथुरा—प्राकृत ।

भगवा नेमसो भग—

अनुवाद—“भगवान नेमस (नैगमेष); भगवान...

[El, II, n° XIV, n° 6]

१४

मथुरा—प्राकृत ।

[विना कालनिर्देशका]

१. मा अहंतानं^१ श्रमणश्राविका[ये]
- २.....लहस्तिनीये तोरणं प्रति [ष्ठापि]^१
३. सह माता पिनिहि सह

सश्रू—शशुरेण

अनुवाद—अहन्तोको नमस्कार । अपने माता-पिता और सास-ससुरके साथ साधुओंकी एक शिष्या...लहस्तिनी (बलहस्तिनी), के हुक्मसे एक तोरण खड़ा किया गया ।

[ऐसा मालूम पड़ता है कि उस समय माता-पिता और सास-ससुरके साथ कोई धार्मिक कार्य करनेसे, उनको भी पुण्यप्राप्तिमें साझीदार समझा जाता था ।]

[EI, I, XLIII, n° 17]

१५

मथुरा—प्राकृत ।

[विना कालनिर्देशका]

१. अ. नमो अरहंतानं फगुयशस
२. अ. ननकस भयाये शिवयशा—
३. अ. — — ि — — ा — — ा — — काये
१. ब. आयागपटो कारितो
२. ब. अरहतपुजाये [II]

१ 'नमो अरहंतानं' पढ़ना चाहिये । २ 'प्रतिष्ठापितं' पढ़ो । संभवतः पहली और दूसरी पंक्तिके अन्तमें और अधिक अक्षर टूटे हुए मालूम पड़ते हैं ।

शि० २

अनुवाद—अर्हन्तोको नमस्कार ! फग्गुयश (फग्गुयशस्) नर्तककी पत्नी शिवयश (शिवयशस्) के द्वारा अर्हन्तोकी पूजाके लिये एक आयागपट बनवाया गया ।

[El, II, n° XIV, n° 5]

१६

मथुरा—प्राकृत—भद्र ।

[विना कालनिर्देशका] *

नमो अरहतो महाविरस । माथुरक-लवाडम[सा]-भयाये-व.....ताये
[आयागपटो] [II]

अनुवाद—महावीर अर्हत्को नमस्कार । मथुरानिवासी-लवाड (?) की पत्नी— तांके [दानस्वरूप] यह आयागपट है ।

[El, II, n° XIV, n° 8]

१७

मथुरा—प्राकृत ।

[हुविष्ककाल ?] वर्ष ४

अ. सिद्धं म ४ मि १ दि २० वारणानो गणानो अर्य्यहाडु-
कियातो कुलतो वज्जणगरित [ो शा] --

ब. पुश्यमित्रस्य शिशिनि सथिसहाये शिशिनि सिंहमित्रस्य
सठचरि -- --

स. दानि सहा प्रहचेटेन प्रहदासेन -- --

अनुवाद—सिद्धि हो । चतुर्थ वर्षके मीष्म ऋतुकें १ ले महीनेके २० वें दिन, वारणगण, अर्य्य हाट्टकिय (आर्य्य हाट्टकीय) कुल, वज्जणगरी (वज्ज-नगरी) शाखाके -- -- पुश्यमित्रकी शिष्या, साथिसिहा (षष्ठिसिहा) की शिष्या, सिंहमित्र (सिंहमित्र) की सठचरी (श्राद्धचरी) ... ।

[El, II, n° XIV, n° 11]

१८

मथुरा—प्राकृत—भ्रम ।

[हुबिष्ककाल ?] वर्ष ५

.....स्य व ५ गृ ४ दि ५ कोट्टिया.....

त [ो] शाखात [ो] वाचकस्य अर्थ.....

अनुवाद—...के ५ वें वर्षकी ग्रीष्म ऋतुके चौथे महीनेके ५ वें दिन,
.....कोट्टिय (गण)शाखाके वाचक अर्थ.....(आर्थ)...

[EI, II, n° XIV, n° 12]

१९

मथुरा—प्राकृत ।

[कनिष्क सं० ५]

अ. १.^१ दे [व] पुत्रस्य क[नि] ष्कस्य सं ५ हे १ दि १
एतस्य पूर्व [१] यं कोट्टियातो गणातो ब्रह्मदासिका [तो]

२. [कु] ल्यतो [उ] चेनागरितो शाखातो सेधि-ह-स्य ि-
ि- ि- सेनस्य सहचरिखुडाये दे [व]—

ब. १. पालस्य धि [त].....

२. बधमानस्य प्रति[मा] ॥

अनुवाद—देवपुत्र कनिष्कके ५ वें वर्षकी हेमन्त ऋतुके १ ले महीनेके
१ ले दिन, कोट्टियगण, ब्रह्मदासिका कुल और उच्चनागरी शाखाकी खुदा
(खुदा) ने वर्षमानकी प्रतिमा समर्पित की । यह खुदा श्रेष्ठी.....
सेनकी पत्नी और देव.....पालकी पुत्री थी ।

[EI, I, XLIII, n° 1]

२०

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[?] वर्ष ५

अ. १. सिद्ध[म्] स ५ हे १ दि १० २ अस्य[ः] पूर्व[ः] ये
कोट्टि[यातो] ।

२. [ग] णातो ब्रह्मदासिकातो उच[ः] ना (क) रितो
[शाखातो]

ब. १. श्र[ः] गृहातो स[—भोगानो].....।

२.स निड(?)

स. १.ि बोधिलाभे ए वासुदेवा पुत्रि.....

२.सर्व-सत्त्व[त्वा] न[म्] ह[ः] त-सुख[ः] ये ।

अनुवाद—सिद्धि हो । वर्ष ५, हेमन्तका पहिला महिना, १२ वाँ दिन । इस दिन कोट्टिय गण, ब्रह्मदासिक (कुल), उचेनाकरी (उच्चा-नागरी) शाखा, (श्रीगृह) सम्भोग.....के.....(प्रार्थना पर).....सब जीवोंके हित और सुखके लिये.....।

[IA, XXXIII, p. 36-37, n° 5]

२१

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[?] वर्ष ५

.....तो पतिव.....ब्रह्मजाति.....स ५ हे १ दि २० अस्य

पूर्वाये कु महिलनस्य शिष्य अर्यगारिकतो

[यह शिलालेख अर्यगारिकके किसी दानका उल्लेख करता है । गरिक महिलनके शिष्य थे । यह दान सं० ५ के वर्षमें, शीतऋतुके चौथे महीनेके २० वें दिन किया गया ।]

[A Cunningham, Reports III, p. 31 n° 3]

२२

मथुरा—प्राकृत ।

[बिना कालनिर्देशका]

- अ. १. सिद्ध को[द्धि] यतो गणतो उचेन—
 २. गरितो शखतो ब्रम्हा(ह्वा)दासिअतो
 ३. कुलतो शिरिग्रिहतो संभोक्तो
 ४. अय्य जेष्टहस्तिस्य शिष्यो अ [र्यमि] [हि] लो]
- ब. १. तस्य शिष्य [ो] अर्यक्षेर
 २. [को] वाचको तस्य निर्वत—
 ३. न वर [ण] हस्ति [स्य]
- स. १. [च] देवियच धित जय—
 २. देवस्य वधु मोषिनिये
 ३. वधु कुठस्य कसुथस्य
- द. १. धम्रप [ति] ह स्थिरए
 २. दन शवदोभद्रिक
 ३. सर्वसत्वन हितसुखये

[EI, II, n° XIV, n° 37]

अनुवाद—कोट्टिय गण, उचेनगरी (उच्चनागरी) शाखा, (और) ब्रह्म-
 दासिअ (ब्रह्मदासिक) कुल, शिरिग्रह संभोगके अय्य जेष्टहस्ति (ज्येष्ठह-
 स्तिन्) के शिष्य अर्यमिहिल (आर्य मिहिर) थे; उनके शिष्य वाचक
 अर्यक्षेरक (आर्य क्षेरक ?) थे; उनके कहनेसे वरणाहस्ती और देवी,
 दोनोंकी पुत्री, जयदेवकी बहू तथा मोषिनीकी बहू, कुठ कसुथकी
 धर्मपत्नी स्थिराके दानमें, सर्व जीवोंके कल्याण और सुखके लिये, सर्वतो-
 भद्रिका प्रतिमा दी गई ।

२३

मथुरा—प्राकृत ।

[बिना कालनिर्देशका]

अ. १. सिद्धम् ॥ कोट्टियातो गणातो ब्रह्मदासिकात[ो] कुलातो

२. उ[च्चे]नागरितो शाखातो—रिनातो सं[भ]ो[गातो] अ [र्य्य]-

ब. १. ज्येष्ठहस्ति[स्य] शि[ष्यो] अर्य्यमहलो^१ अर्य्यजेष्ट[हस्तिम]

[शिशो] अर्य्य[गा]ढक [ो] [त] स्य शिशिनि [अर्य्य-]

२. शामये निर्वतना । उ[म]...प्रतिमा वर्मये घीतु [गुल्हा]
ये जयदासस्य कुटुंबिनिये दानं

अनुवाद—सफलता प्राप्त हो । अर्य्य (आर्य) ज्येष्ठहस्तिके शिष्य अर्य्य महल थे । वे कोट्टिय गण, ब्रह्मदासिक कुल, उच्चनागरी शाखा और... रिन संभोगके थे । ज्येष्ठहस्तिके एक और शिष्य आर्य्य गाढक थे । उनकी शिष्या शामाके कहनेसे गुल्हाने, जो कि वर्माकी पुत्री और जयदासकी पत्नी थी, एक ऋषभदेवकी प्रतिमा समर्पित की ।

[EI, I, XLIII, n° 14]

२४

मथुरा—प्राकृत ।

[कनिष्क सं० ७]

१. [सिद्धम् ॥] महाराजस्य राजातिरास्य देवपुत्रस्य पाहि-
कणिष्कस्य सं० ७ हे १ दि १० ५ एतस्य पूर्व्यायां अर्य्यो-
देहिकियातो२. गणान्तो अर्य्यनागभुतिकियातो कुलातो गणिस्य अर्य्यबुद्ध-
शिरिस्य शिष्यो वाचको अर्य्यस[न्धि]कस्य भगिनि अर्य्यजया
अर्य्यगोष्ठ...

अनुवाद—सफलता हो । महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र, शाहि कनिष्कके ७ वें वर्षमें, हेमन्तऋतुके पहले महीनेके १५ वें दिन (अमावस्या) (Lunar day) अर्घ्योद्देहिकीय (आर्य उद्देहिकीय) गण और अर्घ्य-नागभुतिकीय (आर्य नागभुतिकीय) कुलके गणी अर्घ्य बुद्धिशिरि (आर्य-बुद्धधी)के शिष्य वाचक अर्घ्य (सन्धि) ककी भगिनी अर्घ्य जया (आर्य जया) अर्घ्य गोष्ठ.....

[EI, 1, XLIII, n° 19]

२६

मथुरा—प्राकृत ।

[कनिष्क वर्ष ९००]

१. सिद्धं महाराजस्य कनिष्कस्य संवत्सरे नवमे.....
मासे प्रथ १ दिवसे ५ अस्य पूर्वयि कोट्टियातो गणातो
२.धव...दिस.....न बुद्.....भ जिमित.....
विकद.

[यह महत्त्वपूर्ण लेख नववें संवत्, पहले महीने (ऋतुका नाम लुस है) पाँचवें दिनका है । यह महाराज कनिष्कके राज्यकाल (ईस्वी पूर्व ४८) का है ।]

[A Cunningham, Reports, III, p. 31, n° 4.]

२६

मथुरा—प्राकृत ।

[कनिष्कका १५ वाँ वर्ष]

- अ. १.^१ सं १० ५ गृ ३ दि १ अस्या पूर्व [I] य
ब. १.^२ हिकातो^३ कुलातो अर्घ्यजयभूति....
स. १. स्य शिशीनिनं अर्घ्यसङ्गमिकये शिशीनि.....^३
द. १. अर्घ्यवसुलये [निर्वर्त्त] नं

१ 'सिद्धं' की पूर्ति करो । २ 'मेहिकातो' पढ़ो । ३ 'शिशीनिनं' पढ़ो ।

- अ. २.लस्य धी [तु].....धु' वेणि
 ब. २.श्रेष्ठि [स्य] धर्मपत्निये भट्टि[से]नस्य
 स. २. [मातु] कुमारमितयो^१ दनं भगवतो [प्र]....
 द. २. मा सव्वतोभद्रिका [॥]

अनुवाद—[सफलता हो।] १५ वें वर्षकी ग्रीष्म ऋतुके तीसरे महीनेके पहले दिन, भगवानकी एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमाको कुमारमिता (कुमार-मित्रा) ने [मेहिक] कुलके अर्यजयभूतिकी शिष्या, अर्य सङ्गमिकाकी शिष्या अर्य वसुलाके आदेशसे समर्पित की। कुमारमित्रा...लकी पुत्री, ...की बहू (बधू), श्रेष्ठी वेणीकी धर्मपत्नी और भट्टिसेनकी माँ थी।

[El, I, n° XLIII, No 2]

२७

मथुरा—प्राकृत।

[हुविष्क?] वर्ष १८

- अ. स १० ८ गृ ४ दि ३ [अस्या पु]—[य] [या] ते
 गण [तो]....
 ब. संभोगातो वच्छलियातो कुलातो गणि.....
 द. १.वामि जयस्य-तु मासिगिये [?] दानं सर्व्वत[ो]भ-
 [द्र].....

२. — [सर्वस] वा [नं] सुखाय भवतु।

अनुवाद—वर्ष १८ ग्रीष्मऋतुका ४ था महीना, तीसरे दिनके अवसर पर, [कोट्टि] य गण, ...संभोग, वच्छलिय (वात्सलीय) कुलके गणि... के आदेशसे जयकी (माता) मासिगिका दान एक सर्वतोभद्र [प्रतिमा] के रूपमें किया गया।

[El, II, n° XIV, n° 13]

१ 'बधु' पढ़ो। २ इसे 'कुमारमितये' पढ़ना चाहिये।

२८

मथुरा—प्राकृत-भग्न ।

[हुबिष्क ?] वर्ष १८

अ.ष १० [८] व २ दि. १० १

ब. धितु मि [तशि] रिये भगवती अरिष्टणेमिस्य [वेवर्त] ?

अनुवाद—वर्ष १८, वर्षाऋतुका २ रा महीना, ११ वां दिन, इस दिन...की पुत्री मितशिरि (? मित्रात्री) के दानके रूपमें भगवान अरिष्टणेमि (अरिष्टनेमि) की...[की प्रतिष्ठा].....

[El, II, XIV, n° 14]

२९

मथुरा—प्राकृत ।

[कनिष्क सं. १९]

अ. १. मिद्रम् । सं १० ९ व ४ दि १० अस्यां पु....

२. व्वायं वाचकस्य अर्प्यबल....

३. दिनस्य शिष्यो [वाच] को अर्प्यमा....

४. दृदिनः तस्य [नि] वर्त्त [न]।

ब. १. [कोद्वियातो गणातो ठानियातो

२. [कुलातो श्रीगृहातो संभोगातो]

३. [अर्प्यवेरिशाखातो सु] चि....

स. [ल] स्य धर्म्यपत्निये ले....

द. दानं भगवतो स [न्ति] [प्र] तिस्रा

अ. ५. नाश.....तनं

ब. ४. [न] मो अरत्ततानं सर्व्वलोकुत्त [मार्न]

अनुवाद—सिद्धि हो । १९ वें वर्षकी वर्षाक्रतुके चौथे महीनेमें, वाचक अर्य्य बलदिन (बलदत्त) के शिष्य वाचक अर्य्य मातृदिनके आदेशसे भगवान शान्तिनाथकी प्रतिमा ले.....की तरफसे अर्पित की गई । यह अर्पण करनेवाली स्त्री सुखिल (शुखिल) की धर्मपत्नी थी और वह कोट्टिय गण, ठानीय कुल, श्रीगृह सम्भोग तथा अर्य्य बेरि (आर्य्य-वज्र) शाखाकी थी । सर्व लोकोमें उत्तम ऐसे अर्हतोंको नमस्कार हो ।

[El, 1, n° XLIII, n° 3]

३०

मथुरा—प्राकृत ।

[कनिष्क वर्ष २०]

अ १. सिद्ध स [२०] गृमा--दि १० ५ कोट्टियातो गणतो
[ठ] णियातो कुलतो बेरितो शखतो शिरिकानो

ब १. [संभो] गानो वाचकस्य अर्य्यसघसिहस्य निर्व्वर्त्तना दाति-
लस्य.....मति-

२. लस्य कुठुविणिये जयवालस्य देवदासस्य नागादिनस्य च
नागादिनय च मातु

स. १. श्राविकाये दि-

२. [ना] ये दानं ॥

३. वर्द्धमानप्र-

४. तिम् ।

अनुवाद—सिद्धि हो । २० वें वर्षकी ग्रीष्मक्रतुके १ ले महीनेके १५ वें दिन, कोट्टियगण, ठानीय कुल, बेरि (वज्री) शाखा और शिरिक सम्भोगके वाचक अर्य्य सघसिह (आर्य्य सङ्घासिंह) के आदेशसे श्राविका दीना (दिन्ना) की तरफसे वर्द्धमानकी प्रतिमा [अर्पित की गई] । यह

दिखा दातिल [की पुत्री], मातिलकी पत्नी और जयपाल, देवदास, नागदिन (नागदत्त) तथा नागदिना (नागदत्ता) की माँ थी ।

[EI, I, n° XLIV, n° 28]

३१

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[हुबिष्क सं० २०]

अ. १. [सिद्धं सं २० गृ ३] दि [१०] ७ [एत]स्य पूर्वार्थ्य कोट्टिय[र] तो गणानो ब्रह्मदासियातो कुलानो उच्चे [नागरितो शा] खातो [श्री] गृह [र] तो संभोगानो [बृहंतव]चक च गणिन च ज [-मित्र] स्य.....^१

२. अर्थ्य [ओ] घस्य शिष्यगणिस्य [अ] र्थ्यपालस्य श्र [द्दच] रो [वाच]कस्य अर्थ्य[दत्त]स्य शिष्यो वाचको अर्थ्य-सीहा [त]स्य निव्वत्तणा [खो] दमि [त्त]स्य मानिकरस्य [गी]-जयभ[ट्टि] धीतु दास्य—

ब. १. [लो] हवाणियस्स वाधर.....वधू [ह] ग्गु [देव]स्य धर्मपत्निये मित्राये [दानं]..... [सर्व्व] स [त्वानं] हि [तसु]खाये काक [तेय].....क्ष-

२.—वाज.....ि.....ो.....रज..... ।

अनुवाद—सिद्धि हो । हुबिष्कके २० वें वर्षकी ग्रीष्मऋतुके तीसरे महीनेके १७ वें दिन, वाचक अर्थ्य सीह (सिंह)—जो वाचक दत्तके शिष्य थे, और जो कोट्टियगण, ब्रह्मदासीय कुल, उच्चनागरी शाखा तथा श्रीगृह

संभोगके ये—की आज्ञासे सब सस्वोंके सुख और कल्याणके लिये, मित्रा-की तरफसे...समर्पित की गईं । यह मित्रा हगु देव (फग्गुदेव) की धर्मपत्नी, लोहेका व्यापार करनेवाले वाधरकी बहू खोट्टमित्रके मानिकर...जयभट्टिकी पुत्री.....। अर्य्यदत्त गणी अर्य्यपालके श्राद्धचर थे । अर्य्यपाल अर्य्य ओघके शिष्य थे और अर्य्य ओघ महावाचक गणी जय-मित्रके शिष्य थे ।

[El, 1, n° XLIII, n° 4]

३२

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[बिना कालनिर्देशका है, पूर्ववर्ती शिलालेखसे ही मिलता-जुलता होनेसे इसका भी समय हुबिष्क सं. २० है]

वाचकस्य दत्तशिष्यस्य सीहस्य नि.....

[El, 1, p. 383, n° 60]

३३

मथुरा—प्राकृत ।

[हुबिष्क सं. २२]

१. सिद्ध सत्र २०.....२ प्रि १ दि स्य पुर्वायं वाचकस्य अर्य्य-मात्रिदिनस्य णि.....

२. सत्तवाट्टिनिये धम्मसोमाये दानं ॥ नमो अरहंतान

अनुवाद—सिद्धि प्राप्त हो । [हुबिष्कके] २२ वें वर्षकी ग्रीष्मके पहले महीनेके ..दिन, वाचक अर्य्य-मात्रिदिन (अर्य्य-मातृदत्त) के आदेशसे यह धम्मसोमाका दान है । धम्मसोमा एक साधैवाहकी स्त्री थी । अर्हन्तोंको नमस्कार हो ।

[El, 1, n° XLIV, n° 29]

३४

मथुरा—प्राकृत ।

[हुबिष्क सं. २२]-

[सि] द्वं सं २० (९) [२] मि २ दि ७ वर्धमानस्य प्रतिमा वारणातो गणातो पेटिवामि[क]...

अनुवाद—सिद्धि प्राप्त हो । २२ वें वर्षकी ग्रीष्मके दूसरे महीनेके ७ वें दिन, वारणा गण, पेटिवामिक [कुल] की तरफसे वर्धमानकी प्रतिमा [प्रतिष्ठापित की गई] ।

[El, 1, n° XLIII, n° 20]

३५

मथुरा—प्राकृत ।

[हुबिष्क वर्ष २५]

अ. १. सवत्सरे पचविशे हेमंतम [से] त्रितिये दिवसे वीशे अस्मि क्षुणे

व. १. कोट्टियतो गणतो ब्र[ह्म]दासिकतो कुलतो उचेनागरितो शाखातो अयबलव्रतस्य शिपो सधि

२. 'स्य शिपिनि ग्रहा --- --- --- वतन [ना] दिअ [रि] त जभ[क] स्य वधु जयभट्टस्य कुट्टविनीय रयगिनिये [तु] सुय [॥]

अनुवाद—२५ वें वर्षकी शीतऋतुके तीसरे महीनेके १२ वें दिनके समय रयगिनिने जो नान्दिगिरि (?) के जभककी बहू थी, एक बुसुय^१ ग्रहा --- की आज्ञासे समर्पित की । रयगिनि जयभट्टकी पत्नी थी । ग्रहा --- सधिकी शिष्या थी । सधि अर्घ्य बलव्रत (बलव्रात) के शिष्य थे । यह बलव्रात कोट्टिय गण, ब्रह्मदासिक कुल (और) उच्चनागरी शाखाके थे ।

[El, 1, XLIII, n° 5]

१ यह एक प्रकारकी या तो प्रतिमा है या कोई दान है ।

३६

मथुरा—प्राकृत ।

[विना कालनिर्देशका, संभवतः ऋषिष्कके २५ वें वर्षका]

१. उचेनगरितो शखतो अर्य्यबलत्रतस्य शिमिणि अर्य्यब्रह्म --
 २. अर्य्यबलत्रतस्य शिष्यो अर्य्यसन्धिस्य परिग्रहे नवहस्तिस्य
 धिता ग्रहसेनस्य वधु
 ३. गिवसेनस्य देवसेनस्य शिवदेवस्य च भ्रात्रिनं मातु जायये
 प्रतीमा प्र.....

४. [मा] नस्य सर्व्वसत्वानं हिनसुखय ॥

अनुवाद—अर्य्य ब्रह्म (आर्य्य ब्रह्म) [और] अर्य्य बलत्रत (आर्य्य बल-
 त्रात) के शिष्य अर्य्य सन्धि (आर्य्य सन्धि) के ग्रहणके लिये उचेनगरि
 (इच्छनागरी) शाखाके अर्य्य बलत्रत (आर्य्य बलत्रात) की शिष्या, जयाने
 सब जीवोंके कल्याण और सुखके लिये वर्धमानकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की ।
 यह जया नवहस्तीकी पुत्री, ग्रहसेनकी बहू तथा शिवसेन, देवसेन
 और शिवदेव इन तीन भाइयोंकी माँ थी ।

[EI, II, n° XIV, n° 34]

३७

मथुरा—प्राकृत ।

[ऋषिष्क वर्ष २९]

अ. महाराज.....ष्कस सं. २० ९ हे २ दि ३० अम क्षुणे
 भगवतो वर्धमानस प्रति [मा] प्रतिष्ठापिता ग्रहह[थ]स्य धितर
 सुखिताये बोधिनदि [ये]

ब. कुटुंबिनिये वारणे गणे पुश्यमित्रीये कुले गणिस अर्थ [दत्तस्य
 शिष्यस्य] गह [प्र] कि [व] स निर्वर्त [ना] अर[हं] तपुजाये ।

अनुवाद—महाराज...क के २९ वें वर्षकी शीतऋतुके दूसरे महीनेके तीसवें दिन, एक विवाहिता बोधिनदि (बोधिनन्दि ?) की आज्ञासे भगवान वर्षमानकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की गई । बोधिनदि ग्रहहस्त्रि (ग्रहहस्त्री) की प्यारी लड़की थी । यह प्रतिष्ठा ग्रहप्रक्वि (?) की प्रेरणासे हुई । यह ग्रहप्रक्वि आर्य दत्तके जो वारण गण और पुण्यमित्रीय (पुण्यमित्रीय) कुलके थे, शिष्य थे ।

[El, I, n° XLIII, n° 6]

३८

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[संभवतः हुविष्क वर्ष २९]

अ. १. एकुनती [श] व. १. अ [र] [ह] तो सं. १.....

२. वा— — २. [ह] खल २ प्रतिस— —

द. १. श्व मर- स्य देव [पु] त्रस्य [हु] क्षस्य

२. [वा] सि [क] नगदत्तस्य शिषो मि [ग क] ो स— —

[इस खण्ड-लेखका ठीक ठीक अनुवाद नहीं दिया जा सकता । इतना निश्चित है कि द. १. २. पंक्तियाँ हमें महाराज देवपुत्र हुक्ष (हुष्क या हुविष्क) और एक भिक्षु नगदत्त (नागदत्त) का नाम बताती हैं । यह भी हो सकता है कि यह लेख द. १ से शुरू हुआ हो, क्योंकि उस पंक्तिमें 'स्व', 'सिद्ध' का स्थानीय मालूम पड़ता है, तथा उसमें राजाका भी नाम है । इसकी धारा अ. १ हो सकती है । २९ वां वर्ष हुविष्कके राज्यमें आयेगा ।

[El, II, n° XIV, n° 26]

३९

मथुरा—संस्कृत—भग्न ।

[काल लुप्त-संभवतः हुविष्कका २९ वां वर्ष]

..... [व] पुत्रस्य हुविष्कस्य स^१

१ 'देवपुत्रस्य' और 'संवत्सरे' पढ़ो ।

अनुवाद—... देवपुरा हुबिष्कके वर्षमें ...

[El 11, n° XIV n° 25]

४०

मथुरा—प्राकृत ।

[वर्ष ३१ हुबिष्ककाल]

अ-स ३० १ व १ दि १० अस्म क्षुणे

व. १.यातो गणतो [अ]र्य्य वेरितो शाखतो [ठा]णियातो
कुल्यातो वह [तो] । कुटुम्बिणिये [ग्र] ह

२. [अर्य्य]—दासस्य निवर्तना बुद्धिस्य धितु देविलस्य
शिरिये दाणं ।

[ऊपरके शिलालेखका ठीक क्रम, जी. बृहद्रकी सम्प्रतिमें, इस तरह है:—]

[कोट्टि] यातो गण [तो] अर्य्यवेरितो शाखतो [ठा] णियातो
कुल्यातो वह [तो] (?) [गणिस्य] अर्य्य [गो] दासस्य निवर्तना
बुद्धिस्य धितु देविलस्य कुटुम्बिणिये ग्रहशिरिये दाणं ॥

अनुवाद—३१ वें वर्षकी वर्षाऋतुके पहले महीनेके १० वें दिन,
बुद्धिकी पुत्री (तथा) देविलकी पत्नी गृहशिरि (गृहश्री) ने, कोट्टिय
गण, अर्य्य वेरि (आर्य्य वज्री) शाखा, ठाणिय (स्थानीय) कुलके
[गणी] आर्य्य गोदासके आदेशसे दान किया ।

[El, II, n° XIV, n° 15]

४१

मथुरा—प्राकृत ।

[ढुविष्क काल] वर्ष ३२

अ. १. मिद्रम् । सत्र [त्स] रे ३० २ हेमन्तमासे ४ दिवसे २ वारणातो गणा...यातो [कु] ० !^१

२.

व. १. --णि अर्यनन्दिकस्य निर्व्वर्त्तना जितामित्रय[रितु] नन्दिस्य वीतु बुद्धिस्य कुटुम्बिनिये प्रा—^२

तारिकस्य--ना ि --प्य मातु गन्धिकस्य अरहन्तप्रतिमा सर्व्व-
तोभद्रिका ।

अनुवाद—सिद्धि हो । ३२ वें वर्षकी शीतऋतुके चौथे महीनेके दूसरे दिन, रितुनन्दि (ऋतुनन्दि) की पुत्री, बुद्धिकी पत्नी तथा गंधिककी माँ ...जितामित्राने, वारण गण...य कुल...अर्य-नन्दिक (आर्यनन्दिक) के आदेशसे एक अर्हन्तकी सर्व्वतोभद्रिका प्रतिमाकी प्रतिष्ठापना की ।

[EJ, II, n° XIV, n° 16]

४२

मथुरा—प्राकृत ।

[ढुविष्क वर्ष ३५]

अ. १. [मिद्रं] । सं ३० [५] व ३ दि १० अस्य [ि] पूर्व्वायां कोट्टियातो गणतो [स्थानि] या [तो] कु—

व. १. वडरातो श [ि] ख [ि] तो शिरिकातो सं[भो]कातो अर्य्य-
बलदिनस्य शिशिनि कुमारमि[त]

१ संभवतः 'गणातो हट्टियातो' पदो । २ संभवतः 'प्रातारिकस्य' पढ़ना चाहिये ।

शि० ३

२. तस्य पुत्रो कुम[र]भटि गंधिको तस[...नं प्रतिमा वर्षमा-
नस्य सशितमणित [बो] धित

स. १. अ [र्ध]

२. कुमार-

३. मित्रा-

४. ये-

द. १. व्व

२. [त] न [II]

सारांश—आर्य बलदिन (बलदत्त) की शिष्या कुमरमित्रा (कुमार-
मित्रा) थी। वह कोट्टिय गण, स्थानीय कुल, वइरा शाखा (तथा)
क्षिरिक संभोक (संभोग) की थी। उसका पुत्र कुमारभटि गन्धिक (तेल,
इत्रका व्यापार करनेवाला) था। उसने नीक्षण, उज्ज्वल, प्रबुद्ध कुमार-
मित्राके आदेशसे वर्षमानकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की।

[El, I, n° XLIII, n° 7]

४३

मथुरा—प्राकृत।

[हुविष्क संवत् ३९—हस्तिस्तम्भ]

१. महाराजस्य देवपुत्रस्य हुविष्कस्य सं० ३९,
२. हे ३ दि० ११ एतय पुर्व्वये नन्दि विशाल
३. प्रतिष्ठपितो सिवदास श्रेष्ठिपुत्रेण श्रेष्ठिना
४. अय्येन रुद्रदासेन अरहंतनं पुजाये

अनुवाद—देवपुत्र महाराज हुविष्कके राज्यमें, सं० ३९ की शीतऋतुके
नीसरे महीनेके ११ वें दिन, यह विशाल नन्दी शिवदास श्रेष्ठीके पुत्र आर्य
श्रेष्ठी रुद्रदासने अर्हन्तोंकी पूजाके लिये बनवाया (१८ ई० पूर्व)।

[A Cunningham, Reports, III, p. 32-33, n° 9.]

४४

मथुरा—प्राकृत ।

[ह्रस्विक वर्ष ४०]

अ. १.—४०—हे—दि १०

ब. १. ए [त] स्य पू [र्वा] य चरणतो ग [ण]-

स. १. तो आर्य्य हटिक्रियतो कुलतो

द. १. वजनगरित[ो] श [ा] ख [ा] त [ो] शि [रि] यत [ो]

अ. २. -- [ग] तो [द] तिस्य शिशिनिये

ब. २. महन [न्दि] स्य सदचरिये

म. २. बल [वर्म] ये [नन्द] ये च शिशिनिये

द. २. अ [कक] ये [निर्व्वर्त्तना].....

अ. ३.—[स्य] धीतु प्रमि [क] जयदेवस्य वधूये

ब. ३. ...मिको जयनागस्य धर्मपत्निये सिंहदत्ता [ये]

स. ३. ...[लथंभ]ो' दनं =....

अनुवाद—[सिद्धि हो ।] ४० वें [वर्षमें] शीत ऋतुके.....महीनेके दसवें दिन, सिंहदत्ता (सिंहदत्ता) ने एक पाषाण-स्तम्भकी स्थापना की । यह सिंहदत्ता ग्रामिक जयनागकी धर्मपत्नी, जयदेव ग्रामिक (गौवका मुखिया) की बहू (तथा)की पुत्री थी । इस पाषाणस्तम्भकी स्थापना वारण गण, आर्य्य-हाटीकीय कुल, वज्रनागरी शाखा तथा शिरिय संभोगकी अकका (?) के आदेशसे हुई थी । यह अकका नन्दा और बलवर्माकी शिष्या, महनन्दि (महानन्दि) की श्राद्धचरी तथा दत्ति (दत्ती) की शिष्या थी ।

[El, I, n° XLIII, n° 1]

४५

मथुरा—प्राकृत—भग्न

[हुविष्क वर्ष ४४]

अ. सू-नमशर [स] तममहरजस्य हुविक्षस्य सव [त्स] रे ४० ४
हनगृ [स्य] मस ३ दिविस २ ण [त]-

व. [स्यां] पूर्वय [ि] ... गणे अर्यचेटिये कुले हरीतमालकटिय [श]
ग्ववाचक [स्य] हगिनंदिअ शिसो ग ... नागसेणस्य ति ...

अनुवाद—स्वस्ति । नमः । प्रतापी (?) महाराज हुविष्ककं ४४ वें
वर्षकी ग्रीष्म ऋतुके तीसरे महीनेके द्वितीय दिवस, [वारण] गण, अर्य्य
चेटिय (आर्य-चेटिक) कुल, हरीतमालकटि (हरीतमालगढी) शाखाके
वाचक हगिनंदि (भगनन्दि ?) के शिष्य आर्य्य नागसेनके आदेशसे—

[EI, I, n° XLIII, n° 9]

४६

मथुरा—प्राकृत—भग्न

[हुविष्क वर्ष ४५]

१. मिद्धम् सं ४० ५ व [३] दि १० [७] एतस्य पूर्व[]य-
..... ये बुद्धिस्य वधुये धम्मवृद्धिस्य—

अनुवाद—सिद्धि हो । ४५ वें वर्षकी वर्षाऋतुके तीसरे (?) (महीने)
के १७ वें दिन, धम्मवृद्धिकी बुद्धिकी बहूने.....

[EI, I, n° XLIII, n° 10]

४७

मथुरा—प्राकृत ।

[हुविष्क वर्ष ४७]

१. स ४० ७ गृ २ दि २० एतस्य पूर्वये वरणे गणे पेतियमि-
के कुले वाचकस्य ओहनदिस्य शिसस्य सेनस्य निवतना सवकस्य

२. पुषस्य वधुये गिह... [कुटिविनि] ... [पुष] दिन [स्य]
[मातु] ... य

अनुवाद—४७ वें वर्ष की ग्रीष्मऋतुके २ रे महीनेके २० वें दिन, वरण (वारण) गण, पेटिवभिक् (प्रैतिवभिक्) कुलके वाचक और ओहनदि (ओघनन्दि) के शिष्य सेनकी प्रार्थनापर पुष (पुष्य) श्रावककी बहू, गिहकी गृहिणी, पुषदिन (पुष्यदत्त) की माँ, ... की तरफसे [यह समर्पित किया गया] ।

[EI, I, n° XLIV, n° 30]

४८

मथुरा—प्राकृत—मग्न ।

[काल लुप्त, संभवतः वर्ष ४७]

१. भिद्धम् । महाराजस्य राजातिराजस्य ...

२. ओहनन्दिस् शिष्येण से... न... ि—^१

अनुवाद—सिद्धि हो । महाराज, राजातिराज ... ओहनन्दि (ओघ-
नन्दि) के शिष्य सेनने ...

[EI, II, n. XIV, n° 27]

४९

मथुरा—संस्कृत ।

[ह्रस्विक वर्ष ४७]

दानं देविलस्य दधिकर्णदेविकुलकस्य सं ४० ७ ग० ४ दिवसे २९
अनुवाद—४७ वें वर्षकी ग्रीष्मऋतुके चौथे महीनेके २९ वें दिन, दधिकर्ण मन्दिर (या चैत्यालय) के पुजारी (या माली) देविलका दान ।

[IA, XXXIII, p. 102-103, n° 13]

५०

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[हुविष्क वर्ष ४८]

१. महाराजस्य हुविष्कस्य स ४० ८ हे ४ दि ५

२. ब्रह्मदासिये कुल [] उ [च] १ नागरिय शाखाया धर.....

अनुवाद—महाराज हुविष्कके राज्यमें, ४८ वें वर्षकी शीतऋतुके चौथे महीनेके ५ वें दिन, ब्रह्मदासिक कुल, उच्चनगिरी शाखाके धर

[1A, XXXIII, p. 103, n° 14]

५१

मथुरा—प्राकृत ।

[हुविष्ककाल वर्ष ५०]

१. पण ५० हेमंतमासे प.....

२. आर्य्यचेरस्य

३. ये युधदिनस्य

४. धित

५. पूषबुधिस्य.....

[इस खण्ड-शिलालेखका पूरा अनुवाद संभव नहीं है । काल ५० वाँ वर्ष और शीतऋतुका पहला या पाँचवाँ महीना है ।]

[EI, II, n° XIV, n° 17]

५२

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[हुविष्कका ५० वां वर्ष]

१. — — ५० (?) हे २ दि १ अस्य पुर्व्वय वरणतो गणतो
अय्यभिस्त कुलतो [स] —

२. खतो शिरिग्रहतो सभोगतो ब्रह्मवो वचक च गणिनो च
समदि [अ].....

३.वस्य दिनरस्य शिशिनि अय्य जिनदसि पणति-धरितय शिशिनि अ.....

४. घकरबपणतिहरमसोपवसिनि बुबुस्य धित रज्यवसुस्यधर्म...^१

५. [द] विलस्य मत्तु विष्णु[भ] वस्य पिदमहिक विजय-शिरिये दन वध.....^१

६.

अनुवाद—५० वां वर्ष, शीतऋतुका दूसरा महीना, पहला दिन, इस दिन, वरण (वारण) गण, अय्यभिस्त (?) कुल, सं [कासिया] शाखा, शिरिग्रह (श्रीगृह) संभोगके महावाचक तथा गणि समदि...व दिनर की क्षिप्या अय्य-जिनदसि (आयं जिनदासी) की आज्ञाको माननेवाली... अय्य घकरब (?) की आज्ञाको धारण करनेवाली विजयशिरि [विजयश्रीने] दानमें वध [मान] अर्थात् वर्धमान की प्रतिमा..... । यह विजयश्री बुबुकी पुत्री, रज्यवसु (राज्यवसु) की धर्मपत्नी, देविलकी माँ (और) विष्णुभवकी नानी थी और इसने एक महीनेका उपवास किया था ।

[El. II, n° XIV, n° 36]

५३

रामनगर—प्राकृत ।

[काल ? वर्ष ५०]

वर्ष	राजा	स्थान	कहाँ	विशेषता
५०	—	रामनगर (अहिच्छत्र)	A S N-W-P-O, Annual report 1891-1892, p. 3	दूसरा महीना, शीतऋतु, पहला दिन; ब्राह्मी लिपि

[JRAS, 1903, p. 7-14, n° 40]

१ 'धर्मपत्नी' पढ़ो । २ 'वधमान प्रतिमा' या शायद 'प्रतिमा' ।

५४

मथुरा—प्राकृत ।

[हुविष्क वर्ष ५२]

१. सिद्ध संवत्सर द्वापना ५० २ हेनन्त [मा] स प्रथ-दिवस
पंचवीश २० ५ अस्म क्षुणे क[ी]ड्रिया तो गणात[ी]

२. वेरातो शखतो स्थानिकियातो कुलात[ी] श्रीगृहतो संभो-
गातो वाचकस्यार्यघस्तुहस्तिस्य

३. शिष्यो गणिस्यार्यमंगुहस्तिस्य पटचरो वाचको अर्यदिवि-
तस्य निर्व्वर्तना शूरस्य श्रम-

४. णकपुत्रस्य गोट्टिकस्य लोहिकाकारकस्य दानं सर्व्वमन्वानं
हितमुग्वायास्तु ।

अनुवाद—सिद्धि हो । ५२ वें वर्षके शीतऋतुकके पहले महीनेके २५
वें दिन, कोट्टिय गण, वेरा (वज्रा) शाखा, स्थानिकिय कुल (तथा)
श्रीगृह संभोगके वाचक आर्य घस्तुहस्तिके शिष्य और गणी आर्य मङ्गुहस्ति-
के श्राद्धचर ऐसे वाचक अर्यदिवितके आदेशसे श्रमणकके पुत्र, शूर लुहार
गोट्टिकने दान दिया ।

[Bl. II, n° XIV, n° 18]

५५

मथुरा—प्राकृत ।

[हुविष्क वर्ष ५४]

१.—धम् । मव ५० ४ हेमंतमासे चतुर्थे ४ दिवसे १० अ-

२. स्य पुर्वायां कोड्रियातो [ग] णातो स्थानि [य]तो कुलातो

३. वैरातो शाखातो श्रीगृह [र] तो संभोगातो वाचकस्यार्य-

४. [ह] स्तहस्तिस्य शिष्यो गणिस्य अर्यमाघहस्तिस्य श्रद्धचरो

वाचकस्य अ-

५. र्यदेवस्य निर्व्वर्त्तने गोवस्य सीहपुत्रस्य लोहिककारुकस्य दानं
६. सर्व्वसत्त्वानां हितसुखा एकसरस्वती प्रतीष्ठाविता अवतले
रङ्गान[र्त्तन] १

७. मे [॥]

अनुवाद—सिद्धि हो । ५४ वें वर्षकी शीतऋतुके चौथे महीनेके (शुक्ल-
पक्षके) १० वें दिन, वाचक आर्यदेवकी प्रेरणासे सीहके पुत्र गोव लुहारके
दानरूपमें एक सरस्वतीकी (प्रतिमा) प्रतिष्ठापित की गई । आर्य देव
कोट्टियगण, स्थानिय कुल, वैरा शाखा तथा श्रीगृहसंभोगके वाचक आर्य
हस्तहस्तिके शिष्य गणि आर्य माघहस्तिके श्राद्धचर थे । अवतलमें मेरा
रङ्गशालीय नृत्य (?) ।

[B, 1, n° XLIII, n° 21]

५६

मथुरा—प्राकृत ।

[हुविष्क वर्ष ६०]

अ. सिद्धम् । म [हा] रा [ज] स्य र [जा] तिराजस्य देवपुत्रस्य
हुवष्कस्य सं ४० (६० ?) हेमन्तमासे ४ दि० १० एतस्यां पूर्व्वर्वायां
कोट्टिये गणे स्थानिकीये कुले अग्य [बेरि] याण शाखाया वाच-
कस्यार्यवृद्धहस्ति [स्य]

व. शिष्यस्य गणिस्य आर्यस्व [ण्ण] स्य पुय्यम [न] [स्य]
... [व] तक्कस्य [क]—सक्कस्य कुटुम्बिनीये दत्ताये—नधम्मो महा-
भोगताय प्रीयताम्भगवानृपभश्रीः ।

अनुवाद—सिद्धि हो । महाराज, राजानिराज, देवपुत्र हुविष्कके ६० वें
वर्षकी शीतऋतुके चौथे महीनेके १० वें दिन, कोट्टियगण, स्थानिकीय
कुल (तथा) अर्य बेरियों (आर्य-वज्रके अनुयायियों) की शाखाके वाचक
आर्य वृद्धहस्तिके शिष्य, गणि आर्य स्वर्णके आदेशसे...वतके निवासी

१ 'दानधर्मो' पढ़ो ।

पसककी पत्नी दत्ताने महाभोगता (महासुख)के लिये यह दानधर्म किया । भगवान् ऋषभदेव प्रसन्न होवें ।

[EI, I, n° XLIII, n° 8]

५७

मथुरा—प्राकृत ।

[इ० संवत् ६२]

वाचकस्य अर्य-ककसघस्तस्य शिष्या आतपिको ग्रहबलस्य निर्वर्तन.....

अनुवाद—वाचक आर्य ककसघस्त (कर्कशघर्षित)के शिष्य आतपिक ग्रहबलके आदेशसे ।

इस शिलालेखसे मालूम पड़ता है कि किसी मुनिके आदेशसे जैन श्राविका वैहिकाने एक प्रतिमाका दान किया ।

[1A, XXXIII, p. 105-106, n° 19]

५८

मथुरा—प्राकृत ।

[इ० वर्ष ६२]

१. सिद्ध । स ६० २ व २ दि ५ एतस्य पुत्र्य वाचकस्य आयकर्कुहस्य [स]

२. वारणगणियस शिषो ग्रहबलो आतपिको तस निर्वर्तना ।

अनुवाद—सिद्धि हो । वर्ष ६२, वर्षाऋतुका २ रा महीना, दिन ५, इस दिन, वारणगणके वाचक आय-कर्कुहस्य (आर्य कर्कशघर्षित) के शिष्य आतपिक ग्रहबल थे । उनकी प्रेरणासे.....

[EI, II, n° XIV, n° 19]

५९

मथुरा—प्राकृत ।

[] वर्ष ७९

अ. १. सं. ७० ९-वर्ष ४ दि २० एतस्यां पुत्र्याय कोट्टिये गणे चइरायां शाखायां.....

२. को अयवृधहस्ति अरहतो णन्दि [आ] व्रतस प्रतिमं निर्वर्तयति ।
ब. भार्ग्ये श्राविकाये [दिनाये] दानं प्रतिमा वोद्वे थुपे
देवनिर्मिते प्र.....'

अनुवाद—वर्ष ७९, वर्षाऋतुका चौथा महीना, २० वां दिन, इस दिन, कोट्टियगण (तथा) वहरा (वज्रा) शाखा के वाचक अय-वृधहस्ति (आर्य वृद्धहस्ति) ने दीना [दत्ता] श्राविकाको, जो.....की भार्या थी, एक अर्हत णन्दिभावर्त्त (नन्द्यावर्त्त)' की प्रतिमाके निर्माणके लिए कहा । दीनाकी यह प्रतिमा देवनिर्मित वोद्वे स्तूपपर प्रतिष्ठित हुई ।

[El, II, n° XIV, n° 20]

६०

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[हुबिष्क वर्ष ८०]

१. [सिध] महरजस्य मं ८० हण व १ दि १२ एतस
पूर्वायां.....

२. धितु संघनधि [स्य] वधुये बलस्य.....

अनुवाद—[स्वस्ति ।] महाराज वासुदेवके ८० वें वर्षमें, वर्षाऋतुके १ ले महीनेके १२ वें दिन,की पुत्री, संघनधि (?) की बहू, बलकी (अपूर्ण) ।

[El, n° XLIII, n° 24]

६१

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[] वर्ष ८१

१. स ८० १ व १ दि ६ एतस्य पुत्राय [अ] यिकाजीवाये अंते-

२. वासिकिनिये दत्ताये निवतना । [ग्र] हशिरिये....

१ 'प्रतिष्ठापिता' । २ नन्द्यावर्त्त जिसका चिह्न है ऐसे १८ वें तीर्थङ्कर अर्हनाथ भगवान्की प्रतिमा ।

अनुवाद—वर्ष ८१, वर्षाऋतुका १ ला महीना, ६ ठा दिन, इस दिन, अधिका-जीवा (आर्यिकाजीवा) की शिष्या दत्ताकी प्रार्थनापर ग्रहशिरि (ग्रहश्री) ... ।

[EI, II, n° XIV, n° 21]

६२

मथुरा—प्राकृत ।

[वासुदेव] वर्ष ८३

१. सिद्धं महाराजस्य वासुदेवस्य सं ८० ३ गृ २ दि १० ६ एतस्य पूर्वये सेनस्य

२. [धि] तु दत्तस्य वधुये व्य...च...स्य गन्धिकस्य कुटुम्बिनिये जिनदासिय प्रतिमा थ [मंद]ाने

अनुवाद—सिद्धि हो । महाराज वासुदेवके राज्यमें ८३ वें वर्षकी प्रीष्मऋतुके दूसरे महीनेके १६ वें दिन, सेनकी पुत्री, दत्तकी बहू, गन्धिक (तेल, इत्र बेचनेवाले) व्य-च...की पत्नी जिनदासीके पवित्रदानमें एक प्रतिमा ... ।

[IA, XXXIII, p. 107, n° 21]

६३

मथुरा—प्राकृत ।

[हुत्रिष्क वर्ष ८६]

१. सं ८० ६ हे १ दि १० २ दसस्य धितु पृथस्य कुटुम्बिनिये

२. ... [क] तो कुलतो अयस [ङ्ग] मि [क] य शिशिनिये अयवसुल [ये] नि [व] तने [II]

अनुवाद—८६ वें वर्षकी शीतऋतुके पहले महीनेके १२वें दिन, दस (दास) की पुत्री, पृथ (प्रिय) की पत्नी ... का दान अर्पित किया गया । यह दान [मेहि] क कुलकी अर्थ सङ्गमिकाकी शिष्या अर्थ वसुलाक कहनेसे हुआ ।

[EI, I, n° XLIII, n° 12]

६४

मथुरा—प्राकृत ।

[हुषिष्क वर्ष ८७]

[सं ८० ७ ?] गृ १ दि [२० ?] अ [स्मि] क्षुणे उच्चेनागर-
स्यार्यकुमारनन्दिशिष्यस्य मित्रस्य.....

अनुवाद—८७ (?) वें वर्षमें ग्रीष्मऋतुके १ ले महीनेके २० (?)
वें दिन, उच्चनागरके, कुमारनन्दीके शिष्य, मित्रके.....

[El, I, n° XLIII, n° 13]

६५

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[वासुदेव] वर्ष ८७

१. सिद्ध । महाराजस्य राजातिराजस्य शाहिर-वासुदेवस्य

२. सं ८० ७ हे २ दि ३० एतस्या पुत्र्या.....

अनुवाद—सिद्धि हो । महाराज राजातिराज शाहि वासुदेवके ८७ वें
वर्षकी शीतऋतुके २ रे महीनेके तीसवें दिन,

[1A, XXXIII, p. 108, n° 22]

६६

मथुरा—प्राकृत—भग्न

[सं० ९०]

१. सत्र [९० व] टुव्रनिण दिनस्य वधूय

२. को ... तो ग [णा] तो प-व [ह]-[क] तो कुलातो

मझमातो शाखा [तो].....सनिकय भतिब्रलाए भिनि

[यह लेख बहुत टूटा हुआ है । इसमें खाल कामकी चीज मझमा
शाखा और प-वह-क कुलका उल्लेख है । प-वहक कुल जैन परम्पराका
प्रभवाहनक या पण्डवाहणय कुल है । वर्ष (सं) ९० है]

[El, 11, n° XIV, n° 22]

६७

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[वर्ष ९३]

अ. नमो अर्हतो महाविरस्य सं० ९० ३ [व]

ब. १. शिष्यस्य ग [णि] स्य [न] न्दिये [नि] वर्त्तना देवस्य
हैरण्यकस्य धितु *२. ि- [भ] - वतो वर्द्धमानप्रतिमा प्रति पुजा
[ये] [॥]

अनुवाद—अर्हत महाविर (महावीर) को नमस्कार हो । वर्ष ९३, वर्षाक्रतुका ... (महीना), ... के शिष्य गणी नन्दीके आदेशसे [अर्हत की] पूजाके लिये, हैरण्यक (सुनार) देवकी पुत्री ... ने भगवान् वर्द्धमानकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई ।

[EI, II, n° XIV, n° 23]

६८

मथुरा—प्राकृत ।

[वर्ष ९५]

१. [ि] मद्धं सं. ९० ५ [?] प्रि २ दि १० ८ कोट्टि [य] ।
तो गणातो ठानियातो कुलातो वइर [। तो शा] खातो अर्य्य अरहं.....२. शिशिनि धाम [था] ये निर्वर्तन [।] ग्रहदत्तस्य धि [तु]
धनहथि.....

अनुवाद—सिद्धि हो । ९५ वें (?) वर्षके ग्रीष्मऋतुके दूसरे महीनेके १८ वें दिन, धामथाके आदेशसे ग्रहदत्तकी पुत्री, धनहथि (धनहस्ती) की पत्नी ... का [दान किया गया] । धामथा कोट्टियगण, ठानिय कुल, वइर शास्त्राके अर्य्य अरह [दिन्न] की शिष्या थी ।

[EI, I, n° XLIII, n° 22]

६९

मथुरा—प्राकृत ।

[वासुदेव सं० ९८]

१. सिद्ध [म] ॥ नमो अरहतो महावीरस्य दे०.....रस्य । राज
वासुदेवस्य संवत्सरे ९० ८ वर्ष-मासे ४ दिवसे १०१ एतस्या

२. पुत्रिये अर्थ्य-देहिकियातो ग [गणतो] परिधा [1] सिकातो
कुलातो पैतपुत्रिकातो शाखातो गणिस्य अर्थ्य-देवदत्तस्य न

३. र्य-क्षेमस्य

४. प्रकगिरिणं

५. किहदिये प्रज

६.तस्य प्रवरकस्य वितु वरुणस्य गन्धिकस्य वधूये मित्रस.....
.....दत्त गा [?]

७. ये....भगवतो महा [वीर] स्य ।

अनुवाद—सिद्धि हो । महावीर अर्हत्को नमस्कार हो । ... राजा
वासुदेवके ९८ वें वर्षकी वर्षाऋतुके चतुर्थ महीनेके ११ वें दिन, अर्थ्य
देहिकिय (देहिकीय) गण, परिधासिक कुल, पैतपुत्रिका (पैतापुत्रिका ?)
शाखाके गणि आर्य देवदत्तके ... [आदेशसे] प्रवरककी पुत्री, गन्धिक
वरुणकी बहू, मित्रस, आर्य-क्षेमाका [दान]
भगवान् महावीरको नमस्कार हो ।

[1A, XXXIII, p. 108-109, n° 23]

७०

मथुरा—प्राकृत—भद्र ।

[सं.] वर्ष ९८

स. ९० ८ हे १ दि ५ अस्म क्षुणे को [1] द्वियात[1] गणतातो
उचनग.....१

अनुवाद—वर्ष ९८ की शीतऋतुके १ ले महीनेके ५ वें दिन, कोट्टिय गण, उच्चनगरी (उच्चानागरी) [शाखा]

[EI, II, n° XIV, n° 24]

७१

मथुरा—प्राकृत ।

[विना कालनिर्देशका]

१. नमो अरहंतानं सिंहकस वानिकस पुत्रेण^१ कोशिकिउत्तरेण

२. सिंहनादिकेन आयागपटो प्रतिथापितो अरहंतपुजाये [II]

अनुवाद—अर्हन्तोंको नमस्कार हो । वानिक सिंहक (सिंहक) के पुत्र तथा किसी कोशिकी (कौशिकी माँ) के पुत्र सिंहनादिक (सिंह-नन्दिक ?) के द्वारा एक आयागपटकी प्रतिष्ठा अर्हन्तोंकी पूजाके लिये की गई ।

[EI, II, n° XIV, n° 30]

७२

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[विना कालनिर्देशका]

नमो अरहंताना शिवघो [षक]स भरि [या].....ना.....ना.....

अनुवाद—अर्हन्तोंको नमस्कार । शिवघोषककी भार्या.....

[EI, II, n° XIV, n° 31]

७३

मथुरा—प्राकृत ।

[विना कालनिर्देशका]

पं. १. नमो अरहंतानं [मल].....णस धितु भद्रयशस वधुये
भद्रनदिस भयाये

२. अ [चला]ये आ[या]गपटो प्रतिथापितो अरहंतपुजाये ।

अनुवाद—अर्हन्तोको नमस्कार । मल—णकी बेटी, भद्रयश (भद्रय-
शस) की बहु, तथा भद्रनदि (भद्रनन्दिन्) की पत्नी अबलाने अर्हन्तोकी
पूजाके लिये एक आयागपट स्थापित किया ।

[El, II, n° XIV, n° 32]

७४

मथुरा—प्राकृत—भद्र ।

[काल लुप्त]

—शे ण्त [स्यां] पूर्व्यायां कोट्टियातो गणातो.....

अनुवाद—उक्त समय पर, कोट्टियगणके.....

[El, I, n° XLIII, n° 15]

७५

मथुरा—प्राकृत—भद्र ।

[काल लुप्त]

पं. १.....अरहंतानं वधमानस्य [क]लस्य धितु सिनविषुस्य
म [स्त्रि] न [1] य

२.....[श] [ति] स्य ि [नत्र] त्तं [III]

अनुवाद—शतिके आदेशसे सिनविषु (विष्णुवेण)की बहिन, कलकी
पुत्रीका दान यह अर्हत् वर्षमानकी प्रतिमा है ।

[El, I, n° XLIII, n° 16]

७६

मथुरा—प्राकृत—भद्र ।

[बिना कालनिर्देशका]

वारणातो गणातो आर्यकनियसिकातो कुलातो ओद.....

अनुवाद—वारण गण, पूजनीय कनियसिक कुल, ओद... (शाखा) के

[El, I, n° XLIII, n° 23]

७७

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[काल लुप्त]

.....वर्षमासे १ दीवसे ३० अस्मि क्षु.....^१अनुवाद—.....वर्षाकृतके पहले महीनेके ३० वें दिन, उस
भवसर (या, उत्सव) पर.....

[EI, I, n° XLIII, n° 25]

७८

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[बिना कालनिर्देशका]

दासस्य पुत्रो चीरि तस्य दत्तिः [॥]

अनुवाद—दासके पुत्र चीरिका दान ।

[EI, I, n° XLIII, n° 26]

७९

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[बिना कालनिर्देशका]

पं. १. [प्रतिमा] वधमान [स्य] प्रतिष्ठापिता

२.ठानियातो—ल.....त आर्यग].....

अनुवाद—ठानिय (स्थानीय) शास्त्राके.....वधमान (वर्धमान)-
की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई ।...

[EI, I, n° XLIII, n° 27]

१ पदो 'वर्षमासे' और 'क्षुणे' ।

८०

मथुरा—प्राकृत—भद्र ।

[बिना कालनिर्देशका]

पं. १. [सि] द्र नमो अरहंताण....द्रने वारणे गणे अयहाड्डि
[ये]^१

२. कुले वजनागरिया शाखाया अर्यशिरिकिये मंभो.....^३

अनुवाद—सिद्धि हो । अर्हन्तोको नमस्कार । [सिद्धोंको नमस्कार] ।
वारण गण, अय हाड्डिय (अर्य हालीय) कुल, वजनागरि (वज्रनागरी)
शाखा, अर्य-शिरिकिय संभोगके.....

[El, 1, XLIV, n° 34]

८१

मथुरा—प्राकृत ।

[बिना कालनिर्देशका]

पं. १. [ते]—रुसंनंदिकम पुत्रेन नंदिघोषेन [ते] वणिकेन अ....
त....अले.....

२. णानं मंदिरे [आ] यागपटा प्रतियापित [ि].....

अनुवाद—ते-रुस (!)-नंदिकके पुत्र, तेवणिक (त्रैवर्णिक) नंदिघोषके
द्वारा आयागपटके मन्दिरमें स्थापित की गई ।

[El, 1, XLIV, n° 35]

८२

मथुरा—प्राकृत ।

[बिना कालनिर्देशका]

अ. भगवतो उसभस वारणे गणे नाडिके कुले
खा [यं]

१ पदो 'नमो सिद्धान' । २ संभवतः 'होळिये' । ३ पदो 'संभोगे' ।

व. दुकस वायकस सिसिनिए सादिताए नि

अनुवाद—भगवान् वृषभ (उसभ) को नमस्कार हो । वारण गण, नाभिक कुल तथा.....के वाचक.....दुककी शिष्या सादिताके आदेशसे.....

[E1, II, n° XIV, n° 28]

८३

मथुरा—प्राकृत ।

[विना कालनिर्देशका]

स्थ [r]निकिये कुले गनिस्य उग्गाहिनिय शिषो वाचको घोषको आर्हतो पर्थस्य प्रतिमा....

अनुवाद—“स्थानिकिय (कीय) कुलके गणि (गणिन्) उग्गाहिनिके शिष्य वाचक घोषकने एक अर्हत् पार्थकी प्रतिमा....

[E1, II, n° XIV, n° 29]

८४

मथुरा—प्राकृत—भग्न ।

[विना कालनिर्देशका]

अ. वर्धमानपटिमा वजरनद्यस्य धिता वाधिशिव....

१.-f- स्य- कुटीत्रिनि दिनाये दाति बडिम [शि] ये....

२.....

अनुवाद—“वजरनद्य (वज्रमन्दिन्) की पुत्री, वाधिशिव (वृद्धिशिव ?) की बहू, f की पत्नी दिना (दत्ता) के दानके रूपमें एक वर्धमानकी प्रतिमा बडिमशिके.....

[E1, II, n° XIV, n° 33]

८५

मथुरा—प्राकृत—भ्रम ।

[बिना कालनिर्देशका]

अ. तिये निर्वर्तना

ब. १. तो शखतो शिरिकतो संभोकतो अर्थ

३. लनस्य मतु हि [स्त].....

२. ि-धराये निव्रतना शिवद [त]

[E1, II, n° XIV, n° 35]

[नोट—'निर्वर्तना' और 'निव्रतना' इन दो शब्दोंके एक ही शिलालेखमें आ जानेसे एक ही शिलालेखके दो खण्ड मान्य पड़ते हैं और वे सम्बद्ध अर्थको व्यक्त नहीं करते हैं ।]

८६

मथुरा—प्राकृत ।

(बिना कालनिर्देशका)

१.ये मोगलिपुतस पुफकस भयाये

२. असाये पसादो

अनुवाद—किसी मोगली (माँ मौदलीविशेष) के पुत्र, पुफक (पुष्पक) की पत्नी, असा (अथा ?) का दान ।

[IA, XXXIII, p. 151, n° 28.]

८७

राजगिरि—संस्कृत ।

[]

T. Bloch के आर्कीओलोजिकल सर्वे, बङ्गाल सर्किल, वार्षिक रिपोर्ट १९०२, पृ० १६, विश्लेषणमें इस शिलालेखका उल्लेख है । मूलका पता नहीं है ।

[AS, Bengal circle, Annual report 1902, p. 16. a.]

८८

मथुरा—संस्कृत—भग्न ।

[सं० २९९]

१. नमस्-सर्वसिद्धाना अरहन्ताना । महाराजस्य राजातिराजस्य
संवच्छरशते द [८] [तिये नव (?) -नवत्सधिके ।]

२. २०० ९० ९ (?) हेमन्तमासे २ दिवसे १ आरहातो
महावीरस्य प्रातिमा

३.स्य ओखारिकाये धितु उज्जतिकाये च ओखाये श्राविका
भगिनिय []

४.शरिकस्य शिवदिनास्य च एतैः आराहातायानाने
स्थापित []

५.देवकुलं च ।

अनुवाद—सब सिद्धों और अर्हन्तोंको नमस्कार हो । महाराज और
राजातिराजके (९९ से अधिक) दूसरी शताब्दिमें, २९९ (?), शीतऋ-
तुके दूसरे महीनेके पहले दिन—भगवान महावीरकी प्रतिमा अर्हन्मन्दिरमें
..... के द्वारा तथाकी पुत्री, ...ओखरिकाकी ...उज्जतिका द्वारा,
...श्राविका-भगिनी ओखाके द्वारा, तथा शरिक और शिवदिना इनके द्वारा
स्थापित की गईं...साथमें एक जिनमन्दिर भी ।

[G. Buhler, J R A S, 1896, p. 578-581.]

८९

मथुरा—संस्कृत—भग्न

[गुप्तकाल ? वर्ष ५७]

संवत्सरे सप्तपञ्चाश ५० ७ हेमन्त्रिती.....^१

—से [दि] वसे त्रयोदशे अ-पूर्वायां.....

१ 'हेमन्त' और 'तृतीय' या 'तृतीय' पढ़ो ।

अनुवाद-५७ वें वर्ष, शीतकतुकी तीसरे महीनेके १३ वें दिन,
इसदिन.....

[El, II, n° XIV, n° 38]

९०

नोणमङ्गल—संस्कृत

गुप्तकालसे पहिले, संभवतः ३७० ई० का

[नोणमंगलमें ताम्र-पट्टिकाओंपर]

[१ ब] स्वस्ति नमस् सर्वज्ञाय ॥ जितं भगवता गत-वन-गगनाभेन
पद्मनाभेन श्रीमज्-जाह्नवेय-कुलामल-व्योमावभामन-भास्करस्य स्व-भुज-
जवज-जय-जनित-सुजन-जनपदस्य दारुणारिगण-विदारण-रणोपलब्ध-
व्रण-विभूषण-भूपितस्य काण्वायनमगोत्रस्य श्रीमत्कोङ्कणिवर्म-धर्म-
महाधिराजस्य पुत्रस्य पितुरन्वागत-गुण-युक्तस्य विधा-विनय-विहित-
वृत्तस्य

[२ अ] सम्यक्-प्रजा-पालन-मात्राधिगत-राज्य-प्रयोजनस्य विद्वत्कवि-
काञ्चन-निकषोपल-भूतस्य विशेषतोऽप्यनवशेषस्य नीति-शास्त्रस्य वक्तु-
प्रयोक्तृकुशलस्य सुविभक्त-भक्त-भृत्यजनस्य दत्तक-सूत्र-वृत्ति-प्रणेतुः
श्रीमन्माधववर्म-धर्म-महाधिराजस्य पुत्रस्य पितृ-पैतामह-गुणयुक्तस्य
अनेक-चतुर्दन्त-युद्धावाप्त-चतुरुदधि-सलिलास्वादित-यशसः समद-द्विर-
दतुरगारोहणातिशयोःपन्न-कर्मणः श्रीमद् हरिवर्म-महाधिराजस्य
पुत्रस्य गुरु-गो-ब्राह्मण-पूजकस्य नारायण-चरणानुध्या

[२ ब] तस्य श्रीमद्विष्णुगोप-महाधिराजस्य पुत्रेण पितुरन्वागत-
गुण-युक्तेन त्र्यम्बकचरणाम्भोरुहराजः(ज)पवित्रीकृतोत्तमाङ्गेन व्यायामो-
द्वृत्त-पीन-कठिनभुजद्वयेन स्व-भुज-बल-पराक्रम-क्रय-क्रीत-राज्येन क्षुत्-

क्षामोष्ठ-पिसिताशनप्रीतिकर-निसिन-धारासिना श्रीमता माधववर्म-
हाधिराजेन आत्मनःश्रेयसे प्रवर्द्धमानविपुलैश्वर्ये त्रयोदशे संवत्सरे
फाल्गुने मासे शुक्ल-पक्षे तिथौ पञ्चम्यां श्रीमद्-वीर-देव-शासनाम्बरावभा-
सन-सहस्रकरस्य आचार्यवीर-देवस्य

• [३ अ] निज-कृतान्तपर-राद्धान्त-प्रवीणस्य उपदेशनात्
मुदुकोत्तूर-विषये पेन्बोल्ल-ग्रामे अर्हदायतन्नाय मूलसंघानुष्ठिताय
महा-तटाकस्य अधस्तात् द्वादश-खण्डुकावापमात्र-क्षेत्रं च तोट्ट-क्षेत्रं च
पट्ट-क्षेत्रं च कुमारपुर-ग्रामश्च एतत्सर्वं स-सर्व्य-परिहार-क्रमेणाद्भिर्दत्तः
योऽस्य लोभात् प्रमादाद्वापि हर्त्ता स पञ्च-महा-पातक-संयुक्तो भवति
अपि चात्र मनुगीता[ः] श्लोका[ः]

स्व-दत्तां पर-दत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् ।

षष्टि-वर्ष-सहस्राणि घोरे तमसि वर्तते ॥

(अन्य हमेशाके अन्तिम श्लोक)

[इस लेखमें गंगकुलके राजाओंकी परम्परा—कोङ्कणिवर्मा, माधववर्मा,
हरिवर्मा, विष्णुगोप और माधववर्मा—देकर यह बताया है कि अन्तिम
राजाने अपने राज्यके १३ वें वर्षमें, फाल्गुनसुदी पंचमीको, आचार्य वीर-
देवकी सम्मतिसे, मुदुकोत्तूर-देशके पेन्बॉल्ल गांवमें मूलसंघद्वारा प्रतिष्ठापित
जिनालयमें (उक्त) भूमि और कुमारपुर गांव दानमें दिये ।]

[EC, X, Malur th., n° 73.]

९१

उदयगिरि (सांची के निकट)—संस्कृत ।

[गुप्तकाल १०६ = ई. सं० ४२६]

Corrected transcript of the facsimile.

[१] नमः सिद्धेभ्यः[॥]

श्रीसंयुतानां गुणतोयधीनाम्
गुप्तान्वयानां नृपसत्तमानाम् [I]

- [२] राज्ये कुलस्याभिविद्धमाने
षड्भिर्युते वर्षशतेऽथ मासे [II] १.
सुकार्तिके बहुलदिनेऽथ पञ्चमे
- [३] गुहामुखे स्फुटविकटोत्कटामिमां [I]
जितद्विषो जिनवरपार्श्वमंजिकाम्
जिनाकृतीं शमदमवान
- [४] चीकरत् [II] २. आचार्य-भद्रान्वयभूषणस्य
शिष्यो ह्यसाचार्यकुलोद्गतस्य [I]
आचार्य-गौश
- [५] र्म मुनेस्सुतस्तु पद्मावत [स्या] श्वपतेर्भटस्य [II] ३.
परैरजेयस्य रिपुघ्नमानिनम्
स सङ्घ
- [६] लस्येत्प्रभिविभ्रुतो भुवि [I] स्वसंज्ञया शंकरनामशद्धितो
विधानयुक्तं यतिमार्गमास्थितः [II] ४.
स उत्तराणां सदृशे गुरूणां
उदग्दिशादेशवरे प्रसूतः [I]
- [८] क्षयाय कर्म्मरिगणस्य घीमान्
यदत्र पुण्यं तदपाससज्जे [II] ५.

[इस शिलालेखमें राम-दत्तवाले किसी ब्यक्तिकेद्वारा पार्श्वनाथ जिनेन्द्रकी प्रतिमाकी कार्त्तिक वदी पंचमीके दिन स्थापनाकी बात है। यह प्रतिमा किसी गुफाके द्वारपर खड़ी की गई थी। इस प्रतिमाकी स्थापना करने वाला या उसको खड़ा करनेवाला आचार्य गोक्षर्माका शिष्य था। ये गोक्षर्मा आचार्य भद्रके वंशमें हुए थे, इनकी परम्परा आर्यकुलकी थी और अश्वपति योद्धाके लड़के थे। ये अश्वपति सङ्गल (या सिंहल) के नामसे प्रसिद्ध थे और इन्होंने जिनदीक्षा लेनेके बाद अपना नाम शंकर रक्खा था।]

[इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिस्द ११, पृ० ३१०]

६२

मथुरा—संस्कृत।

[गुप्तकाल, वर्ष ११३]

१. सिद्धम् । परमभट्टारकमहाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तस्य विजयराज्यसं [१०० १०] ३ क.....न्तमा.....[दि]—स २० अस्यां ५ [पूर्व्यायां] कोट्टिया गणा-

२. द्विधाधरी [तो] शास्त्रातो दत्तिलाचार्यप्रज्ञपिताये शामाढ्याये भट्टिभवस्य धीतु प्रहमित्रपालि [त] प्रा [ता] रिक्स्य कुटुम्बिर्नये प्रतिमा प्रतिष्ठापिता ।

अनुवाद—सिद्धि हो। परमभट्टारक महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तके विजयराज्यके ११३ वें वर्षमें, [शीतऋतु महीने] कार्त्तिकके २० वें दिन, कोट्टियगण (तथा) विधाधरी शास्त्राके दत्तिलाचार्य (दत्तिलाचार्य) की आज्ञासे शामाढ्य (श्यामाढ्य) ने एक प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करवाई। श्यामाढ्य भट्टिभवकी बेटी (और) प्रहमित्रपालित प्रातारिक (घाटी या नाबिक) की पत्नी थी।

[EI, II, n° XIV, n° 39]

९३

कहार्थ—संस्कृत

[गुप्तकाल १४१ वां वर्ष=४६१ ई. स.]

सिद्धम् ।

- [१] यस्योपस्थानभूमिर्नृपतिशतशिरःपातवानावधूता
 [२] गुप्तानां वंशजस्य प्रविसृतयशसस्तस्य सर्वोत्तमर्द्धेः
 [३] राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिपशतपतेः **स्कन्दगुप्तस्य** शान्ते
 [४] वर्षे त्रिंशद्दशैकोत्तरकशततमे ज्येष्ठमासि प्रपन्ने ॥ १ ॥
 [५] ख्यातेऽस्मिन् ग्रामरत्ने **ककुभ** इति जनैस्साधुसंसर्गपूते
 [६] पुत्रो यत्सोमिलस्य प्रचुरगुणनिधेर्भद्रिसोमो महात्मा
 [७] तत्सूनुर्**रुद्रसोमः** प्रथुलमतिपशा व्याघ्र इत्यन्यमंज्ञो
 [८] **मद्रस्तस्यात्मजोऽभूद्** द्विजगुरुयनिषु प्रायशः प्रीतिमान् यः ॥
 [९] पुण्यस्कन्धं स चक्रे जगदिदमखिलं संसरद्दीक्ष्य भीतो
 [१०] श्रेयोऽयं भूतभूत्यै पथि नियमवतामर्हतामाद्रिकर्तृन्
 [११] पञ्चेन्द्रांस्थापयित्वा धरणिधरमयान् सन्निखातस्ततोऽयम्
 [१२] शैलस्तम्भः सुचारुर्गिरिवरशिखराग्रोपमः कीर्तिकर्ता ॥ ३ ॥

[इस शिलालेखमें, जो कि गुप्तकालके १४१ वें वर्षका है, बताया गया है कि किसी भद्र नामके व्यक्तिने, जिसकी कि वंशावली यहां उसके प्रपितामह सोमिल तक गिनाई है, अहंन्तो (तीर्थंकरों) में मुख्य समझे जाने वाले, अर्थात् आदिनाथ, ज्ञान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्व, और महावीर, इन पाँचोंकी प्रतिमाओंकी स्थापना करके इस स्तम्भको खड़ा किया । लेखकी ११ वीं पंक्तिके 'पञ्चेन्द्रान्' से इन्हीं पाँच तीर्थंकरोंसे मतलब है ।]

[इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द १०, पृ० १२५-१२६]

९४

नोणमंगल—संस्कृत तथा कन्नड ।

[गुप्तकालसे पहिले, संभवतः ४२५ (?) ई० वा]

[नोणमंगल (लक्कूर परगना) में, ध्वस्त जैन वस्तिके ताम्र-पत्रों पर]

(१ व) स्वस्ति जितं भगवता गतघ्नगगनाभेन पद्मनाभेन श्रीमज् जाह्वेय-कुलामल-व्योमावभासन-भास्करस्य स्व-भुज-जव-ज-जय-जनित-सुजन-जनपदस्य दारुणारि-गण-विदारण-रणोपलब्ध-व्रण-विभूषण-भूषितस्य काण्वायनस-गोत्रस्य श्रीमत्कोङ्गणिवर्म-धर्म-महाधिराजस्य पुत्रस्य पितुरन्वागत-गुण-युक्तस्य विद्या-विनयविहित-वृत्तस्य सम्यक्-प्रजा-पालन-मात्राधिगत-राज्य-प्रयोजनस्य विद्वत्-कवि-काञ्चन-निकषो

[२ अ] पल-भूतस्य विशेष्यतोऽप्यनवशेषस्य नीति-शालस्य वक्तृ-प्रयोक्तृकुशलस्य सुविभक्त-भक्त-भृत्य-जनस्य दत्तक-मूत्र-वृत्ति-प्रणेतुः श्रीमन्माधववर्म-धर्म-महाधिराजस्य पुत्रस्य पितृ-पैतामह-गुण-युक्तस्य अनेक-चतुर्दन्त-युद्धावाप्त-चतुरुदधि-सलिलाखादित-यशसः समद-द्विरद-तुरगागोहणानिशयोत्पन्न-कर्मणः धनुरभियोगस-म्पद्-विशेषस्य श्रीमद्-हरिवर्म-महाधिराजस्य पुत्रस्य गुरु-गो-ब्राह्मण-पूजकस्य नारायण-चरणानुध्यातस्य श्रीमद्विष्णुगोप-महाधिराजस्य पुत्रस्य पितुरन्वा

[२ ब] गत-गुण-युक्तस्य त्र्यम्बक-चरणाम्भोरुह-रजः-पवि-त्रीकृतोत्तमाङ्गस्य व्यायामोद्बृत्त-पीन-कठिन-भुज-द्वयस्य स्वभुजबल-परा-

१ ये ताम्रपत्र जमीनमें मिले हैं ।

क्रम-क्रयक्रीत-राज्यस्य चिर-प्रनष्ट-देव-भोग-ब्रह्मदेय-नैक-सहस्र-विसर्गा-
प्रयण-कारिणः क्षुत्-क्षामोष्ट-पिसिताशन-प्रीतिकर-निशित-धारासेः कलि-
युग-बलावमग्न-धम्मोद्गरण-नित्य-सन्नद्रस्य श्रीमतो **माधववर्म**-धर्म-महा-
धिराजस्य पुत्रेण जननी-देवताङ्क-पर्यङ्क-तले-समधिगत-राज्य-विभव-
विलासेन निज-प्रभावांशु-चक्रवालाखण्डित-शत्रु-नृपति-मण्डलेनाखण्ड

[३ अ] ल-विडम्बि-शौर्य्य-धीर्य्य-यशो-धाम-भूतेन गज-धुरि-हय-पृष्ठे
कार्मुके चाद्वितीयेन ललना-नयन-भ्रमरावली-नित्यकृतानुयात्रेण प्रजा-
परिपालन-कृत-परिकर-बन्धेन किं बहुना इदङ्कलि-युधिष्ठिरेण-श्रीमता
कोकुणिवर्म-धर्म-महाधिराजेन आत्मनः श्रेयसे प्रवर्द्धमान-विपुलैश्वर्य्यं
प्रथमसंवत्सरे फाल्गुन-मासे शुक्ल-पक्षे त्रिथौ पञ्चम्यां सो(खो)पाध्यायस्य
परमार्हतस्य **विजयकीर्तेः** सकलदिङ्मण्डलन्यापिकीर्तेरुपदेशतः
चन्द्रनन्द्याचार्य्य-प्रमुखेन मूल-संघेनानुष्ठिताय **उरनूराहतायत**

[३ ब] **नाय कोरिकुन्द**-विषये **वेन्नैल्करनिग्रामः** **पेरूरेवानि-अडि**
गलहृदायतनाय शुक्ल-बहिष्कर्पापणेषु पादश्च देव-भोगक्रमेणाद्भिर्दत्तः
योऽस्य लोभाद् प्रमादाद्वापि हर्त्ता स पञ्च-महा-पातक-संयुक्तो भवति
अपि चात्र मनुगीताः श्लोकाः

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् ।
पष्टि-वर्ष-सहस्राणि घोरे तमसि वर्त्तते
भूमि-दानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति ।
तस्यैव

[४ अ] हरणात् पापं न भूतं न भविष्यति ॥

(दो हमेशाके श्लोक) महाराज-मुखाज्ञाप्या मारिषेण त्वद्वकारेण
लिखितेयं ताम्र-पट्टिका

[EC, X, Mälur tl., n° 72.]

अनुवाद—कोङ्कणिवर्म-धर्म-महाधिराज जाह्नवी (या गंग)-
कुलके निर्मल आकाशमें चमकनेवाले सूर्य थे; वे काण्वावनसगोत्रके थे ।

इनके पुत्र माधववर्मधर्ममहाधिराज थे, जो एक 'दत्तकसूत्र-
वृत्ति' के प्रणेता थे ।

इनके पुत्र हरिवर्मा-महाधिराज थे ।

इनके पुत्र विष्णुगोप-महाधिराज थे ।

इनके पुत्र माधववर्म-धर्म-महाधिराज थे, जो कलियुगकी कीचड़में फंसे
हुए धर्मरूपी बैलको निकालनेमें हमेशा सन्नद्ध रहते थे ।

इनके पुत्र कोङ्कणिवर्म-धर्म-महाधिराजने जो कि कलियुगी युधिष्ठिर
कहलाते थे, अपने कल्याणकेलिये, अपने बढ़ते हुए राज्यके प्रथम
वर्षकी फाल्गुन सुदी पञ्चमीको, अपने उपाध्याय परमार्हत (भक्तजैन)
विजयकीर्तिकी सम्मतिसे, मूलसंघके चन्द्रनन्दि इत्यादिके द्वारा प्रतिष्ठापित
उरनूर के जैन मन्दिरको कोरिकुन्द-देशमेंका बेकेल्करनि गाँव दिया
था, और पेरूर एवामि-अडिगल्लके जिनमन्दिरमें बाहरकी सुङ्गीके कार्षीपण
(या धन) का चतुर्थ भाग दिया था ।

हमेशाके शापात्मक (imprecatory) श्लोक । महाराज अपने
मुँहसे जैसा बोलते जाते थे, मारिषेण त्वद्वकार वैसा ही इन ताम्र-पट्टिकाओं-
पर खोदता जाता था ।

१. ८० रत्तीके तौलके ताम्बेके सिक्के, जो प्राचीनतम देशी मुद्राके थे ।
(डा० ब्रूह्मरकी Grundriss, में रैपसनका 'Indian Coins' नामका लेख
देखो ।)

९६

मर्करा—संस्कृत तथा कन्नड ।

[शक १८८=४६६ ई.]

अविनीत कोङ्कणिका मर्करा-पत्र

(मर्कराके खजानेमेंसे प्राप्त ताम्रपत्रोंके ऊपर)

(१ ब) स्वस्ति जितं भगवता गतघनगगनाभेन पद्मा(द्म)नाभेन श्रीमद्जाह्नवीय[कु]लामलव्योमात्रभासनभास्करः स्वखड्गैकप्रहारखण्डित-महाशिलास्तम्भलब्धबलपराक्रमो दारणो(रुणा)रिगणविदारणोपलब्धव्र(त्र)-णविभूषणविभूषित **काण्वायन**सगोत्रस्य(?) श्रीमान् **कोङ्कणि**महाधिराज ॥ तत्पुत्र पितुरन्त्रागतगुणयुक्तो विद्याविने(न)यविहितवृत्तः सम्या(म्य)कप्र-जापालना(न)मात्राधिगतराज्यात्प्र(ज्यप्र)योजन विद्वत्कविकाञ्चननिक-षोपलभूतो नीतिशास्त्रस्यवक्तृप्रयोक्तृकुशलस्य(?) दत्तकसूत्रवृत्तिः(त्तेः) प्रणेतां(ता) श्रीमान्**माधव**महाधिराज ॥ तत्पुत्र पितृपतामहा(ह)गुणयुक्तो व(S)नेकचातुर्दन्तयुद्ध(द्वा)त्रासिचतुरुदधिसलिलास्वादितयश श्रीमद् **हरि-वर्म**महाधिराज ॥ तत्पुत्र ॥ द्विजगुरुदेवताः(ता)पूजनपरो नारायण-चरणानुद्ध(ध्या)न श्रीमद्विष्णुगोपम

(२ अ) हाधिराज ॥ तस्य पुत्र ॥ त्रियम्भ(त्र्यम्ब)कचरणाम्भोरुहरा-जाः(रजः)पवित्रीकृतोत्तमाङ्ग स्वभुजबलपराक्रमक्रियाकृतराज्य कलियुगबल-पङ्कावसन्नवृषोद्धरणनित्यसन्नद्ध श्रीमान्**माधव**महाधिराज ॥ तस्य पुत्र ॥ श्रीमद्**कदम्ब**कुलगगनगभस्तिमालिन **कृष्णवर्म**महाधिराजस्य प्रिया(य) भागिनेयो विद्याविनय(या)तिस(श)यपरिपूरितान्तरात्म(त्मा) निरवग्रहप्रथा- (य)नसौम्य विद्वत्सु प्रथमगण्य श्रीमान् **कोङ्कणि**महाधिराज **अविनीत**ना-मधेय दत्तस्य **देसिग**-गणं **कोण्डकुन्दान्वयगुणचन्द्र**भटारशिष्यस्य अभ-

णन्दि(अभयनन्दि)भटार तस्य शिष्यस्य शीलभद्रभटारशिष्यस्य जयण-
न्दिभटारशिष्यस्य गुणणन्दिभटारशिष्यस्य चन्द्रण्दिभटारगे अष्टा-अ-
सीति-उत्तरस्य त्रयो-स(श)तस्य संवत्सरस्य माघमासं सोमवारं स्वातिनक्षत्र
सुद्ध पञ्चमी अकालवर्ष-पृथुवीवल्लभमन्त्री तलवननगर श्रीविजयजिनालयके
पूनाडुच्छ(च्छट्)सहस्रएडेनाडुसतरिमध्ये बदणेगुप्पेनाम अविनीतम-
हाधिराजेन दत्तेन पडिये आरौल्लमूरु ।

(२ व) रोक्क पन्निकण्डुगङ्गेन्दुअम्बलिमण्णुं तलवनपुरदोळ्
तलवित्तिथमन् पोगारिगेह्लेयोल् पन्निकण्डुगं पिरिकेरैयोळम् राज-
मानमनुमोदन पन्निकण्डुगं मनोहरं दत्तं बदणेगुप्पेप्रामस्य सीमान्तरं
पूर्वस्यां दिसि केञ्जिगेमोरैडिण गजसेलेये करिवह्लिय कोट्टगरबदणे-
गुप्पेयत्रिसन्धिय सत्ति-कोरैडु आम्येयदिनन्ते वन्दुकागणि-नटाकं पुन
दक्षिणस्यां दिसि बहुष्णुहिये वल्काणिवृक्षमे पुन पश्चिम-मुखदे सन्द
वहुमूलिकपन्निये पुन बदणेगुप्पेय-कोट्टगरमुल्लगिय-त्रिसन्धिय कोळे
चण्डिगाले पुन नैरत्यदे सन्दु कथक-वृक्षमे पुन पश्चिमस्यां दिसि
पेल्डुलिदल्-वृक्षमे सान्तेरैतिय वट-वृक्षमे पुन तोरेवल्लमे उत्तरा-मुखदे
सन्द बहुमूलिक-पन्निये जम्बूपडिय-नटाकमे पुन वायव्यदे गळे-
चिञ्च-वृक्षमे पुन बदणेगुप्पेय-मुल्लगिय-कोळेयनूरदासनूर-त्रिसन्धिय-
नेर्गिल-गुम्बे निडुवेळुङ्गे पुन गजसेलेयप्राम उत्तरदिसि काया-
मोरैडिण इल्लिदु केम्ब रेये पुन पूर्व-मुखदे सन्द बहुमूलिक-प ।

(३ अ) न्तिये पुन कडपल्लिगाल वट-वृक्षमे पुन ईसानदे
बदणेगुप्पेय-दासनूर-पोल्मद-त्रिसन्धिय तटाकमे कोडिगट्टि चिञ्च-वृक्षमे
केन्तरम्बिन दिगेइ पूर्वदे कूडित्त सीमान्तरं ॥ तस्य साक्षिणा गङ्गाराज

कुलसकलास्थयिक-पुरुष पेर्व्वक्त्रवाण मरुंगरेय सेन्दिक गञ्जेनाड
निर्गुण्ड मणियुगुरेय नन्द्याल सिम्बालादय भृत्ययां देश-साक्षि तगडूर
कुल्लुगो वरुगणिगनूर तगडरु आल्लोडते नन्दकरं उम्मत्तूर बेल्लुररुमाळ-
गेयरं बद्दगेगुप्पेय झंसन्द बेल्लुररु पेर्गिक्वियरं ॥

खदत्तपरदत्तां वा यो हरेय(त) वसुन्धरी(रां) पाष्टं वर्षसहस्राणि
विष्टायां जायते कृमिः[ः] [III]

वसुभिः[ः] वसुधा भुक्ता(क्ता)राजभिस्सक-राजभिः^१ यस्य यस्य यदा
भूमि तस्य तस्य तदा फलम् ॥

देवस्वं तु विषं घोरं न विषं विषमुच्यते । विषमेकाकिनं हन्ति
देवस्व[-] पुत्रपौत्रिकं(कां) ॥

सामान्योयं धर्मं हेतुं(सेतुं) नृपाणाम् काले काले पालनीयो
भवद्भिः[ः] मर्वा(र्व्या)नेतां भागिन(न् भाविनः) पार्थिवेन्द्रान् भूयो
भूयो याचते रामभद्रः[ः] ॥ विश्वकर्म लिखितम्

चेर राजाओंकी वंशावली इस दानपत्रमें इस प्रकार दी हुई है:—

१. कोङ्कणि प्रथम । २. माधव प्रथम । ३. हरिवर्म । ४. विष्णु-
गोप । ५. माधव द्वितीय । ६. कोङ्कणि द्वितीय (अबिनीत) ।

ये अबिनीत महाधिराज कदम्बकुलसूर्य कृष्णवर्म-महाधिराजकी प्रिय बहि-
नके पुत्र थे । इनके लिये दानपत्रमें कहा गया है कि—‘इनका अन्तरात्मा विद्या,
विनयकी वृद्धिसे परिपूरित था, अजेय शौर्य इनमें था और विद्वानोंमें प्रथम
गिने जाते थे ।’ इन्हींसे देसिग (देशीय) ‘गण’ कोण्डकुन्द ‘अन्वय’ के
गुणचन्द्र-भटारके शिष्य अभयनन्दि-भटार, उनके शिष्य शीलभद्र-भटार,
उनके शिष्य जयणन्दि-भटार, उनके शिष्य गुणणन्दि-भटार, उनके शिष्य
चन्दणन्दि-भटारको तलवननगरके श्रीविजय जिनालयके मन्दिरके लिये

१ सामान्यतया ‘सगरादिभिः’ ।

बदणेगुप्ते नामका सुन्दर गाँव दानमें प्राप्तकर अकालवर्ष पृथ्वी-बल्लभके मन्त्रीने शकसंवत्सर ३८८ के माघ महीनेकी शुद्ध पञ्चमी, सोमवारको स्वातिनक्षत्रके समय इसे भेंट किया । यह गाँव पूनाहु छः हजारके एडेनाहु सत्तरके मध्यमें अवस्थित है । साथमें १२ 'कण्डुग' प्रत्येक छः भाश्रित गांवोंमेंसे, तथा पोगरिगेले और पिरिकेरेंमें से भी दिया ।]

९६

हल्ली (जिला बेलगाँव)—संस्कृत ।

[ई० पाँचवीं शताब्दिका (फ्लीट)]

प्रथम पत्र ।

[१] नमः ॥ जयति भगवाञ्जिनेन्द्रो गुणरुन्द्रः प्र[थि]त
[परम] कारुणिकः

[२] त्रैलोक्याश्वासकरी दयापताकोच्छ्रिता यस्य ॥ परम—

[३] श्रीविजयपलाशिकायां प्रजासाधारणा [शा] नाम् ॥

दूसरा पत्र; पहली ओर ।

[४] कदम्बानां युवराजः श्रीकाकुस्थवर्मा स्ववैजयिके अशीतितमे

[५] संवत्सरे भगवतामर्हताम् सर्व्वभूतशरण्यानाम् त्रैलोक्य-
निस्तार-

[६] काणाम् खेटग्रामे बदोवरक्षेत्र [म्] श्रुतकीर्तिसेनापतये ॥

दूसरा पत्र; दूसरी ओर ।

[७] आत्मनस्तारणार्थं दत्तवा [न्] [॥] तद्यो [हि] न (ना)

स्ति स्ववंश्यः [प] रवंश्यो वा

[८] स पञ्चमहापातकसंयुक्तो भवती (ति) [॥] यो भिरक्षती (ति)
तस्य सत्यर्व्व (सर्व्व, या सत्यं सर्व्व) गु-

[९] णपुण्यावाप्तिः- [II] अपि चोक्तम् [I] बहुभिर्व्वसुधा दत्ता ॥^१

[१०] [रा] जमिस्सगरादिभिः यस्य यस्य य[दा]भू[मिः] तस्य तस्य तदा फलम् [II]

[११] खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां षष्टिवर्षसहस्र(स्रा)णी (णि)

[१२] नरके पच्यते तु सः ॥ नमो नमः [II] ऋषभाय नमः ॥

[इस लेखमें कदम्ब 'युवराज' काकुस्थ (काकुस्थ)वर्माके द्वारा श्रुतकीर्ति सेनापतिको दिये गये एक क्षेत्र-दानका उल्लेख है । यह दान खेटग्राम नामक गाँवमें किया गया था ।]

[इ० ए०, जिल्द ६, पृ० २२-२४, नं० २०]

९७

देवगिरि (जिला धारवाड़)—संस्कृत ।

—[?]—

सिद्धम् जयत्यर्हखिलोकेशः सर्वभूतहिते रतः
रागाद्यरिहरोनन्तो नन्तज्ञानदृगीश्वरः

स्वस्ति विजयवैजयन्त्यां स्वामिमहासेनमातृगणानुद्धयाताभिषिक्तानां मानव्यसगोत्राणां हारितीपुत्राणं(णां) अङ्गिरसां प्रतिकृतस्वाध्यायचर्चका-नां सद्गर्म्मसदम्बानां कदम्बानां अनेकजन्मान्तरोपार्जितविपुलपुण्यस्कन्धः आहवार्जितपरमरुचिरदृढसत्वः^१ विशुद्धान्ययप्रकृत्यानेकपुरुषपरंपरागते जगत्प्रदीपभूते महत्यदितोदिते काकुस्थान्वये श्रीशान्तिवर्म्मतनयः

१ यह पूर्ण विरामका चिह्न फजूल है । २ इन पत्रोंमें यह खास बात है कि जहाँ द्वित्वाक्षरोंका इतना अधिक प्रयोग किया गया है वहाँ 'सत्व' और 'तत्व'में 'त' अक्षर द्वित्व नहीं किया गया ।

श्रीमृगेश्वरवर्मा आत्मनः राज्यस्य तृतीये वर्षे पौषसंवत्सरे कार्तिकमासे बहुले पक्षे दशम्यां तिथौ उत्तराभाद्रपदे नक्षत्रे बृहत्परतूरे (१) त्रिदशमुकुटपरिघृष्टचारचरणेभ्यः परमार्हदेवेभ्यः संमार्जनोपलेपनाभ्यश्च न भग्नसंस्कारमहिमार्थं ग्रामापरदिग्विभागसीमाभ्यन्तरे राजमानेन चत्वारिंशन्निवर्त्तनं कृष्णभूमिक्षेत्रं चत्वारि क्षेत्रन्निवर्त्तनं च चैत्यालयस्य बहिः, एकं निवर्त्तनं पुष्पायं देवकुलस्याङ्गनञ्च एकनिवर्त्तनमेव सर्वपरिहारयुक्तं दत्तवान् महाराजः । लोभादधर्माद्वा योस्याभिहर्त्ता स पञ्चमहापातकसंयुक्तो भवति योस्याभिरक्षिता स तत्पुण्यफलभाग्भवति । उक्तञ्च-

बैहृभिर्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः ।

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां ।

षष्टि वर्षमहस्त्राणि नरके पच्यते तु सः ॥

अद्धिर्दत्तं त्रिभिर्भुक्तं सद्भिश्च परिपालितम् ।

एतानि न निवर्तन्ते पूर्वराजकृतानि च ॥

स्वं दातुं सुमहच्छक्यं दुःस्वमन्यार्थपालनं ।

दानं वा पालनं वेति दानाच्छ्रेयोनुपालनम् ॥

परमधार्मिकेण दामकीर्तिभोजकेन लिखितेयं पट्टिका इति सिद्धिरस्तु ॥

[इ० ए०, जिल्द ७, पृ० ३५-३७, नं. ३६]

[यह पत्र श्रीशान्तिवर्माके पुत्र महाराज श्री 'मृगेश्वरवर्मा' की तरफसे लिखा गया है, जिसे पत्रमें काकुस्था(स्था)न्वयी प्रकट किया है, और इससे ये कदम्बराराजा, भारतके सुप्रसिद्ध वंशोंकी दृष्टिसे, सूर्यवंशी अथवा इक्ष्वाकु-

१ व्याकरणकी दृष्टिसे यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध नहीं मालूम होता । २ यह पद्य मिस्टर फ्लीटके शिलालेख नं० ५ में मनुका ठहराया गया है । आमतौरपर यह व्यासका माना जाता है ।

वंशी थे, ऐसा मालूम होता है। यह पत्र उक्त मृगेश्वरवर्माके राज्यके तीसरे वर्ष, पौष (?) नामके संवत्सरमें, कार्तिक कृष्णा दशमीको, जबकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था, लिखा गया है। इसके द्वारा अभिषेक, उपलेपन, पूजन, भद्रसंस्कार (मरम्मत) और महिमा (प्रभावना) इन कामोंके लिये कुछ भूमि, जिसका परिमाण दिया है, अरहन्तदेवके निमित्त दान की गयी है। भूमिकी तफसीलमें एक निवर्तनभूमि खालिस पुष्पोंके लिये निर्दिष्ट की गई है। ग्रामका नाम कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, 'बृहत्परलरे' ऐसा पाठ पढ़ा जाता है। अन्तमें लिखा है कि जो कोई लोभ या अधर्मसे इस दानका अपहरण करेगा वह पंचमहापापोंसे युक्त होगा और जो इसकी रक्षा करेगा वह इस दानके पुण्य-फलका भागी होगा। साथ ही इसके समर्थनमें चार श्लोक भी 'उक्त' च रूपसे दिये हैं, जिनमेंसे एक श्लोकमें यह बतलाया है कि जो अपनी या दूसरेकी दान की हुई भूमिका अपहरण करता है वह साठ हजार वर्ष तक नरकमें पकाया जाता है, अर्थात् कष्ट भोगता है। और दूसरेमें यह सूचित किया है कि स्वयं दान देना आसान है परंतु अन्यके दानार्थका पालन करना कठिन है, अतः दानकी अपेक्षा दानका अनुपालन श्रेष्ठ है। इन 'उक्त' च श्लोकोंके बाद इस पत्रके लेखकका नाम 'दामकीर्ति भोजक' दिया है और उसे परम धार्मिक प्रकट किया है। इस पत्रके शुरूमें अहन्तकी स्तुतिविषयक एक सुन्दर पद्य भी दिया हुआ है जो दूसरे पत्रोंके शुरूमें नहीं है, परंतु तीसरे पत्रके बिल्कुल अन्तमें जराले परिवर्तनके साथ जरूर पाया जाता है।]

९८

देवगिरि (जिला-धारवाह)—संस्कृत

—[?]—

सिद्धम् ॥ विजयवैजयन्त्याम् स्वामिमहासेनमातृगणानुद्धयाताभिषि-

१ साठ संवत्सरोंमें इस नामका कोई संवत्सर नहीं है। सम्भव है कि यह किसी संवत्सरका पर्याय नाम हो या उस समय दूसरे नामोंके भी संवत्सर प्रचलित हों। २ यह और आगेके लेख नं० ९८ और १०५ जैनहितैषी, भाग १४, अङ्क ७-८, पृ० २२८-२२९ से उद्धृत किये हैं।

कस्य मानव्यसगोत्रस्य हारितीपुत्रस्य प्रतिकृतचर्चापारस्य विबुधप्रति-
 विम्बानां कदम्बानां धर्ममहाराजस्य श्रीविजयशिवमृगेशवर्मणः
 विजयायुरोग्यैश्वर्यप्रवर्द्धनकरः संवत्सरः चतुर्थः वर्षापक्षः अष्टमः
 तिथिः पौर्णमासी अनयानुपूर्व्या अनेकजन्मान्तरोपार्जितविपुलपुण्यस्कंधः
 सुविशुद्धपितृमातृवंशः उभयलोकप्रियहितकरानेकशास्त्रार्थतत्त्वविज्ञानवि-
 वेच्च (?) ने विनिविष्टविशालोदारमतिः हस्त्यश्चारोहणप्रहरणादिषु व्याया-
 मिकीषु भूमिषु यथावत्कृतश्रमः दक्षो दक्षिणः नयविनयकुशलः अनेकाह-
 वार्जितपरमदृढस्त्वः उदात्तबुद्धिर्धैर्यवीर्यत्यागसम्पन्नः सुमहति सम-
 रसङ्कटे स्वभुजवलपराक्रमावाप्तविपुलैश्वर्यः सम्यक्प्रजापालनपरः स्वजन-
 कुमुदवनप्रबोधनशाशाङ्कः देवद्विजगुरुसाधुजनेभ्यः गोभूमिहिरण्यशयना-
 च्छादनान्नादिअनेकविधदाननित्यः विद्वत्सुहृत्स्वजनसामान्योपभुज्यमान-
 महाविभवः आदिकालराजवृत्तानुसारी धर्ममहाराजः कदम्बानां श्रीविजय-
 शिवमृगेशवर्मा कालवङ्गप्रामं त्रिधा विभज्य दत्तवान् । अत्र पूर्वमहं-
 च्छालापरमपुष्कलस्थाननिवासिभ्यः भगवदहंमहाजिनेन्द्रदेवताभ्य एको
 भागः, द्वितीयोर्हत्योक्तमद्गर्मकरणपरस्य श्वेतपटमहाश्रमणसंघोपभोगाय,
 तृतीयो निर्ग्रन्थमहाश्रमणसंघोपभोगायेति । अत्र देवभाग धान्यदेव-
 पूजावलिचरुदेवकर्मकरभग्नक्रियाप्रवर्त्तनाद्यर्थोपभोगाय । एतदेवं न्यायलब्धं
 देवभोगममयेन योभिरक्षति स तत्फलभागभवति, यो विनाशयेत् स पंच-
 महापातकसंयुक्तो भवति । उक्तञ्च-ब्रह्मभिर्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरा-
 दिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फले । नरवरसेनापतिना
 लिखितं ।

[इ० ए०, जिल्द ७, पृ० ३७-३८, नं० ३७]

१ इन प्रतिलिपियोंमें विसर्ग उस चिह्नके स्थानमें लिखा गया है जो कण्ठवर्णों
 (Gutturals) से पहले विसर्गकी जगह प्रयुक्त हुआ है । २ 'देवभागं
 समयेन' शुद्ध पाठ मालूम पड़ता है ।

[यह दानपत्र कदम्बोंके धर्ममहाराज 'श्रीविजयशिवमृगेश वर्मा' की तरफसे लिखा गया है और इसके लेखक हैं 'नरवर' नामके सेनापति । लिखे जानेका समय चतुर्थसंवत्सर, वर्षा (ऋतु) का आठवाँ पक्ष और पौर्णमासी तिथि है । इस पत्रके द्वारा 'कालवङ्ग' नामके ग्रामको तीन भागोंमें विभाजित करके इस तरहपर बाँट दिया है कि पहला एक भाग तो अर्हच्छाला परम-पुष्कल स्थाननिवासी भगवान् अर्हन्महाजिनेन्द्रदेवताके लिये, दूसरा भाग अर्हत्प्रोक्त सद्धर्माचरणमें तत्पर श्वेताम्बरमहाश्रमणसंघके उपभोगके लिये और तीसरा भाग निर्ग्रन्थमहाश्रमणसंघके उपभोगके लिये । साथ ही, देवभागके सम्बन्धमें यह विधान किया है कि वह धान्य, देवपूजा, बलि, चरु, देवकर्म, कर, भग्गक्रिया-प्रवर्तनादि अर्थोपभोगके लिये है, और यह सब न्यायलब्ध है । अन्तमें इस दानके अभिरक्षकको वही दानके फलका भागी और विनाशकको पंच महापापोंसे युक्त होना बतलाया है, जैसाकि नं० ९७ के दानपत्रमें उल्लेखित है । परंतु यहाँ उन चार 'उक्तं च' श्लोकोंमेंसे सिर्फ पहलेका एक श्लोक दिया है जिसका यह अर्थ होता है कि, इस पृथ्वीको सगरादि बहुतसे राजाओंने भोगा है, जिस समय जिस-जिसकी भूमि होती है उस समय उसी-उसीको फल लगता है ।

इस पत्रमें 'चतुर्थ' संवत्सरके उल्लेखसे यद्यपि ऐसा भ्रम होता है कि यह दानपत्र भी उन्हीं मृगेश्वरवर्माका है जिनका उल्लेख पहले नम्बरके पत्र (शि० ले० नं० ९७) में है अर्थात् जिन्होंने पूर्वका (नं० ९७) दान-पत्र लिखाया था और जो उनके राज्यके तीसरे वर्षमें लिखा गया था, परंतु यह भ्रम ठीक नहीं है । कारण कि एक तो 'श्रीमृगेश्वरवर्मा' और 'श्रीवि-जयशिवमृगेशवर्मा' इन दोनों नामोंमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर है; दूसरे, पूर्वके पत्रमें 'आत्मनः राज्यस्य तृतीये वर्षे पौष संवत्सरे' इत्यादि पदोंके द्वारा जैसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है वैसा इस पत्रमें नहीं है; इस पत्रके समय-निर्देशका ढंग बिल्कुल उससे विलक्षण है । 'संवत्सरः चतुर्थः, वर्षा पक्षः अष्टमः, तिथिः पौर्णमासी,' इस कथनमें 'चतुर्थ' शब्द संभवतः ६० संवत्सरोमेंसे चौथे नम्बरके 'प्रमोद' नामक संवत्सरका द्योतक मालूम होता है; तीसरे, पूर्वपत्रमें दातारने बड़े गौरवके साथ अनेक विशेषणोंसे युक्त जो अपने 'काकुस्थान्वय' का उल्लेख किया है और साथ ही अपने पिताका नाम

भी दिया है, वे दोनों बातें इस पत्रमें नहीं हैं जिनके, एक ही दाता होनेकी हालतमें, छोड़ दिये जानेकी कोई वजह मालूम नहीं होती; चौथे, इस पत्रमें अर्हन्तकी स्तुतिविषयक मंगलाचरण भी नहीं है, जैसाकि प्रथम पत्रमें पाया जाता है; इन सब बातोंसे ये दोनों पत्र एक ही राजाके मालूम नहीं होते ।

इस पत्र नं. ९८ में श्रीविजयशिवसृगेशवर्माके जो विशेषण दिये हैं उनसे यह भी पता चलता है कि, यह राजा उभयलोककी दृष्टिसे प्रिय और हितकर ऐसे अनेक शास्त्रोंके अर्थ तथा तत्त्वविज्ञानके विवेचनमें बड़ा ही उदारमति था, नय-विनयमें कुशल था और ऊँचे दर्जेके बुद्धि, धैर्य, वीर्य, तथा त्यागसे युक्त था । इसने व्यायामकी भूमियोंमें यथावत् परिश्रम किया था और अपने भुजबल तथा पराक्रमसे किसी बड़े भारी संग्राममें विपुल ऐश्वर्यकी प्राप्ति की थी; यह देव, द्विज, गुरु और साधुजनोंको निरत्य ही गौ, भूमि, हिरण्य, शयन (शय्या), आच्छादन (वस्त्र) और अन्नादि अनेक प्रकारका दान दिया करता था; इसका महाविभव विद्वानों, सुहृदों और स्वजनोंके द्वारा सामान्यरूपसे उपभुक्त होता था; और यह आदिकालके राजा (संभवतः भरतचक्रवर्ती) के वृत्तानुसारी धर्मका महाराज था । दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंके जैनसाधुओंको यह राजा समानदृष्टिसे देखता था, यह बात इस दानपत्रसे बहुत ही स्पष्ट है ।]

९९

हस्ती—संस्कृत ।

—[?]—

स्वस्ति ॥

जयति भगवान्जिनेन्द्रो गुणरुन्द्रः प्रथितपरमकारुणिकः

त्रैलोक्याश्वासकरी दयापताक्रोच्छ्रिता यस्य [II]

कदम्बकुलसत्केतोः हेतोः पुण्यैकसम्पदाम्

श्रीकाकुस्थनरेन्द्रस्य सूनुर्भानुरिवापरः [II]

श्रीशान्तिवरवर्मति राजा राजीवलोचनः
 खलेन वनिताकृष्टा येन लक्ष्मीद्विपद्गृहात् [II]
 तत्प्रियज्येष्ठतनयः श्रीमृगेशनराधिपः ।
 लोकैकधर्मविजयी द्विजसामन्तपूजितः [III]
 मन्वा दानं दरिद्राणां महाफलमितीव यः
 स्वयं भयदरिद्रोऽपि शत्रुभ्योऽदाब्रह्मामयम् [II]
 तुङ्गाङ्गकुलोत्सादी पल्लवप्रलयानलः
 स्वार्थके नृपतौ भक्त्या कारयित्वा जिनालयम् [II]

श्रीविजयपलाशिकायां यापनि(नी)यनिर्ग्रन्थकूर्चकानां स्ववैज-
 यिके अष्टमे वैशाखे संवत्सरे कार्तिकपौर्णमास्याम् । मातृसरित आरभ्य
 आ इङ्गिर्णासङ्गमात् राजमानेन त्रयस्त्रिंशन्निवर्त्तनं । श्रीविजयवैजयन्ती-
 निवासी दत्तवान् भगवद्भयोर्द्वयः[II]तत्राज्ञाप्तिः । दामकीर्त्तिभोजकः
 जियन्तश्चायुक्तकः सर्वस्यानुष्ठाता इति [II]

अपि च-उक्तम् [I]

बहुभिर्वसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः
 यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फलम् [II]
 स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत् वसुन्धराम्
 षष्टिवर्षसहस्राणि कुम्भीपाके स पच्यते [II]

सिद्धिरस्तु ।

[यह दानपत्र शान्तिवर्माके ज्येष्ठ पुत्र राजा मृगेशवर्माका है । उन्होंने

१ हमारा रायमें यह पाठ 'दान्महाभयम्' ऐसा होना चाहिये । २ यह
 और आगे का १०३ वाँ शिलालेख (ताम्रपत्र) 'अनेकान्त', वर्ष ७, किरण १-२,
 पृष्ठ ८-९ से लिया है ।

स्वर्गगत राजा (शान्तिवर्मा) की भक्तिले पलाशिका नामक नगरमें जिनालय निर्माण कराके अपनी विजयके आठवें वर्षमें यापनीयों, निर्मन्थों और कूर्चकोंके लिये भूमि दान किया है । यहाँ कूर्चक सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदायका ही एक भेद मालूम पड़ता है ।

[ई० ए०, जिल्द ६, पृ० २४-२५]

१००

हल्ली—संस्कृत । *

—[?]—

प्रथम पत्र

- [१] जयति भगवाञ्जितेन्द्रो गुणरुन्द्रः प्रथितपरमकारुणिकः त्रैलोक्या
[२] आसकरी दयापताकोच्छ्रिता यस्य ॥ स्वामिमहासेनमातृगणानु-
[३] ध्यातानां मानव्यसगोत्राणां हारितीपुत्राणां प्रतिकृतस्वाध्याय
च [चर्चा]-

दूसरा पत्र; पहिली ओर ।

- [४] पारगानाम् स्वकृतपुण्यफलोपभोक्तृणाम् स्ववाहुवीर्य्योपार्जित-
[५] तैश्चर्यभोगभागिताम् सद्गर्म्ममदम्बानां कदम्बानाम् ॥ काकुस्थ-
[६] वर्म्मनृपलब्धमहाप्रसादः संमुक्तवाञ्छुतनिधिश्श्रुतकीर्त्तिभोजः

दूसरा पत्र; दूसरी ओर ।

- [७] ग्रामं पुरा नृषु वरः पुरुपुण्यभागी खेटाहकं यजनदानदयो-
[८] पपन्नः ॥ तस्मिन्स्वय्यति शान्तिवर्म्मावर्त्ताशः मात्रे धर्म्मार्थं
दत्तवान् दा-
[९] मकीर्त्तः भूमां विख्यातस्तत्सुतश्श्रीमृगेशः पित्रानुज्ञातं धार्म्मि-
को दान-

१ देखो अनेकान्त, वर्ष ७, किरण १-२, पृष्ठ ७-८, में श्री पं. नाथूरामजी प्रेमीका 'कूर्चकोंका सम्प्रदाय' नामक लेख ।

तीसरा पत्र; पहली ओर ।

- [१०] मेव ॥ श्रीदामकीर्तिरुरुपुण्यकीर्तिः सद्धर्ममार्गस्थितशुद्ध-
बुद्धेः ज्याया-
[११] न्युतो धर्मपरो यशस्वी विशुद्धबुद्ध्या (द्रव्य) ज्ञयुतो गुणाद्यः
आचार्यैर्बन्धु-
[१२] षेणाहैः निमित्तज्ञानपारगैः स्थापितो भुवि यद्वंशः श्रीकीर्ति-
[१३] कुलवृद्धये [॥] तत्प्रसादेन लब्धश्रीः दानपूजाक्रियोद्यतः गुरु-
तीसरा पत्र; दूसरी ओर ।

- [१४] भक्तो विनातात्मा परात्महितकाम्यया ॥ जयकीर्तिप्रतीहारः
प्रमादानृप-
[१५] तेः रवेः पुण्यार्थं स्वपितुम्मन्त्रे दत्तवान् पुरुखेटकं ॥ जिने-
न्द्रमहिमा
[१६] कार्या प्रतिभंवत्सरं क्रमात् अष्टाहकृतमर्यादा कार्त्तिक्या-
न्तद्गना-
[१७] गमात् वार्षिकांश्चतुरो मासान् यापनीयास्तपस्विनः
भुंजीरस्तु]

चतुर्थ पत्र; पहली ओर ।

- [१८] यथान्याय्यं महिमाशेषवस्तुकम् [॥] कुमारदत्तप्रमुखा
हि सूरयः
[१९] अनेकशाखागमखिलबुद्धयः जगत्सतीतास्सुतपोधनान्विताः
गणो
[२०] स्य तेषां भवति प्रमाणतः ॥ धर्मेऽसुभिर्जानपदैस्सनागरैः
[२१] जिनेन्द्रपूजा सततं प्रणेया इति स्थितिं स्थापितवान् रवीशः
पला [शिका]

चतुर्थ पत्र; दूसरी ओर ।

- [२२] यां नगरे विशाले ॥ स्थित्यानया पूर्व्वनृपानुजुष्टया यत्तान्न-
पत्रेषु नि-
- [२३] बद्धमादौ धर्माप्रमत्तेन नृपेण रक्ष्यं संसारदोषं प्रविचार्य्य
- [२४] बुद्ध्या [॥] बहुभिर्व्वसुधा मुक्ता राजभिस्सगरादिभिः
यस्य यस्य
- [२५] यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा
यो हरेत

पञ्चम पत्र

- [२६] वसुन्धरां पाष्टिं वर्षसहस्राणि नरके पच्यते भृशम् ॥ अद्रि-
र्दत्तं त्रिभि-
- [२७] भुक्तं सङ्गिश्च परिपालितम् एतानि न निवर्त्तन्ते पूर्व्वराज-
कृतानि च [॥]
- [२८] यस्मिञ्जिनेन्द्रपूजा प्रवर्त्तते तत्र तत्र देशपरिवृद्धिः
- [२९] नगराणां निर्भयता तद्देशस्वामिनाञ्चोर्जा ॥ नमो नमः [॥]

[ई० ए० जिल्द ६, पृ० २५-२७, नं. २२]

[यह लेख जैनधर्मका 'अष्टाहिका' नामका उत्सव मनानेके लिये रवि-
वर्मा और अन्य लोगों द्वारा दिये गये दानों और हुक्मोंका उल्लेख करता
है । इसमें कदम्बोंके राजा काकुत्स्थ (काकुत्स्थ) वर्मा का, उसके बाद
शान्तिवर्मा, तत्पश्चात् श्री सृगेश (वर्मा) का और अन्तमें रविवर्माके दान-
का वर्णन है । जिस गांव का दान दिया गया उसका नाम है पुरुखेटक ।

१ सि० राइस इसको 'षड्भिश्च प्रतिपालितम्' पढ़ते हैं और उसका अर्थ 'छः
पीढियोंतक जानेवाला' दान करते हैं ।

१०१

हल्सी—संस्कृत ।

—[?]—

प्रथम पत्र ।

- [१] जयति भगवाञ्जिनेन्द्रो गुणरुन्द्रः प्रथितपरमकारु-
 [२] णिकः त्रैलोक्याश्वासकरी दयापताकोच्छ्रिता यस्य ॥
 [३] श्रीविष्णुवर्मप्रभृतीन्नेन्द्रान् निहत्य जित्वा पृथिवीं सम[स्तां]
 [४] उत्साध काञ्चीश्वरचण्डदण्डम् पलाशिकायां समवस्थितस्सः[॥]

द्वितीय पत्र; पहली ओर ।

- [५] रवि कदम्बोरु कुलाम्बरस्य गुणांशुभिर्व्याप्य जगत्सम[स्तं]
 [६] मानेन चत्वारि निवर्त्तनानि ददौ जिनेन्द्राय महीम् महेन्द्रः [॥]
 [७] संप्राप्य मातुश्चरणप्रसादं धर्मैकमूर्त्तरपि दामकीर्त्तेः
 [८] तत्पुण्यवृद्धयर्थमभून्नित्तम् श्रीकीर्त्तिनामा तु च तत्कनिष्ठः[॥]

दूसरा पत्र; दूसरी ओर ।

- [९] रागात्प्रमादादथवापि लोभात् यस्तानि हिंस्यादिह भूमि-
 [१०] पालः आसप्तमं तस्य कुलं कदाचित् नापैति कृन्वान्निरया-
 न्निमग्नम् [॥]
 [११] तान्येव यो रक्षति पुण्यकाङ्क्षुः स्ववंशजो वा परवंशजो वा
 [१२] स मोदमानस्सुरसुन्दरीभिः चिरं सदा क्रीडति नाकपृष्ठे [॥]

तीसरा पत्र ।

- [१३] अपि चोक्तं मनुना [१] बहुभिर्वसुधा दत्ता राजभिस्सगरा-
 दिभिः
 [१४] यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फलम् ॥

[१५] खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्

[१६] षष्ठिवर्षसहस्राणि निरये स विपच्यते ॥

[इस लेखमें रविवर्माके द्वारा जिनेन्द्रदेवके लिये दिये गये एक भूमि-दानका उल्लेख है। दान की गई भूमि नापमें ४ निवर्तन थी, दामकीर्ति, जो कि धर्ममूर्ति थे, की माताके चरणोंका प्रसाद पाकरके ही यह राजा दानमें प्रवृत्त हुआ। दामकीर्ति के छोटे भाईका नाम श्रीकीर्ति था। रविवर्मा पलाशिकामें रहते थे। इन्होंने श्रीविष्णुवर्मा (संभवतः 'विष्णुगोक्ष' या 'विष्णुगोपवर्मा' नामका पल्लव राजा) और दूसरे अन्य राजाओंका वध किया था, समस्त पृथ्वीको जीता था और काञ्चीश्वरके चण्डदण्डका उत्सादन (निर्मूलन) किया था।]

[ई० ए०, जिल्द ६, पृ० २५-३०, नं० २४]

१०२

हल्ली—संस्कृत ।

—[?]—

प्रथम पत्र ।

खस्ति ॥

जयति भगवाञ्जिनेन्द्रो गुणरुद्रः प्रथितपरमकारुणिकः

त्रैलोक्याश्वासकर्ता दयापताकोच्छ्रिता यस्य ॥

श्रीमत्काकुत्थराजप्रियहिततनयशान्तिवर्मावर्नाश

तस्यैव ज्येष्ठसूनुः प्रथितपृथुयशा श्रीमृगेशो नरेशः ॥ (१)

दूसरा पत्र; पहली ओर ।

तत्पुत्रो दीप्ततेजा रविनृपतिरभूत्सत्त्वधैर्यार्जितश्रीः

तद्भाता भानुवर्मा स्वपरहितकरो भाति भूप(ः) कर्नायान् ॥

तेनेयं वसुधा दत्ता जिनेभ्यो भूमिमिच्छता ।

पौर्णमासीश्वनुच्छिद्य स्वपनात्थं हि सर्व्वदा ॥

पलाशिकायाम् कईमपट्यां राजमानेन

दूसरा पत्र; दूसरी ओर

पञ्चदशनिवर्तना तांत्रशासने भूमिनिबद्धा उञ्छकरभरादिविवर्जिता श्रीमद्भानुवर्मराजलब्धपादप्रसादेन पण्डुरभोजकेन परमार्हद्भक्तेन प्रवर्द्ध-मानराज्यश्रीरविवर्मधर्ममहाराजस्य एकादशे संवत्सरे हेमन्तप्रष्टपक्षे

तीसरा पत्र ।

दशम्यां तियौ ॥ तां यो हिनस्ति स्ववंश्यः परवंश्यो वा स पञ्चमहा-
पानकसंयुक्तो भवति ॥ उक्तञ्च ॥

बहुभिर्व्वसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुधरां

पष्टिर्वर्षसहस्राणि कुन्मीपाके स पच्यते

[इस लेखमें भानुवर्मा और उसके अधीनस्थ कर्मचारी पण्डुर 'भोजक' के दानका उल्लेख है । यह दान भानुवर्माके बड़े भाई रविवर्माके राज्यके ११ वें वर्षमें, हेमन्तऋतुके छठे पक्षमें दसवीं तिथिको दिया गया था । इस भूमिका दान जिनभगवानकी हर पूर्णिमाके दिन पूजन करनेके लिये ही हुआ था । भूमिका नाप १५ निवर्तन था । यह भूमि पलाशिका गाँवके कर्दमपटी की थी । इस लेखसे कदम्बवंशके राजाओंकी रविवर्माके समथतककी वंशावलीका भी पता चलता है और वह यह है:—

१. काकुत्स्थवर्मा

|

२. शान्तिवर्मा

|

३. श्रीमृगेश

|

४. रविवर्मा (छोटा भाई भानुवर्मा) ।

[ई० ए०, जिल्द ६, पृ० २७-२९]

१०३

हल्ली—संस्कृत ।

—[?]—

सिद्धम् ॥ स्वस्ति स्वामिमहासेनमातृगणानुध्याताभिषिक्तानाम्
 'मानव्य'-सगोत्राणाम् हारितीपुत्राणाम् प्रतिकृतस्वाध्यायचर्चिकानाम्
 कदम्बा(म्बा)नाम्महाराजः श्रीहरिवर्म्मा

बहुभवकृतैः पुण्यं राजश्रियं निरुपद्रवाम्

प्रकृतिषु हितः प्राप्तो व्याप्तो जगद्यशसाखिलम्

श्रुतजलनिधिः विद्यावृद्धप्रदिष्टपथि स्थितः

स्वबलकुलिशाघ्रातोर्च्छन्नद्विपद्रुसुधाधरः [॥]

स्वराज्यसंवत्सरे चतुर्थे फाल्गुणशुक्लत्रयोदश्याम् उच्चशृङ्गाम्
 सर्वजनमनोह्लादवचनकर्मणा सपितृव्येण शिवरथनामवेयेनोपदिष्टः
 पलाशिकायाम् भारद्वाज-सगोत्रसिंहसेनापतिसुतेन मृगेशेन
 कारितस्यार्हदायतनस्य प्रतिवर्षमाष्टाहिकमहामहसततच (?) रूपलेपन-
 क्रियार्थं तदवशिष्टं सर्वसंभोजनायेति मुदि (?) छि कुन्दूरविषये
 वसुन्तवाटकं सर्वपरिहारसंयुतं कूर्चकानाम् वारिषेणाचार्यसङ्घ-
 हस्ते चन्द्रक्षान्तं प्रमुखे कृत्या दत्तवान् [॥] य एवं न्यायतोभिरक्षति
 स तत्पुण्यफलभागभवति [॥] यश्चैनं रागद्वेषलोभमौद्वैरपहरति स निवृ-
 ष्टनमां गतिमवाप्नोति [॥] उक्तञ्च—

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्

षाष्टं वर्षसहस्राणि नरके पच्यते तु सः [॥]

बहुभिर्व्यसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् [॥] इति

वर्धतां वर्धमानार्हच्छासनं संयमासनम्

येनाद्यापि जगज्जीवपापपुंजप्रभंजनम् [॥] नमोर्हते वर्धमानाय [॥]

[यह दानपत्र कदम्ब-राजवंशके महाराजा हरिवर्माका है । उन्होंने अपने राज्यके चौथे वर्षमें शिवरथ नामके पितृव्यके उपदेशसे, सिंहसेनापतिके पुत्र मृगेशद्वारा निर्मापित जैनमन्दिरकी अष्टाङ्गिका-पूजाके लिये और सर्वसंघके भोजनके लिए 'वसुन्तवाटक' नामक गाँव कूर्चकोंके बारिषेणाचार्यसंघके हाथमें चन्द्रक्षान्तको प्रमुख बनाकर प्रदान किया । यह और ९९ वां दान-पत्र दोनों, ताक्षपत्रोंपर हैं । नम्बर ९९ वें के दान-पत्रमें यापनीय, निग्रन्थ और कूर्चक इन तीन सम्प्रदायोंके नाम हैं और इसमें सिर्फ कूर्चक सम्प्रदायका । इससे मालूम होता है कि इस सम्प्रदायमें 'वारिषेणाचार्यसंघ' नामका एक संघ था, जिसके प्रधान चन्द्रक्षान्त (मुनि) थे ।]

[ई० ए०, जिल्द ६, पृ० ३०-३१]

१०४

हस्ती—संस्कृत ।

—[?]—

प्रथमपत्र ।

सिद्धम् ॥ स्वस्ति ॥ स्वामिमहासेनमातृगणानुध्यानाभिविक्तानाम्
मानव्यसगोत्राणा[न्] हारितीपुत्राणाम् प्रतिकृतस्वाध्यायचर्चापा-
राणाम् कदम्बानाम् महाराजश्रीरविवर्मणः स्वभुजबलपराक्रमावाप्ता(?)
निरवद्यविपुलराज्यश्रियः विद्वन्मतिसुवर्णनिकपभूतस्य कामाधरिगण-
दूसरा पत्र; पहली ओर ।

त्यागाभिव्यञ्जितेन्द्रियजयस्य न्यायोपार्जितार्थ [सं] हितसाधुज [न]-
स्य क्षितितलप्रततविमलयशसः प्रियतनयः पूर्वसुचरितोपचितविपुल-
पुण्यसम्पादितशरीरबुद्धिसत्वः सर्वप्रजाहृदयकुमुदचन्द्रमाः महाराज-
श्रीहरिवर्मा स्वराज्यसंवत्सरे पञ्चमे पलाशिकाविष्टाने अहरिष्टि-
समाह्वय-

शि० ६

दूसरा पत्र; दूसरी ओर ।

श्रमणसङ्घान्वयवस्तुनः धर्मनन्द्याचार्याधिष्ठितप्रामाण्यस्य चैत्या-
लयस्य पूजासंस्कारनिमित्तम् साधुजनोपयोगार्थञ्च सेन्द्रकाणां कुल्ल-
लामभूतस्य भानुशक्तिराजस्य विज्ञापनया मरदे ग्रामं दत्तवान् [II]
य एतल्लोभाद्यै कदाचिदपहरेत् स पञ्चमहापातकसंयुक्तो भवति यश्चा-
भिरक्षति स तत्पुण्यफलम्

तीसरा पत्र ।

अत्राप्रीति [III] उक्तञ्च ॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्वराम्
षष्टिवर्षसहस्राणि नरके पच्यते तु सः ॥
बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादि [भिः]
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥
ये सेतूनभिरक्षन्ति भूमिान् संस्थापयन्ति च ।
द्विगुणं पूर्वकर्तृभ्यः तत्फलं समुदाहृतम् [III]

[इस लेखमें अपने राज्यके पाँचवें वर्षमें सेन्द्रकके कुलके भानु-
शक्ति राजाकी प्रार्थनापर हरिवर्माने 'मरदे' नामका गाँव दानमें दिया
था, इस बातका उल्लेख है । यह हरिवर्मा रविवर्माका प्रियपुत्र है । यह
दान राजधानी पलायिकामें किया गया । इस दानका निमित्त वह
चैत्यालय था जो कि 'अहरिष्टि' नामके श्रमणसङ्घकी सम्पत्ति थी और
जिसपर आचार्य धर्मनन्दिनी आज्ञा चलती थी; उस चैत्यालयके पूजा
इत्यादिके प्रबंधके लिये तथा साधुजनोंके उपयोगके लिये ही यह दान
किया गया ।]

[ई० ए०, जिल्द ६, पृ० ३१-३२.]

१०६

देवगिरि—संस्कृत ।

—[?]—

विजयत्रिपर्वते स्वामिमहासेनमातृगणानुच्यातामिषिक्तस्य मानव्य-
सगोत्रस्य प्रतिकृतस्वाध्यायचर्चापारगस्य आदिकालराजर्षिबिम्बानां आश्रि-
तजनाम्बानां कदम्बानां धर्ममहाराजस्य अश्वमेधयाजिनः समराजितविपु-
लैश्वर्यस्य सामन्तराजविशेषरत्नसुनागजिनाकम्पदायानुभूतस्य (?) शरद-
मलनभस्त्युदितशशिसदृशैकातपत्रस्य धर्ममहाराजस्य श्रीकृष्णवर्मणः
प्रियतनयो देववर्म्युवराजः स्वपुण्यफलामिकाक्षया त्रिलोकभूतहितदे-
शिनः धर्मप्रवर्तनस्य अर्हतः भगवतः त्रैलोक्यस्य भद्रसंस्कारार्चनमहि-
मार्थं यापनीय [स] ह्येभ्यः सिद्धकेदारे राजमानेन (?) द्वादश निवर्तनानि
क्षेत्रं दत्तवान् योस्य अपहर्ता स पंचमहापातकसंयुक्तो भवति योस्याभिर-
क्षिता स पुण्यफलमश्नुते (1) उक्तं च—ब्रह्मभिर्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरा-
दिभिः । यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तथा (?) फलं ॥ अद्भिर्दत्तं
त्रिभिर्युक्तं सद्भिश्च परिपालितं । एतानि न निवर्तन्ते पूर्वराजकृतानि च ॥

स्वं दातुं सुमहच्छक्यं दु (?) :ख (म) न्यार्थपालनं ।

दानं वा पालनं वेति दानाच्छ्रेयोनुपालनम् ॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां ।

पष्टिवर्षसहस्राणि नरके पच्यते तु सः ॥

श्रीकृष्णानृपपुत्रेण कदम्बकुलकेतुना ।

रणप्रियेण देवेन दत्ता भूमिष्विपर्वते ॥

दयामृतसुखास्वादपूतपुण्यगुणेषुना ।

देववर्मैकवीरेण दत्ता जैनाय भूरियम् ॥

जयत्यर्हंखिलोकेशः सर्व्वभूतहितंकरः ।

रागाद्यरिहरोनन्तो नन्तज्ञानदृगीश्वरः ॥

[ई० ए०, जिल्द ७, पृ० ३३-३५, नं. ३५]

[यह दानपत्र कदम्बोंके धर्ममहाराज श्रीकृष्णवर्माके प्रियपुत्र 'देववर्मा' नामके युवराजकी तरफसे लिखा गया है और इसके द्वारा 'त्रिपर्वत' के ऊपरका कुछ क्षेत्र अर्हन्त भगवानके चैत्यालयकी मरम्मत, पूजा और महिमाके लिये 'यापनीय' संघको दान किया गया है ।

पत्रके अन्तमें इस दानको अपहरण करनेवाले और रक्षा करनेवालेके वास्ते वही कसम दिलाई है अथवा वही विधान किया है जैसा कि ९७ नम्बरके दानपत्रके सम्बन्धमें पहले बतलाया गया है। वही चारों 'उक्तं च' पद्य मी कुछ क्रमभंगके साथ दिये हुए हैं और उनके बाद दो पद्योंमें इस दानका फिरसे खुलासा दिया है, जिसमें देववर्माको रणप्रिय, दयामृतसुखास्वादानसे पवित्र, पुण्यगुणोंका इच्छुक और एकवीर प्रकट किया है। अन्तमें अर्हन्तकी स्तुतिविषयक प्रायः वही पद्य है जो ९७ नम्बरके दानपत्रके शुरूमें दिया है। इस पत्रमें श्रीकृष्णवर्माको 'अश्वमेध' यज्ञका कर्ता और शरद् ऋतुके निर्मल आकाशमें उदित हुए चंद्रमाके समान एक छत्रका धारक, अर्थात् एकछत्र पृथ्वीका राज्य करनेवाला लिखा है ।]

पूर्वके नं० ९७, ९८ व इस दानपत्रपरसे निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियोंका पता चलता है:—

- १ स्वामिमहासेन—गुरु ।
- २ हारिती—मुख्य और प्रसिद्ध पुरुष ।
- ३ शान्तिवर्मा—राजा ।
- ४ मृगेश्वरवर्मा—राजा ।
- ५ विजयशिवमृगेशवर्मा—महाराजा ।
- ६ कृष्णवर्मा—महाराजा ।
- ७ देववर्मा—युवराज ।
- ८ दामकीर्ति—भोजक ।
- ९ नरवर—सेनापति ।

१०६

अल्तेम (जिला कोल्हापुर)—संस्कृत ।

[शक ४११=४८८ ई०]

पहला पत्र ।

स्वस्ति ॥ जयत्यनन्तसंसारपाराचारैकसेतवः

महावीरार्हतः पूताश्वरणांभुजरेणवः ॥

श्रीमतां विश्व-विश्वम्भराभिसंस्तूयमानमानव्यसगोत्राणां हारीति-
पुत्राणां सप्तलोकमातृभिस्सप्तमातृभिरभिवर्द्धितानां कार्तिकेयपरिरक्षणप्राप्त-
कल्याणपरम्पराणां भगवन्नारायणप्रसादसमासादितवराहलाञ्छनेक्षणक्षण-
वशीकृताशेषमहीभृतानां (भृताम्) चालुक्यानां कुलमलंकरिष्णोः ॥
स्वभुजोपार्जितवसुन्धरस्य निजयशश्चरवणमात्रेणैवावनतराजकस्य कीर्त्तिप-
ताकावभासितदिगन्तरालस्य जयसिंहस्य राजसिंहस्य (१) सूनुस्सूनुत-
वागनवरतदानार्द्राकृतकरस्सुगज इव प्रशमनिधिस्तपोनिधिरिव दृप्तवैशिष्टि
प्राप्तरणरागो रणरागोऽभवत् [॥] तस्य चात्मजे श्वमेधनाव (०मेधाव)
भृत (थ)-स्नानपवित्रीकृतगात्रे प्रणतपरनृपतिमकुटतटवर्दितहटन्मणिगण-
किरणवाह्वीराधौतचारुचरणकमलयुगले चित्रकण्ठाभिधानतुरङ्गमकण्ठीरवे-
णोत्सारितारातिस्तम्भेरममण्डले वण्णाश्रमसर्व्वधर्मपरिपालनपरे गङ्गासेतु(?)
मध्यवर्तिदेशाधीश्वरे शक्तित्रयप्रवर्द्धितप्राज्यसाम्राज्ये गङ्गायमुनापालि-

दूसरा पत्र; पहली ओर ।

ध्वजदडक्कादिपञ्चमहाशब्दचिह्ने करदीकृतचोल-चेर-केरल-सिंहल-
कलिंगभूपाले दण्डितपाण्ड्यादिमण्डि (ण्ड) लिके अप्रतिशासने
'सत्याश्रय'-श्री-पुलकेश्यभिधानपृथिवीवल्लभमहाराजाधिराजे पृथिवीमे-
कातपत्रं शासति सति [॥] राजा रुन्द्रनीलसैन्द्रकवंशशशांकायमानः

प्रचण्डदोर्दण्डमण्डितमण्डलाप्रो गोण्डनामासीत् ॥ ॥ अय-नय-विनयस-
म्पन्नस्तनयोऽस्य समरसरसिकस्सिवाराख्यया ख्यातः ॥ ॥ पुत्रोऽस्य
भूता (तो) धात्रीतिलकायमानः पराक्रमाक्रान्तवैरिनिकुरुम्बः अवार्थ्य-
वीर्यसमन्वितः कार्याकार्यनिपुणः हनूमानिव रामस्याभिरामस्य तस्य
भृत्यस्सत्यसन्धो धार्मिकस्सामियारस्समभूत् ॥ ॥ स तत्प्रसादसमा-
सादितकुहुण्डीविषयस्तं परिपा[ल] यं (यन्) तदन्तर्भूतालक्तका-
मिधाननगर्य्याप्रामसप्तशतराजधान्यामशेषविषयविशेषकायमानायां शालि-
त्रीहीक्षुवणचणकप्रियङ्गुवरकोदारकस्यामाकगोधूमाद्यनेकधान्यसमृद्धायां
तद्देशविलासिनीमुखकमलमिव विराजमानायां धनधान्यपरिपूर्णाकृषीवल-
प्रायायाम् ॥

ऐन्द्रां दिशि महेन्द्रामः प्रासादं प्रवरम्महत् जिनेन्द्रा—

दूसरा पत्र; दूसरी ओर ।

यतनं भक्त्याकारयत् सुमनोहरम् ॥

प्रोत्तुंग-प्रासादं त्रिभुवनतिलकं जिनालयं प्रवरं

नानास्तम्भसमुद्भूतविराजमानं चिरं जगति ॥

शकृत्पाब्देष्वेकादशोत्तरेषु चतुष्पष्टेषु व्यतीतेषु विभवमंत्रसरे
प्रवर्त्तमाने ॥ कृते च जिनालये ।

वैशाखोदितपूर्णापुण्यदिवसे राहो (हैं) विधौ (धोर) मण्डलं

श्लेष्टेन्दैर्लिकमज्जनार्दुपगतं स्नेहाद् गृहं भूसुजम्

श्रीसत्वाश्रयमाश्रयं गुणवतां विज्ञापयामास स

तज्जैनालयपूजनीचितनुतक्षेत्राय धर्मप्रियः ॥

आयुर्जन्मवतामिदं ननु तदि (दि) त् सन्ध्येन्द्रा(न्द्र)चापोपमं

ज्ञात्वा धर्मम (ध) नार्जनं बुधजनैर्भार्य्यै (लैँ): फलं मन्यते

१ संभवतः शुद्ध पाठ 'श्लेष्टेऽन्वर्थिकमज्जनाद्' होना चाहिये ।

इत्येवं प्रविबोधय सम्यजनतां सत्याश्रयो बल्लभो
भक्त्या तज्जिनमन्दिरोपमक्रिये क्षेत्रं ददौ शासनम् ॥
वैशाखपौर्णमास्यां राहौ विधुमण्डलं प्रविष्टवति

सत्याश्रयनृपतिस्त्रिभुवनतिलकाय दत्तवान् क्षेत्रम् ॥

कनकोपलमम्भूतवृक्षमूलगुण (णा) न्वये
भूतस्समप्रराद्धान्तस्सिद्धनन्दिमुनीश्वरः ॥
तस्यासीत् प्रथमदिशष्यो देवताविनुतक्रमः
शिष्यैः पञ्चशतैर्युक्त—

तीसरा पत्र; पहिली ओर ।

श्रितकचार्य्य-संज्ञितः ॥

श्रीमत्काकोपलान्नाये ख्यातकीर्तिर्बहुश्रुतः
लक्ष्मीवाम्नागदेव्याख्यश्रितकाचार्य्यदीक्षितः ॥

नागदेवगुरोदिशष्यः प्रभूतगुणवारिधिः
समस्तशास्त्रमम्बोधि (धी) जिननन्दिः प्रकीर्तितः ॥

श्रीमद्विधिराजेन्द्रप्रस्फुरन्मकुटालिभिः

निघृष्टचरणाब्जाय प्रभवे जननन्दिने ॥

जिननन्दाचार्य्यसूर्याय दुश्चरतपोविशेषनिकषोपलभूताय समधि-
सर्वशास्त्राय नगरांशतलभोगांश्च प्रददौ [॥] तत्र तलभोगसीमान्याह
[१] चैत्यालयाद् त्रायव्यां दिशि तटाकं तटो ऋजुसूत्रक्रमेण पश्चिमाभि-
मुखं गत्वा पथं तस्य मध्ये निखातपाषाणं तस्माद् दक्षिणाभिमुखमनुपथं
गत्वा प्रवाहं तस्यं (स्य) मध्ये निखातपाषाणं पूर्वाभिमुखं गत्वा
तिन्त्रिणीकवृक्षं यावत् तस्मादुत्तराभिमुखं गत्वा पूर्वोक्त-तटाकं । यावत्

१ इस पूर्णविराम की यहाँ कोई जरूरत नहीं है । 'पूर्वोक्त-तटाकं यावत्'
ऐसा सम्बन्ध है ।

स्थितं एतन्नगरनिवेशक्षेत्रम् [॥] तत्र तलभोगक्षेत्रसीमान्याह [१] नगरस्य दक्षिणस्यां दिशि सेतुबन्धात् प्रभृत्यनुजलवाहलं पूर्वाभिमुखं गत्वा यावदौच्छिकक्षेत्रं तत्पश्चिमसीमं निखातपाषाणं यावत्तस्मादनुसी-
मोत्तराभिमुखं गत्वा यावच्छमीवल्मीकं तस्मात्पुनः पूर्वाभिमुखं गत्वा यावत् स्थलगिरि तस्मात्पुनरनुगिर्युत्तराभिमुखं गत्वा यावद्दिरेरुच्चप्रदेशं तस्मात् पश्चिमाभिमुखं गत्वा यावद्गिरि तस्मात् पश्चिमाभिमुखं गत्वा याव-
त्स्थलगिरि तस्मादक्षिणाभिमुखं गत्वा यावत्सेतुबन्धन (नं) स्थितं राज-
मनेन पश्चापट् सदुत्तरनिवर्त्तनशतं तलभोगक्षेत्रं चतुस्तीमाविरुद्धम् ॥
नरिन्दकनामग्रामे नैर्ऋत्यां दिशि नरिन्दक-सामरिवाद (ड) ग्रामपथि
मध्यवर्त्तिर्मिगतेगतटाकाद् ऋजुसूत्रकमेण नरिन्दकग्रामपथं यावत्तावत्स्थितं
चत्वारिंशत् नि (सन्नि) वर्त्तनं क्षेत्रं दक्षिणदिशि राजमानेन ॥ **किण-**
यिगेनामग्रामे पूर्वस्यां दिशि अशीतिनिवर्त्तनं क्षेत्रं राजमानेन पिशाचा-
रामं नैर्ऋत्यां दिशि यावच्छमीझाटवल्मीकं तस्मात् पूर्वाभिमुखं गत्वा
यावत्पथं तस्मादक्षिणाभिमुखं गत्वा यावत्स्थलगिरि तस्मात् पश्चिमा-
भिमुखमनुस्थलगिरि गत्वा यावच्छमीस्थलं तस्मादुत्तराभिमुखं गत्वा
यावच्छमी-झाटवल्मीकं स्थितं चतुस्तीमाविरुद्धम् ॥ **पन्तिगणगे** नामग्रामे
चतुर्थं पत्र; पहिली ओर ।

नैर्ऋत्यां दिशि मान्यस्य क्षेत्रं उत्तरस्यां दिशि चत्वारिंशन्निवर्त्तनं
क्षेत्रं राजमानेन पश्चिमस्यां दिशि स्थलगिरि तस्मादनुसीमं पूर्वाभिमुखं
गत्वा यावच्छमीवल्मीकं तस्मादक्षिणाभिमुखं गत्वा **कोमर**श्चे-ग्राम-सीम
तस्मात्पूर्वाभिमुखमनुसीमं गत्वा यावज्जलवाहलं तस्मादुत्तराभिमुखमनु-
वाहलं गत्वा यावच्छमीझाटवल्मीकं तस्मात्पश्चिमाभिमुखं गत्वा यावत्तटा-
कोत्तरकोडि (टि) तस्मादक्षिणाभिमुखमनुस्थलगिरि गत्वा यावत्तावत्स्थितं
चतुस्तीमाविरुद्धम् ॥

मंगलीनामग्रामपश्चिमदिशि राजमानेन चत्वारिंशन्नवर्तनं क्षेत्रं तस्य सीमान्याह स्थलगिरेः पश्चिमामिमुखमनुपथं गत्वा यावद्दूविक्रामसीम तस्मादुत्तरामिमुखमनुसीम गत्वा यावत्स्थलगिरि तस्मात्पूर्वामिमुखमनुस्थलगिरि गत्वा यावत्स्थलगिरि तस्मादक्षिणामिमुखमनुस्थलगिरि गत्वा स्थितं चतुस्सीमाव (वि) रुद्धम् ॥ करण्डिगे नाम ग्रामे प—

चतुर्थ पत्र; दूसरी ओर ।

पश्चिमस्यां दिशि चन्दबुर-पन्द्रङ्गवल्लिनामग्राममार्गमध्ये अश्वत्थतटाकाद् वायव्यां दिशि राजमानेन पञ्चविंशतिनिवर्तनं क्षेत्रम् ॥ दावनवल्लिनामग्रामे पश्चिमस्यां दिशि अलक्तकनगरकुम्बयिजनामग्राममार्गमध्ये विम्बालयपिशाचारामात्पश्चिमे राजमानेन चत्वारिंशन्नवर्तनं क्षेत्रम् ॥ पुनरपि तस्मिन्नेव ग्रामे दक्षिणस्यां दिशि हिङ्गुटीतटाकादुत्तरसमीपस्थं राजमानेन शतं नि (शत-नि) वर्तनं क्षेत्रम् ॥ नन्दिणिगेनामग्रामे पूर्वस्यां दिशि बरबुलिकसीम श्रीपुरमार्गमध्ये राजमानेन चत्वारिंशन्नवर्तनं क्षेत्रम् ॥ सिरिपत्तिनामग्रामे पश्चिमस्यां दिशि श्रीपुरमार्गतो दक्षिणतो राजमानेन चत्वारिंशन्नवर्तनं क्षेत्रम् ॥ अर्जुनवाद (ड) नामग्रामे पश्चिमस्यां दिशि श्रीपुरमार्गतो उत्तरतो राजमानेन पञ्चाशन्नवर्तनं क्षेत्रम् ॥ ग्रामनामान्याह ॥ कुम्बयिज-द्वादशस्यो (स्या) न्तः रूविको नाम

पौर्वा पत्र ।

ग्रामः प्रथमः ॥ सामरिवादो (डो) नाम ग्रामः द्वितीयः ॥ बटमाले द्वादशस्यान्तः लहिवादो (डो) नाम ग्रामः तृतीयः ॥ श्रीपुरद्वादशस्य मध्ये पेल्दिको नाम ग्रामः चतुर्थः ॥ इत्येते चत्वारो ग्रामाः चतुस्सीमाव (वि) रुद्धक्षेत्रः (त्राः) सोदङ्गाः स (सो) परिकराः अचाटभटप्रवेश्याः

[॥] तदागामिभिरस्मद्दृश्यैरन्यैश्च राजभिरायुरैश्चर्यादीनां विलसितमच्छि-
रांशुचञ्चलमवगच्छद्विराचन्द्रार्कधराण्यवस्थितिसमकालं यशस्विचीशुभिः
स्वदन्तिनिर्विशेषं परिपालनीयमुक्तं च मन्वादिभिः ॥

बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभि-
र्यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फलम् ।
स्वं दातुं सुमहच्छक्यं दुःखमन्यस्य पालनं
दानं वा पालनं श्रेयो श्रेयो दानस्य पालनम् ॥
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुधराम् ।
पष्टि वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥

[इ. ए., ७, पृ० २०५-२१७, नं. ४४]

[इस दानपत्रमें पुलिकेशीकी वंशावलि उसके पितामह (बाबा) जयसिंह और उसके पिता रणराग से लेकर दी हुई है । ऊपर बिरुदावलिमें यह वाक्यावली आती है, 'जयसिंहस्य राजसिंहस्य सुनुः...रणरागोऽभवत्'— जिससे सर वास्टर इंग्लियटने सन्देहास्पदरूपसे यह फलितार्थ निकाला है कि 'राजसिंह' जयसिंहका दूसरा नाम था । पर यदि 'राजसिंह' यह व्यक्तिवाचक नाम हो भी, तो इससे जयसिंहकी उपाधिका ही पता लगेगा, जयसिंहके दूसरे नामका नहीं ।

तत्पश्चात् दानपत्रमें उसके (जयसिंहके) एक सामन्त सामियारका उल्लेख है जो रुद्रनील-सैन्द्रक वंशका है । यह सामियार कुहुण्डी जिलेका शासक था । इसके बाद यह वर्णन है कि सामियारने अलकनगरमें, जो कि उस जिलेके ७०० गावोंके समूहोंमें एक प्रधान नगर था, एक जैनमन्दिर बनवाया, और राजाशा लेकर, विभव संवत्सरमें जब कि शकवर्ष ४११ व्यतीत हो चुका था वैशाख महीने की पूर्णिमाके दिन चन्द्रग्रहणके अवसर-पर कुछ जमीन और गाँव मन्दिरको दिये ।]

१०७

आङ्कर [जिला धारवाड]; संस्कृत तथा कन्नड-मग्न ।

—[?]—

पूर्ववर्ती चालुक्य कीर्तिचर्मा प्रथमका किलालेख

- [१]जयत्यनेकधा विश्वं विवृण्वन्नंशुमानिव
.....श्री-वर्द्धमानदेवे.....
- [२]न् (?) यप-दुः-प्रबाधनः [II]
प्रभास (?) ति भुवं भूयो.....
- [३]प्रताप-क्षत.....ि.....ि.....दान
.....
- [४]कु (?) र (?) -तेजमा वैजय
.....र.....
- [५]त्पाशभृद्विषमो यमः चित्तं वा मानसं सत्यं स्थितं
.....[II] तेनेप (?).....
- [६]गाण्ड-निर्मापितजिनालयदानशालादिसंबुद्धयै विज्ञप्तेन
यशस्विना [I] पञ्चविं-
- [७] शक्ति-संख्या-निवर्त्तन-कृत-प्रमं क्षेत्रं राजमानेन दत्तं
त्वहितरक्षणं [I] [वि]-
- [८] श्राव्य साक्षिणः कृत्वा उञ्छोरिन्द-प्रधानकानन्यैरपि च
राजन्यै रक्षणीयं स.....[II]
- [९] उक्तं च [I] स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्
षष्टिं वर्षसहस्राणि विष्टाय(१)म् [जाय]-

- [१०] ते कृमिः [॥] खं दातुं सुमहच्छक्यं दुःखमन्यस्य पालनं
दानं वा पालनं वेति दानाच्छ्रे[योऽनु]-
- [११] पालनम् [॥] बहुभिर्व्यसुधा भुक्ता राजभिसगरादिभिः [ः]
यस्य यस्य यदा भूमिम् [तस्य त]-
- [१२] स्य तदा फलम् [॥] आसीद् विनयनन्दीति परल्लूरगणा-
प्रणीरिन्द्रभूतिरिव धरात् चत्.....[सं]-
- [१३] घ-संहतेः [॥] तस्यान्ते वसनासीत् वासुदेवो गुरुर्गुरुः
तस्य शिष्य [ः] प्रभा.....[॥]
- [१४] शिष्य [ः] श्रीपालनामास्य धर्मगामुण्ड-पुत्रजः
प्रातिष्ठिपच्छिलापट्टं स्थेयाद्राचन्द्र [तारकं] [॥]
दूसरा लेख ।
- [१५] स्वस्ति श्रीमत् प्रि (पृ) थु (थि) वीवल्लभ राजाधिराज
परमेश्वर कीर्त्तिवर्मरसर पृथु (थि) विद् [ज्यं-भे]-
- [१६] ये सिन्दरसरग्ग (? ग्गा; ? ग्गं) गि (? थि) पाण्डीपुरमा-
नाले परमेश्वरं माधवत्तियरसरग्गे वि [ज्ञापनं-भे]-
- [१७] यद्दु दोणगामुण्डरं एळगामुण्डरं मल्लेयरुं उच्छरादा
(? वा) सवैरैयरु ह्.....
- [१८] करणसहितमागि हविरक्षतगन्धपुष्पादिगन्धे कर्मगल्लूर
पडुवण म.....
- [१९] य केळो एण्टु मत्तलगल्दे राजमानं जिनेन्द्र-भवनकितोरि-
दानाराट् सलिण्पोर [व]-
- [२०] ते धर्ममारारिदा[न्] किडिण्पोरवर्त्तेपाप[म्] [॥]
परल्लूरा चेदियद वळि प्रभाचन्द्र-गुरावर्षडेदा[र] [॥]

[इस लेखमें कुल २० पंक्तियाँ हैं । पंक्ति १ से १४ तकमें एक संस्कृत शिलालेख है जिसमें दानशालाके लिये तथा दूसरे और भी कार्योंके लिये एक खेत के, तथा गामुण्ड (गाँव के मुखियों) में से किसी के द्वारा निर्मापित जिनालय के दानकी प्रशस्ति है । वैजयन्ती या बनवासी का वर्णन चौथी पंक्तिमें हुआ-सा मालूम पड़ता है ।

पंक्ति १५ से २० तक प्रायः पूर्ण हैं (खण्डित नहीं हैं) और उनमें एक पुरानी कर्णाटक-भाषाका लेख है जिसमें यह उल्लेख है कि, जिस समय कीर्तिवर्मा सार्वभौम-सत्ताके रूपमें शासन कर रहा था, और जब कि सिन्द नामका कोई एक राजा पाण्डीपुर नगरमें शासन कर रहा था दोग-गामुण्ड और एलगामुण्ड आदिने, राजा माधवसिकी सम्मतिसे, जिनेन्द्रके मन्दिरको पूजाके प्रबन्धके लिये अक्षत (अखण्ड चावल), सुगन्ध, पुष्प आदि, और चावलके खेतोंके आठ 'मत्तल' शाही मापसे नाप कर दिये । ये चावलके खेत कर्मेगलूर गाँवकी पश्चिमदिशामें थे ।

इस शिलालेखका काल नहीं दिया है । लेकिन कीर्तिवर्माको जो उपाधियाँ दी हुई हैं उनसे, तथा अक्षरोंकी लिखावटसे यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इस लेखमें उल्लेखित कीर्तिवर्मा पूर्ववर्ती चालुक्य राजा कीर्तिवर्मा प्रथम हैं, जिसके राज्यका अन्त शक ४८९ में हुआ था । इस लेखसे यह भी मालूम पड़ता है कि कीर्तिवर्मा प्रथमने कदम्बोंको जीता था ।]

[ई. ए०, ११, पृ० ६८-७१, नं० १२०]

१०८

पहोले (जिला-कलदगी)-संस्कृत ।

[शक सं० ५५६=६३४ ई०]

चालुक्यवंशोद्भूतश्रीपुलकेशीका शिलालेख ।

जयति भगवाञ्जिनेन्द्रो[वी]नज[रा-म]रणजन्मनो यस्य ।

ज्ञानसमुद्रान्तर्गतमखिलं जगदन्तरीपमित्र ॥ १ ॥

तदनु चिरमपरिचेयश्चालुक्यकुलविपुलजलनिधिर्जयति ।

पृथिवीमौलिललामो यः प्रभवः पुरुषरत्नानाम् ॥ २ ॥

शूरे विदुषि च विभजन्दानं मानं च युगपदेकत्र ।
 अविहितयाथातथ्यो जयति च सत्याश्रयः^१ सुचिरम् ॥ ३ ॥
 पृथिवीवल्लभशब्दो येषामन्वर्थतां चिरं जातः ।
 तद्वंशे (श्ये) षु जिगीषुषु तेषु बहुष्वप्यतीतेषु ॥ ४ ॥
 नानाहेतिशताभिघातपतितभ्रान्ताश्चपत्तिद्विपे

नृत्यद्वीमकबन्धवङ्गकिरणज्वालासहस्रे रणे^१ ।
 लक्ष्मीर्भाविनचापलादिव कृता शौर्येण येनात्मसा-
 द्राजासीजयसिंहवल्लभ इति ख्यातश्चलुकयान्वयः ॥ ५ ॥
 तदात्मजोऽभूद्रणरागनामा दिव्यानुभावो जगदेकनाथः ।
 अमानुपत्वं किल यस्य लोकः सुप्तस्य जानाति वपुःप्रकर्षात् ॥ ६ ॥
 तस्याभवत्तनुजः पुलकेशी यः श्रितेन्दुकान्तिरपि ।
 श्रीवल्लभोऽप्ययासीद्वातापिपुरीवधूवरताम् ॥ ७ ॥
 यत्रिवर्गपदवीमलं क्षितौ नानुगन्तुमधुनापि राजकम् ।
 भूश्च येन हयमेधयाजिना प्रापितावभृथमज्जना बभौ ॥ ८ ॥
 नलमौर्यकदम्बकालरात्रिस्तनयस्तस्य बभूव कीर्तिवर्मा ।
 परदारविवृत्तचित्तवृत्तेरपि वीर्यस्य रिपुश्रियानुकृष्टा ॥ ९ ॥
 रणपराक्रमलब्धजयश्रिया सपदि येन विरुग्णमशेषतः ।
 नृपतिगन्धगजेन महौजसा पृथुकदम्बकदम्बकदम्बकम् ॥ १० ॥

तस्मिन्सुरेश्वरविभूतिगताभिलाषे

राजाभवत्तदनुजः किल मङ्गलीशः ।

यः पूर्वपश्चिमसमुद्रतटोषिताश्चः

सेनारजःपटविनिर्भितदिग्वितानः ॥ ११ ॥

१ 'सत्याश्रय' यह पुलकेशीका नामान्तर है ।

स्फुरन्मयूखैरसिदीपिका शतैर्व्युदस्य मातङ्गतमिक्षसंचयम् ।
अवाप्तवान् यो रणरङ्गमन्दिरे कलच्चुरिश्रीललनापरिग्रहम् ॥ १२ ॥

पुनरपि च जिघृक्षोः सैन्यमाक्रान्तसालं
रुचिरबहुपताकं रेवतीद्वीपमाशु ।
सपदि महदुदन्वत्तोयसंक्रान्तबिम्बं
वरुणब्रलमिवाभूदागतं यस्य वाचा ॥ १३ ॥

तस्याप्रजस्य तनये नहुपानुभावे
लक्ष्म्या किलाभिलषिते पुलकेशिनाम्नि ।
सासूयमात्मनि भवन्तमतः पितृव्यं
ज्ञात्वापरुद्धचरितव्यवसायबुद्धौ ॥ १४ ॥

स यदुपचितमञ्जोत्साहशक्तिप्रयोग-
क्षपितबलविशेषो मङ्गलीशः समन्तात् ।
स्वतनयगतराज्यारम्भयत्नेन सार्धं
निजमतनु च राज्यं जीवितं चोज्जति स्म ॥ १५ ॥

तावत्तच्छत्रभंगे जगदखिलमरात्यन्धकारोपरुद्धं
यस्यासह्यप्रतापद्युतिततिभिरिवाक्रान्तमासीत्प्रभातम् ।
नृत्यद्विद्युत्पताकैः प्रजविनि मरुति क्षुण्णपर्यन्तभागै-
र्गर्जद्भिर्वारिवाहैरलिकुलमलिनं व्योम या(जा)तं कदा वा ॥ १६ ॥

लब्ध्वा कालं भुवमुपगते जेतुमाप्यायिकाख्ये
गोविन्दे च द्विरदनिकरैरुत्तराम्भोधिरथ्याः ।
यस्यानीकैर्युधि भयरसङ्गत्वमेकः प्रयात-
स्तत्रावातं फलमुपकृतस्यापरेणापि सबः ॥ १७ ॥

वरदातुङ्गतरङ्गरङ्गविलमद्गमानदीमेखलां

वनवासीमवमृद्रतः सुरपुरप्रस्पर्थिनी संपदा ।

महता यस्य बलार्णवेन परितः संछादितोर्वीतलं

स्थलदुर्गं जलदुर्गतामिव गतं तत्तक्षगे पश्यताम् ॥१८

गङ्गाम्बु पीत्वा व्यसनानि सप्त हित्वा पुरोपार्जितमंपदोऽपि ।

यस्यानुभावोपनताः सदासन्नासन्नसेवामृतपानशौण्डाः ॥ १९ ॥

कोङ्कणेषु यदाद्रिष्टचण्डदण्डाम्बुवीचिभिः ।

उदस्तास्तरसा मौर्यपल्वलाम्बुममृद्रयः ॥ २० ॥

अपरजलधेर्लक्ष्मीं यस्मिन्पुरीं पुरमित्प्रभे

मदगजघटाकारैर्नीवां शनैरवमृद्रति ।

जलदपटलानीकाकीर्णं नवोत्पलमेचकं

जलनिधिरिव व्योम व्योम्नः समोऽभवदम्बुधिः ॥ २१ ॥

प्रतापोपनता यस्य लाटमालवगूर्जराः ।

दण्डोपनतसामन्तचर्या वर्या इवाभवन् ॥ २२ ॥

अपरिमितविभूतिस्फीतसामन्तसेना-

मुकुटमणिमयूखाक्रान्तपादारविन्दः ।

युधि पतितगजेन्द्रानीकवीभत्सभूतो

भयविगलितहर्षो येन चाकारि हर्षः ॥ २३ ॥

मुचमुरुभिरनीकैः शासतो यस्य रेवा

विविधपुलिनशोभाबन्धविन्ध्योपकण्ठा ।

अधिकतरगराजत्वेन तेजोमहिम्ना

शिखरिभिरिभवर्ज्या वर्षणां स्पर्धयेत् ॥ २४ ॥

विधिवदुपचिताभिः शक्तिभिः शक्रकल्प-
स्तिस्मिरपि गुणैः स्वैश्च माहाकुलाद्यैः ।
अनमदधिपतित्वं यो महाराष्ट्रकाणां

नवनवतिसहस्रग्रामभाजां त्रयाणाम् ॥ २५ ॥

गृहिणां स्वगुणैस्त्रिवर्गस्तुङ्गा विहितान्यक्षितिपालमानभङ्गाः ।
अभवन्नुपजातभीतिलिङ्गा यदर्नाकेन सकोसलाः कलिङ्गाः ॥ २६ ॥

पिष्टं पिष्टपुरं येन जातं दुर्गमदुर्गमम् ।
चित्रं यस्य कलेर्वृत्तं जातं दुर्गमदुर्गमम् ॥ २७ ॥

संनद्धवारणघटास्थगितान्तराढं

नानायुधक्षतनरक्षतजाङ्गरागम् ।

आसीज्जलं यदवमर्दितमभ्रगर्भा-

केणालमम्बरमिवोर्जितसांध्यरागम् ॥ २८ ॥

उद्भूतामलचामरध्वजशतच्छन्नान्धकारैर्वलैः

शौर्योत्साहरसोद्धितारिमथनैर्मौलादिभिः पङ्क्तिभिः ।

आक्रान्तात्मबलोलतिं बलरजःसंलक्षकाञ्चीपुरः

प्राकारान्तरितप्रतापमकरोधः पल्लवानां पतिम् ॥ २९ ॥

कावेरी द्रुतशफरीविलोलनेत्रा चोलानां सपदि जयोद्यतस्तस्य (१) ।
प्रश्नयोतन्मदगजसेतुरुद्धनीरा संस्पर्शं परिहरति स्म रत्नराशेः ॥ ३० ॥

चोलकेरलपाण्ड्यानां योऽभूत्तत्र महर्द्धये ।

पल्लवानीकनीहारतुहिनेतरदीधितिः ॥ ३१ ॥

उत्साहप्रभुमन्त्रशक्तिसहिते यस्मिन्समन्तादिशो

जित्वा भूमिपतीन्विसृज्य महितानाराध्य देवद्विजान् ।

वातापीं नगरीं प्रविश्य नगरीमेकामिवोर्वीमिमां

चञ्चनीरघिनीरनीलपरिखां सत्याश्रये शासति ॥ ३२ ॥

त्रिंशत्सु त्रिसहस्रेषु भारतादाहवादितः ।

सप्तान्दशतयुक्तेषु श (ग) तेष्वन्देशु पञ्चसु (३७३५) ॥ ३३ ॥

पञ्चाशत्सु कलौ काले षट्सु पञ्चशतासु च (६५६) ।

समासु समतीतासु शकानामपि भूभुज्जम् ॥ ३४ ॥

तस्याम्बुधित्रयनिवारितशासनस्य

सत्याश्रयस्य परमाप्तवता प्रसादम् ।

शैलं जिनेन्द्रभवनं भवनं महिम्नां

निर्मापितं मतिमता रविकीर्तिनेदम् ॥ ३५ ॥

प्रशस्तेर्वसतेश्वास्या जिनस्य त्रिजगद्गुरोः ।

कर्ता कारयिता चापि रविकीर्तिः कृती स्वयम् ॥ ३६ ॥

येनायोजि नवेऽश्मस्थिरमर्थविधौ विवेकिना जिनवेश्म ।

स विजयनां रविकीर्तिः कविताश्रितकालिदासभारविकीर्तिः ३७

[प्राचीनलेखमाळा, प्रथमभाग, ले० १६, पृ० ६८-७२, से उद्धृत]

[यह शिलालेख बीजापुर (पूर्वका कलाङ्गी) जिलेके हुड्डुण्ड तालुकाके ऐहोळेके मेगुटि नामके प्राचीन मन्दिरकी पूर्वकी तरफकी दीवालपर है । लेखमें कुल १९ पंक्तियाँ हैं, जिनमेंसे १८ वीं पंक्ति पूर्ण और १९ वीं छोटी पंक्ति बादमें किसीकी जोड़ी हुई है और जिनमें महत्त्वपूर्ण कोई बात नहीं है ।

समूचा शिलालेख किसी रविकीर्तिका बनाया हुआ है । वे (रविकीर्ति) चालुक्य पुलकेशी सत्याश्रय (अर्थात् पश्चिमी चालुक्य पुलकेशी द्वितीय) के राज्यमें थे । यह राजा उनका संरक्षक या पोषक था । इन्होंने शिलालेखवाले जिवालयमें जिनेन्द्रकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा की । प्रतिष्ठाके समय यह लेख उत्कीर्ण करवाया गया था जिसमें सामान्यरूपसे चालुक्य वंशकी, और विशेषतः पुलकेशी द्वितीय (रविकीर्तिके आश्रयदाता) के

पराक्रमोंकी प्रशस्ति है । इस लेखमें आये हुए ऐतिहासिक तथ्योंका पूरा विवरण प्रो० भाण्डारकर और डा० फ्लीटने दिया है ।

इस लेख (या काव्य) का मुख्य भाग १७-३२ श्लोकोंका है । इनको रविकीर्ति के आशयानुसार, रघुवंशके (चौथे सर्गके) रघुदिविजयके समान, 'पुलकेशी-सत्याश्रय दिग्विजय' कहा जा सकता है । इस काव्य (कविता) की रचनामें रविकीर्तिका कालिदासके रघुवंशका तथा भार-विके किराताजुनीयका गहरा अध्ययन स्पष्ट काम कर रहा है; इसलिए उन्हींके शब्दोंमें उनका यह कथन कि 'स विजयतां रविकीर्तिः कविताश्रित-कालिदासभारवि-कीर्तिः' सचमुचमें ठीक है ।

श्लोक २२ में बताया गया है कि पुलकेशीका प्रताप इतना तेज था कि लाट, मालव और गूर्जर लोग अपने-आप ही उनकी शरण आते थे, बलपूर्वक नहीं ।]

[इ० ए०, जिल्द ५, पृ० ६७-७१]

१०९

लक्ष्मेश्वर—संस्कृत ।

—[?]—

जयत्यतिशयजिनैर्वासुरस्सुरवन्दितः ।

श्रीमाञ्जिनपतिस्सृष्टेरादेः कर्ता दयोदयः ॥

देहहिमरि (इह हि स्वस्ति) ॥

चालुक्यपृथ्वीवल्लभकुलतिलकेषु ब्रह्मव्रतीतेषु रणपराक्रमाङ्गमहाराजो भवत्तद्राजतनयः राजितनयो विवर्द्धितैश्वर्यश्चतुस्समुद्रान्तस्नाततुरङ्गेभपदा-तिसेनासमूहः एरेद्यनामवेयः श्रीमान् ॥

१ देखो प्रो० भाण्डारकरकी Early History of the Dekkan, 2nd ed., especially p. 51; और डॉ० फ्लीटकी Dynasties of the Kanarese Districts, 2nd ed. especially p. 349 ff.

अपि च ॥

शासतीमां समुद्रान्तां वसुधां वसुधाधिपे ।

सत्याश्रयमहाराजे राजत्सल्यसमन्विते ॥

भुजगेन्द्रान्वयसेन्द्रावनीन्द्रसन्ततौ अनेकनृपसन्तमेश्वतीतेषु तत्कुल-
गगनचन्द्रमाः बहुसमरविजयलब्धपताकाव्यासितदिगन्तरालवलयः
विजयशक्तिर्नाम नृपतिर्व्वभूव [II] तत्सूनुरुदिततरुणादिवाकरकरसम-
प्रभः सौ (शां)र्घ्य-धैर्य्य-सत्त्व-गुणोपपन्नः सामन्तवृ(वृ)न्दमौलि-
मालवलीढचरणः **कुन्दशक्तिर्नाम** राजाभूत् तस्य प्रियतनयः ॥ अद्वि-
तीयपुरुषकारसम्पन्नः । धर्मार्थकामप्रधानः अनेकरणविजयवीरपताका-
ग्रहणोद्धतकीर्तिः [III] तेन **दुर्गेशक्ति**नामधेयेन **शङ्खजिनेन्द्र** चैत्यनित्य-
पूजार्थं पुण्याभिवृद्धये च **पुलिगेरे**-नामनगरस्योत्तरपार्श्वे पञ्चाशन्नि-
वर्त्तनपरिमाणक्षेत्रं दत्तम् ॥ तस्य सीमा समाख्यायते [I] पूर्व्वतः **किन्न-
रीक्षेत्रम्** । पात्रकदिशि **ज्येष्ठलिङ्गभूमिः** । दक्षिणतः **घटिकाक्षेत्रम्** ।
नैर्ऋत्यां दिशि **दं (? पं)-डीस (श)** श्रेष्ठिभूमिः । पश्चिमतः **रामे-
श्वरक्षेत्रम्** वायव्यां **होनेश्वरक्षेत्रम्** । उत्तरतः **सिन्देश्वरक्षेत्रं ई (ऐ)**
शान्यां दिशि **भड्दारीक्षेत्रम्** । तदक्षिणतः पूर्व्वोक्त**किन्नरीक्षेत्रम्** ॥

देवस्वं विषं लोके न विषं नै (?) विषमुच्यते ।

विषमेकाकिनं हन्ति देवस्वं पुत्र-पौत्रिकम् ॥

[यह लेख, जिसमें उस बड़े शिलालेख (नं. १४९) का दूसरा भाग (पंक्तियाँ ५१-६१) निहित हैं, 'सेन्द्र' कुलका लेख हैं ।

१ यहाँ 'क' की जगह 'म' भी हो सकता है और तब 'मन्दशक्ति' पढ़ा जायगा । २ यह 'न' अतिरिक्त है और भूलसे जुड़ गया है ।

इसका प्रारम्भ 'रणपराक्रमाङ्क' नामके एक चालुक्य राजा और उसके पुत्र एरेंद्रयके उल्लेखसे हुआ है। लेकिन ये दोनों नाम पश्चिमी या पूर्वी चालुक्योंमेंसे किसीकी भी वंशावलीमें अभीतक नहीं मिले हैं। रणपराक्रमाङ्क शायद 'रणराग'के लिये उल्लेखित हुआ है, जो जयसिंह प्रथमका पुत्र और पुलिकेशी प्रथमका पिता था। जयसिंह प्रथमका जो दक्षिणके इस वंशके प्रथम पुरुष हैं, वर्णन कभी-कभी आता है।

इसके अनन्तर 'सत्याश्रय' नामके एक राजाका उल्लेख आता है। परन्तु उससे यह पता नहीं चलता कि इस उपाधि (सत्याश्रय) को धारण करनेवाले किस पश्चिमी चालुक्य राजासे मतलब है।

इसके बाद, सत्याश्रयके समकालवर्तीके तौरपर, 'दुर्गशक्ति' राजाका उल्लेख आता है। यह राजा 'भुजगेन्द्र' अर्थात् नागवंशके अन्वयसे सम्बन्ध रखनेवाले सेन्द्र राजाओंके वंशका था। यह विजयशक्तिके पुत्र कुन्दशक्तिका पुत्र था।

इसमें दुर्गशक्तिके द्वारा शङ्खजिनेन्द्र नामके चैत्यके लिये दिये गये भूमिदानका कथन है। यह भूमिदान पुलिगेरे नगरमें किया गया था।

लेखका काल नहीं दिया गया है। यह संभवतः प्राचीनतर कालका मालूम पड़ता है, जो यहाँ सिर्फ पूर्वकालके लेखके निश्चय या सुरक्षाके लिये ही दुहराया गया है।]

[इ० ए०, जिल्द ७, पृ० १०१-१११, नं० ३८ (पंक्तियों ५१-६१)]

११०

[यह लेख श्रवण-चेलोलाका संस्कृत और कन्नडमें है। इसे 'जैन शिलालेख-संग्रह प्रथम भाग' में देखना चाहिये।]

[L. Rice, EC, II, sr.-Bel. ins. no. 24.]

१११

लक्ष्मेश्वर—संस्कृत।

[शक ६०८=ई० सन् ६८७]

[यह लेख (मूल) इलियटके हस्तलिखितसंग्रहकी पहली जिल्दमें पृष्ठ २२ पर दिये गये ८७ पंक्तिवाले एक लेखका चौथा भाग है और पंक्ति ६९

धींसे शुरू होता है। उस समस्त लेखका सिर्फ कुछ भाग ही उस पुस्तकमें पाषाण-लेखपरसे लिया गया है, पूरा लेख नहीं। इसलिये उस लेखका यहाँ देना मुशकिल होनेसे सिर्फ उसकी विगत यहाँ दी जाती है।

उस विशाल लेखकी ६९ वीं पंक्तिसे एक दूसरा पश्चिमी चालुक्य शिलालेख शुरू हो जाता है। इस लेखकी ६९ से ८२ तककी पंक्तियाँ यद्यपि अस्पष्ट हैं, फिर भी अति सुरक्षित हैं; उसके नीचेकी पाँच पंक्तियोंका भी कुछ निशानोंसे पता चल जाता है, यद्यपि अक्षर इतने धिसे हुए हैं कि पढ़नेमें नहीं आते। इसमें पो(पु)लिकेशीवल्लभसे लेकर विनयादित्य-सत्याश्रय तककी वंशावली है और मूलसङ्घ अन्वयकी देवगण शाखाके किसी आचार्यको, उसके द्वारा दिये गये, दानका उल्लेख है। यह दान ६०८ शक वर्षके व्रीतनेपर जब उसके राज्यका पाँचवाँ या सातवाँ वर्ष चालू था और जब उसकी विजयका कैम्प (विजयस्कन्धावार) रक्तपुर नगरमें लगा हुआ था, माघ महीनेकी पूर्णमासीको दिया गया था। यह काल ७७-७८ पंक्तियोंमें यों दिया हुआ है:—अष्टोत्तर-षट्छत्तेसु शकवर्षेष्व्वितीतेषु प्रवर्द्धमानविजयराज्यपञ्चम-(? सप्तम)-संवत्सरे श्री रक्तपुरमधिवसति विजयस्कन्धावारे माघमासे पौर्णमास्याम्। यहाँ वार (दिन) नहीं दिया हुआ है।]

[इ० ए० ७, पृ० ११२, नं० ३९, चतुर्थभाग]

११२

श्रवणबेलगोला (बिना कालका)-कच्छ ।
(देखो "जैन शिलालेख संग्रह प्रथम भाग" ।)

११३

लक्ष्मेश्वर—संस्कृत ।

[शक ६५१=ई० सन् ७२९]

[यह लेख (मूल) इलियटके हस्तलिखित संग्रह (Elliot's Ms. Collection) की पहली जिल्दमें पृष्ठ २२ पर ८७ पंक्तिके एक बड़े लेखमें दिया हुआ है। उसमेंसे पंक्ति २८ से शुरू होकर पंक्ति ५३ तक

पश्चिमी चालुक्योंका शिलालेख है। इसमें पो (पु) लिक्केशीवल्लभ, अर्थात् पुलिकेशी प्रथमसे लेकर विजयादित्य सत्याश्रय तककी वंशावली दी हुई है तथा यह भी उल्लेखित है कि अपने राज्यके चौतीसवें वर्षमें जब कि शक संवत्के ६५१ वर्षे व्यतीत हो चुके थे फाल्गुनकी पूर्णिमाके दिन, जब कि उसका विजय-स्कन्धावार रक्तपुर नगरमें था, पुलिकर नगरकी दक्षिण सीमापर बसे हुए कर्दम गौवका दान अपने पिताके पुरोहित उदयदेव पण्डितको, जिन्हें 'निरवद्यपण्डित' भी कहते थे, दिया। ये श्रीपूज्यपादके शिष्य थे तथा मूलसंघ अन्वयकी देवगण शाखाके थे। यह दान पुलिकर नगरमें शङ्ख-जिनेन्द्रके मन्दिरके हितार्थ दिया गया था। कालनिर्देश पंक्ति ४२-४४ में यों दिया हुआ है:—एकपञ्चाशदुत्तरषट्छतेषु शकवर्षेष्वनीतेषु प्रवर्त्तमान-विजयराज्यसंवत्सरे चतुस्त्रिंशो वर्त्तमाने श्री-रक्तपुरमधिवसति विजयस्कन्धावारे फाल्गुनमासे पौर्णमास्याम् । वार (दिन) इसमें नहीं दिया हुआ है।]

[ई० ए०, ७, पृ० ११२, नं० ३९. (द्वितीय भाग)]

११४

लक्ष्मेश्वर—संस्कृत ।

[शक ६५६=७३४ ई०]

स्वस्ति [III]

जयत्याविःकृतं विष्णोर्व्याराहं क्षोभितार्णवं ।

दक्षिणोन्नतदंष्ट्राप्रविश्रान्तभुवनं वपुः ॥

श्रीमतां सकलभुवनसंस्तूयमानमानव्यसगोत्राणां हारीति-पुत्राणां सप्तलोकमातृभिः सप्तमातृभिरभिवर्द्धितानां कार्तिकेयपरिरक्षणप्राप्त-कल्याणपरम्पराणां भगवन्नारायणप्रसादसमासादितवराहलाञ्छनेक्षणव-शीकृताशेषमहीभृतां चालुक्यानां कुलमलंकरिष्णोरश्वमेधावभृथस्नानप-वित्रीकृतगात्रस्य श्रीपोलिकेशीवल्लभमहाराजस्य प्रियसूनुः श्रीकी-र्तिवर्मपृथ्वीवल्लभमहाराजस्तस्यात्मजस्य सत्याश्रयश्रीपृथ्वीवल्लभमहा-

राजाधिराजपरमेश्वरस्य प्रियतनयः (यस्य) प्रभावकुलिशदलितपाण्ड्य-
 चोल-केरल-कदम्बप्रभृतिभूषुदुदप्रविभ्रमस्य नित्यावनतकाञ्चीपतिमु-
 कुटचुम्बितपादाम्बुजस्य विक्रमादित्यसत्याश्रयश्रीपृथ्वीवल्लभमहा-
 राजाधिराजपरमेश्वरस्य प्रियसूनुः (नोः) सकलोत्तरापथनाथमथनोपा-
 र्जितपालिध्वजादिसमस्तपारमैश्वर्यचिह्नस्य विनयादित्यसत्याश्रयश्रीपृ-
 थ्वीवल्लभमहाराजाधिराजपरमेश्वरपरमभट्टारकस्य प्रियात्मजः साहसरस-
 रसिकः पराङ्मुखीकृतशत्रमण्डलस्सकलपारमैश्वर्यव्यक्तिहेतुपालिध्वजाद्युज्व
 (ज्व)लराज्यचिह्नो विजयादित्यसत्याश्रयश्रीपृथ्वीवल्लभमहाराजाधि-
 राजः (जः) [III] [तत्-]प्रियसूनोः प्रतिदिनप्रवर्द्धमानया(यौ)वनो (नस्य)
 रिपुमण्डलाक्रान्तिराज्याभ्युदयः (यस्य) कस्तूरीकिशोरविक्रमैकरसो
 (सस्य) विक्रमादित्यसत्याश्रयश्रीपृथ्वीवल्लभमहाराजाधिराजपरमेश्वर-
 भट्टारकस्य विजयस्कन्धावारे रक्तपुरमधिवमति पदपञ्चाशदुत्तरषट्छ-
 तेषु शक्रवर्षेष्वतीतेषु प्रवर्द्धमानविजयराज्यसंवत्सरे द्वितीये
 वर्त्तमाने माघपौर्णमास्यां मूलसंधान्वयदेवगणोदितः (नाय)
 परमतप(पः)श्रुतमूर्त्तिविशे(शो)करामदेवाचार्य्यशिष्यो (प्याय)
 विजितविपक्षवादिजयदेवपण्डितान्तेवासी (सिने) समुपगतैकवादि-
 त्वादिश्रीविजयदेवपण्डिताचार्य्याय जिनपूजाभिवृद्धवर्थं बाहु-
 वलिश्रेष्ठिविज्ञापनेन पुलिकरनगरस्य शङ्खतीर्थवसतेर्मण्डनमण्डितं
 तस्य धवलजिनालयस्य जीर्णोद्धारणं कृत्वा खण्डस्फुटितनवसंस्कार-
 बलिनिमित्तं दानशीलादिप्रवर्त्तनार्थं नगरादुत्तरस्यां दिशि गव्युतिप्रमाण-
 व्यवस्थितं कर्प्यटितटाकाइक्षिणस्यां दिशि राजमानेन शतार्द्धनिवर्त्तन-
 प्रमाणक्षेत्रं सर्व्ववाधापरिहारं दत्तम् [II] तस्य सीमा समाख्यायते ।
 पूर्व्वदिशि तत्साधितकिन्नरपाषाणाइक्षिणस्यामाशायां धवलपाषाणपार्श्व-

शम्यः । पश्चिमस्यां दिशि श्वेतपाषाणादेकशमी उत्तरस्यां दिशि आनीलपाषाणात् प्राक्प्रकाशिततटाकात् पूर्वस्यां दिशि अरुणपाषाणात् पूर्वोक्तव्यक्तकिन्नरपाषाणसंगता सीमा ॥

स्वं दातुं सुमहच्छक्यं दुःखमन्यस्य पालनम् ।

दानात्पालनाच्चेति (दानं वा पालनं चेति) दानाच्छ्रेयोऽनुपालनम् ॥

न विषं विषमित्याहुः देवस्वं विषमुच्यते ।

विषमेकाकिनं हन्ति देवस्वं पुत्र-पौत्रिकम् ॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् ।

पट्टि-वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥

प्रथ्यताम् जिनशासनम् [11]

[इ० ए०, जिन्द ७, पृ० १०१-१११, नं० ३८ (पंक्तियाँ ६१-८२)]

[यह लेख उस बड़े लेख (नं० १४९) का तीसरा व अन्तिम भाग (पंक्तियाँ ६१-८२ तक) हैं । यह पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीयका लेख है । यह उसके राज्यके द्वितीय वर्षका है जब कि शक वर्ष ६५६ (७३४-५ ई०) व्यतीत हो चुका था, और फलतः पूर्व किसी लेख (शिला-लेख या ताम्रपत्र) से यहाँ निश्चय या सुरक्षाके लिये दुहराया गया है । यह लेख उसकी छावनी 'रक्तपुर' से निकाला गया है । 'रक्तपुर' आजकलका कौन-सा स्थान है, यह नहीं कहा जा सकता ।

इसमें 'पुलिंकर'—पूर्वके दो शिलालेखोंका 'पुलिंगेरे'—शहरकी 'शङ्ख-तीर्थवसति' तथा 'धवलजिनालय' नामके एक दूसरे मन्दिरकी सजावट तथा मरम्मतका उल्लेख है और कहा गया है कि 'जिन' की पूजाके प्रबन्धके लिये कुछ भूमिदान किया गया ।

यह लेख अपने वंशावली-परिचायक भागमें पश्चिमी चालुक्योंके शिलालेखोंसे मिलता है । इसमें दो आगेकी पीढ़ियोंका—विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीयका, जो विनयादित्यके क्रमशः पुत्र और पौत्र हैं,—भी उल्लेख है ।]

११५

पञ्चपाण्डवमलै—(आर्कटके निकट)—तामिल

—[?]—

१. नन्दिप्पोत्तरश[] कु अय् [म्] बदावदु नाग[ण]न्दि-
गुर [वर]
२. [इरु] क पोञ्जिय [क्] किय[]र *पडिमं कोट्टुधिशा [त्र]
३. पु[ग]ळालैमंग[ल]त्तु मरुत्तुवर मगन् नारण-
४. न् [II]

अनुवाद—नन्दिप्पोत्तरशरके ५ वें (वर्ष) में,—पुगळालैमङ्गलके मरुत्तुवरके पुत्र नारणन् (नारायण) ने नागणन्दि (नागनन्दि) गुरुकी मूर्तिके साथ-साथ पोञ्जियकियारकी मूर्ति खुदवाई ।

[EI, IV, no. 14, A.]

११६

अनहिलवाड-पाटन—संस्कृत ।

(संवत् ८०२ = ई० स० ७४५)

यह शिलालेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका है ।

*[J. Burgess and H. Cousens, Antiquity of North Gujerat (A SI, XXXII).]

११७

श्रवणबेलगोला (विना कालका)—संस्कृत ।

[देखो “जैन शिलालेख-संग्रह प्रथम भाग” ।]

११८

नन्दी (गोपीनाथ पर्वत)—संस्कृत ।

विना कालनिर्देशका [=संभवतः ७५० ई० (लु० राहस)

[नन्दीमें, गोपीनाथ पहाड़ीके ऊपर गोपालस्वामी मन्दिरके पासकी चट्टानपर]

स्वस्ति श्रीमत् जितं भगवता जिनवर-वृषभेण वृषभेण पुरा कलि-
अवसर्पिण्यां द्वावरे युगे लोक-स्थितिरक्षार्थं काङ्क्षित-मनुष्य-जन्मना
पुरुषोत्तमेन सूर्य्य-वंश-व्योम-सूर्य्येण महारथेन दाशरथिना राम-स्वामिना
प्रतिष्ठापिताय भगवतोर्हतः परमेष्ठिनः सर्व्वज्ञस्य चैत्य-भवनाय पश्चात्
पाण्डवजनन्या कौ(कु)न्तिदेव्या पुनर्नवीकृत-संस्काराय भूमिदेव्या-
स्तिलकायमानाय स्वर्गापवर्गा-पदयोस्सोपान-पदवीभूताय धराधर-धर-
णेन्द्रस्य फणा-मणि-लीलानुकारिणे धराधरवराय जिनेन्द्र-चैत्य-सान्निध्यात्
पावनाय परम-तीर्थाय तपश्चरण-परायण-महर्षि-गणाव्यासित-कन्दराय
श्रीकुन्दाख्याय (यहाँ बन्द हो जाता है)

[वृषभ-देवको नमस्कार करनेके बाद,—

प्राचीन समयमें, कलि-अवसर्पिणीके द्वापर-युगमें, सूर्यवंशके गगनमें
सूर्यके समान, दशरथके पुत्र महारथ राम-स्वामी (रामचन्द्रजी)के द्वारा
अर्हन्त-परमेष्ठीका यह चैत्य-भवन प्रतिष्ठापित किया गया । बादमें,
पाण्डवोंकी माता कुन्तीने इसे फिरसे नया बनवा दिया ।

भूमिदेवीको तिलकके समान, स्वर्ग और अपवर्ग दोनोंके लिये सीढ़ी,
सब पर्वतोंमें उत्तम, जिनेन्द्र-चैत्य (बिम्ब)के सान्निध्यसे पवित्रीकृत,
परमतीर्थ, जिसमें जगह-जगह तपश्चरण-परायण महर्षिगणोंके लिये
कन्दराएँ (गुफायें) बनी हुई हैं, ऐसा 'श्रीकुन्द' नाम पर्वत (यहाँ लेख
खतम हो जाता है ।)

[EC, X, Chik-hallapur tl., no. 29.]

११९

बेलवत्ते—कन्नड़ ।

बिना काल-निर्देशका (संभवतः लगभग ७५० ई०)

[बेलवत्ते-मैसूर तालुकमें, बसवेश्वर मन्दिरके पश्चिमकी ओर]

नेरैयर्दि एर्दनु मुने.....ळलियु प्रमिन्न-वाग्वि बिल्लोरु गुरि.....

१ प्रारम्भके शब्द 'स्वस्ति' को यहाँ अन्तमें लगा देनेसे यह लेख संभाव्य-
रूपसे पूर्ण समझा जा सकता है, क्योंकि 'स्वस्ति'के योगमें चतुर्थी विभक्ति होती
है, जो यहाँ है ।

हुं एल्लु दवे तम्म क्षेमकिरदल्लि-मेच्चिर ताव्वदु परत्रे यपुदेवदेरू महा-
 प्रभु-गोवपय्यन् इन्त् इव्वदु समाधियोळे मुडिपि ताव्विददन्नितमरेन्द्र-
 भोगमं ॥ पवेदोम् श्री-पुरुषय्यल् आम्मु-मोदलोळ् कल्लनाडन् अन्दों
 वळेक् एदेयोळ् अक्कुडु भूतिमूतुगानो दोत धाण धीक्षे सळे पडेदे....
 पितृ-कल्लत्र-मित्र-जनमं काव्यान्य ताव्वद् अप्पोडी-नुडियल् वेळ्कुमे पेम्पन्
 ओप्प गुणते तोळ्मिकिळ्ळद गोपय्यनम् ॥

[महाप्रभु गोवपय्यको श्रीपुरुषकी तरफसे भूमि-दान मिला था और
 वे (गो. प.) समाधिमरणपूर्वक मरे थे ।]

[EC, III, Mysore tl., no. 6]

१२०

देवलापुर—कन्नड़ ।

विना कालनिर्देशका (संभवतः लगभग ७५० ई०)

[देवलापुर (कृष्णहल्लि तालुका), मारीगुडीके पूर्वमें]

स्वस्ति श्रीपुरुष-महा.....पृथुची-राज्यकेये अरट्टि.....रम्मगन्दिर्
 सिंगं दीक्षे वीळ्ळुदु अरट्टि-तीर् कुडल्लरद गोडे मडिओडे-यम्बर
 आळ्विकय

(पृष्ठभागपर)

नोक्कत्र-ओडे आगदीकड.....कोट्ट नेळ तेनेन्धक कार्ळेरुक् साक्षी
 कुडल्ल पोडुल्लरं एल्लमडियरं एल्लिरियरं मदुगरं कागव्वरं साक्षि आग
 कोट्टु आळ् आळ् किडिशिदोन वारणासिया शासिर-कविले शासिर-
 पार्वर कोन्द कोले आक्का कोडिशिदोनु.....कडुवेडिळ्ळोनुडि तेने...
 त्रिद स्वचोनु.....अरट्टिग तळ्ळ कुडल्लर आव्वत्ति

[जिस समय इस पृथ्वीपर श्री-पुरुष महाराज राज्य कर रहे थे;— अरट्टि.....के पुत्र सिंगम् के (जिम) दीक्षा लेनेके बाद, (उसकी मां) अरट्टितिने कुडलर् किलेके मडि-ओडेके द्वारा शासित प्रदेशमें भूमिदान किया ।]

[EC, III, Mysore tl., no. 25.]

१२१

देवरहल्लि—संस्कृत तथा कन्नड ।

शक सं० ६९८=७७६ ई०

[देवरहल्लि (देवलपुर प्रदेश)में, पटेल कृष्णय्यके ताम्रपत्रोंपर]

(Ib) स्वस्ति जितं भगवता गतघनगगनाभेन पद्मनाभेन श्रीम-
जाह्वेयकुलामलव्योमावभासनभास्करः स्वखड्गप्रहारखण्डितमहाशिला-
स्तम्भलब्धत्रलपराक्रमो दारुणारिगणविदारणोपलब्धत्रणविभूषणभूषितः
काण्वायन-सगोत्रः श्रीमत्कोङ्गणिवर्मधर्ममहाधिराजः तस्य पुत्रः
पितुर्न्नागतगुणयुक्तो विद्याविनयविहितवृत्तिः सम्यक्प्रजापालनमात्राधि-
गतराज्यप्रयोजनो विद्वत्कविकाञ्चननिकषोपलभूतो नीतिशास्त्रस्य वक्तृ-प्रयो-
क्तकुशलो दत्तकसूत्रवृत्तेः प्रणेता श्रीमान् माधवमहाधिराजः तत्पुत्रः
पितृपंतामहगुणयुक्तोऽनेकाचातुर्दन्तयुद्धावाप्तचतुरुदधिसल्लिलास्त्रादितयशः
श्रीमद्भरिवर्ममहाधिराजः तस्य पुत्रो द्विजगुरुदेवतापूजनपरो
(IIa) नारायणचरणानुध्यातः श्रीमान् विष्णुगोपमहाधिराजः
तत्पुत्रः त्र्यम्बकचरणाम्भोरुहरजःपवित्रीकृतोत्तमाङ्गः स्वभुजबलपराक्रम-
क्रयक्रीतराज्यः कलियुगबलपङ्कावसन्नधर्मवृषोद्धरणनिव्यसन्नद्धः श्रीमान्
माधवमहाधिराजः तत्पुत्रः श्रीमत्कदम्बकुलगगनगभस्तिमालिनः
कृष्णवर्ममहाधिराजस्य प्रियभागिनेयो विद्याविनयातिशयपरिपूरिता-
न्तरात्मा निरवग्रहप्रधानशौर्यो विद्वस्तु ? (विद्वत्सु) प्रथमगण्यः श्रीमान्

कोङ्गणिमहाधिराजः अविनीतनामा तत्पुत्रो विजृम्भमाणशक्तित्रयः
अन्दरि-आलचूर्-प्पोरुळरें-पेळ्ळनगराधनेकसमरमुखमखहुतप्रहतशूर-
 पुरुषपशूपहारविधसविहस्तीकृतकृतान्ताग्निमुखः किरातार्जुनीयपञ्चदश-
 सर्ग- (IIb) टीकाकारो **दुर्विनीतनामधेयः** तस्य पुत्रो दुर्दा-
 न्तविमर्हविमृदितत्रिश्चम्भराधिपमौलिमालामकरन्दपुञ्जपिञ्जरीक्रियमाणचरण-
 युगलनलिनो **मुष्करनामधेयः** तस्य पुत्रश्चतुर्दशविद्यास्थानाधिगत-
 विमलमतिः विशेषतोऽनवशेषस्य नीतिशास्त्रस्य वक्तृप्रयोक्तृकुशलो रिपुति-
 मिरनिकरनिराकरणोदयभास्करः **श्रीविक्रमप्रथितनामधेयः** तस्य पुत्रः
 अनेकसमरसम्पादितविजृम्भितद्विरदरदनकुलिशाघ्रात - व्रणसंरूढभास्वद्वि-
 जयलक्षणलक्षीकृतविशालवक्षस्थलः समधिगतसकलशास्त्रार्थतत्त्वसमा-
 राधितत्रिवर्गो निरवद्यचरितर् प्रतिदिनमभिवर्द्धमानप्रभावो **भूविक्रम-**
 नामधेयः

अपि च—

नानाहेतिप्रहारप्रविघटितभटोरष्कवाटोन्थितास्रग्-
 धारास्वाद-प्र(IIIa) मत्तद्विपशतचरणक्षोदसम्मर्द्भीमे ।
 संग्रामे **पल्लवेन्द्रं** नरपतिमजयद्यो **विळन्दा-**भिधाने
राज-श्रीवल्लभाख्यस्समरशतजयावाप्तलक्ष्मीविलासः ॥
 तस्यानुजो नतनरेन्द्रकिरीटकोटि-
 रत्नार्कदीधितिविराजितपादपद्मः ।
 लक्ष्म्या स्वयम्भृतपतिर्नैवकामनाया
 शिष्टप्रियोऽरिगणदारणगीतकीर्तिः ॥

तस्य **कोङ्गणिमहाराजस्य शिवमारा**परनामधेयस्य पौत्रः सम-
 वनतसमस्तसामन्तमुकुटतटघटिनब्रह्मलक्ष्मिलसदमरधनुषखण्डमण्डितच-

रणनखमण्डलो नारायण[चरण]निहितभक्तिः शूरपुरुषपुरगनरवारणघटासं-
घट्टदारुणसमरशिरसि निहितात्मकोपो भीमकोपः प्रकटरतिसमयसमनु-
वर्त्तनचतुरयुवतिजनलोकधूर्तोऽलोकधूर्तः सुदुर्द्धरानेकयुद्धमूर्धलब्धविजय-
सम्पद हितगजघ्न (IIIb) टाकेसरी राजकेसरी । अपि च ।

यो गङ्गान्वयनिर्मलाम्बरतलव्याभासनप्रोल्लसन-
मार्त्तण्डोऽरिभयङ्करः शुभकरस्सन्मार्गरक्षाकरः ।
सौराज्यं समुपेत्य राज्यसमितौ राजन् गुणैरुत्तमै-
राज-श्रीपुरुषश्चिरं विजयते राजन्य-चूडामणिः ॥
कामो रामासु चापे दशरथतनयो विक्रमे जामदग्न्यः
प्राज्यैश्वर्ये बलारिर्वृद्धमहसि रविस्व-प्रभुत्वे धनेशः ।
भूयो विख्यातशक्तिस्फुटरमखिलं प्राणभाजं विधाता
धात्रा सृष्टः प्रजानां पित(पति)रिति कवयो यं प्रशंसन्ति नित्यं ॥

तेन प्रतिदिनप्रवृत्तमहादानजनितपुण्याहवोपमुग्धरितमन्दिरोदरेण
श्रीपुरुषप्रथमनामधेयेन पृथुवीकोङ्गणिमहाराजेन अष्टानवत्युत्तरे-
[षु] पदच्छलेषु शक्रवर्षेष्वतीतेष्वात्मनः प्रवर्द्धमानविजयैश्वर्ये
संवत्सरे पञ्चाशत्तमे प्रवर्त्तमाने मान्यपुरमधिव-(IVa) सति
विजयस्कन्धावारे श्रीमूल-मूलगणाभिनन्दितनन्दिसङ्गान्वये एरेगित्तू-
र्नाम्नि गणे पुलिकल्गच्छे स्वच्छतरगुणकिरण]प्रततिप्रह्लादितसकललोकः
चन्द्र इवापरः चन्द्रनन्दीनाम गुरुरासीत् तस्य शिष्यस्समस्तविबुधलो-
कपरिरक्षणक्षमात्मशक्तिः परमेश्वरलालनीयमहिमा कुमारवद्वितीयः कुमार-
ण(न)न्दी नाम मुनिपतिरभवत् तस्यान्तेवासी समधिगतसकलतत्त्वार्थ-
समर्थितबुधसार्थसम्पत्सम्पादितकीर्त्तिः कीर्त्त(र्त्ति)नन्द्याचार्यो नाम
महामुनिस्समजनि तस्य प्रियशिष्यः शिष्यजनकमलाकरप्रबोधनकः

मिथ्याज्ञानसन्ततसन्तमससन्तानान्तकसद्धर्मव्योमावभासनभास्करः **विम-**
लचन्द्राचार्यस्समुदपादि तस्य (IV b) महर्षेर्द्धर्मोपदेशनया
 श्रीमद्भागकुलकलः सर्वतपमहानन्दीप्रवाहः महादण्डमण्डलाप्रखण्डितारि-
 मण्डलद्रुमपण्डो दुण्डुप्रथमनामधेयो **नीर्गुन्द**युवराजो जज्ञे तस्य प्रियात्मजः
 आत्मजनितनयविशेषनिःशेषीकृतरिपुलोकः लोकहितमधुरमनोहरचरितः
 चरितात्थत्रिकरणप्रवृत्तिः **परमगूळ**प्रथमनामधेयश्रीपृथुवीनीर्गुन्दराजो-
 ऽजायत पल्लवाधिराजप्रियात्मजायां सगरकुलतिलकात् **मरुवर्म**णो
 जाता **कुन्दाञ्चि**नामधेया भर्तृभवन आब्रभूव भाय्या तथा सततप्रवर्तित-
 धर्मकार्यया निर्मिताय **श्रीपुरो**त्तरदिशमलङ्कुर्वते **लोकतिलक**नाम्ने
जिनभवनाय खण्डस्फुटितनवसंस्कारदेवपूजादानधर्मप्रवर्तनार्थं तस्यैव
 पृ(Va) **थिवीनीर्गुन्दराज**स्य विज्ञापनया महाराजाधिराजपरमेश्वरश्री-
जसहितदेवेन नीर्गुन्दविषयान्तर्पाति **पोन्नळ्ळि**नामग्रामस्सर्वपरिहारोपेतो
 दत्तः तस्य सीमान्तराणि पूर्वस्यां दिशि नोल्लिबेळदा बेळगल्-मोरीदि पूर्व-
 दक्षिणस्यां दिशि पण्यङ्गेरी दक्षिणस्यां दिशि बेळगल्लिगेरिया ओळगेरिया
 पल्लदा कूडळ् दक्षिणपश्चिमायान्दिशि जैदरा केथ्या बेळगल्-मोरेडु पश्चि-
 मायान्दिशि पोङ्गेवि तालुत्रायराकेरी पश्चिमोत्तरस्यां दिशि पुणुसेया
 गोडेगाला कळ्कुप्पे उत्तरस्यां दिशि सामगेरेया पोल्लदा पेम्भुरिक्कु उत्तर-
 पूर्वस्यां दिशि कळ्म्बेत्ति-गट्टु इमान्यन्यानि क्षेत्रान्तराणि दत्तानि दण्डुम-
 मुद्रदा वयल्लुळ् किर्ददारीमेगे **पदिर्कण्डुगं** मण्णं **पळेया एरेनल्लूरा**
 ऊर्पाळु ओर्कण्डुगं **श्रीवुरदा** दु (Vb) **ण्डुगामुण्डरा** तोण्टदा पडु-
 वायोन्दुतोण्ट श्रीवुरदा वयल्लुळ् कर्मर्गट्टिनल्लि इर्कण्डुगं कळ्ळनि पेर्गेरिया
 केळ्ळे आर्हगण्डुगमेरे पुल्लिगेरिया कोयिल्गोडा एडे इर्पत्तुगण्डुगं ब्बेडे
 आदुवु श्रीवुरदा बडगण पडुवण कोणुळ्ळण् **देवङ्गेरि** मदमने ओन्दं

मूवत्ता-ओन्दु मनेय मनेताणमस्य दानसाक्षिणः अष्टादश प्रकृतयः ॥
 (VIa) अस्य दानस्य साक्षिणः षण्णवतिसहस्रविषयप्रकृतयः योऽस्या-
 पहर्त्ता लोभात् मोहात् प्रमादेन वा स पञ्चभिर्महद्भिः पातकैस्संयुक्तो
 भवति यो रक्षति स पुण्यभाग्भवति अपि चात्र मनु-गीताः श्लोकाः

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् ।
 षष्टिं वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥
 स्वं दातुं सुमहच्छक्यं दुःखमन्यस्य पालनम् ।
 दानं वा पालन वेति दानाच्छ्रेयोनुपालनम् ॥
 बहुभिर्व्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः ।
 यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फलम् ॥
 देवस्त्वं तु विषं श्वरं न विषं विपमुच्यते ।
 विपमेकाकिनं हन्ति देवस्त्वं पुत्र-पौत्रकम् ॥

सर्व्वकलाधारभूतचित्रकलाभिज्ञेन विश्वकर्म्मचार्य्येणोदं शासनं
 लिखितं चतुष्कण्डुकत्रीहित्रीजावापमात्रं द्विकण्डुककङ्कुक्षेत्रं तदपि ब्रह्म-
 देयमित्र रक्षणीयम् ॥

[इस लेखमें सर्व्वप्रथम गङ्गनरेशोंकी राजपरम्परा बताई गई है । वह
 निम्न भाँति थीः—

१ काण्वायनसगोत्रीय कोङ्कणिवर्म्म-धर्म्म-महाराजाधिराज ।

इनके पुत्र—

२ माधव-महाधिराज; ये दत्तकसूत्र-वृत्ति (टीका)के प्रणेता थे ।

इनके पुत्र—

३ हरिवर्म्म-महाधिराज ।

इनके पुत्र—

४ बिष्णुगोप-महाधिराज ।

इनके पुत्र—

शि० ८

- ५ माधव-महाधिराज । इनके पुत्र—
- ६ कदम्बकुलके सूर्य कृष्णवर्म महाधिराजकी बहिनके पुत्र अविनीत नामके कोङ्गणि-महाधिराज थे । इनके पुत्र—
- ७ तुर्विनीत थे । इन्होंने अन्दरि, आलत्तूर, पोरुळरें, पेल्लनगर तथा और भी अन्य जगहोंके युद्धोंको जीता था । ये किरातार्जुनीय संस्कृत काव्यके १५ सगौ तकके टीकाकार भी थे । इनके पुत्र—
- ८ सुष्कर थे । इनके पुत्र—
- ९ श्रीविक्रम । इनके पुत्र—
- १० भूविक्रम हुए, जिन्होंने विलन्द नामक स्थानमें पल्लवेन्द्र नरपति-को जीता था । सौ युद्धोंमें जीतनेसे प्राप्त लक्ष्मीका विलास (भोग) करनेसे इनको 'राज-श्रीवल्लभ' भी कहते थे । इनके अनुजका नाम नवकाम था ।
इसके पश्चात्— उन कोङ्गणिमहाराजका जिनका दूसरा नाम 'शिव-मार' था पौत्र
- ११ राज-श्रीपुरुष हुआ । इन्हींका द्वितीय नाम 'पृथिवीकोङ्गणिमहा-राज' था । ये जब, शक सं० के ६९८ वर्ष बीत जाने पर और अपने राज्यका जब ५० वीं वर्ष चालू था, अपने विजयस्कन्धावार मान्यपुरमें निवास कर रहे थे, तब:—
मूल मूलसंघमेंसे निकले हुए नन्दिसंघके एरेगित्तूर-गणके पुलिकल्ल-भारुळमें चन्द्रनन्दि गुरु हुए । उनके शिष्य कुमारनन्दि मुनिपति, उनके शिष्य कीर्त्तिनन्द्याचार्य, उनके शिष्य विमलचन्द्रा-चार्य हुए ।
- १२ इन महर्षिके धर्मोपदेशसे निर्गुन्द युवराज, जिनका पहला नाम 'दुण्डु' था और जो 'बाणकुल' के नाशक प्रतिबुद्ध हुए थे । इनके पुत्र—
- १३ पृथिवी-निर्गुन्द-राज हुए । इनका पहला नाम परमगूल था । इनकी पत्नीका नाम कुन्दाग्नि था । यह सगरकुल-तिलक मरुवर्माकी पुत्री थीं और इनकी माता पल्लवाधिराजकी प्रियपुत्री थीं जो मरुवर्माकी पत्नी थीं । इसने (कुन्दाग्नि) श्रीपुरकी उत्तर दिशामें 'लोकतिलक' नामका

जिनमन्दिर बनवाया था। उसकी मरम्मत, नई वृद्धि, देवपूजा, दानधर्म आदिकी प्रवृत्तिके लिये पृथिवी-निर्गुन्द-राजके कहनेसे महाराजाधिराज परमेश्वर श्री-जसहित-देवने निर्गुन्द देशमें आनेवाले 'पोखलि' ग्रामका दान, सर्व करों और बाधाओंसे मुक्त करके दिया।

इसके बाद इस लेखमें इस गाँवकी आठ दिशाओंकी सीमा दी हुई है। तथा अन्य क्या-क्या क्षेत्र दानमें दिये गये थे उनकी सूची है। दानके साक्षी कौन-कौन थे, इसका उल्लेख है। तत्पश्चात् मनुके वे प्रसिद्ध चार श्लोक हैं जो बहुत-से शिलालेखोंके अन्तमें पाये जाते हैं। सबसे अन्तमें, इस लेख (शासन) को उरक्रीर्ण करनेवाले शिल्पीने अपना नाम 'विश्व-कर्माचार्य' दिया है तथा उसी समय उसको भी कुछ भूमिदान किया गया था उसका भी इसमें उल्लेख है।]

[EC, IV, Nagamangala tl. n° 85]

१२२

मण्णे—संस्कृत।

शकवर्ष ७१९=७९७ ई०

[मण्णेमें, शीलवन्त रुद्रय्यके अधिकारके ताम्रपत्रों पर]

(१ ब) स्वस्ति जितं भगवता गत-घन-गगनाभेन पद्मनाभेन श्रीमज्जाह्वेय-कुलामल-व्योमात्रभासन-भास्करः स्वखड्गैकप्रहार-खण्डित-महा-शिला-स्तम्भ-लब्ध-बल-पराक्रमो दारुणारि-गणविदारणोपलब्ध-व्रण-विभूषण-भूषितः काण्वायन-सगोत्रः श्रीमत्-कोङ्कणि-वर्म-धर्म-महा-धिराजः, तस्य पुत्रः पितुरन्वागत-गुण-युक्तो विद्या-विनय-विहित-वृत्तः (त्तिः) सम्यक्-प्रजा-पालन-मात्राधिगत-राज्य-प्रयोजनो विद्वत्कवि-काञ्चन-निक-षोपल-भूतो नीतिशास्त्रस्य वक्तृ-प्रयोक्तृ-कुशलो दत्तक-सूत्र-वृत्तेः प्रणेता श्रीमान् माधव-महाधिराजः, तत्पुत्रः पितृ-पितामह-गुण-युक्तोऽनेकचा-तुर्-दन्त-युद्धावाप्त-चतुरुदधि-सलिलास्त्रादितयशःश्रीमद्भरिवर्म-महा-धिराजः, तत्पुत्रो द्विज-गुरु-देवता-पूजन-परो नारायण-चरणानुध्यातः

श्रीमान् विष्णुगोपमहाधिराजः, तत्पुत्रस् त्र्यम्बक-चरणाम्भोरुह-रजः-
 पवित्रीकृतोत्तमाङ्गः स्व-भुज-बल-पराक्रम-ऋय-(२ अ)कृ(क्री)तराज्यः कलि-
 युग-बल-पङ्कावसन्न-धर्म-वृषोद्धरण-नित्य-सन्नद्धः श्रीमान् **माधव-महाधि-
 राजः**, तत्पुत्र [श] श्रीमत्-कदम्ब-कुल-गगन-गभस्तिमालिनः **कृष्णव-
 र्म-महाधिराजस्य** प्रिय-भागिनियो विद्या-विनयातिशय-परिपूरितान्तरात्मा
 निरवग्रह-प्रधान-शौर्यो विद्वत्सु प्रथम-गण्यः श्रीमान् **कोङ्कणि-महाधि-
 राजः अविनीत**-नामा, तत्पुत्रो विजृम्भमाणशक्ति-त्रयः अन्दरि-आल-
 चूर्-प्पोरुळरे-पेळनगराद्यनेकसमर-मुख-मख-हुत-प्रहत-शूर-पुरुष-पशूप-
 हार-विघस-विहस्तीकृत-कृतान्ताग्नि-मुखः किरातार्जुनीय-पञ्च-दश-सर्ग-
 टीकाकारो **दुर्विनीत**-नामधेयः, तस्य पुत्रो दुर्दान्त-विमर्द-विमृदित-
 विश्वम्भराधिप-मौलि-माला-मकरन्द-पुञ्ज-पिञ्जरीक्रियमाण-चरण-युगलन-
 लिनो **मुष्कर**-नामधेयः, तस्य पुत्रश्चतुर्दश-विद्या-स्थानाधिगत-विमल-मति-
 विशेषतोऽनवशेषस्य नीति-शास्त्रस्य षड् (ऋ)-प्रयोक्तृ-कुशलो रिपु-
 तिमिर-निकर-निराक[र]णोदय-भास्करः **श्रीविक्रम**-प्रथित-ना[म]धेयः,
 तस्य पुत्रः अनेक-समर-सम्पादित-विजृ (२ ब) भिमत-द्विरद-रदन-
 कुलिशाभिघात-वर्ण(व्रण)संरूढ-भास्वद्विजय-लक्षण-लक्ष्मीकृत-विशाल-व-
 क्षस्थलः समधिगत-सकल-शास्त्रार्थ-तत्त्वस्समाराधित-त्रिवर्गो निरवद्य-
 चरित[ः]प्रतिदिनमभिवर्द्धमान-प्रभावो **भूविक्रम**नामधेयः

अपि च

नाना-हेति-प्रहार-प्रविवटित-भटोरःकवाटोत्थितासृग्-
 धारास्वाद-प्रमत्त-द्विप-शतचरण-क्षोद-सम्मर्द-मीमे ।
 सङ्गमे पल्लवेन्द्रं नरपतिमजयद् यो विळन्दाभिधाने
 राजा श्रीवल्लभाख्यस्समर-शत-जयावाप्त-लक्ष्मी-विलासः ॥

तस्यानुजो नत-नरेन्द्र-किरीट-कोटि-
रत्नार्क-दीधिति-विराजित-पाद-पद्मः ।
लक्ष्म्या स्वयम्भृत-पतिर्भव-काम-नामा
शिष्ट-प्रियोऽरि-गण-द्वारण-गीत-कीर्त्तिः ॥

तस्य कोङ्कणि-महाराजस्य शिवमारापर-नामधेयस्य पौत्रः समवन-
तसमस्त-सामन्त-मुकुट-तट-घटित-बहल-रत्न-विलसदमर-धनुष्-खण्ड-म-
ण्डित-चरण-नख-मण्डलो नारायण-चरण-निहित-भक्तिः[ः]शूर-पुरुष-तुरग-
नरवारण-घटा-संघट्ट-दारुण-समर-शिरसि भी(निहि)तात्म-कोपो भीम-कोपः
प्रकटरति-समय-समनुवर्तन-चतुर-युवति-जन-लोक-धूर्त्तोऽलोक-धूर्त्तः सुदु-
र्धरानेक-युद्ध-मूर्द्ध-लब्ध-विजय-सम्पदहित-गज-घटा-केसरी राज-केसरी ।

अपि च

यो गङ्गान्वय-निर्मलाम्बर-तल-व्याभासन-प्रोल्लसन्-
मार्त्तण्डोऽरि-भयंकरश्शुभकरस्सन्मार्गी(३ अ) रक्षा-करः ।
सौराज्यं समुपेत्य राजसमितौ राजद्(न्)-गुणैरुत्तमै
राजा श्रीपुरुषश्चिरं विजयते राजन्य-चूडामणिः ॥
कामो रामासु चापे दशरथ-तनयो विक्रमे जामदग्न्यः
प्राज्यैश्चर्य्ये बलारिर्वा(व)हु-महसि रविः स्व-प्र[भुत]वे धनेशः ।
भूयो विख्यात-शक्तिस्स्फुटतरमखिलप्राण-भाजं विधाता
धात्रा सृष्टः प्रजानां पतिरिति कवयो यं प्रशंसन्ति निल्यम् ॥

स तु प्रतिदिन-प्रवृत्त-महादान-जनिन-पुण्याह-घोष-मुखरित-मन्दि-
रोदरः श्रीपु[रु]ष-प्रथम-नामधेयः पृथिवी-कोङ्कणि-[म]हाधिराजः,
तत्पुत्रः प्रताप-विनमित-सकेल-महीपाल-मौलि-माला-ललित-चरणारविन्द-
युगलो निज-भुज-विराजि-निशित-खड्ग-पट्ट-समाकृष्टानिष्ट धरावल्लभ-

जय-श्री-समालिङ्गितरसमर-मुख-सम्भुखागत-रिपु-नृपति-गज-घटा-कुम्भ-
निर्घेदनोच्चलित-रक्त-च्छटा-पात-पाठलित-निज-भुज-स्तम्भः आ-कर्ण-
समाकृष्ट-चाप-चक्र-विनिर्मुक्त-नाराच-परम्परा-पात-पातिताराति-मण्डलो
बहु-समर-समार्जित-जय-पताका-शत-[श]वलित-नभस्-तलः

यस्मिन् प्रयातवति कोप-वशं महीशे

यान्ति क्षणादहित-भूमिभुजो रणाग्रे ।

अन्त्रावली-वलय-मीषणमन्तक (३ व) स्य

वक्त्रान्तरं क्षतज-कर्दम-दुर्तिरीक्ष्यम् ॥

स तु शिशिरकर-निर्मल-निज-यशो-राशि-विशदीकृत-दशाशा-चक्रः[ः]
समस्त-चक्रवर्ति-लक्षणोपलक्षितो निरपेक्षा-परोपकार-सम्पादनैक-व्यसनः
प्रवर्तित-न्याय-बल-समुन्मूलित-कलि-काल-विटसितो निपुण-नीति-प्रयो-
गापहसित-बृहस्पतिः कु-नृपति-कदम्बक-कपाट-कोटि-विघ्नहित-धर्मावले
.....न.....शिलास्तम्भायमान-चरितः सतत-प्रवृत्त-दान-सन्तर्पित-द्विजा-
ति-लोकः ।

प्रोन्मूलित-विकारेण सर्व-लोकोपकारिणा ।

यस्य दानेन दिङ्-नाग-दान-धाराप्यधःकृता ॥

अपि च

जटानां संवातैरिह भुवि कृतोऽनून-विपदाम्

कलानामाधारो बुध-जन-हितः पालन-परः ।

गुणानां शुद्धानामपि नियतमुत्पत्ति-भवनम्

नृपाणां नेता.....कविरिति मनः काव्य-कुशलः ॥

दुर्व्व(दुरव)भाह-फणिसुत-मत-पारावार-पारदृष्टा प्रमाण-शास्त्र-शाण-
निशातीकृत-धीर-धिषणः सामज-तन्त्र-तत्त्वावबोध-विमदीकृत-मु(बु)धो

हस्तिनी-(व)वक्रोद्भव-यति-प्रवर-मतावबोधन-गमीर-मर्तिव्विद्वान्-मति-
वितति-विकल्प.....विचार-विचक्षणोऽङ्गीकृत]-तुरङ्गमागम-प्रयोग-
परिणतो धनु-र्विद्याम्भोरुह-वन-गहन-विकासित-विदग्ध-म(४ अ)रीचि-
माली निज-निर्मित-गज-मत-कल्पनानल्प-चेता विराजित-सेतु-बन्धनो
नन्दित-विपश्चिन्मण्डलस्सकल-नाटक-विषय-सन्धि-सन्ध्यङ्गादि-योजना-
चतुरो निरुपम-निज-रूप-निर्जित-मकरध्वजो मकरध्वज-गुरु-चरण-
सरोज-विनमन-पवित्री-कृतोत्तमाङ्गो मुदुकुन्द-नाम-प्रागोपविष्ट-राष्ट्रकूट-
चालुक्य-हैहय-प्रमुख-प्रवीर-सनाथ-वल्लभ-सैन्य-विजय-विख्यापित-
प्रभावः ।

अपि च ।

शोराश्रीयं समन्तात् प्रबलमुपगत-व्याप्त-दिक्-चक्रवालम्
निर्जित्यानेक-संख्यैर्निर्जित-निज-भुजोन्मुक्त-नाराच-जालैः ।
देवो यः प्राज्यन्तेजस् तिमिरमिव महत्-तीव्रभानुर्मयूखैर्
दुर्वारोदार-पातैरुदयमभिलपन् स्वज्जिवेशं विवेश ॥

स तु हरिरिव सतत-सम्भावित-द्विज-पतिः सहस्रकिरण इव प्रति-
दिवसोचितोदयः भुजङ्गलोक इव विगत-भयो (३) आत्माकर इवास्पृष्ट-
कलङ्को दुर्घोषधनोऽप्यभिनन्दिताज्जुन-गुणो वाहिनी-पतिरप्यजडाशयः
शीतकरोऽप्यनालिङ्गित-मलिन-भावो राष्ट्रकूट-पल्लवान्वय-तिलकाभ्यां मूर्द्धा-
भिषिक्त-गोविन्द-राज-नन्दि-वर्माभिधेयाभ्यां समनुष्ठित-राज्याभिषेका-
भ्यां निज-कर-घट्टित-पट्ट-विभूषित-ललाट-पट्टो विख्यात]-विमल-गङ्गान्वय-
नभस्-तल-गभस्तिमाली कोङ्कुणि-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्री-शिव-
मार-देवः (४ ब) ॥ तत्पुत्रो निज-भुज-निहित-निशात-हेति-पात-
पातिताराति-वर्गो वर्ग-द्वयोपार्जनार्जितोर्जित-यशस्सन्तान-सन्तर्पित-स-

मस्त-जन-हृदयः प्रै भवत्कलि-काल विवर्द्धित-कलङ्कि लाय कल्प-
कल्याण-चरितः स्ववंश-विशद-वियदंशुमाली समस्त-नीति-शास्त्र-प्रयोग-
प्रवीणाप्रगण्यस्तुरङ्गमारोहण-नैपुण्य-प्रीणित-क्षोणीपति-सुत-सहस्र-लब्ध-सा-
म-ध्वनिरनेक-सङ्गर-रङ्ग-सङ्गमाङ्गीकृत-जय-श्री-समालिङ्गित-भुजङ्ग-भोगाभ-
मीम-भुज-दण्डः

यस्मिन् शासति सत्य-धाम्नि विमले राजन्वती मेदिनी
यस्मि र्थमुपेत्य वृंहित-ब्रलो धर्मोऽधिकं जृम्भते ।
यस्यैवाभय-दायिनोऽतिदयिता दोशशालिनश्शाश्वती
लक्ष्मीर्यत्र यशो-निधौ पतिमती जाता जगद्वल्लभा ॥

स तु पितामह इवानेक-राजहंस-संसेवितः पद्मावासश्च मधुमथन इव
त्रिलोकाधिक-विक्रमाक्षिप्त-बलि-रिपुरहीन-स्थितिरविश्व धूर्जटिरीवाविनश्च-
रेश्वर-भावो वीर-भद्रश्च कार्तिकेय इव सकल-जगदुदीरित-स्वामि-शब्दशक्ति-
सम्पन्नश्च महा-मेरुरिव स्व-महिमाधःकृत-महीभृन्मण्डलो महासत्त्वश्च ।

अपि च ।

मन्वादि-(षोड) (५ अ) षोडश-महीश-गुणानुगो
यं प्राप्य विस्मृति-पदं ज [ग] तो जगाम ।
यस्य प्रतापदहनोऽहित-बुद्धि-वाद्वाव्
और्वायते नरपतेरतिदूरनोऽपि ॥

यश्च समर-शिरसि कलत्रे च निज-जने मित्रायते रिपु-तिमिर-नि-
चये च अनेक-प्रकारण-रणकार्दितान्तःकरणानां शरणायते सम्पदां च
अतिप्रभूत-मति-निकेत-नमम्-नति-तिरस्कृतौ प्रबोतायते खिल-जगद-
नुल्लंघिताज्ञा-सम्पत्तौ च सकल-कुवलय-लोचनानन्दकरतायां द्विजेशायते
हरि-वाहन-निहित-चित्तत्वे च ।

अपि च ।

यस्यैकस्यापि सर्वं जगदपि स-रुषो नाग्रतस् स्थातुमीष्टे
दिःसा-सम्भूत-बुद्धेरपि नव निधयो यस्य नालं नृपस्य ।

जिहे तीवाभिमानात् कपट-विजयिनां यद्-धृतेर्नाकधाम्नाम्

[रा] ज्ञां विज्ञातकीर्ति [रस] सकल-जगतां नन्दनो **मारसिंहः** ॥
यश्च सतत-सम्पादित-कमलानन्दोऽप्यप्रचण्डकरः पुण्य-जन-सत्त्व-
समेतोऽप्यनृशंस-मानसः मत्त-मातङ्ग-स्कन्ध-लालितोऽप्यति-शुचि-स्वभावः
प्रिय-धनुरप्यमार्गणः समनुष्ठित-दण्ड-नीतिरप्यदण्डक्रम-गतिः ॥

अपि च ।

धूमरीकुरुते यस्य चरणाम्भोज-जं रजः ।

प्रणतानन्त-सामन्त-चूडामणि-मधुव्रजम् ॥

तेन लो (५ व) क-त्रिनेत्रापर-नामधेयेन समधिगत-यौवराज्य-
पदेन भगवत्सहस्र-किरण-चरण-नलिन-षट्चरणायमान-मानसेन ॥ त-
स्मिश्च प्रसाधिताशेष-सामन्त.....अखण्डं **गङ्ग-मण्डल**मनुशासति
श्री**मारसिंहा**भिधाने आसीत् समस्त-सामन्त-सेनाविपतिः परमार्हतः परम-
धार्मिकः मन्त्र-प्रभूत्साह-शक्ति-सम्पन्नः श्री**विजयो** नाम यश्च सहस्रदी-
धितिरिव तिरोहिताखिल-पर-तेजः पर-तेजः-प्रसरोऽपि असन्तापित-भूतलः
सुनाशीर इवाखण्डित-सकल-जनाज्ञोऽपि अगोत्र-भेदन-करः गुह इव
शक्ति-समुत्सारिता-वर्गोऽपि अकृत-ब्रल-भावःशिशिरगभस्तिरिव प्रह्लादनो-
द्योतनसमर्थोऽपि अदोषाश्रित-विग्रहः वारिराशिरिव अपरिमित-सत्त्व-
समाश्रयोऽपि अपङ्क-मल-गृहीतः विनतानन्द [न] इव अतिदूर-द [र्श]
नोऽपि अपिशिताशनः शतक्रतुरिव बुध-गुरु-मित्र-परिवृतोऽपि न [प]
र-दार-रति-शप्तः झषकेतन इव स्ववशीकृत-सकल-जनोऽपि अग्र (प)

हृत-बलाबलो-तप....यश्च अमृतमयो भृत्यानां सुखमयो मित्राणां सुधामयो
रामाणामुत्साहमयः प्रजानां विनयमयो गुरूणां नयसुख (६ अ)
लद्-वृत्तीनां अप्रणी रसिकानां स्रष्टा काव्य-रचनानां उपदेष्टा नयानां
द्रष्टा स्वामि-कार्याणां विद्वेष्टा कृत-दोषाणां यष्टा महा-मखानां परिमार्ष्टा
पापानां प्रष्टा निर्माण-हेतूनां परिकृष्टा श्रितागसाम् ।

अपि च ।

उदन्वानित्र गाम्भीर्ये विवस्वानित्र तेजसि ।
शशलक्ष्मेव लावण्ये नभस्वानित्र यो बले ॥
मनोभूरिव सौरूप्ये मध्वानित्र सम्पदि ।
सुरमञ्चीव शास्त्रार्थे उशनेव च यो नये ॥
ग्रामे पुरे नदी-तीरे गिरौ द्वीपे सरोऽन्तिके ।
प्रावर्त्तयत् स्व-कीर्त्याभां योऽनेकं वसतिं प्रभुः ॥
स मान्यनगरे श्रीमान् श्रीविजयोऽकार [य] च्छुभम् ।
जिनेन्द्र-भवनं तुङ्गं निर्मलं स्व-महम्-समम् ॥

तस्य च प्रसाधिताशेष-सामन्त-चन्द्रस्य श्री-मारसिंहस्यानुज्ञया
श्रीविजयो महातुभावः किषु-वेकूर-ग्राममादाय मान्यपुर-विनिर्मिताय
भगवदर्हदायतनाय अदादिति तस्य च ग्रामस्य (यहाँ सीमाओंकी
विस्तृत चर्चा आती है) ।

अपि च ।

आसीद(त्)-तोरणाचार्यः कोण्डकुन्दान्वयोद्भवः
स तै [द] द्विषये धीमान् शालमलीग्राममाश्रितः ॥
निराकृततमोऽरातिः स्थापयन् सत्पथे जनान् ।
स्वतेजोदयोतित-क्षोणिः चण्डार्चिचरिव यो बभौ ॥

तस्याभूत् पुष्पनन्दीति शिष्यो विद्वान् गणाप्रणीः ।

तच्छिष्यश्च प्रभाचन्द्रः तस्येयं वसतिः कृता ॥

(३ पंक्तियोंमें दानकी चर्चा है)

इदम् शक-वर्षं एळनूरा पत्तोम्भत्तु वर्षमुं मूषु तिङ्गलुमाषाढ-
शुक्ल-पक्षदा पञ्चमियुत्तराभाद्रपतेमुं सोमवारमुं शासनं निर्मितं ।
अस्य दानस्य साक्षिणः षण्णवति-सहस्र-विषय-प्रकृतयः योऽस्यापहर्त्ता
लोभान्मोहात् प्रमादेन वा स पञ्चभिर्महद्भिः पातकैस्संयुक्तो भवति
यो रक्षति स पुण्यवान् भवति

अपि चात्र मनु-नीताः श्लोकाः

स्वदत्तां पर-दत्तां वा यो हरेत वसुंधराम् ।

(७ अ) पष्टि-वर्ष-सहस्राणि विष्टा [यां जा] यते कृमिः ।

स्वं दातुं सुमहच्छक्यं दुःखमन्यस्य पालनम् ।

दानं वा पालनं वेति दानाच्छ्रेयोऽनुपालनम् ॥

बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजमिस्सगरादिभिः ।

यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फलम् ॥

ब्रह्मस्वं तु विषं शेरं न विषं विषमुच्यते ।

विषमेकाकिनं हन्ति देव-स्वं पुत्र-पौत्रकम् ॥

सर्व-कलाधारभूत-चित्र-कलाभिज्ञेय-विश्वकर्म्म-चार्येणोदं शासनं
लिखितं चतुष्कण्डुक-त्रीहि-बीजावाप-क्षेत्रं द्वि-कण्डुक-कङ्कु-क्षेत्रं तदपि
देव-भोगमिति रक्षणीयम् ॥

[जाह्नवी (गङ्गा)-कुलके स्वच्छ आकाशमें चमकते हुए सूर्य; काण्वा-
यन-सगोत्रके

(१) श्रीमत्-कोङ्कणिवर्म-धर्म-महाधिराज थे ।

(२) उनके पुत्र श्रीमान् माधव-महाधिराज थे ।

- (३) उनके पुत्र श्रीमद् हरिवर्म-महाधिराज थे ।
 (४) ,, ,, श्रीमान् विष्णुगोप-महाधिराज थे ।
 (५) ,, ,, ,, माधव-महाधिराज थे ।
 (६) उनके पुत्र, जो कदम्ब-कुलवंशीय कृष्णवर्म-महाधिराजकी प्रिय बहिनके पुत्र थे, अबिनीत नामके श्रीमान् कोङ्गणि-महाधिराज थे ।
 (७) उनके पुत्र दुर्विनीत थे । इन्होंने अन्दरि, आलसूर, पोरुलणे, पेळनगर और दूसरे स्थानोंके युद्धोंको जीता था । इन्होंने किराताज्जुनीय के १५ सर्गोंपर टीका की थी ।
 (८) इनके पुत्र मुष्कर थे ।
 (९) उनके पुत्र श्रीविक्रम थे, ये चौदहों विद्याओंमें पारङ्गत थे ।
 (१०) उनके पुत्र भूविक्रम थे । इन्होंने विळन्दकी भवानक लड़ाईमें राजा पल्लवेन्द्रको जीता था, और सौ लड़ाइयोंमें विजय लाभ करनेसे इनको 'राजश्रीवल्लभ' भी कहते थे ।
 (११) उनका छोटा भाई नव-काम था ।
 (१२) शिवमार-कोङ्गणि महाराजका नाती श्रीपुरुष था, उन्हें पृथिवी-कोङ्गणि-महाधिराज भी कहते थे ।
 (१३) उनके पुत्र, प्रसिद्ध गंगवंशके स्वच्छ आकाशके सूर्य, कोङ्गणि-महाराजाधिराज परमेश्वर श्री-शिवमार-देव थे । इनकी बहुत-सी प्रशंसाका वर्णन है ।
 (१४) उनके पुत्र, मारसिंह थे ।

जब वे अखण्ड गङ्ग-मण्डलपर राज्य कर रहे थे;—उनका एक श्रीविजय नामका सेनापति था । उसकी प्रशंसा । उसने मान्य-नगरमें एक शुभ, विशाल जिनमन्दिर बनवाया । उसे श्रीमारसिंहसे किपु-वेकूरुह गाँव मिला था, वह उसने इसी अहंत्-मन्दिरको भेंट कर दिया । इस गाँवकी सीमायें ।

शाळमली गाँवमें रहनेवाले, कोण्डकुन्दान्वयके तोरणाचार्य्य थे । उनके शिष्य पञ्चनन्दि थे । उनके शिष्य प्रभावन्द्र थे, जिन्होंने अपना आवास यहीं बना लिया था । जडियके तालाबोंकी नीचेकी जो जमीनें उनको दी गई थीं उनकी विगत । यह शासन (लेख) शक वर्ष ७१९ के ३ महीने बाद, आषाढ़ शुक्ला पञ्चमी, उत्तरभाद्रपद, सोमवारको निकला था ।

इस दानके साक्षी-९६००० के विद्यमान अफसर (अधिकारी गण) ।
वे ही श्रापात्मक श्लोक ।

विश्वकर्माचार्यने इस शासनको लिखा था । प्रभाचन्द्र देवको दी गई
भूमिकी विगत ।]

[EC, IX, Nelamangala, tl., n° 60]

१२३

मन्त्रे—संस्कृत ।

शक ७२४=८०२ ई०

[मन्त्रेमें, शानभोग नरहरियप्पके अधिकारके ताम्रपत्रोंपर]

(१ व) स वोऽव्याद् वेधसां धाम यन्नाभि-कमलं कृतम् ।

हरश्च यस्य कान्तेन्दु-कलया कमलङ्कृतम् ॥

भूयोऽभवद् बृहदुरुस्थल-राजमान-

श्री-कौस्तुभायत-करैरुपगूढ-कण्ठः ।

सत्यान्वितो विपुल-बाहु-त्रिनिर्जितारि-

चक्रोऽप्यकृष्ण-चरितो भुवि कृष्ण-राजः ॥

पक्ष-च्छेद-भयाश्रिताखिल-महा-भूभृत्-कुल-भ्राजितात्

दुर्लङ्घ्यादपरंरनेक-विपुल-भ्राजिष्णु-रत्नान्वितात् ।

यश्चालुक्कुकुलादनून-विबुधा[.....]श्रया [द्] वारिधेः

लक्ष्मी मन्दरवत् स-लीलमचिरादाकृष्टवान् बल्लभः ॥

तस्याभूत् तनयः प्रता [प]-विसरैराक्रान्त-दिङ्-मण्डलश्च

चण्डांशोस्सदृशोऽप्य-चण्ड-करतःप्रह्लादित-क्षमाधरो ।

धोरो धैर्य-धनो विपक्ष-त्रनिता-त्रक्त्राम्बुज-श्री-हरो

हारीकृत्य यशो यदीयमनिशं दिङ्-नायिकाभिर्धृतम् ॥

ज्येष्ठोल्लंघन-जातयाप्यमलया लक्ष्म्या समेतोऽपि सन्
 योऽभून्निर्मल-मण्डल-स्थिति-युतो दोषाकरो न क्वचित् ।
 कर्णाधः-कृत-दान-सन्तति- (२ अ) भृतो यस्यान्य-दानाधिकम्
 दानं वीक्ष्य सु-लज्जिता इव दिशां प्रान्ते स्थिता दिग्-गजाः ॥
 अन्यैर्न जातु विजितं गुरु-शक्ति-सारं
 आक्रान्त-भूतलमनन्य-समान-मानम् ।
 येनेह ब्रह्मवलोक्त्य चिराय गङ्गान्
 दूरे स्व-निग्रह-भियेव कलिः प्रयातः ॥
 एकत्रात्म-बलेन वारिनिधिनाप्यन्यत्र रुद्ध्वा घनान्
 निष्कृष्टासि-भटोद्धतेन विहरद्-प्राहातिभीमेन च ।
 मातङ्गान् मद-वारिनिर्झर-मुचः प्राप्यानतात् पल्लवात्
 तच्चित्रं मद-लेशमप्यनुदिनं यस्स्पृष्टवान् न क्वचित् ॥
 हेला-स्वीकृत-गौड-राज्य-कमलान् चान्तःप्रविश्याचिराद्
 उन्मार्गे मरु-मध्यम-प्रतिबलैर्यो वत्सराजं बलैः ।
 गौडीयं शरदिन्दु-पाद-धवल-चलत्र-द्वयं केवलम्
 तस्मादाहृत-तद्-यशोऽपि ककुभां प्रान्ते स्थितं तत्-क्षणात् ॥
 लब्ध-प्रतिष्ठमचिराय कलिं सुदूरम्
 उन्सार्य शुद्ध-चरितैर्धरणी-नलस्य ।
 कृत्वा पुनः कृत-युग-श्रियमप्यशेषम्
 चित्रं कथं निरुपमः कलि-बलभोऽभूत् ॥
 प्राभू- (२ ब) द् धर्म-परात् ततो निरुपमादिन्दुर्थथा वारिधेः
 शुद्धात्मा परमेश्वरोन्नत-शिरस्-संस्त-पादस्तथा ।
 पद्मानन्दकरः प्रताप-सहितो नित्योदयस्सोन्नतेः
 पूर्वद्वैरिव भानुमानभिमतो गोविन्दराजः सताम् ॥

यस्मिन् सर्व्व-गुणाश्रये क्षितिपतौ श्री-राष्ट्रकूटान्वयो
 जाते यादव-वंशवन्मधुरिपावासीद् अलङ्कृतः परैः ।
 दृष्ट्वा सावधयः कृतास्सु-सदृशाः दानेन येनोद्धताः
 युक्ताहार-विभूषिताः स्फुटमिति प्रत्यर्थिनोऽप्यर्थिनः ॥
 यस्याकारमनानुषं त्रिभुवन-व्यापत्ति-रक्षोचितम्
 कृष्णस्यैव निरीक्ष्य यच्छ्रति पदं यद्वाधिपत्य भुवः ।
 आस्तां तात तवेयमप्रतिहता दत्ता त्वया कण्ठका
 किन्त्वज्ञैव मया धृतेति पितरं युक्तं स तत्राम्यधात् ॥
 तस्मिन् स्वर्ग-विभूषणाय जनने याते यशस्शेषताम्
 एकीभूय समुद्यतान् वसुमती-संहारमाधित्सया ।
 वि-च्छ्रायान् सहसा व्यधत् नृपतीनेकोऽपि यो द्वादश
 ह्यातानप्यधिक-प्रताप-विसृष्टैस्संवर्त्त (३ अ) कोल्कानिव ॥
 येनात्यन्त-दयालुनोऽप्र-निगल-क्लेशादपास्यानतम्
 स्वं देशं गमितोऽपि दर्प-विसरद् यः प्रा [.....]कूल्ये स्थितः ।
 लीला-भ्रू-कुटिले ललाट-फलके यावच्च नालक्ष्यते
 विक्षेपेण विजित्य तावदचिरादाबद्ध-गङ्गः पुनः ॥
 सन्धायासि शिलीमुखान् स्व-समयात् बाणासनस्योपरि
 प्राप्तं वद्धित-बन्धु-जीव-विभवं पद्माभिवृद्धान्वितम् ।
 सर्व्वं क्षेत्रमुदीक्ष्य यं शरद्-ऋतुं पर्जन्यवद् गूर्जरो
 नष्टः कापि भयात् तथापि समर्थ स्वप्नेऽप्यपश्यन्..... ॥
 यत्पादानति-मात्रं.....क-शरणानालोक्य लक्ष्मी-धिया
 दूरान् मालव-नायको नय-परो यत्रातिवद्वाञ्छलिः ।
 यो विद्वान् बलिना सहाल्प-बलवान् स्पृष्ट्वा न धत्ते पराम्
 नीतेस्सूतिरसौ यदात्म-परयोरधिक्य-सम्बेदनम् ॥

विन्ध्याद्रेः कटके निविष्ट-कटकः श्रुत्वा चैर्यन्त्रिजैः
 स्वं देशं समुपागतः ध्रुवमिव ज्ञात्वा धिया प्रेरितः ।
 माराशर्व्व-महीपतिर्भूतमगादप्राप्त-पूर्व्वा (३ ब) परैर्
 व्यस्येच्छामनुकूल[.....]धनैः पाद-प्रणामैरपि ॥
 नीत्वा श्रीभवने घनाघन-घन-व्याप्तं परं प्रावृषम्
 तस्मादागतवान् समं निज-बलैरा-तुङ्गभद्रा-तटम् ।
 तत्रस्थः स्व-करागतं प्रकृतिमिर्निःशेषमाह्वयवान्
 विक्षेपैरपि चित्रमानत-रिपुर जग्राह तं पल्लवात् ॥
 लेखाहार-मुखोदितार्द्ध-वचसा यत्रा.....वेङ्गीश्वरो
 नित्यं किङ्करवद् व्यधादविरतं.....र्म स्वमात्मेच्छया ।
 बाह्यालि-वृत्तिरस्य येन रचिता व्योमावलम्बा रुचम्
 चित्र मौक्तिक-मालिकामित्र धृताम्मूर्द्ध [न्] इ स्व-तारा-गणैः ॥
 सन्त्रासात् पर-चक्र-राजकमगात् तच्छुद्ध-सेवा-विधि-
 व्याबद्धाञ्जलि-शोभितेन शरणं मूर्ध्ना यदङ्घ्रि-द्वयम् ।
 यथादत्त परार्द्ध-भूषण-गणैर्नालङ्कृतं तत् तथा
 मा भैश्चिरिति सत्य-पालित-यशम्-स्थित्या यथा तद्विरा ॥
 तेनेदमनिल-विद्युच्चञ्चलमवलोक्य जीवितमसारम् ।
 क्षिति-दानमपरपुण्यं प्रवर्त्तितं देव-भोगाय ॥

स (४ अ) च परम-भट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीमद्-धारा-
 वर्षदेव-पादानुध्यात-परम-भट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-पृथिवी-वल्लभ
 प्रभूतवर्ष-श्रीमत्-गोविन्दराजदेवः ।

भ्राताभूत् तस्य शक्ति-त्रय-नमित-मुत्रः शौचकम्भामिधानो
 ज्येष्ठस्यागाभिमान-प्रभृति-गुण-गणाधः-कृतादि-क्षितीशः ।
 राजा राजारि-ल्लोकास्थिर-तिमिर-घटा-पाटने शुद्ध-वृत्तः
 स श्रीमान् दिक्षु कीर्त्तिशशिविशद-रुचिस्थापिता येन भूयः ॥

तेन शौच-कम्भ-देवेन रणावलोकपर-नाम्ना राजाधिराज-परमेश्वर-
श्रीप्रभूतवर्षानुज्ञानुमतेन

कोण्डकुन्दान्वयोदारो गणोऽभूत् भुवन-स्तुतः ।

तदैदत्-विषय-विल्यातं शाल्मली-ग्राममावसन् ॥

आसीत् [.....]ता(तो)रणाचार्य्यस्तपः-फल-परिग्रहः ।

तत्रोपशम-सम्भूत-भावनापास्तकल्मषः ॥

पण्डितः पुष्पणन्दीति बभूव भुवि विश्रुतः ।

अन्तेवासी मुनेस्तस्य स-कलश्चन्द्रमा इव ॥

प्रतिदिवस-भवद्-वृद्धि-निरस्त-दोषो व्यपेत-हृदय-मलः ।

परिभूत-चन्द्र-विम्बम् तच्छिष्योऽभूत् प्रभाचन्द्रः ॥

(४ व) तस्य धर्मोपदेश-परितुष्ट-हृदयतया च सत्येन धर्म-तनयः
स्फुरत्प्रतापेन पद्मिनी-बन्धुं दानेन सुर-द्विरदं जयतितरां यश्चिश्यो भर्ता

विविशुरगुणा रिपूणाम् ।

हृदयान्यपि यस्य सत्य-शौर्याद्याः ॥

तेषामुरस्थल-स्थित-

कमलामाक्रष्टुमि [व] रम्यम् ॥

तस्य विष्णोरिव बलि-प्रताप-निर्वापणोद्यत-पराक्रमस्य पराक्रम-बलो-
क्तस्य प्रताप-निरन्तरतयाक्रान्त (:) समस्त-सुभट-लोकस्य केसरिण इव
विक्रमंकर [स] स्य श्री-बप्पय्य-इति-सु-गृहीत-नाम्नः कुमारस्य वीर-
श्री-लतारोहण-कल्पवृक्षायमानमुजदण्ड-दण्डितारातेःप्रियात्मजस्य विज्ञा-
पना कर्णोपजात-कुतूहलतया च । राजाधिराज-परमेश्वर-श्री-निरुपमदेव
प्रभूतवर्ष-प्रसादोपलब्ध-महा-सामन्ताधिपत्यालङ्कृत-महानुभावेन भगवद्-
हं [द्]-भटारक-चरण-परिचरण-अणत-पवित्रितोत्तमाङ्गेन महा-विजय-विक्षे-

धापति-श्री-श्रीविजयराजेन निर्मापिता-(५ अ) य जिन-भवनाय
 मान्यपुरीपश्चिम-दिगङ्गना-ललाम-भूताय चतुर्द्विंशत्युत्तरेषु सप्त-
 शतेषु शक-वर्षेषु समतीतेष्वात्मनः प्रवर्द्धमान-विज [य] संवत्सरे
 मान्यपुरमधिवसति विजयस्कन्धावारे सोम-ग्रहणे पुष्य-नक्षत्रे शु [भ]
 लग्ने वार-विलासिनी-विरचित-नृत्त-गीत-वा (वा) ध-त्रलि-विलेपन-देव-
 पूजा-नव-कर्म-प्रवर्त्तनार्थ एदेदिण्डे-विषय-मध्य-वृत्ति-पेर्व्वडियूर-नाम
 ग्रामं सर्व्व-बाध-परिहारं उदक-पूर्व्वं दत्तः तस्य सीमान्तरं (यहाँ सीमायें
 आती हैं) पादरि-ऊरुळ् पत्तु-भागदोलोन्दु-भागं देवर्गे कोट्टु
 (हमेशाके बे ही अन्तिम श्लोक) ।

[विष्णुसे रक्षाकी कामना ।

पृथ्वीपर कृष्ण-राज विद्यमान थे । उनके धोर नामका एक पुत्र था ।
 उसीके दूसरे नाम कलि-बल्लभ, वस्तराज, निरुपम थे ।

गुणी निरुपमसे गोविन्दराज उत्पन्न हुआ । जब यह राजा हुआ तो राष्ट्र-
 कूट-वंश दूसरे लोगों (वंशों) की प्रतियोगितासे ऊपर उठ गया । उसने
 गंगको बन्धनसे छुड़ाया था, लेकिन अपने घमण्डी स्वभावके कारण शीघ्र
 ही पुनः बाँध लिया गया । उसकी बहुत-सी प्रशंसा । उसके पराक्रमोंका
 वर्णन । उसने देव-भोग (मन्दिरके लिये दान) रूपसे भूमिदान किया ।
 उसके बड़े भाईका नाम शौच-कम्भ था । इसी शौच-कम्भका दूसरा
 नाम रणावलोक था ।

हस-विषय (देन) में प्रसिद्ध शाहमली नामक गाँवमें कोण्डकुन्दा-
 न्धयके उदारगणमें तोरणाचार्य्य हुए । पुष्पनन्दि-पण्डित उनके शिष्य थे ।
 उनके शिष्य प्रभाचन्द्र थे । उनके एक बप्पय्य नामके भक्त श्रावक थे ।
 उनका पुत्र शत्रुओंका दण्ड देनेवाला था । अपने प्रिय पुत्रकी प्रार्थना
 सुनकर उन्होंने, मान्यपुरके पश्चिममें जो जिनमन्दिर खड़ा हुआ था उसके
 लिये, उसके शासक श्रीविजय-राजकी कृपासे शक सं० ७२४ के बीतने पर,
 अपने ही विजय-वर्षमें, मान्यपुरमें पड़े हुए अपने विजयी कैम्प (स्कन्धा-

वार) में एदेदिण्डे-विषयका पेर्बडियूर नामका गाँव, सर्ष करोंसे मुक्त करके, जलधारापूर्वक दानमें दिया । इस गाँवकी सीमायें । पदरियूरमें १/० भाग दानमें दिया गया । ये ही शापात्मक श्लोक ।]

[NC, IX, Nelamangala tl. n° 61]

१२४

कडव—संस्कृत तथा कडव ।

(सन्देहास्पद)

[शक ७३५=८१२ ई०]

राष्ट्रकूटवंशोद्भव द्वितीय प्रभूतवर्ष महीपतिका दानपत्र ।

- १ ॐ स्वस्ति [II] विस्तृत-विशद-यशो-वितान-विशदीकृताशाचक्र-
वालः करवाल-प्रवालावतंस-विराजित-जयलक्ष्मी-समालि-
- २ गित-दक्ष-दक्षिणा-भूरि-भुजागर्गलः गलित-सार-शौर्य-रस-विस-
र-विसखलीकृतोप्रा-
- ३ रि-वर्गः वर्ग-त्रय-वर्गणैक-निपुणोऽचलाभार-चाव्वी-विशेष-
निर्जितोव्वी-मण्डलोत्सवोत्पादनपरः
- ४ पर-भूपाल-मौलि-माला-लीटाङ्घ्रि-द्वन्द्वारविन्दो गोविंदराजः !!
तस्य-सू-
- ४ नुः सुतरुण-भावोदय-दया-दान-दीनेतर-गुण-गण-समर्पित-बन्धु-
जनः सक-
- ६ ल-कलागम-जलधि-कलशयोनिः मनुदर्शितमागर्गानुगामी राष्ट्र-
कूट-कुल-
- ७ मल-गगन-मृगलाञ्छनः बुधजन-मुख-कमलांशुमाली मनोह-
- ८ र-गुण-गणालंकार-भारः ककराज-नामधेयः [II] तस्य पुत्रः
स्व-वंशानेक-नृ-
- ९ प-संघात-परम्पराभ्युदय-कारणः परम-ऋषि-ब्राह्मण-भक्ति-

तात्पर्य—

- १० कुशलः समस्त-गुण-गणाधिष्णो^१ विख्यात-सर्व-लोक-निरुपम-
स्थिर-भाव-नि(वि)जिता—
- ११ रि-मण्डलः यस्यैममासीत् ॥ जित्वा भूपारि-वर्गान्नय-कुशल-
तया येन रा—
- १२ ज्यं कृतं यः कष्टे मन्वादिमार्गे स्तुत-धबूल-यशा न कचिद्
यागपूर्वः^१ [I] संग्रामे यस्य शेषा
- १३ स्व-भुज-कर-बल-प्रापिता या जयश्रीर्यस्मिन्नाते स्ववंशोभ्युदय-
धवलतां यातवान्कृतेजः [II १] अ—
- १४ साविन्द्रराज-नामधेयः [III] तस्य पुत्रः स्व-कुल-ललाभायमानो
मानधनो दीनाना—

दूसरा पत्र; पहली बाजू.

- १५ थ-जनाह्लादनकर-दान-निरत-मनोवृत्तिः हिमकर इव सुखकर-
करः कुलाचल-समु—
- १६ दाय इव सुधाधार-गुण-निपुणः हिमशैल-कूट-तट-स्थापित
यशस्तम्भलिखिता—
- १७ नेक-विक्रम-गुणः [I] अध-संघात-विनाशक-सुरापगा यस्य
सद्यशो विशदं [I] गायन्तीव तरङ्ग-प्रभव—
- १८ रवैर्व्यहति जन-महिता ॥ [२] असौ वैरमेघ-नामधेयः [II]
तस्य पितृव्यः हृदय-पद्मा—

१ 'गणाधिष्णो' इति राइसमहोदयः । २ 'यातपूर्व' पाठ ठीक मालूम
पड़ता है ।

- १९, सनस्थ-परमेश्वर-शिरशिशाशिरकर- [कर-]निकर-निराकृत-तमो-
वृत्तिः सविशेषस्य जगन्नय-
२० सारोच्चयेनेव विरचितस्य चतुर्थ-लोकोदय-समानस्य कृतयुग-
शतैरिव निर्मि-
२१ तस्य यस्य यशसः पुञ्जमिव विराजमानः^१ ॥ प्रदग्ध-कालागरू-
२२ धूप-धूमैः प्रवर्द्धमानोपचयाः पयोदाः [१] यस्याजिरं स्वच्छ-
सुगन्ध-तोयैः
२३ सिञ्चन्ति सिद्धोदित-कूट-भागाः ॥ [३] न चेदृशं प्राप्यमिति
प्रलोभात् भवोद्भवो भावि- [यु] गा-
२४ वतारे [१] अवैमि यस्य स्थितये स्वयं तत् कल्पान्तरं नैव च
भाव्यतीति ॥ [४] तारा-ग-
२५ णेषून्नत-कूट-कोटि-नटार्पितासूज्ज्वल-दीपिकासु [१] मोमुह्यते
रात्रि-विभेदभा-
२६ वः निशाख्ययः पौरजनैर्निशायां ॥ [५] आधारभूताहमिदं
व्यतीत्य मां वर्द्धते
२७ चायमतिप्रसङ्गः [१] यस्यावकाशार्थमितीव पृथ्वी पृथ्वीव
भूतेति च मे वि-
२८ तर्कः ॥ [६] विचित्र-पताका-सहस्र-सञ्छादितं उपरि परिच-
रण-भयात् लोकै-
२९ क-चूडामणिना मणि-कुट्टिम-संक्रान्त-प्रतिबिम्ब-व्याजेन स्वयमव-
तीर्य

१ 'पुञ्ज इव विराजमानं' ऐसा पढ़ना चाहिये ।

दूसरा पत्र; दूसरी बाजू

- ३० परमेश्वर-भक्ति-युक्तेन नमस्क्रियमाणमिव विराजमानं प्रहृत-पुष्कर-
मन्द्र-निनादा—
- ३१ कर्णनोदितानुरागैः प्रावृडारम्भ-काल-जनितोत्सवारम्भैः मयूरैः
प्रारब्ध-वृत्त-नृ—
- ३२ सान्तं धूम-वेला-लीला-गत-विलासिनी-जनानां कर-तल-किसलय-
रस-भाव-सद्भाव-प्रक—
- ३३ टन-कुशल-शशिवदनाङ्गना-नर्तनाहृत-पौर-युवति-जन-चिन्ता-
न्तरं समस्त-सिद्धान्त-साग—
- ३४ र-पारग-मुनि-शत-सङ्कुलं देवकुलमासीत् कणेश्वरनाम स्व-
नामवेयाङ्कितं असा—
- ३५ वकालवर्ष इति विख्यातः [॥] तस्य सूनुः आनत-नृप-मकुट-
मणि-गण-किरण-जाल-रञ्जित—
- ३६ पद-युगल-नख-मयूर-प्रभा-भासित-सिंहासनोपान्तः कान्ताजन-
कटक-खचि—
- ३७ त-पद्मराग-दीधिति-विसर-शुम्भत्-कुसुम्भ-रस-रञ्जित-निज-धवल-
वीज्यमान-चारु-चा—
- ३८ मर-निचय-विख्यात-प्राज्य-राज्याभिषेकान्तरैकैश्वर्य्य-सुख-समनुभ-
वस्थि—
- ३९ तिः निज-तुरङ्गमैक-विजयानीत-राजलक्ष्मी-सनाथो महीनाथो यः
कल्पाङ्घ्रिपः ससेव^१

१ 'सत्यमेव' ऐसा शुद्ध पाठ मालूम पड़ता है ।

- ४० चिन्तामणिरिति ध्रुवं यं वदन्त्यर्थिनः । नित्यं प्रीत्या प्राप्तार्थ-
सम्पदसौ प्रभूतवर्ष इति वि -
- ४१ ह्यातो भूपचक्रचूडामणिः [॥] तस्यानुजः धारावर्ष-श्री-पृथ्वी-
वल्लभ-महाराजाधि -
- ४२ राजपरमेश्वरः खण्डितारि-मण्डलासि-भासित-दोर्दण्डः पुण्डरीक^१
इव त्रिलिरिपु-मर्दना -
- ४३ क्रान्त-सकल-भुवनतलः सुकृतानेक-राज्य-भार-भारोद्धहन-समर्थः
हिमशैल-वि -
- ४४ शालोरःस्थलेन राजलक्ष्मी-विहरण-मणि-कुट्टिमेन चतुराङ्गनालि-
गन-तुङ्ग-कुच -

तीसरा पत्र; पहली बाजू

- ४५ संग-सुखोद्रेकोदित-रोमाञ्च-योजितेन स्व-भुजासि-धारा-दलित-
समस्त^२ गलित-मुक्ताफल-वि -
- ४६ सर-विराजितारि-बल-हस्ति-हस्तास्फालन-दन्त-कोटि-घट्टित-घनी-
कृतेन विराजमानः त्रिपुर -
- ४७ हर-वृषभ-ककुदाकारोन्नत-विकटांस-तट-निकट-दोधूयमान-चारु-
चामर-चयः फेन-पिण्ड -
- ४८ पाण्डुर-प्रभावोदितच्छविना वृत्तेनापि चतुराकारेण सितातपत्रे-
णाच्छादित-समस्त-दिग्-विव -
- ४९ ^३रो रिपुजनहृदयत्रिदारणदारुणेन सकलभूतलाधिपत्यलक्ष्मीली-

१ 'पुण्डरीकाक्ष' पढ़ो । २ 'दलितमस्त' पढ़ो । ३ आगे ४९ वीं पंक्तिसे प्राचीन लेखमाला, प्रथम भाग, लेख ११ परसे लिया है ।

लामुत्पादयता प्रहतपटहडक्कागम्भीरध्वानेन घनावनगर्जनानुकारिणा
 अस्याचितो विनोदनिर्गमः (?) स्वकीयां साञ्चलतां (?) परनृपचेतोवृत्तिषु
 दातुमिवोच्चैराविलोलप्रकटितराज्यचिह्नः (?) तुरङ्गमखरखुरोत्थितपांशुपट-
 लमसृणितजलदसंचयानेकमत्तद्विपकरटतटगलितदानधाराप्रतानप्रशामिन-
 महीपरागः ।

यस्य श्री चपलोदया खुरतरङ्गालीसमास्फालना-

निर्मिन्नद्विपयानपात्रगतयो ये मंचलञ्चेतसः । (?)

तस्मिन्नेव समेत्य सारविभवं संत्यज्य राज्यं रणे

भग्ना मोहवशात् स्वयं खलु दिशामन्तं भजन्तेऽरयः ॥

इदं कियद्भूतलमत्र सम्यक् स्थातुं महत्संकटमित्युदग्रम् ।

स्वस्यावकाशं न करोति यस्य यशो दिशां भित्तिविमेदनानि ॥

अनवरतदानधारावर्षागमेन तृप्तजनतायाः धारावर्ष इति जगति
 विख्यातः सर्वलोकवल्लभतया वल्लभ इति । तस्यात्मजो निजभुजबलसमा-
 नीतपरनृपलक्ष्मीकरधृतधवलातपत्रनालप्रतिकूलरिपुकुलचरणनिबद्धखलख-
 लायमानधवलशृङ्खलारववधिरिकृतपर्यन्तजनो निरुपमगुणगणाकर्णनसमा-
 ह्लादितमनसा साधुजनेन सदा संगीयमानशशिविशदयशोराशिराशावष्टब्ध-
 जनमनःपरिकल्पनत्रिगुणीकृतस्वकीयानुष्ठानो निष्ठितकर्तव्यः प्रभूतवर्ष-
 श्रीपृथ्वीवल्लभराजाधिराजपरमेश्वरस्य प्रवर्धमानश्रीराज्यविजयसंव-
 त्सरेषु वदत्सु । चारुचालुक्यान्यवगगतलहरिणलाञ्छनायमानश्रीव-
 लवर्मनरेन्द्रस्य सूनुः स्वविक्रमावजितसकलरिपुनृपशिरःशेखराचिंतचरण-
 युगलो यशोवर्मनामधेयो राजा व्यराजत । तस्य पुत्रः 'सुपुत्रः
 कुलदीपक' इति पुराणवचनमवितथमिह कुर्वन्नतितरां धीराजमानो

मनोजात इव मानिनीजनमनस्थलीयः (?) रणचतुरश्चतुरजनाश्रयः
श्रीसमालिङ्गितविशालवक्षस्थलो नितरामशोभत । असौ महात्मा
कमलोचितसङ्गजान्तरश्रीविमलादित्य इति प्रतीतनामा ।
कमनीयत्रपुर्विलासिनीनां भ्रमदक्षिभ्रमरालिवक्रपद्मः ॥

यः प्रचण्डतरकरवालदलितरिपुनृपकारिघटाकुम्भमुक्तमुक्ताफलविकीर्ण-
तरुचिरक्ताब्धिकान्तिरुचिरपरीतनिजकलत्रकण्ठः शितिकण्ठ इव महितम-
हिमामोद्यमानरुचिरकीर्तिरशेषगङ्गमण्डलाधिराज श्रीचाकिराजस्य भागि-
नेयः भुवि प्रकाशत यस्मिन् कुनुन्गिलनामदेशमयशःपराङ्मुखो मनुमार्गेण
पालयति सति श्रीयापनीयनन्दिसंघपुंनागवृक्षमूलगणे श्रीकित्या-
चार्यान्वये बहुध्याचार्येष्वतिक्रान्तेषु व्रतसमितिगुप्तिगुप्तमुनिवृन्दवन्दित-
चरणकूविलाचार्याणामासीत् (?) तस्यान्तेवासी समुपनतजनपरिश्र-
माहारः खदानसंतर्पितसमस्तविद्वज्जनो जनितमहोदयः विजयकीर्तिनाम-
मुनिप्रभुरभूत् ।

अर्ककीर्तिरिति ख्यातिमातन्वन्मुनिसत्तमः ।

तस्य शिष्यत्वमायातो नायातो वशमेनसाम् ॥

तस्मै मुनिवराय तस्य विमलादित्यस्य शणेश्वर (?)पीडापनोदाय
मयूरखण्डिमधिवसति विजयस्कन्धावारे चाकिराजेन विज्ञापितो बल-
भेन्द्रः इडिगूर्विषयमध्यवर्तिनं जालमङ्गलनामधेयग्रामं शकनृपसंवत्सरेषु
शरशिखिमुनिषु (७३५) व्यतीतेषु ज्येष्ठमासशुक्लपक्षदशम्यां
पुष्यनक्षत्रे चन्द्रवारे मान्यपुरवरापरदिग्विभागालंकारभूतशिलाग्रामा-
जनेन्द्रभैरवाय दत्तवान् तस्य पूर्वदक्षिणापरोत्तरदिग्विभागेषु स्वस्तिमङ्गल-

१ 'प्रकाशते यस्मिन्' यह पाठ मालूम पड़ता है । २ 'पराङ्मुखे' यह अपेक्षित है । ३ 'श्रीकीर्त्याचार्य' जान पड़ता है । ४ 'जिनेन्द्र' ऐसा पाठ मालूम पड़ता है ।

बेह्लिन्द-गुडुनूरत्तरिपाल इति प्रसिद्धा ग्रामाः एवं चतुर्णां ग्रामाणां मध्ये व्यवस्थितस्य जालमङ्गलस्यायं चतुरावधिक्रमः पुनस्तस्य सीमा-विभागः ईशानतः मुकूडल्दक्षिणदिग्दिग्भागमवलोक्य एतत्तगकोडल-मूडग-केल-बन्दु इर्पेय-ओषदे-पल्लद्-ओलगण उलिअलरिये कोदेयालि-बेलने सयकने-बन्दु पोल पुणसे एव कीले अन्ते पोयिए बिदिरूग्गेरे मुकूडल् ततः पश्चिमतः पुलिपदिय तेङ्कण पेर् ओल्बेये पेर्बिलिके एल-गल-करण्डलो मुकूडल् अन्ते सयकने पोगि नाय्मणिगेरेय ताय्गण्डि मुकूडल् ततः उत्तरतः बल्लगेरेय पडुव गजगोड पळम्बे पुणुसेये आने-दलो गेरेए पुल्पडिये एलगल्ले पुलिगारद गेरे मुकूडल् ततः पूर्वतः निडु विळिङ्के...दविन पुल्पडिये कञ्जगार गल्ले पोल एल्ले पुणुसये बड्पु-णुसये बेळने बन्दु ईशानद मुकूडलोल् कूडि निन्दत्तू । राचमल्लगाम-ण्डनु शीरनुं गङ्गामुण्डनुं मारेयनुं बेल्गेरेय् ओडेयोर्ं मोदबागे-एल्पदि-म्बरं कुनुन्गिल्-अयसार्वरं साक्षियागे कोड्त्तू । नमः ।

अद्दिर्दत्तं त्रिभिर्भुक्तं षड्भिश्च परिपालितम् ।

एतानि न निवर्तन्ते पूर्वराजकृतानि च ॥

स्वं दातुं सुमहच्छक्यं दुःखेमन्यस्य पालनम् ।

दानं वा पालनं वेति दानाच्छ्रेयोऽनुपालनम् ॥

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधराम् ।

षष्टिं वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥

देवस्वंहि विपं घोरं कालकूटसमप्रभम् ।

विषमेकाकिनं हन्ति देवस्वं पुत्रपौत्रकम् ॥

(इण्डियन् एष्टिकेरी १२।१३-१६)

[एपिग्राफिका इण्डिका, ४।३४०-३४५]

[इस शिलालेखमें बताया है कि राजा प्रभूतवर्ष (गोविन्द तृतीय) ने जब कि वे मयूरखण्डीके अपने विजयी विश्रामस्थलपर ठहरे हुए थे, चाकिराजकी प्रार्थनापर शक सं० ७१५ में जालमङ्गल नामका गाँव जैन मुनि अर्ककीर्तिको भेंट दिया। यह भेंट शिलाग्राममें स्थित जिनेन्द्रभवनके लिये दी गई थी। कारण यह था कि कुनुन्गल जिलेके शासक विमलादित्यको उन्होंने (अर्ककीर्ति मुनिने) शनैश्चर (?) की पीड़ासे उन्मुक्त किया था।

इस लेखमें पं० १-६४ तकमें राष्ट्रकूट राजाओंकी प्रशंसायात्र है। इसमें उनकी वंशावली इस प्रकार दी हुई है:—

लेखप्रस्तुत नाम	पेतिहासिक नाम
(१) गोविन्द	=गोविन्द प्रथम
(२) कङ्क	=कर्क प्रथम
(३) इन्द्र	=इन्द्र द्वितीय
(४) वैरमेघ	=दन्तिदुर्ग या दन्तिवर्मन् द्वि०
(५) अकालवर्ष	=कृष्ण प्रथम
[वैरमेघका चाचा (पितृभ्य)]	
(६) प्रभूतवर्ष	=गोविन्द द्वितीय
(७) धारावर्ष श्री पृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर, द्वितीय	
नाम—वल्लभ=ध्रुव (प्रभूत वर्षका छोटा भाई)	
(८) प्रभूतवर्ष श्रीपृथ्वीवल्लभ [महा]-राजाधिराज परमेश्वर,	
द्वितीय नाम वल्लभेन्द्र	=गोविन्द तृतीय

१४ वीं पंक्तिमें कहा गया है कि अकालवर्षने अपने ही नामसे 'कृष्णेश्वर' नामक मन्दिर बनवाया था। पंक्ति २९-३० से ऐसा मालूम पड़ता है कि यह मन्दिर शिवके लिये अर्पण किया गया था। पं० ८१ में बताया

गया है कि दानके समय गोविन्द-तृतीय मयूरखण्डीके अपने विजय-स्कन्धावार (पड़ाव) में ठहरे हुए थे।

पंक्ति १५-७५ में विमलादित्यकी वंशावलीका उल्लेख हुआ है। उनके पिता राजा यशोवर्मा थे और उनके बाबा नरेन्द्र बलवर्मा थे। चालुक्योंसे इस कुलका संबंध था; लेकिन वर्तमानमें चालुक्यवंशी राजाओंमें इन नामोंके राजा नहीं मिलते हैं, इसलिए प्रो० भाण्डारकरने उन्हें एक स्वतन्त्र शाखाका माना है। विमलादित्य कुनुन्गिल्लू देश (ज़िले) का राजा था। विमलादित्यको चाकिराजकी बहिनका पुत्र बताया गया है। चाकिराजको गङ्गों (अशेष-गङ्गमण्डलाधिराज) के समूचे प्रान्तका शासक कहा गया है। इसीकी प्रार्थनापर दान किया गया था।

पंक्ति ७५-८० में दानपात्रका विशेष वर्णन है। उनका नाम अर्ककीर्ति था, ये कूबिल आचार्यके शिष्य विजयकीर्तिके शिष्य थे। यह मुनि श्री यापनीय नन्दिसंघके पुंनगवृक्षमूलगणके श्रीकीर्त्याचार्यके अन्वय (परम्परा) के थे। इनका एक विशेषण 'व्रतसमित्तिसुसिगुसमुनिवृन्दवन्दितचरणः' है।

लेखके अन्तिम भागका सार ऊपर दे दिया गया है। लेखके अन्तिम भागमें कुछ साक्षियोंके नाम भी दिये गये हैं जिनके सामने यह दान किया गया था। अन्तके चार वे ही साधारण शापारमक श्लोक हैं।]

१२५

नौसारी—संस्कृत।

[शक ७४३=८२१ ईस्वी]

यह शिलालेख सम्भवतः श्वेताम्बर सम्प्रदायका है।

[H. H. Dhruva, Zeitschr. d. deut. morg. Gesell., XI,
p. 321, n° VII, a.]

१२६

कांगड़ा—संस्कृत।

[लौकिक वर्ष ?]=८५४ ई० ? (बृहद्र)

श्वेताम्बर सम्प्रदायका।

[EI, I, n° XVIII (p. 120), t. & tr.]

१२७

कोञ्जूर (जिला धारवाड़)—संस्कृत ।

[शक सं० ७८२=८६० ई०]

श्रियः प्रियस्संगतविश्वरूपस्सुदर्शनच्छिन्नपरावलेपः ।
 दिश्यादनन्तः प्रणतामरेन्द्रः श्रियं ममाद्यः परमां जिनेन्द्रः ॥ १ ॥
 अनन्तभोगस्थितिरत्र पातु वः प्रतापशीलप्रभवोदयाचलः ।
 सु-राष्ट्रकूटोर्जितवंशपूर्वजस्स वीर-नारायण एव यो विभुः ॥ २ ॥
 तदीयभूपायतयादवान्वये क्रमेण वार्द्धीविव रत्नसञ्चयः ।
 बभूव गोविन्दमहीपतिर्भुवः प्रसाधनो पृच्छकराज-नन्दनः ॥ ३ ॥
 इन्द्रावनीपालसुतेन धारिणी प्रसारिता येन पृथु-प्रभाविना ।
 महौजसा वैरितमो निराकृतं प्रतापशीलेन स कर्कर-प्रभुः ॥ ४ ॥
 ततोऽभवद्वन्तिघटाभिर्मदनो हिमाचलादुर्जित-सेतु-सीमतः ।
 ग्वलीकृतोद्धृतमहीपमण्डलः कुलाग्रणीः यो भुवि दन्तिदुर्ग-राट् ॥ ५ ॥
 स्वयम्बरीभूतरणाङ्गणे ततस्स निर्व्यपेक्षं शुभतुङ्गचलमः ।
 चकर्ष चालुक्यकुलश्रियं बलाद्विलोल-पालिध्वज-माल-भारिणीं ॥ ६ ॥
 जयोच्चसिंहासनचामरोर्जितस्मिततातपत्रो प्रतिपक्ष राज्य(ज)हा ।
 अकालवर्षोर्जितभूपनामको बभूव राजर्षिरशेषपुण्यतः ॥ ७ ॥
 ततः प्रभूतवर्षोऽभूद्द्वारावर्षसुतशरैः ।
 धारावर्षायितं येन संप्रामभुवि भूभुजा ॥ ८ ॥ तस्य सुतः—

यज्जन्मकाले देवेन्द्रैरादिष्टं बृषभो भुवः ।

भोक्तेति हिमवत्सेतु-पर्यन्ताम्बुधिमेखलाम् ॥ ९ ॥

ततः प्रभूतवर्षस्सन् स्वयम्पूर्णमनोरथः ।

जगत्तुङ्गस्सुमेरुर्वा भूमृतामुपरि स्थितः ॥ १० ॥

बन्धूनां बन्धुराणामुचितनिजकुले पूर्वजानां प्रजानां
जातानां **वल्लभानां** भुवनभरितसत्कीर्तिमूर्ति-स्थितानां ।
त्रातुं कीर्त्तं स-लोकं कलिकलुषमथो हन्तमन्तो रिपूणां
श्रीमान् सिंहासनस्थो भवनवनिमतो **ऽमोघवर्षः** प्रशास्ति ॥ ११ ॥
यस्याज्ञां परचक्रिणः क्षत्रमिवाजस्रं शिरोभिर्व्यह-
न्यादिग्दन्तिघटावलीमुखपटैः कीर्त्तिप्रतान्नुस्स तैः ।
यत्रस्थः स्वकरप्रतापमहिमा कस्याप्यदूरस्थितः
तेजःक्रान्तसमस्तभूभृदिव एवासौ न कस्योपरि ॥ १२ ॥
चतुस्समुद्रपर्यन्तं (?) स्वमुद्रं यत्प्रसाधितं ।
भग्ना समस्तभूपालमुद्रा गरुडमुद्रया ॥ १३ ॥

राजेन्द्रास्ते वन्दनीयास्तु पूर्वे, येषां धर्मः पालनीयोऽस्मदीयैः ।
ध्वस्ता दुष्टा वर्त्तमानास्सधर्माः प्रार्थ्या ये ते भाविनः पार्थिवेन्द्राः ॥१४॥
भुक्तं कश्चिद्विक्रमेणापरेभ्यो
दत्तं चान्यैस्त्यक्तमेवापरंर्यत् ।
कास्थानिल्ये तत्र राज्ये महद्भिः
कीर्त्या (त्त्यै ?) धर्मः केवलं पालनीयः ॥ १५ ॥
तेनेदमनिलविद्युच्चञ्चलमवलोक्य जीवितमसारं ।
क्षितिदानपरमपुण्यः प्रवर्तितो देवदायोऽयम् ॥ १६ ॥

स एव परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्री-जगतुङ्गदेव-पादा-
नुध्यान(त) परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्री-पृथ्वीवल्लभ-श्रीमद्-
मोघवर्ष-श्रीवल्लभनरेन्द्रदेवः सव्वानिव यथासम्बन्धमानकान्-राष्ट्रविषय-

पति-ग्रामकूटायुक्तक-नियुक्ताधिकारिकमहत्तरादीन् समादिशत्यस्तु वस्संवि-
दितं यथा ॥

विक्रमविलासनिलयो मुकुल-कुले पूर्व्वबन्धुभिर्मन्यैः

एरकोटिनामधेयः प्रविकसितोऽभूत्प्रसूनसमः ॥ १७ ॥

आविरासीत्प्रभुस्तस्मात् प्रसूनात्फलसन्निभः ।

नाम्ना धोरः कुलाधारः कोलनूराधिपस्वयम् ॥ १८ ॥

सुतोऽस्य विजयाङ्गायामभूद्भुवनमानितः ।

प्रचण्डमण्डलातङ्को बङ्गेशः से(चे)ल्लकेतनः ॥ १९ ॥

मदीयो विततज्योतिर्णिण(नि)शितोऽसिर्वापरैः ॥

उन्मूलितद्विषद्वृक्षमूलो मौलबलप्रभुः ॥ २० ॥

मत्प्रदेशेन संलब्ध-वनवासी-पुरस्सरान् ।

ग्रामान् त्रिंशत्सहस्राणि भुनक्त्यविरतोदयः ॥ २१ ॥

महाप्रतापादुच्छेदमुदयच्छन् मदिरच्छया ।

मूलादुच्छेत्सुमुत्तुङ्गं गङ्गवाडी-वटाटवीम् ॥ २२ ॥

तन्त्रान्तरेऽस्मत्सावमन्तैर्म्मात्सर्याहितमानभै- ।

रुपेक्षितोऽपि कोपोद्यत्साहसैकसखः स्वयम् ॥ २३ ॥

ध्वस्तरिपुनीतिमाङ्गो रणविक्रममेकबुद्धिमभिर्नीय ।

स मदीयहृदयसंगतमवन्ध्यकोपत्वमावहति ॥ २४ ॥ येन-

तत्-केदलाभिधानं दुर्गं वप्राग्गलादिदुर्लङ्घ्यं ।

मौल-बलाधिष्ठितमपि सबः प्रोल्लङ्घय हेलयाप्राहि ॥ २५ ॥

जनपदमदः कृत्वा हस्ते विधूय विरोधिनं

तलवनपुराधीशं कृत्वा श्रुतं रणविक्रमम् ।

मदरिविजयी भर्तुः श्लाघ्यस्समन्वितसंगरः

समरसमये विद्विद्-चक्रैरविकृतविक्रमः ॥ २६ ॥

कावेरीं गुरुपूरदुर्गमतमामुल्लङ्घ्य सिंहक्रमात्

प्रत्यप्र-स्फुरित-प्रताप-दहन-प्रोद्यच्छिखाश्रेणिभिः ।

निर्दह्यैकपदेन सप्तपदकान्विद्विट्टनोच्छेदिना

येनाकम्पि जगत्प्रकम्पनपटोर्वैराज्यमप्यूर्जितम् ॥ २७ ॥

तन्मान्तरे मदन्तिकमन्तर्भेदेन जातसंक्षोभे ।

प्रत्यागन्तव्यमिति त्वयेति मद्बन्धनमात्रेण ॥ २८ ॥

अप्राप्ते बल्लभेन्द्रो मयि जयति यदा विद्विषः स्यान्तदाहं

सन्यस्ताशेषसङ्गो मुनिरथ विधिना विद्विषं स्याज्जयश्रीः ।

तत्राप्युदामधूमध्वजविततशिखासूतपतामि प्रतापा-

दिल्यात्तदप्रतिज्ञः कतिपयदिवसैः प्रापदस्मत्समीपम् ॥ २९ ॥

मासत्रयस्य मध्ये यदि भोजयितुं न शक्यते स्वामी ।

क्षीरं विजित्य शत्रुं तथापि बहिर्विशाम्येव ॥ ३० ॥

इत्युक्त्वा क्रमविक्रमोच्छिखशिखीज्ज्वालावलीड (ट)ब्र(त्र) जे

धूमश्याम [लि] ते तिरोहिततनौ प्रायः परंप्रेषिते ।

ये ते मत्तनये स्थितान्यनृपतीर्निर्जित्य यो जित्वरो

बन्दीकृत्य रिपूनिहित्य च तदा तीर्णप्रतिज्ञोऽभवत् ॥ ३१ ॥

आविष्कृतकोपशिखानिर्दग्धारीन्धनो त्रिनाप्यनिलात् ।

अज्जालितोऽपि यस्य प्रतापवह्निर्मुहुर्ज्वलति ॥ ३२ ॥

यस्य च कृपाण-[वारिणि]रुधिराकुलिता द्विषां महालक्ष्मीः ।

मज्जत्युन्मज्जति तु स्वाधिपतेः कुङ्कुमा(ः भा)क्त्वेव ॥ ३३ ॥

हुत्वा येन रिपुं विरोधिरुधिरप्राज्याज्यधाराहृति-

व्रात-प्रस्फुरित-प्रताप-दहने विद्विष्टशान्तेश्श्रितं ।

विप्रेणेव रणाध्वरे सुविहित-श्री-मन्त्रशक्त्यार्जितं

कल्पान्तस्थिरवीरशासनमिदं मद्बीरनारायणात् ॥ ३४ ॥

तेनैवम्भूतेन बङ्केयाभिधानेन मदिष्टभृत्येन प्रार्थितः सन् तत्प्रार्थनया
मान्यखेटराजधान्यामवस्थितेन मया [मा]-तापित्रोरात्मनश्चैहिकामुत्रि-
कपुण्यशोभिवृद्धये कोलनूरे तद्वङ्केयनिर्मापित-जिनायतन-परि-
पालननियुक्ताय

श्रीमूलसङ्घ-देशीयगण-पुस्तकगच्छतः ।

जातसैकालयोगीशः क्षीराब्धेरिव कौस्तुभः ॥ ३५ ॥

तच्चारित्रवधूप(पु)त्रः श्रीदेवेन्द्रमुनीश्वरः ।

सैद्धान्तिकाग्रणीस्तरं बङ्केयो[यामदान्मु]दा ॥ ३६ ॥

तद्वसतिमम्बन्धिनवकर्मोत्तरभाविग्वण्डस्फुटित-सम्मारजनोपलेपनपरि-
पालनादिधर्मोपयोगिकर्मकरणनिमित्तं मज्जन्तिय-सप्ततिग्राम-भुक्त्यन्त-
र्गतः तलेयूरनामग्रामः तस्य चाघातः (टः) तन्कोलनूरात् पूर्वतः
वेन्दनूरु दक्षिणतः सासवेवादु तत्पश्चिमतः पडिलगेरी उत्तरतः कील-
चाडः एवमथं चतुराघाटनोपलक्षितः सोन्द्रंगस्स-परिकरः मदण्डदशाप-
राधस्सम्भूतोपात्तप्रत्यय^१ः सोन्पद्यमानविष्टिति (क)ः सधान्यहिरण्यादेयः
द्वादशपुष्पघाटः पञ्चाशदुत्तरशनहस्तविस्तारः पञ्चशतहस्तप्रमाणायामः
गृहाणामाघाटस्समुदितः प्रवेश्यस्सर्व्वराजकीयानामहस्तप्रक्षेपणीयः आच-
न्द्रार्कावर्णव-क्षिति-सुरित्-पर्व्वत-समकालीनः पुत्रपात्रान्वयक्रमेण प्रतिपाल्यः
पूर्व्वप्रदत्त-देवब्रह्मदायरहितोऽह्य (भ्य)न्तरसि [द्] द्वया भूमिच्छि-
द्रन्यायेन शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेषु सप्तसु द्वा(द्वय)-
शीत्यधिकेषु तदभ्यधिक-समनन्तर-प्रवर्त्तमान-त्रयो शीतितम-
विक्रमसंवत्सरान्तर्गताश्वयुजपौर्णमास्यां सर्व्वग्रासि-सोमग्रहणे

१ 'सम्भूतोपात्तप्रत्यायस्' शब्द है । २ 'व्यशीतितम' पढ़ना चाहिये ।

महापर्वणि बलिपक्षवैश्वदेवाग्निहोत्रातिथिमन्तर्पणाद्भारोदकातिमर्गण प्रतिपादितः ॥ तथात्रैव तत्कोलनूरतद्भुक्तिमध्यवृत्त्यवरवाडि बेण्डनूर मुदुगुण्डि कित्तैवोले सुल्ल मुस दधरे माविनूर मत्तिकट्टे नीलगुन्दगे तालिखेड बेल्लेरु संगम पिरिसिङ्गि मुत्तलगेरी काकेयनूर बेहेरु आल्लुगु [पार्व्व] नगेरी होसंजललु इन्दुगलु नेरिलगे हगनूर उनलगरु इन्दगेरी मुनिवल्ली कोट्टसे ओड्डिट्टगे सि [किमन्नि ?] गिरि [पि] डलु नामधेयेष्वेतेषु कोलनूर्गतं तद्भुक्तिवर्तिषु त्रिंशत्स्वपि प्रामेष्वेकैकप्रामे द्वादश निवर्त्तनानि भूमेः प्रतिपादितानि ॥॥॥ अतोऽस्योचितया देवदायदायस्थित्या भुञ्जतो भोजयतः कृपतः कर्षयतः प्रतिदिशतो वा न कैश्चिदल्पापि परिपन्थना कार्या तथागामिभद्रनुपतिभिरस्मद्वंशैरन्यैर्वा सामान्यं भूमिदानफलमेवत्य विद्युल्लोलान्यैश्चयाणि तृणाग्रलग्रजलविन्दृचञ्चलं च जीवितमाकलय्य स्वदायनिर्व्विशेषोऽस्मदायोऽनुमन्तव्यः प्रतिपालयितव्यश्च ।

यस्त्वंज्ञानतिमिरपटलावृतमतिरार्च्छ्यमानकं वानुमोदत म पञ्चभिर्महापातैकस्मोपपातकैश्च संयुक्तः स्यादित्युक्तं भगवता वेदव्यासेन ॥

पष्टिर्बर्षसहस्राणि स्वर्गे तिष्ठति भूमिदः ।

आच्छेत्ता चानुमन्ता च तामेव नरके वसेत् ॥ ३७ ॥

विन्ध्याटवीश्वतोयासु शुष्ककोटग्वासिनः ।

कृष्णमर्षा हि जायन्ते भूमिदानं हगन्ति ये ॥ ३८ ॥

अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भूर्वैष्णवी मूर्धसुतश्च गावः ।

लोकत्रयन्तेन भवेद्भि दत्तं यः काञ्चनं गां चं महीं च दद्यात् ३९॥

बहुभिर्व्यसुधा मुक्ता राजभिस्सगरादिभिः ।
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥ ४० ॥

खदत्तां परदत्तां वा यत्नाद्रक्ष्ये^१ नराधिपः ।
महीं महीमतां श्रेष्ठ दानाच्छ्रेयोऽनुपालनम् ॥ ४१ ॥

इति कमलदलाम्बुविन्दुलोलं

श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च ।

अतिविमलमनोभिरामकै-

र्नहि पुरुषैः परकीर्त्तयो विलोप्याः ॥ ४२ ॥

लिखितञ्चैनद् वालभकायस्थवंशजातेन धर्माधिकरणस्थेन भोगिकव-
त्सराजेन श्रीहर्षमुनुना ग्रामपट्ट्याधिकृतलेखकरणहस्ति-नाग-वर्म-
पृथ्वीराम-भृत्येन ॥

बङ्केयराजमुख्यो गणपतिनामा महत्तरः प्राज्ञः ।

राज्ञः यमीपवर्ती तेनेदमनुष्ठितं सर्व्वम् ॥ ४३ ॥

मिथ्याभावभवातिदर्पपरतद्दुःशासनोच्छेदकं

प्राज्ञाज्ञावशवर्त्तमानजनतासन्मौख्यसम्पादकम् ।

नानारूपविशिष्टवस्तुपरमस्याद्वादलक्ष्मीपदं

जेजीयाजिनराजशासनमिदं स्वाचारसारप्रदम् ॥ ४४ ॥

सिद्धान्तामृतवाद्धितारकपतिस्तर्काम्बुजाहर्षतिः

शब्दोद्यानवनामृतैकसरणिय्योगीन्द्रचूडामणिः ।

त्रैविद्यापरसार्थनामविभवः प्रोद्भूतचेतोभवः

जीयादन्यमतावनीभृदशनिः श्रीमेघचन्द्रो मुनिः ॥ ४५ ॥

इदे हंसीवृन्दमीटल्वगोदपुडुचकोरीचयं
 चञ्चुविन्दं कर्दुकल् सार्हण्पुडीशं जडेयोल् इरिसलेन्दिद्वपं
 सेजेगीरल् पदेदणं कृष्णनेम्बन्तेसेदु बिसलसन्कन्दलीकन्दकान्तं
 पुदिदत्ती **मेघचन्द्र** व्रन्तिलकजगद्वर्त्तिकीर्त्तिप्रकाशं ॥ ४६ ॥

वैदग्ध्यश्रीवधूटीपतिरग्विलगुणालंकृति**मेघचन्द्र-**

त्रैविद्यस्यान्मजातो मदनमहिभृतो मेदभै वज्रपातः

सिद्धान्तव्यूहचूडामणिरनुपमचिन्तामणिभूजनानां

योऽभूत्तमौजन्यरुन्द्रश्रियमवनि महौ **वीरनन्दीमुनीन्द्रः** ॥४७॥

यःशब्दत्त(?)-नभस्थली-दिनमणिः काव्यज्ञचूडामणि-

र्यस्तर्कस्थितिकौमुदीहिमकरस्तर्कत्रयाब्जाकरः ।

यस्सिद्धान्तविचारसारधिपणो रत्नत्रयीभूषणः

स्थेयादुद्धतवादिभूभृदशनिः श्री**वीरनन्दीमुनिः** ॥ ४८ ॥

यन्मूर्तिर्जगतां जनस्य नयने कर्पूरपूरायते

यद्वृत्तिर्विदुषां ततेश्रवणयोर्माणिक्वभूपायते ।

यन्कीर्तिः ककुमां श्रियः कचभरे मल्लीलतान्तायते

जेजीयान्दुवि **वीरनन्दिमुनिपः** गैद्धान्तचक्राधिपः ॥ ४९ ॥

श्री**कोन्दकुन्दा**न्वयाम्बरद्युमणि विद्वज्जनशिरोमणि समस्तानवद्यविद्या-
 विलासिर्नाविलासमूर्ति श्री**वीरनन्दि**भै[द्वा]न्तिक-चक्रवर्तिगलु श्रीमन्महा-
 स्थानं कोलनूर महाप्रभु **हुलियमरसनुं** मरुपुरपञ्चमठस्थानङ्गल्लं ताम्ब्र-
 शासनमं नोदि वरेयिसिमेनल्का शासननोऽन्तिर्दुदन्ती शीलशासनमं वरे-
 यिसिदरु [II] मङ्गलमहाश्री श्री श्री नमो.....[III]

[जिस पाषाणपर यह लेख है वह कोच्चरके परमेश्वरके मन्दिरकी दीवालमें लगा हुआ है ।

इस लेखके दो भाग हो जाते हैं। श्लोक १ से लेकर ४३ तक दानकी प्रशस्ति है। यह दान ८६० ई० में राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथमने दिया था। श्लोक ४४ से लेकर लेखके अन्तिम गद्य तकका भाग जैनधर्म और दो मुनियों—मेघचन्द्र त्रैविद्य और उनके शिष्य वीरनन्दीकी प्रशंसा करनेके बाद, हमें यह सूचित करता है कि वीरनन्दिके पास एक ताम्रशासन (तांबे के ऊपरका लेख) था, जिसको बादमें कोळनूर (कोन्नूर जहाँका यह शिलालेख है) के महाप्रभु हुलियमरस तथा औरोंकी प्रार्थनापर प्रस्तुत शिलालेखके रूपमें उत्कीर्ण किया गया। इस कथनके अनुसार शिलालेखका आदिसे लेकर ४३ श्लोक तकका भाग, जिसमें दान-प्रशस्ति है, ताम्र-शासनके लेखपरसे लिया गया है। वीरनन्दी और उनके गुरु मेघचन्द्र त्रैविद्यके कालसे इस पाषाण-लेखके कालका निर्णय एफ़ कीलहॉर्नने स्थूल रूपसे ईसवीकी १२ वीं सदीका मध्य निश्चित किया है। यह काल शिलालेख-निर्दिष्टकाल ८६० ई० (शक सं० ७८२) से भिन्न पड़ता है।

शिलालेखके मुख्य भागमें (श्लोक १-४३ तक) यह उल्लेख है कि आश्विन महीनेकी पूर्णिमाको सर्वप्राची चन्द्रग्रहणके अवसरपर, जब कि शक सं० ७८२ कीत चुका था, और जगत्तुंगके उत्तराधिकारी राजा अमोघवर्ष (प्रथम) राज्य कर रहे थे, उन्होंने अपने अधीनस्थ राज्यकर्मचारी बङ्केयकी महत्त्वपूर्ण सेवाके उपलक्ष्यमें कोळनूरमें बङ्केयद्वारा स्थापित जिनमन्दिरके लिये देवेन्द्रमुनिको तलेयूर गाँव पूरा तथा और दूसरे गाँवोंकी कुछ जमीन दानमें दी। ये देवेन्द्र पुस्तक गच्छ, देशीय गण, मूलसंघके त्रैकालयोगीशके शिष्य थे। शिलालेखके प्रारम्भिक भाग (श्लोक ३ से ११) में अमोघवर्षकी वंशावली दी हुई है। १७-३४ तकके श्लोकोंमें बंकेय की सेवाओंकी प्रशंसा वर्णित है। इस भागके अन्तिम अंशमें (४२ वें श्लोकके बादके गद्य अंश और ४३ वें श्लोकमें) लेखकका नाम वत्सराज तथा बङ्केयराजके मुख्य सलाहकारका नाम महत्तर गणपति दिया हुआ है।

इस शिलालेखपरसे अमोघवर्षकी जो वंशावली निकलती है तथा दूसरे ताम्र-पत्रोंपर जो उत्कीर्ण है उसमें कुछ अन्तर पड़ता है। पाठकोंके जाननेके लिये हम यहाँ दोनों वंशावलियाँ दे देते हैं।

इस शिलालेखपरसे	दूसरे ताम्रपत्रोंपरसे
१ यादव वंशमें, पृच्छकराजका पुत्र गोविन्द	गोविन्दराज प्रथम
२ राजा इन्द्रका पुत्र कर्कर	उसका पुत्र ककराज या कर्कराज
३ उसका पुत्र दन्तिदुर्ग	उसका पुत्र इन्द्रराज
४ शुभतुंगवल्लभ—अकालवर्ष	उसका पुत्र दन्तिदुर्ग
५ धारावर्षका पुत्र प्रभूतवर्ष	शुभतुंग-अकालवर्ष (कृष्णराज प्रथम, जो कर्कराजका पुत्र है)
६ उसका पुत्र प्रभूतवर्ष जगत्तुंग	उसका पुत्र प्रभूतवर्ष (गोवि- न्दराज द्वि०)
७ अमोघवर्ष	उसका पुत्र प्रभूतवर्ष जगत्तुंग (गोविन्द)
	उसका पुत्र अमोघवर्ष]

[EI, VI, n° 4 (1st part)]

१२८

देवगढ (मध्यप्रान्त)—संस्कृत ।

[विक्रम सं० ९१९ तथा शक सं० ७८४=८६२ ई०]

- १ [ओं ?] [] परमभट्टार [क]-मह [] गजाधिगज-परमेश्वरश्री-भो-
- २ जदेव-महीप्रवर्द्धमान-कल्याणविजयराज्ये
- ३ तत्प्रदत्त-पञ्चमहाशब्द-महामामन्त-श्री-[वि] ण []-
- ४ [र] म-परिभुज्यमा [क] लुअच्छगिरे श्री-शान्त्यायत [न]-
- ५ [सं] निधे श्री-कमलदेवाचार्य-शिष्येण श्री-देवेन कारा-
- ६ [पि] ते इदं स्तम्भं ॥ संवत् ९१९ अस्व (श्व) युज-शुक्ल-
- ७ पक्ष-चतुर्दश्यां वृ (वृ) हस्पति-दिनेन उत्तरभाद्रप-

१ 'माने' या 'मानके' । २ 'कारितोऽयं स्तम्भः' यह शुद्ध रूप पढ़ना चाहिये ।

८ दानक्षत्रे^१ इदं स्तम्भं समाप्तमिति ॥०॥ वाजुआ—

९ गगाकेन गोष्ठिक-भूतेन^२ इदं स्तम्भं घटितमिति ॥०॥

१० [श]ककाल-[ब्द]-सप्तशतानि चतुराशीत्यधिकानि
७८४ [॥]

[इस लेखमें उल्लेख यह है कि परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवके राज्यमें जब लुअच्छगिरिपर (देवगढ़का ही एक नाम मालूम पड़ता है—[एफ० फीलहॉर्न]) महासामन्त विष्णुरमका शासन था, तब जिस स्तम्भपर यह लेख खुदा हुआ है वह भाचार्य कमलदेवके शिष्य श्रीदेवके द्वारा श्री शान्तिनाथ मन्दिरके पास बनवाया गया था और यह विक्रम सं० ९१९ के आश्विन सुदी १४, बृहस्पतिवारके दिन उत्तर भाद्रपदा नक्षत्रके योगमें बनकर तैयार हुआ था। बनानेवालेका नाम गोष्ठिक वाजुआगगाक था। इसके अतिरिक्त, अन्तिम पंक्ति शक संवत्, अक्षरों और अङ्क दोनोंमें, ७८४ का निर्देश करती है।]

[EI, IV, n° 44, A]

१२९

बड़नगर—संस्कृत।

[सं० ९३२=८७५ ई०]

- १ तर प्रसिद्धम् श्री * * * क राज्ये यद्-कुल म्ठ कु * ।
- २ क्त्यत्रप्रिविद्यनो तत्क्षेत्रे भिर्विभाषितं अङ्गोदेः श्री *
- ३ दिग्हागो धनपतेः क्रकुभिर्निर्ध मार्गाः अस्य मुदद्गुन् *
- ४ मिमस्य शशाङ्क तपनस्थितेः उमनेयं नवहङ्क ।

१ '०त्रेऽयं स्तम्भः समाप्त इति' ऐसा पढ़ो। २ '-भूतेनायं स्तम्भो घटित इति' पढ़ो। ३ प्रो० बृहहरकी रायमें 'गोष्ठिक' लोग धर्मदानोंका प्रबंध करनेवाली समितिके सदस्य थे, जिनको आजकलकी भाषामें 'ट्रस्टी' कह सकते हैं।

५ स्यम् सं ९३३ वैशाखो सुदि १४ ।†

[पथारिसे दक्षिणकी ओर करीब ३ मीलपर ज्ञाननाथ पर्वतकी तलहटीमें एक झीलके किनारे बारो या बड़नगरके ध्वंसावशेष सुन्दर रीतिसे अवस्थित हैं। वहाँपर एक 'गडर-मर' नामका मन्दिर है, जो कि किसी गडरियेका बनवाया हुआ था।

इस गडरमर मन्दिरकी पश्चिम दिशामें छोटे-छोटे जैन मन्दिरोंका एक समूह है। उसके चतुष्कोण प्राङ्गणके बाहर एक चतुष्कोण छोटे पत्थरपर उक्त शिलालेख मिला था।]

[A. Cunningham, Reports, V, p. 74]

१३०

सौंदत्ति—संस्कृत तथा कन्नड़ ।

[शक ७९७=१७५ ई०]

लेख

द्वादशप्रामाधिष्ठानस्य सुगन्धवर्तिमम(सम्य)न्धिनि ॥ ग्रामे मूळ-
गुन्दारुष्ये । सीवटे पट्ट निवर्त्तनं । देवस्य (स्व) त्रि(गु)रुवे दत्तं ।
नमस्य (स्थ) कन्नभूभुजा ॥ तस्य दक्षिणे भागे । तिनितिणीवृक्षयो-
र्द्वयोः । मध्ये या स्थिता भूमिद्व (ई) ता श्रीकन्नभूभुजा । सुगन्ध-
वर्तिय सीमेयिन्द पट्ट (डु) वल् पिरियकोल्लत् मत्तर ६ ॥

श्रीमन्परमगम्भीरस्याद्वादामोक्षल्लंछनं [I] जीयार्त्रं (त्रै) लोक्ष्यना-
थस्य शासनं जिनशासनं ॥ श्रीमन्मैलापतीर्थस्य गणे कारेयनामनि
[II] वभूवोप्रतपोयुक्तः मूळभट्टारको गणी ॥ तच्छिष्यो गुणवान्मूरिः

† दुर्भाग्यसे यह लेख दोनों ओर (प्रारम्भ और अन्तमें) अधूरा ही है। इसलिये कनिष्ठम साहब इधर-उधर कुछ शब्दोंकी पूर्तिके बजाय इसके पूर्णरूपसे समझनेमें असफल रहे हैं। अतएव इसका विशेष सारांश भी नहीं दिया जा सका ।

गुणकीर्त्तिमुनीश्वरः [1] तस्याथामी (सीदिं) **द्रकीर्त्तिस्वामी** कामम-
दापहः ॥ तच्छात्रः **पृथ्वीरामः** लक्ष्मीरामविराजितः [1] सत्यरत्नप्ररो-
हाद्रिः (मे)चडस्याग्रनन्दनः ॥ श्री**कृष्णराजदेवस्य** लक्ष्मीलक्षितवक्षसः [1]
नम्रभूपालवृन्दस्य पादाम्बुर्ह(रुह)सेवकः ॥ यस्य बालप्रतापा-
ग्निज्वालानिकरशोषितस्ममुद्री (द्र) त्पासुहृद्वर्परसो निश्लेषको यथा ।
यस्य राजन्वती भूमिर्जितानन्दकरैः करैः [1] राज्ञो यो धीमतो नीति-
मार्गो दुर्गभयंकरः ॥ यस्य संक्रीडते कीर्तिहंसी लोकसरोवरे [1]
यद्वाख्यं प्रश्र(स्त्र)तं जातं प्रणतारातिभूपतेः ॥ **सप्तस(श)त्या**
नवत्या च समायुक्त (क्ते) स (पु) सप्तषु [1] स(श)
ककालेश्व (ष्व) तीतेषु **मन्मथाह्वयवत्सरे** ॥ ग्रामे **सुगन्धवर्ती**ख्ये तेन
भूपेन कारितं [1] जिनेन्द्रभवनं दत्तं तस्याष्टदशनिवर्त्तनं ॥ स्वस्ति
ममस्तभुवनाश्रयं श्रीपृथ्वीवल्लभ (भं) महाराजाधिराज (जं) परमे-
श्वरं (र) परमभट्टारकं **राष्ट्रकूटकुलतिलकं** श्रीमत**कृष्णराजदेव**विजय-
गज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कतारं वरं मलुत्तमिरे [1] तत्पाद-
पद्मोपजीवि ॥ स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्दमहासामन्तं वीरलक्ष्मीकान्तं
विरोधिमामन्तनगवज्रदण्डं विद्वज्जनकमलमार्त्तण्डं सुभटचूडामणि भृत्य-
चिन्तामणि श्रीमन्महासामन्तेन **पृथ्वीरामेण** (न) स्वकारितजिनेन्द्र-
भवनाय चतुर्षु स्थलेषु स्थितमष्टादशनिवर्त्तनं सर्व्वनमश्यं (स्यं) दत्तं ॥
पृथ्वीरामेण (न) यदत्तं निवर्त्तनं कार्त्तवीर्येण भूयः खगुरवे दत्तं सर्व्ववादा
(धा) विवर्जितं ॥ सूर्योपरागसंक्रान्तो (तौ) **कार्त्तवीर्या**प्रकान्तया ।
श्रीभागला(लां)त्रिकादेव्या नमश्यं (स्यं) कृतभंजसा ॥

[सौदत्तिमें जिसका पुराना नाम सुगन्धवर्ती है, एक छोटे जिनमन्दिर-
की बाईं ओर दीवालमें जड़े हुए पाषाण-शिलापरसे यह लेख लिया गया
है । लेखमें अनेक विशेष दान हैं । यह बहुत-कुछ राजाओंकी वंशावलीका

हाल भी बताता है। हम देखते हैं कि रट्टोंमें प्रथम जिसने कि प्रमुख अधिकारी होनेका पद पाया था मेरडका पुत्र पृथ्वीराम था। उसको यह प्रमुख अधिपति होनेका पद राष्ट्रकूट राजा कृष्णकी अधीनतामें मिला था। इससे पहिले वह पूज्य ऋषि मैलापतीर्थके कारेय गणमें सिर्फ एक धार्मिक विद्यार्थी था। इस शिलालेखमें कृष्णराजदेवकी उपाधियाँ चालुक्य राजाओंके समान ही हैं तथा चक्रवर्तीकी उपाधियाँ हैं, और हम यह भी देखते हैं कि शक ७९८ में, जो मन्मथ संवत्सर था सुगन्धवर्त्तिमें उसने एक जिनमन्दिर बनवाया, और इसके लिये १८ 'निवर्तन' भूमि दी। किन्तु यह लेख किसी उत्तरवर्ती समयमें खोदा गया होगा, क्योंकि प्रथम चार पंक्तियोंमें राजा कन्नके जो कि पृथ्वीरामके ५ या ६ पीढ़ी आगे हुआ है, एक दानका उल्लेख आता है। यह दान सुगन्धवर्त्तिके मुलुगुन्दके 'सीवट' में किया गया था।

लेखका वंशावलीका भाग लेख नं० २३७ की 'रट्टवंशोद्भवः ख्यातो' पंक्तिसे शुरु होता है। प्रथम नाम नन्नका आया है। उसका पुत्र कार्तवीर्य था जो चालुक्य राजा आहवमल्ल या मोमेश्वरदेव प्रथमके अधीन था। सोमेश्वरदेव प्रथमका काल सर डब्ल्यू. इलियट (Sir W. Elliot) ने शक ९६२ (ई० १०४०-१) से लेकर शक ९९१ (ई० १०६९-७०) दिया है और इसी लेखसे यह पता चलता है कि कार्तवीर्यने ही कुण्डुडी (जो कि उत्तरवर्ती लेखोंका 'कुण्डी तीन हजार' है) की सीमायें निर्धारित की थीं। इसके बाद तीन पीढ़ी बीतनेपर चौथी पीढ़ीमें कार्तवीर्य द्वितीयका नाम आता है। यह चालुक्यराजा त्रिभुवनमल्लदेव, पेर्माडिदेव या विक्रमादित्य द्वितीय था !]

[JB, X, p. 194-198, ins. n° 2, 1st part]

१३१

बिलियूर—कन्नड़ ।

[शक ८०९=८८७ ई०]

भद्रमस्तु जिनशासनाय (I) शक-नृपातीता (त) काल-संवत्संगच्छे-

१ मूल लेखमें, "शक कालके ७९७ वर्ष व्यतीत होने पर" है।

न्तूनूर्वम्बत्तनेय वर्षं प्रवर्त्तिसुत्तिरे स्वस्ति सत्यवाक्यकोङ्कुणिवर्म-
धर्म-महाराजाधिराज कुवलाल-पुरवरेश्वर नन्दगिरि-नाथ श्रीमत्-
पेर्मनडिय राज्याभिषेकं गेय्द पडि नेण्टनेय वर्षदन्दु पा (फा) ल्युण-
मासद श्री-पञ्चमे यन्दु शिवणन्दि-सिद्धान्तद-भटारर शिष्यर् स्सर्व्व
(र्व) णन्दि-देवर्गं पेण्णे-गडङ्गद सत्यवाक्य-जिनालयके पेड्डोरे-
गरेय बिलियूर्-प्पन्निर्पक्कियुमं सर्व्व-पाद-परिहार पेर्मनडि कोडो तोम्
भड्डरु-सासिर्व्वरुं अय्-मामन्तरुं वेड्डोरेगरेय एल्पदिम्बरुं एन्तोक्कलुं इदक्कं
साश्री मले-सासिर्व्वरुं अय्मुर्व्वरुमं (अय्-नूर्वरुं) अय्-दामरिगरुं इदक्के
कापु इदन्किट्टो ब्रारणासियुमं सासिर्व्वर्पार्व्वरुमं सासिरं कविले युम-
नक्कित्तोम् पञ्चमहापातकनक्कु सेदोजन लिखित्त (तं) बिलियूर् ऐम्बडु-
गद्याण पोन्नू एण्टु-नरु-वड्डुमुं तेरुवोम् ।

[यह दान शकवर्ष ८०९ के चालू रहते हुए फाल्गुन महीनेके पाँचवें
दिन, जिस वर्ष पेर्मनडिके राज्याभिषेकका १८ वां वर्ष चालू था, उन्होंने
शिवनन्दि-सिद्धान्त- भट्टारके शिष्य सर्व्वनन्दि-देवको पेड्डोरेगरेके अन्तर्गत
बिलियूरके १२ छोटे गाँव, हमेशाके लिये लगान वगैरः से मुक्त करके, दिये ।
यह दान पेन्ने-कडङ्गके सत्यवाक्य जिनचैत्यालयके लिये दिया गया था । ऐसा
दीखता है कि 'सत्यवाक्य-कोङ्कुणिवर्म-धर्म-महाराजाधिराज' पेर्मनडि-
की ही उपाधि या विरुद् है । ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग-अलग
नहीं । ये कुवलाल-पुरके प्रभु तथा नन्दगिरिके नाथ थे ।

आगे लेखमें साक्षियों तथा संरक्षकोंका परिचय है । इस दानको भङ्ग
करनेवालेको असुक-असुक पापका भागी बताया है । यह लेख सेदोजका
लिखा हुआ है ।

बिलियूर की आमदनी ८० गद्याण सोना और ८०० (नाप) तन्दुल
(चावल) की है ।]

१३२

हुम्मच—कन्नड़ ।

शक ८१९=८९७ ई०

[हुम्मचमें गुड्डद बस्तिकी बाहरी दीवालपर]

स्वस्त्यनवद्य-दर्शन महोप्र-कुल-तिलक नय-प्रनाप-सम्पन्न पर-चक्र-
गण्डं गोण्डं बल्लानं काम्मुक-राम श्रीमत्-तोलापुरुष-विक्रमादित्यशा-
न्तरं शक-वर्षे येण्टनूर यिप्पत्तनेय वर्षे प्रवर्त्तिसुश्चिरे श्रीमत्-कोण्डकुन्दा-
न्वयद मोनि-सिद्धान्तद-च (भ) टारगे कल्ल वसदिय माडिसियदके
पोम्बुत्तचद (यहाँ दानकी विशेष चर्चा तथा वे ही अन्तिम वाक्यावयव
आते हैं) ।

इष्टनोर्व्वनधिद्वयतेगेन्दोसेदित्तुदम् ।

दुष्टनोर्व्वनदर फलवं तवे तिम्ववम् ।

मिष्टिमेले परमात्मने वन्द्..... ।

कष्ट्....विदिरन्ते कुल-श्रय मागुगुम् ॥

[स्वस्ति । जिनका दर्शन (मन) अनवद्य (निर्दोष) है, महोप्र-कुल-
तिलक, न्याय करनेमें प्रसिद्ध, विदेशी राज्योंके शूरवीरोंको पकड़नेमें चतुर,
धनुषको पकड़नेवाले रामकी तरह दिखनेवाले, तोलापुरुष विक्रमादित्य-
शान्तरने, (उक्त मिलिको), कोण्डकुन्दान्वयके मोनि-सिद्धान्त-भट्टारके
लिये एक पाषाणकी वसदि बनवाई, और इसके लिये (उक्त) दान
किये । शापात्मक श्लोक ।]

[EC, VIII, Nagar II, n° 60]

१३३

चल्लीमल्लै (जिला नार्थ आर्कट)—कन्नड़ ।

[बिना काल-निर्देशका]

१ स्वस्ति श्री [:] [] शिवमार-आत्मजा (ज)-वरना प्रवर-
श्रीपुरुषनाम—

२ नातन तनयं । भुवनीशं रणविक्रमलवन मक (ग) न् रा-

३ जमल्लन् अमलिनचरितन् [॥ १] कण्डु गिर [i] वरमना ,
भूमै-

४ डलपति राजमल्लन् अभयनुदारम् [i] पण्डितजन-

५ प्रियं कैय्-कोण्डान् कोण्डन्ते वसतियम्माडि-

६ सिदान् ॥ [२]

अनुवाद—(श्लोक १) शिवमारके पुत्रोंमें सबसे अच्छा पुत्र श्रीपुरुष नामका (राजपुत्र) था । उसका पुत्र लोकप्रभु रणविक्रम हुआ । उसका पुत्र अमलचरित राजमल्ल हुआ ।

(श्लोक २) इसको सबसे अच्छा पर्वत समझकर, भूमण्डलपति, अभय एवं उदार तथा पण्डितजनप्रिय राजमल्लने इसे अपने अधिकारमें कर लिया, और तत्पश्चात् इसपर एक वसति (मन्दिर) बनवाइ ।

[El, IV, n° 15, A.]

१३४

वह्नीमलै—कन्नड़ ।

[विना काल-निर्देशका]

(यह लेख दाहिनी तरफसे पहली प्रतिमाके नीचेका है)

१ स्वस्तिश्री [ii] बालचन्द्र-भट्टार

२ शिष्यर् अञ्जनन्दि-भट्टार

३ माडिसिद् प्रतिमे गोवर्धन्

४ भट्टाररेन्दोडमवरे [iii]

अनुवाद—यह प्रतिमा भट्टारक बालचन्द्रके शिष्य भट्टारक अञ्जनन्दि (आर्यनन्दि) के द्वारा बनवाई गई; और प्रतिमा 'गोवर्धन भट्टारक' की है ।

[El, IV, n° 15, D.]

१३५

वल्लीमलै—कन्नड़ ।

[बिना काल-निर्देशका]

ब—यह लेख बाईं तरफसे दूसरी प्रतिमाके नीचेका है ।

श्री [II] अज्जनन्दि-भटारक प्र [ति] म [] म [] ड [] दा
[७] [II]अनुवाद—स्वस्ति । भटारक या भटार अज्जनन्दि (आर्यनन्दि)ने
(इस) प्रतिमाको बनाया ।

[EI, IV, n° 15, B.]

१३६

वल्लीमलै—कन्नड़ ।

[बिना काल-निर्देशका]

- १ स्वस्ति श्री [III] बाणरायर
- २ गुरुगळप्प भवणन्दि-म-
- ३ टारर शिष्यरप्प देवसेन-
- ४ भटारर प्रतिमा [II]

अनुवाद—स्वस्ति श्री । यह प्रतिमा भटारक देवसेनकी है । ये
देवसेन बाणरायके गुरु भटारक भवणन्दि (भवनन्दि)के शिष्य हैं ।

[EI, IV, n° 15 C.]

१३७

मूलगुण्ड (जिला धारवाड़); संस्कृत ।

शक ८२४=९०३ ई०

लेख

श्रीमते महते शान्त्ये श्रेयसे विश्ववेदिने [I] नमश्चन्द्रप्रभाख्याय
जैनशासनमृद्वये [II] शकनृपकालेष्टशते चतुरत्तरविंशदु (त्यु)

त्तरे संग्रगते दुन्दुभिनामनि वर्षे प्रवर्त्तमाने [I] जनानुरागोत्कर्षे श्रीकृष्णवल्लभनृपे पाति महीं वितनयशसि सकलां तस्मात् पालयति महाश्रीमति विनयाम्बुधिनाम्नी धवलविषयं सर्वं [I] तस्मिन् मुळगुन्दा-स्ये नगरे वरवैश्यजातिजात (तः) ख्यातः चन्द्रार्यस्तत्पुत्र-शिकार्यो चीकरं (रत) जिनोन्नतभवनं तत्तनयो नागार्यो नाम्ना [II] तस्यानुजो नयागमकुशलः अरसार्यो दानादिप्रोद्युक्तस-म्यक्वसक्तचित्तव्यक्तः [III] तेन दर्शनाभरणभूषितेन पितृकारितजिनाल-याय चन्द्रिकवाटे शेनान्वयानुगाय नरनरपतियतिपतिपूज्यपादकुमार-शे(से)नाचार्यमी (मे) खवीरशे (से) नमुनिपतिशिष्यकनकशे (से) नमृरिमुख्याय कन्दवर्ममाळक्षेत्रे ए (ऐ) (छे) कमणिव-कनकुटार्ये (ः स्ये) (र्य्य) क...वम्मानाहस्तात्सहस्रवल्लीमात्रक्षेत्रं द्रव्यसिन्दु (धु) ना गृहीत्वा नगरमहाजनविदेशे दत्तं [II] तजिना-लयाय त्रिशतपष्ठिनगरैः चतुर्भिः श्रेष्ठिभिः पिळ्ळग (छे) क्षेत्रे मह-त्तावल्लीमात्रक्षेत्रं दत्तं [II] तजिनभवनाय त्रिशतिमहाजनानुमताद्वेळ्ळ-चिकुलब्राह्मणैश्च तन्कन्दवर्ममालक्षेत्रे सहस्रवल्लीमात्रक्षेत्रं दत्तं [III] एवं त्रीण्यपि नागवल्लिक्षेत्राणि सर्वावाधा

[यह शिलालेख जिस पत्थरके टुकड़ेपर है वह धारवाड़ जिलेके डम्बळ-तालुकाके मूलगुण्डकी दीवालमें लगा हुआ है। इस टुकड़ेका शेष अंश अभीतक नहीं मिला है। मगर सौभाग्यसे इसी बचे हुए टुकड़ेमें लेखका महत्त्वपूर्ण भाग आ जाता है। लुप्त भागमें सिर्फ थोड़े-से अन्तिम वे ही श्लोक हैं जिनमें लेखके रक्षण और मिटानेपर क्रमशः अनुग्रह (पुण्य) और शापका वर्णन मिलता है। लेख पुराने टाड़पके प्राचीन कनड़ीके अक्षरोंमें खुदा हुआ है। ये प्राचीन कनड़ीके अक्षर गुफा-वर्णमाला (Cave-alphabets) से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं।

यह लेख धारवाड़ जिलेके मूलगुण्डमें वैश्य जातिके चन्द्ररायके पुत्र चीकार्यके द्वारा एक जैनमन्दिरके निर्माणका तथा उस मन्दिरकी तरफसे कुछ भूमिदानका उल्लेख करता है। यह निर्माण और दान दुन्दुभि संवत्सर शक ८२५ में किया गया था। उस समय राजा कृष्णवल्लभ राज्य कर रहे थे। लेखगत 'धवल' जिलेसे देशके किस भागसे मतलब है, यह स्पष्ट नहीं है। यद्यपि यह लेख लघु है, पर महत्त्वपूर्ण है। इसमें सन्देह नहीं है कि इस लेखका 'राजा कृष्णवल्लभ' वही है जो राष्ट्रकूट या रट्ट कुलके राजा कृष्णराजदेव हैं और जो इसी पुस्तकके शिलालेख नं० १३० के अनुसार शक ७९८में राज्य कर रहे थे। बादके अन्य शिलालेखोंमें इन्हें ही रट्टवंशका प्रथम राजा कहा गया है।

पूर्ववर्ती चालुक्य राजाओंके उत्तराधिकार और कालके विषयमें बहुतसे सन्देह उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनमेंसे तीन चालुक्य राजा राष्ट्रकूट युवराजोंके साथ बहुत ही सीधे और घातक संघर्षमें आये हैं। वे तीन राजा जयसिंह प्रथम, तैलप प्रथम और तैलप द्वितीय थे। राष्ट्रकूटवंश और चालुक्यवंशके पूर्ववर्ती राजाओंकी वंशावली यदि काल-सहित संग्रह की जाय तो वह इस विषयमें बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी।]

[JB, X, p. 190-191, ins. n° 1]

१३८

क्यातनहलि—कन्नड़।

[विना काल-निर्देशका (संभवतः लगभग ९०० ई०)]

भद्रमस्तु जिनशामनायानवरत.....दक्खिणसुरासुरनरपतिमैलि-
माला.....णारविन्द-युगल शरवत्-श्रीराज्य-युवराज [रूप भद्र]
बाहु-चन्द्रगुप्त-मुनिपति-चरण-मुद्राङ्कित-विशाळशि.....मान-जगल्ल-
ना(या)मायितश्रीकल्लप्पु-तीर्त्त-सनाथ-बेलगोल-निवासि-.....श्रवण-
सङ्घ-स्याद्वादाधारभूतरप्प श्रीमत्स्वस्ति सत्यवाक्यकोङ्गणि-[व]-म्म-

† मूलमें "शक राजाके कालमें ८२४ वर्ष व्यतीत होनेपर" ऐसा पाठ है।

धर्म-महाराजाधिराज कळालपुर-चरेश्वर नंदगिरिनाथ स्वस्ति
समस्तभुवनविन्त-गङ्ग-कुल-गगननिर्मलतारापति जलधिजलविपुलयल-
यमेखलाकलापालङ्कतेलाधिपत्य-लक्ष्मी-स्वयं-वृत-पतित्वाद्यगणित-गुण-गण-
भूषण-भूषित-विभूति श्रीमत्पेर्मानडिगळुं एरेंयप्परसरुं इल्लु चागि
पेर्मानडिगळ कल्लबसद अय्यर्परपिङ्गे कोमारसेन-भटाररू पडेद स्तिति
विळियक्कियुं सोल्लगेयु विडियुन् तुप्पमुमन् एल्ला-कालक्कं सर्व्व-बाधा-
परिहारमागे विडिसि दरिदन् अल्लिदुण्डेनुं कोण्डेनुं पसुवुं पार्व्वरुं
केरेंयु आरमेयु वारणासियुमनल्लिदो पञ्चमहापातकं

देवस्वं तु विषं घोरे, न विषं विषमुच्यते ।

विषमेकाकिनं हन्ति, देवस्वं पुत्र-पौत्रिकम् ॥

[इस लेखमें बताया गया है कि सत्यवाक्य कोङ्कणिवर्म धर्म-महारा-
जाधिराजने, जो कि कुवलाल नगरके अधिपति थे, और श्रीमत्पेर्मानडि
एरेंयप्परसने निम्नलिखित दान कुमारसेन भटारको पेर्मानडि पाषाण-
बसदिके लिये दिया:—सफेद चावल, मुफ्त भ्रम, धी । और हमेशाके लिये
किसी भी चुङ्गीसे मुक्त कर दिया ।]

[EC, III, Servingapatam tl., n° 147]

१३९

कूलगेरी—कन्नड़ ।

[शकसं० ८३१=९०९ ई०]

[कूलगेरी (कूलगेरी प्रदेश) में तालाबके किनारेके पाषाणपर]

भद्रं भद्रेश्वरस्य स्यात् क्षुद्रवादिमदच्छिदः ।

....श्रीमज्जिनेन्द्रस्य शासनाय भवद्विषे ॥

१ इस लेखमें जो 'कल्वप्पु-तीर्त्त(धी)' शब्द है, उसका अर्थ चन्द्रगिरि है । इस
शिलालेखसे यह पता चलता है कि कल्वप्पुशिखर (चन्द्रगिरि) पर महामुनि
भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तके चरणचिह्न हैं । यह शिलालेख लगभग शक सं० ८२२
का है ।

शि० ११

शक-नृप-कालातीत-संवत्सर-शतंगल् एन्तु-नूर मुवतोन्दनेय वरिष
 प्रवत्तिसुत्तिरे स्वस्ति कोङ्कुणि-वर्म धर्म-महाराजाधिराज कुवळालपुर-
 परमेश्वर नन्दगिरि-नाथ श्री-नीतिमार्ग-पेर्मनडिगळ् राज्य उत्तरोत्तरं
 सल्लुत्तु इरे सान्तरर...मेच्चे मणलेयारं कनकगिरिय-तीर्थद मीगे
 बसिदिय् इम्मडिसि अरसरध्यक्षदोळ् कनकसेन-भट्टारगे त्तिप्पेयूरोळ्ळद
 अट्टेरेयुं कुरु-देरेयुं उट्ट-सामन्त-देरेयेल्लवं विट्टन् इदन् आलिदो केरेयुं
 आरवेयुमन् आलिडु-कोण्डोम् महापातकमकुं

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुधरां ।

षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥

[जिनशासनकी प्रशंसा । शक-नृपके सैकड़ों वर्ष बीतनेके बाद वर्त्तमान
 ८३१ वें वर्षमें; जब कि नीतिमार्ग-पेर्मनडि, नन्दगिरिनाथ, कुवलालपुर-
 परमेश्वर कोङ्कुणिवर्म धर्ममहाराजाधिराजका राज्य चारों दिशाओंमें बढ़
 रहा था—सान्तरर [सु] की सम्मतिसे, मनलेयारने, कनकगिरि-तीर्थकी
 बसविको दुगुना करके, राजाके ही सामने, तिप्पेयूरमें कनकसेन-भट्टारको ऊपरके
 कमरोंका कर, भेड़ोंका कर, तथा पूर्ण पोशाक पहिने सरदारोंका(?) कर
 दिया । जो कोई इस दिये हुए दानको नष्ट करेगा, उसे तालाब या कुँजके
 नष्ट करनेका तथा और भी बड़ा पाप लगेगा, इत्यादि ।]

[EC, III, Malavalli tl., n° 30]

१४०

बन्दलिके—संस्कृत तथा कन्नड़ ।

[शक ८४०=९१८ ई०]

[बन्दलिकेमें, बस्तिके प्रवेश-द्वारके पाषाणपर]

स्वस्त्यकालवरिष श्री-पृथुवी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर परमभ-
 ट्टारक श्री-कन्नर-देवरराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिगे सल्लुत्तिरे शकनृप-काला-

तीत-संवत्सर-सतङ्गल् एण्टुनूर-मूवत्त-नाल्कनेय प्रजापति-संवत्सरं
 प्रवर्त्तिसे स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-सामन्तं काल्क-देव्यसरन्व-
 यदोल् कलिविद्वरसर बनवासिपन्निच्छांसिरमनालुत्तिरे नागरखण्ड-
 मेलपत्तर्कं सत्तरर् नागाज्जुन नाल्-गावुण्ड गय्युत्तु श्री-कलिविद्व-
 रसर वेसदोळतीतनादोडातन गावुण्डगरसर नाल्-गावुण्ड-पत्तमनित्तोडे
 जकियब्बे नाल्-गावुण्डु गेय्युत्तिरे नण्डुवर कलिगं पेर्गेडेतनं गेय्ये
 सन्दिगर कुडिवुलदं कोडङ्गेयूर्गे पेर्गेडेतनं गेय्युत्तिरे एळपदिम्बहं मूणू-
 ब्बहं जकियब्बेयोल् नुडिदवुतवूरं विडिसिदोर् जकियब्बे नागर-
 खण्डमेळपतर्कं अवुनवूरोळाद नाल्-गावुण्डवागमं विसुतोल् देवारके
 जकिलियोल् नाल्कु मत्तल् केय्यं कोडुल् ॥

वृत्तं ॥ उत्तम-प्रभु-शक्ति-युक्ते जिनेन्द्र-शामन-भक्ते कान्- ।

ल्यात्त-विभ्रमे जकियब्बे समत्तु नागरखण्डमेल् ।

पत्तुमं वधुवागियुं निज-वीर-विक्रम-गर्व्वादिम् ।

पेत्तवं प्रतिपालिसुत्तोसदिब्दळ्ळिदवसानदोल् ॥

तनु रुजेयं पुदुङ्गुलिसे संसृति-भोगमसारमेन्दु निच् ।

चिनिसे निज-प्रियात्मजेगे सन्ततियं करेदित्तु मोह-बन् ।

धनद तोडर्पिनोल् तोडल्दु मोहिसि नि०००र बळे वन्दु बन्- ।

दनिकेय तीर्थदोल् तोरदुदच्चरियं०००जकियब्बेया ॥

वसु-जलरासि-चारिदपथं शक-भू०००ताब्द-संकये वर ।

त्तिसे बहुधान्यमेम्ब वरिषं त्रिक-मासद काळ-पक्षदोल् ।

दसमियोळार्क्य-वारदुदितोदित-वेळ्ळेयोळप्पि भक्तियिम् ।

बसदिगे वन्दु नोन्त मपूर्बतरं गड जकियब्बेया ॥

बरेदोम् नागवर्म्म देवारके कोट्ट केय् ग अबुतवूर्गी काळान्तरदोळ्
मोह-सन्दोम् पञ्च-महा-पातकनक्कु

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ।

(बाजूमें) ई-कल्ल सन्दिगर कुळि...गुहन् निरिसिदोम्....

बेलेयम्मन मगम्

[जब प्रजापति संवत्सर शक वर्ष ८३४ में, झहाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक कन्नर-देवका राज्य प्रवर्धमान था,—जिस समय कालिक देव-रत्न-अन्वयके महासामन्त कलिचिट्टरस बनवासि १२००० का शासन कर रहे थे,—नागरखण्ड सत्तरके 'नाळ-गावुण्ड' के पदको धारण करने-वाले सत्तरस नागार्जुनके मर जानेपर राजाने जक्कियव्वेको आवुतवूर और नागरखण्ड-सत्तर दे दिया । जक्कियव्वेने भी जक्कलिमें मन्दिरके लिये ४ मत्तल चावलकी भूमि दी । एक बीमारीके समय उसने शक सं० ८४० में, बहु-धान्य वर्षमें, पूर्ण श्रद्धासे बसदिमें आकर समाधिमरण ले लिया ।]

१४१

गिरनार—संस्कृत-भग्न ।

(काल लुप्त)

[यह लेख नेमिनाथ मन्दिरके दक्षिण तरफके प्रवेशद्वारके पासके प्राङ्गणके पश्चिम दिशाकी तरफके एक छोटे मन्दिरकी दीवालपर है । पाषाण टूटा हुआ है ।]

॥ स्वस्ति श्रीश्रुति

॥ नमः श्रीनेमिनाथाय ज

॥ वर्षे फाल्गुन शुदि ५ गुरौ श्री

॥ तिलकमहाराज श्रीमहीपाल

॥ बयरसिंहभार्या फाउसुतसा

॥ सुतसा० साईआ सा० मेलामेला

- ॥ जसुतारूडीगांगीप्रभृती
 ॥ नाथप्रासादा कारिता प्राताष्ट
 ॥द्रसूरि तत्पट्टे श्रीमुनिसिंह
 ॥कल्याणत्रय

अनुवादः—स्वस्ति श्री धृति.....श्री नेमिनाथको नमस्कार...
 ...वर्ष.....फाल्गुन सुदी ५, बृहस्पतिवार, श्री.....श्रीमहीपाल,
 महाराज और.....के तिलक.....फाऊ नामकी वयरसिंहकी
 भार्या; उसका पुत्र माननीय.....उसके पुत्र माननीय साईंआ और
 मेलामेला.....उसकी पुत्रियाँ रूडी, गांगी इत्यादि। इन सबने
 एक नेमिनाथका मन्दिर बनवाया —जिसकी प्रतिष्ठा.....द्रसूरिके
 पट्टपर विराजमान श्रीमुनिसिंहने की.....कल्याणत्रय....।

[ASI, XVI, p. 353-354, n° 11

१४२

सूदी (जिला-धारवाड़)-संस्कृत और कन्नड़ ।

शक सं. ८६०=१३८ ई०

लेख

पहला ताम्रपत्र

१ श्रीर्विभाति सुवि (धी)र्यस्य निरवद्य [I] निरत् (य्) अया
 तस्मै नमोऽर्हते

२ लोक-हित-धर्मोपदेशिने ॥ जित [-] भगवता [गत]-घनग-
 [ग]नाभे-

३ न पद्मनाभेन [II] श्रीमज्जाहवीय-कुला[म]ल-व्योनात्रभासन-
 भास्करः ॥

- ४ स्व-खड्गैक-प्रहार-खण्डित-महा-शीलास्तम्भ-लब्ध-व्रल-पराक्रमो
दारुणा-
- ५ रि-गण-विदारणोपलब्ध-त्र (त्र)ण-त्रिभूषण-भूषितः क[१]ण्वा-
- ६ यन-सगोत्र [ः] श्रीमत्-**कौङ्कुणिवर्म्म-धर्म्म**महाराजाधिराजः [॥]
- ७ तत्पुत्रः । पितुरन्वागत-गुण-युक्तो । विद्या-विनय-विहित-वृत्तिः
- ८ सम्यक्-प्रजा-पालन-मात्रा-वि(धि)गत-राज्य-प्रयोजनो विद्वत्-क-
वि-का-
- ९ अन्न-निकषोपल-भूतो नीति-शास्त्रस्य वक्तृ-प्रयोक्तृ-कुशलो दत्तक-
- १० सूत्र-वृत्ते(ः)-प्रणेता श्रीमन्**माधव**महाधिराजः । (॥) ओं तत्पुत्र[ः]
पितृ-पैता-
- ११ महगुणयुक्तोऽनेक-चा(च)तु[^१] दन्[त्]अ-युद्ध[१]वाप्त-चतु-
द्वितीय ताम्रपत्र; दूसरी बाजू
- १२ रुदधि-सलीलाञ्चादित्यशाह श्रीम[१]न् **हरिवर्म्म**-महाधिराजः [॥]
- १३ तत्पुत्रः श्रीमान् **विष्णुगोप** मह[१]धिराजः [॥] ॐ तत्पुत्रः
- १४ स्व-भुज-व्रल-पराक्रम-क्रय-क्र[^१]ी]तराज्यः कलियुग-व्रल-पङ्कान-
- १५ सन्न-धर्म्म-वृषोद्धरण-निते(त्य)सन्नद्धः श्रीमान् **माधव**-महाधिराजः ।
(॥) ओं
- १६ तत्पुत्र[ः] श्रीमत्-कदम्ब-कुल-गगन-गभस्तिमालिनः ।
कृप(ष्ण)वर्म्म-स(म)-
- १७ हाधिराजस्य प्रिय-भागिनेयो विद्या-विनय-पूरिता-
- १८ न्तरात्मा निरवग्रह-प्रधान-शौच्यो विद्वत्पुं प्रथम-गण्य[ः]श्रीमान्

- १९ कौञ्जुणिवर्म्म-व (ध) र्म्ममहाराजाधिराज-पु(प) र्मेधरः श्रीमद्-
अविनीत-प्रथम-
- २० नामज (धे) यः [॥] तत्पुत्रो विजृम्भमाण-शक्ति-त्रयः अन्द-
रि-आलत्तूर-पुरुळरे-पेण्ण-
- २१ गराधनेक-समर-मुख-मख-ह(यु)त-प्रहत-शूरपुरुष-पशूप-हार-
विघ-
- २२ स-विहस्ति(स्ती)कृत-कृतान्ताग्निमुखः किरातार्जुनीयस्य पञ्चदश-
सर्ग-टीकाकारः]
- दूसरा ताम्रपत्र; दूसरी बाजू
- २३ श्रीमद्-[द]ुर्विनीत-प्रथम-नामधेयः [॥] ओं तत्पुत्रो दुर्दान्त-
श(वि)मर्द्द-मृदिते(त)-विश्व[']भरा-
- २४ रि(धि)प-मो(मौ)लि-माल(र)-मकरन्द-पु[']ज-पि[']जरीक्ष (कि)-
यमाण- चरणयुगल-नलिनः श्री [मुष्क]र-
- २५ प्रथम-नामधेयः । [॥] ओं तत्पुत्रश्चतुर्दशविद्यास्थानाधिगतेरमल-
मतिर्विशेषतो [नि] र-
- २६ विशेषस्य नीति-शास्त्रस्य वक् [तृ]-प्रया (यो) कृत्-कुशलो रिपु-
तिमिर-निकर-सरकरुणोदय-भा-
- २७ स्करः श्री-विक्रम-[प्र]थम-नामधेयः [॥] ओं तत्पुत्रा(त्रो)ऽनेक-
समर-संप्राप्त-विजय-
- २८ लक्ष्मी-लक्षित-वक्षस्थलः समधिगत-सकल-शास्त्रार्थः]श्री-भूवि-
क्रम-प्रथम-
- २९ प्रथम-नामधेयः [॥] ओं तत्पुत्रः स्वकीय-रूपातिशय-विजी-
(जि) त-नल-भूपा-

- ३० काराशिवमा[र-प्रथम-ना]मध[े]यः [II] ओं तत्पुत्रः प्रतिदिन-
प्रवर्द्धमान-महादान-जनित-पुण्यो
- ३१ हसुळ-मुखरित-मन्दरोदराः श्री कोङ्कुणिवर्म-धर्ममहाराजाधि-राज-
परमेश्वरः
- ३२ श्रीसु(पु)रुव-प्रथम-नामधेयः।(II) तत्पुत्रो विमल-ग[']गान्वय-
नम[ः]स्थलः र(ग)भस्तिमाली श्रीकों-
- ३३ गुणिवर्म-दा(ध)र्ममहाराजाधिराज-परमेश्वरः श्री श[ि]व-
मारदेव-प्रथम-नामधेयः ।
- ३४ शैगोत्तापरनामा [II] तस्य कनीयान् श्री-विजयादित्यः । (II)
र (त)त्पुत्रस्समधिगत-राज्य-
- ३५ लक्ष्मी-प(स)मालिङ्कित-वक्षः सत्यवाक्य-कोङ्कुणिवर्म-धर्मम-
हाराजाधिरा-

तृतीय ताम्रपत्र; पहली बाजू.

- ३६ ज-परमेश्वर[ः]श्री-राजमलग(ह्ल)-प्र[थ]म-नामधेयस्तत्पुत्रः रामति-
(? दि)-समर-संहा-
- ३७ लिप(रि)तोदार-वैरि-वि(वी)रपुरुषो नीतिमार्ग-कोङ्कुणि-वर्म-
धर्मराजाधिराज-परमेश्वर[ः]
- ३८ श्रीमद्-एळे(रे)गङ्गदेव-प्रथम-नामधेयः[III]ओं तत्पुत्रः सामिय-
समर-सञ्जनित-विज-
- ३९ [य]श्रीः श्री-सत्यवाक्य-कोङ्कुणिवर्म-धर्ममहाराजाधिराज-परमे-
श्वर[ः] श्री-राजमल्ल-

- ४० प्रथम-नामधेयः । (॥)ओं तसु(स्य)कनीयान् निर्लोरि(ठि)र्ष-पल्लवा-
धिपः श्रीम[द]मोघवर्षदेव
- ४१ पृथ्वीवल्लभ-सुतया^१ श्रीमद्वबलब्बायाव्ह(याः) प्राणेश्वर[:]
श्रीबूदुग-प्रथम-ना-
- ४२ मधेयः गुणदुत्तरङ्गः । (॥) ओं तत्पुत्रः । एळे(रे)यप्प-पट्टबन्ध-
परिष्कृत-लला[मो]ज(? बं)-
- ४३ टेपेरुपेञ्जेरु-प्रभृति-युद्ध-प्रबन्ध-प्रकवि (टि) त-पल्लर(व)पराजय[:]
श्री-[नी]त्[ि म्]र्ग-
- ४४ रंगिणिवर्म-र(ध)र्ममहाराजावि(धि)राज-परमेश्वर[:]
(रे)गङ्गदेव-प्रथम-नामधेयः
- ४५ कोमर-वेडेङ्गः । (॥)ओं तत्पुत्र[:]
श्री-सत्यवाक्य-कोङ्गुणिवर्म-धर्म-
महाराजाधिराज-परमेश्वर[:]
- ४६ श्रीमन्नरसि[]धदेव-प्रथम-नामध[]यः वी(वी)रवेडङ्गः ॥ ओं
तत्पुत्रः कोट्टमरद.....
- ४७ तोण्णिरग-श्री-नीतिमार्गा-कोङ्गुणिवर्म-धर्ममहाराजाधिराज-परमे-
श्वर[:]
श्री-र[जम]ल-
- ४८ प्रथम-नामधेयः । कच्छेय-गङ्गः । (॥) ॐ त्रि(वृ) [॥]
तस्यानुजो निजभुजार्जित-सम्पदार्यो

तृतीय ताम्रपत्र; दूसरी बाजू

- ४९ भूवल्लभ [-] समुपगम्य ल(ड)हाडदेशे श्री-ब्रह्मेगं तदनु त-
- ५० स्य सुतां सहैव वाक्कन्यया व्यवहदुत्तवि (म)-धीस्त्रिपु-

१ 'निर्लुब्धित' और भी शुद्धरूप होगा । २ 'सुतायाः' पदो ।

- ५१ र्यां [॥] अपि च ॥ लक्ष्मीमिन्द्रस्य हर्तुं गतवति दिवि यद्
बोद्देगाङ्कि (के)
- ५२ महीशे ह [ृ]त्वा ल [ल् ?] एय-हस्तात्करि-तुरग-सितच्छात्रनि
(सि)-
- ५३ हासनानि । प्रा[दा]त् कृष्णाय राज्ञे क्षित [ि]-पति-गणनाम्ब-
- ५४ प्रणीर्य्य(ः)प्रतापात् राजा श्री-बूढुगाख्यस्समजनि विजि-
- ५५ नाराति-चक्रः प्रचण्डः ॥ कश्चातः किर्त्तं नागादळचपुर-पतिः
- ५६ कङ्कराजोऽन्तकस्य विज्जाख्यो दन्तिवर्म्मा युनि (धि) निज-
बनवासी त्व-
- ५७ म राजवर्म्मा शान्तन्त्वं शान्तदेशो नुळुवु-गिरि-पतिर्दाम-रिर्दर्य्य-
भङ्ग [-]

चतुर्थे ताम्रपत्र; पहिली बाजू

- ५८ मध्येऽन्तं नागवर्म्मा भयमतिरभसाद् गङ्ग-गाङ्गेय-भू-
५९ पात् ॥ राजादित्य-नरेदेवरं गज-घटाटोपेन संदर्पित (म्)
- ६० जित्वा देशत एव गण्डुगमहा निद्रोद्य्यै तञ्जापुरीं नाळकोटे-
- ६१ प्रमुखाद्रि-दुर्ग-निवहान् दग्ध्वा गजेन्द्रान् हयान् कृष्णा-
- ६२ य प्रथितन्धनं स्वयमदात् श्री-ग[-]ग-नारायणः [॥]
- ६३ आर्या ॥ एकान्तमत-मदोद्धत-कुवादि-कुम्भीन्द्र-कुम्भ-सम्मेदं ॥ (।)
- ६४ नैगम-नयादि-कुलिशैरकरोज्जयदुचरङ्ग-नृपः ॥ गद्यम् ॥
- ६५ सत्यनीतिवाक्य-कोङ्कुणिवर्म्म-धर्म्ममहाराधिराज-परमेश्वर [:]

१ 'सितच्छत्र' पदो । २ संभवतः यह पाठ 'किन्वातः किन्वु' रहा होगा ।
३ 'निर्दाद्य' पदो ।

चतुर्थे ताम्रपत्र; दूसरी बाजू

- ६६ श्री-ब्रूतुग-प्रथम-नामधेयो नभिय-गङ्गः षण्णवति-
 ६७ सहस्रमपि गङ्ग-मण्डल [म्] प्रतिपाळ्या(य)न् पुरिकर-पुरे कृ-
 ६८ तावस्थानं (:) स (श) क-वरि [श] १^१ षष्ट्युचराष्ट[श]
 तेषु अतिक्रान्तेषु विका-
 ६९ नि(रि)-संवत्सर-का[^१] त[^१ि] क-नन्दीख (श्व)र-सु(शु)
 क्ल-पक्षः अष्टम्यां आदित्यवारे
 ७० [खक]ीय-प्रियायाः सम्यग्द[^१]शन-विशुद्धतया प्रत्यक्ष-धै-(दै)
 ७१ वत्याः श्रीमद्दीवलाग्बिकायाः चैत्यालयाय सुल्घाटवी-स-
 ७२ सति-ग्राम-मुख्य-भूतायान्नगर्भ्यां सून्धां विनिर्मापिता-
 ७३ य खण्ड-स्पु(स्फु)टित-नवकर्म्मार्थं पूजाकरणार्थमाहारार्थं
 ७४ च पट् श्रा(श्र)मण्यो जनान् दानसन्मानादिना सन्तर्प्योत्तर-
 दिशायां

पाँचवाँ ताम्रपत्र

- ७५ राजमानेन दण्डेन षष्टि-निवर्त्तनं श्रीमद्वाडि(? टि)युर्गण-मुख्य-
 ७६ स्य नागदेव-पण्डितायै स्व[य]मेव पादो (दौ) प्रक्षाड्य(ल्य)
 सून्धां दत्तवान् [॥]
 ७७ तस्याघट^३ पूर्वतः मानसिग-केय्-दक्षिणतः पन्नसिनभूमिः प-
 ७८ श्विमतः के (को)प्परपोलमुत्तरतः बालुगेरिय बन्द पळं[॥]
 अरुवणं गद्या-
 ७९ ण-त्रयं ग्रामो दीयते^४ ऽशेष-क्रमं ग्रामो रक्षति ॥

१ 'वर्षेषु' इति शुद्धपाठः । २ 'पण्डितस्य' पदो । ३ 'आघाटाः' पदो ।
 ४ 'दद्यात्शेष' पदो ।

- ८० सामान्योऽयं धर्म-सेतु[^१]नृपानां काले-काले पालनीयो भवद्भि-
स्सवनि-
- ८१ तान् भाविनः पार्थिवेन्द्रो (न्द्रान्) भूयो-भूयो याचते रामभद्रः ॥
बहुभिर्व्वसु-
- ८२ धा भुक्ता राजभिस्सगरादिभि [ः] यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य
तस्य तदा फलम् ॥
- ८३ सुल्हाटवी-सप्तति-मुख्य-सून्ध्यामचीकरं^१जैन-गृहं प्रसिद्धं पद्-ग्रामणी-
- ८४ छि-विधान-पूर्वं श्री दीवळा(१)म्बा जगदेकरम्भा । (॥)

ॐ । ॐ । ॐ

[J. F. Fleet, EI, III, n° 25, f., S, t. et tr.]

भावार्थ

[यह शिलालेख अप्रेल, १९९२ ई० में जे. एफ़ फ्लीटके देखनेमें आया । उन्होंने ही इसे, सबसे पहले, एपिग्राफिभा इण्डिका, जिल्द ३, में (पृ० १५८-१८४) छपाया । यह उन्हें सूदीके एक निवासीसे ताम्रपत्रों (Plates) पर मिला ।

इस शिलालेखमें उस पच्छिमी गंग युवराज वृत्तुगका उल्लेख है जिसने चोलराजा राजादित्य और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण कृतीयके बीचमें ९४९-५० ई० में या इससे पहले हुए युद्धमें चोल राजा राजादित्यको मार डाला था । इस अभिलेखका उद्देश्य उस जमीनके दानका लेखन है जो उसने अपनी पत्नीद्वारा सून्दी, यानी सूदीमें निर्माण कराये गये जैनमन्दिरको दी थी । उसकी पत्नी का नाम दीवळाम्बा था । यह लेखन (Record) बनावटी है ।]

इस लेखपरसे फलित पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती पच्छिमी गंगोंकी वंशावली इस प्रकार है:—

१ 'अचीकरजैन' पद्ये ।

पूर्ववर्ती पश्चिमी गंगोंकी वंशावली

कोङ्गणिवर्मन्

माधव प्रथम

हरिवर्मन्

(२४८ ई०)

विष्णुगोप

माधव द्वितीय

अविनीत-कोङ्गणि

(४६६ ई०)

दुर्विनीत-कोङ्गणि

मुशकर, या मोकर

विक्रम, या श्रीविक्रम

भूविक्रम

शिवमार-कोङ्गणि

(पुत्र)

श्रीपुरुष-पृथिवी-कोङ्कणि

(७६२ तथा ७६६-६७ ई०)

उत्तरवर्ती पच्छिमी गंगोंकी वंशावली

भूविक्रम

शिवमार

श्रीपुरुष-कोङ्कणिवर्मन्

शिवमार सैगोत्त-कोङ्कणिवर्मन्

विजयादित्य

राजमल्ल-सत्यवाक्य-कोङ्कणिवर्मन्

एरेगङ्ग-नीतिमार्ग-कोङ्कणिवर्मन्

(रामटि, या रामदिके युद्धमें विजयी था)

राजमल्ल-सत्यवाक्य-कोङ्कणिवर्मन्

(सामियके युद्धमें विजयी हुआ था)

गुणदुत्तरङ्ग-बूतुग

(पल्लवराजाको छटकर

अमोधवर्षकी कन्या अब्बलब्बासे विवाह किया)

कोमरवेडङ्ग-एरेगङ्ग-नीतिमार्ग-कोङ्गुणिवर्मन्
(एरेयप्पके, या द्वारा, पट्टबन्धसे उसका ललाट शोभित था;
और उसने जन्तेप्यरुपेक्षेरुमें पल्लवोंको हराया था)

वीरवेडङ्ग-नरसिंघ-सत्यवाक्य-कोङ्गुणिवर्मन्

कच्छेयगङ्ग-राजमल्ल-नीतिमार्ग-कोङ्गुणिवर्मन्

जयदुत्तरंग-गंगगांगेय-गंगनारायण-नन्नियगंग-

बूतुग-सत्यनीतिवाक्य-कोङ्गुणिवर्मन्

(९३८ ई०)

(इसने डहाळ देशके त्रिपुरीमें, बहेगकी पुत्रीसे विवाह किया था, बहेगकी मृत्युपर कृष्णके लिये राज्य प्राप्त किया,—छल्लेय (?) के पञ्जेसे इसको निकाला; अळचपुरके कङ्कराजको, बनवासीके विज्ज-दन्तिवर्मन्को, राजवर्माको, जुळुबुगिरिके दामरिको, तथा नागवर्माको भय उत्पन्न किया; राजादित्यको जीता, तञ्जापुरीको घेरा, और नाळकोटेके पहाड़ी किलेको अला डाला । इसकी पत्नी दीवळाम्बा थी ।)

१४३

मदनूर—(जिला—नेल्लोर) संस्कृत ।

शक ८६७=९४५ ई० सन्

प्रथम पत्र ।

१ भद्रं स्यात्त्रिजगन्नुताय सततं श्रीमज्जिनेन्द्रप्रभोरुद्धामाततशासन[1]-

- २ य विलसद्धर्मावलंबाय च । सामर्थ्यात् खलु यस्य दुष्कलिकृता
दोषाश्च मिथ्योद्भवा (१) दु-
- ३ वृत्तानि च भूतलेन त्रितता शान्तिश्च नित्यं क्षितेः[] ॥१॥ स्वस्ति
श्रीमतां सकलभुवनसं-
- ४ स्तूयमानमानव्यसगोत्राणां हारितिपुत्राणां कौशिकिवरप्रसाद-
लब्धरा-
- ५ ज्यानाम्मातृग[ण]परिपालितानां स्वामिमहासेनपादानुध्यायिनाम्
भगव-
- ६ नारायणप्रसादसमासादितवरवराहलाञ्छनेक्षणक्षणवशिकृताराति
मण्ड[ला]-
- ७ नामश्चमेधावभृत्यस्नानपवित्रीकृतवपुषाम् चालुव्यानां कुलमलं-
करिष्णोस्सत्या[श्र]-
- ८ यवल्लभेन्द्रस्य भ्राता कुब्जविष्णुवर्द्धनोष्ट[]दशवर्षाणि वैगि-
मण्डलमपालयत् । तदात्म-

प्रथम पत्र; दूसरी ओर ।

- ९ जो जयसिंहख्यत्रिंशतम् । तदनुजेन्द्रराजनन्दनो विष्णुवर्द्धनो
नव । तत्सूनुम्मंगियुवराज-
- १० ५ पंचविशतित्तपुत्रो जयसिंहख्योदश । तदवरज[]कोकि-
लिषण्णमासान् । तस्य ज्येष्ठो भ्राता
- ११ विष्णुवर्द्धन[स्त]मुच्चाट्य[स]मत्रिंशतम् वर्षाणि[]तत्पुत्रो विज-
यादित्यभट्ट[]रकोष्टदश । तत्सुतो

- १२ विष्णुवर्द्धनषट्त्रिंशत्तम् । नरेन्द्रमृगराजाख्यो मृगराजपरा-
क्रमः[॥]विजयादित्य-भूपालश्चत्वारिंशत्समाष्टभिः
- १३ [॥२]तत्पुत्रः कलिविष्णुवर्द्धनोध्यर्द्धवर्ष । त-
- १४ त्पुत्रः परचक्ररामापरनामधेयः[॥]हत्वा भूरिनोडंबराष्ट्रचपति-
मंगिमहासंग-
- १५ रे गंगानाश्रितगंगकूटशिखरान्निर्जित्य सङ्गु[ह]लाधीशं संकि-
लमुग्रवल्लभयुतं यो भ [॥]-
- १६ ययित्वा चतुश्चत्वारिंशत्तमब्दकांश्च विजयादित्यो ररक्ष क्षितिं ।
[३] तदनुजस्य लब्ध-

दूसरा पत्र; दूसरी ओर ।

- १७ यौवराज्यस्य विक्रमादित्यस्य सुतश्चालुक्यभीमर्क्षिशतं[॥]
तस्याग्रजो विजयादित्यः
- १८ षण्मासान् [॥] तदग्रसूनुरम्मराजस्सप्तवर्षाणि । तत्सूनुमाक्रम्य
बालं चालुक्यभीमपि-
- १९ तृव्ययुद्धमल्लस्य नन्दनस्तालनृपो मासमेकं । नाना-सामन्तव-
र्गैरधिकबलयुतैर्म-
- २० त्तमातंगसेनैर्हत्वा तं तालराजं विषमरणमुखे सार्द्धमत्युग्रते-
- २१ जाः [॥] एकाब्दं सम्यगम्भोनिधिवलयवृतामन्वरक्षद्वरित्रीं श्रीमां-
श्चालुक्य-
- २२ भीमक्षितिपतितनयो विक्रमादित्यभूपः । [४] पश्चादहमह-
मिकया विक्रमादित्यास्त-
- २३ म [य]ने राक्षसा इव प्रजाबाधनपरा दायारराजपुत्रा राज्याभिला-
षिणो युद्धमल्लरा-

२४ जमार्त्तण्डकण्ठिकाविजयादित्यप्रभृतयो विप्रहीभूता आसन् ॥
विप्र—

तीसरा पत्र, पहली ओर ।

२५ हेगैत्र पंचवर्षाणि गतानि ॥ ततः ॥ योऽत्रधीद्र ॥ जमा-
र्त्तण्डन्तेषां ॥ येन रणे कृतौ ॥ क—

२६ ण्ठिकाविजयादित्ययुद्धमल्लौ विदेशगौ ॥ [५] अन्ये मान्यमही-
भृतोपि बहवो दु—

२७ छप्रवृत्तोद्भवा (:) देशोपद्रवकारिणः प्रकटिताः कालालयं प्रापिताः
॥ दोईण्डेरि—

२८ तमण्डलाप्रलजया यस्योप्रसंग्रामकावाज्ञा^१ तत्परभूतृपैश्च

२९ शिरसो मालेव सन्धार्यते । [६] नादग्ध्वा विनिवर्त्तते रिपुकुलं
कोपाग्निरामूल—

३० तः शुभ्रं य [स्य] यशो न लोकरुखिलं सन्तिष्ठते न भ्रमत् ॥
द्रव्यांभोधरराशिरप्यनुदिनं

३१ सन्तप्यमाने भृशं दारिद्र्योप्रतरातपेन जनतासस्ये न नो वर्षति ।
[७] स चालुक्यभीमनप्ता वि—

३२ जयादित्यनन्दनः ॥ द्वादशावसमास्तस्य्यत् राजमीमो धरा-
तलं । [८] तस्य महेश्वरम्—

तीसरा पत्र; दूसरी ओर ।

३३ चेंरुमासमानाकृतेः कुमारामः ॥ लोकमहादेव्याः खलु यस्तम-
भवदम्भ[रा]—

३४ जाळयः ॥ [९] जलजातपत्रचामरकलशांकुशलक्षणां [क] करचर-

णतलः [1] लसदाजा-

३५ न्वत्रलंबितमुजयुगपरिघो गिरीन्द्रसानूरस्कः ॥ [१०] विदितधरा-
धिपविघो विविधायु-

३६ धक्रोविदो विलीनारिकुलः [1] करितुरगागमकुशलो हरचरणांभोज-
युग-

३७ लमधुपश्रीमान् ॥ [११] कविगायककल्पतरुर्द्विजमुनिदीनान्ध-
बन्धुजन-

३८ सुरभिः [1] याचकगणचिन्तामणिरवनीशमणिर्महोप्रमहसा घुमणिः
॥ [१२] गिरिर्सर्वसु-

३९ संख्याब्दे शकसमये मार्गशीर्षिमासेस्मिन् [1] कृष्णत्रयोदश-
दिने भृगुवारे मैत्रनक्षत्रे [॥ १३]

४० धनुषि रवौ घटलभ्रे द्वादशवर्षे तु जन्मनः पटं [1] योधादुदय-
गिरीन्द्रो रविमित्र लोका-

चतुर्थ पत्र; पहली ओर ।

४१ नुरागाय ॥ [१४] स समस्तभुवनाश्रयश्रीविजयादित्यमहाराजा-
धिराजपरमेश्वरः परम[धा]-

४२ र्म्मिक्रोम्मराजकम्मनाण्डुविषयनिवासिनो राष्ट्रकूटप्रमुखान् कुट्ट-
म्बिनस्सर्व्वे[1] नित्यमाज्ञापयति [1]

४३ आर्या[ः] । किरणपुरमधाक्षीत्कृष्णराजास्थितं यत्त्रिपुरमित्त्र महे-
शः पा[ण्डु ?]रंग[ः]प्रतापी [1] तदिह [सु]-

४४ खसहस्रैरन्वितस्याप्यशक्यं गणनममलकीर्तेस्तस्य सत्साहसानाम् ॥
[१५] तस्य[1]त्म-

- ४५ जो निरवद्यधवलः] कटकराजपट्टशोभितललाटः [1] तत्तनयो
विजयादित्यकट-
- ४६ काधिपतिः] । वृत्तं । तत्पुत्रो दुर्गराजः प्रवरगुणनिधिर्दार्मिक-
स्सत्यवादी त्यागी भो[गी]
- ४७ महात्मा समितिषु विजयी वीरलक्ष्मीनिवासः [1] चालुक्यानां च
लक्ष्म्या यदसिरपि सदा रक्षणा[यै]-
- ४८ व वंशः] ख्यातो यस्यापि वेंगीगदितवरमहामण्डलालंबनाय ।
[१६] तेन कृतो धर्मपु[रीद]-
- ४९ क्षिणदिशि सज्जिनालयश्चारुतरः [1] कटकाभरणशुभांकितनाम
च पुण्यालयो वसति [॥ १७]
- चतुर्थ पत्र; द्वितीय ओर ।
- ५० [श्री] यापनीयसंघप्रपूज्यकोटिमडुवगणेशमुख्यो यः [1] पुण्या-
हर्नन्दिगच्छो जिननन्दिमुनीश्वरो [य] ग-
- ५१ [ण] धरसदृशः । [१८] तस्याग्रशिष्यः प्रथितो धरायाम् (1)
दिव[1]कराख्यो मुनिपुंगवोभूत् [1] यत्केवलज्ञाननिधि-
- ५२ र्महात्मा स्वयं जिनानां सदृशो गुणधैः ॥ [१९] श्रीमान्दि-
रदेवमुनिस्तुतपोनिधिरभवदस्य शिष्यो धीम[1]न् [1] य-
- ५३ म्प्रातिहार्यमहिम्ना संपन्नमिवाभिमन्यते लोकः [॥ २०] तद-
धिष्ठितकटक[1]भरणजिनालय[1]-
- ५४ य कटकराजविज्ञप्ते खण्डस्फुटनवकृत्याबलिप्रपूजादिसत्रसिद्धयर्थमु-

१ इस सम्पूर्ण समाससे 'कटकाभरणशुभनामाङ्कित' अपेक्षित है, जिसके रख-
नेसे छन्दोभङ्ग हो जाता ।

५५ चरायणनिमित्ते मलियपूण्डिनामग्रामटिका सर्वकरपरिहार(म्)

मुदक-

५६ पूर्वं कृत्वा दत्ता । अस्य ग्रामस्यावधयः पूर्वतः मुंजुन्यरुं ॥
दक्षिणतः यिनिमिलि ॥ पश्चिम]-

५७ तः कल्चकुरु ॥ उत्तरतः[] धर्मवुरमु ॥ एतद्ग्रामस्य क्षेत्रा-
वधयः पूर्वतः गोळनि-

५८ गुण्ठ ॥ आग्नेयतः[] राविग्रपरिय ॐ वु । दक्षिणतः स्थापित-
शिला ॥ नैर्ऋत्यां स्थ[] पितशिलैव []

पञ्चम पत्र ।

५९ पश्चिमतः मल्कप ॐ को ॐ बोगुनट[] कश्च ॥ वायव्यतः
ॐ

स्थापितशिलैव । उत्तरतः दुव[चे] ॐ वु []

६० ऐशान्याम् (I) कल्चकुरि ऐञ्चोकचेनि सीमैत्र सीमा ॥

[चूँकि लेखमें एक जैनमन्दिरके दानका उल्लेख है, अतः इसका प्रारम्भ जैनधर्मके मंगलाचरणसे किया गया है । पंक्ति ३ से लेकर ४१ में पूर्वी चालुक्य वंशकी 'समस्तभुवनाश्रय' विजयादित्य (छटे) या अम्मराज (द्वितीय) तक की वंशावली है । वंशावलीके भागमें ऐतिहासिक महत्त्वके दो स्थल हैं, पहिला (पं० १३-१६) विजयादित्य तृतीयके राज्यका वर्णन करता है और दूसरे (पं० २२-३२) में चालुक्यभीम द्वितीयका अभिषेक अर्थात् राजतिलक है ।

शिलालेखमें वर्णित मङ्गि नोलम्बवाटिका एक पल्लव राजा और सङ्किट दाहळ (या चेदि) का प्राचीन सरदार मालूम पड़ता है । अन्तमें इस शासन (लेख) में विजयादित्य तृतीयका एक नया उपनाम परचक्रराम (पं० १४) आता है । विक्रमादित्य द्वितीयकी मृत्युके बाद बराबर पाँच वर्षतक युद्ध-मल्ल, राजमार्त्तण्ड और कण्ठिका-विजयादित्यमें लड़ाई होती रही । अन्तमें राजभीम (या चालुक्यभीम द्वितीय) राजमार्त्तण्डका वधकर, कण्ठिका-

१ या सम्भवतः 'मुंजुन्युरु' ।

विजयादित्य और युद्धमल्लको द्वाराकर या देशनिकाला देकर व्यवस्था एवं खान्दिके स्थापनमें सफल हुआ ।

उल्लिखित दान उत्तरायणमें (पं० ५४) किया गया था । दानपत्र एक विनमन्दिर था, जो धर्मपुरी (श्लोक १७) के दक्षिणमें तथा यापनीयसंघके एक मुनिके अधिकारमें था । इसकी स्थापना 'कटकराज' (पं० ५४) दुर्गराज (श्लो० १६) ने की थी और उन्हींके उपनामसे वह कटकाभरण-विनालय (श्लो० १७ तथा पं० ५३) कहलाया । इसकी प्रार्थना पर (पं० ५४) ही दान किया गया था, और दानके वर्णनका भाग उसके कुटुम्बकी बंशावलीके वर्णनसे शुरू होता है । कहा गया है कि उसके पूर्वज पाण्डुरंगने कृष्णराज (श्लो० १५) के निवासस्थान किरणपुरको जला दिया था, और तदनुसार वह विजयादित्य तृतीयका कोई सैनिक अधिकारी होना चाहिये । उसके पुत्र निरवद्यधवलको 'कटकराज' का पद दिया गया था (पं० ४४) । उसका पुत्र 'कटकाधिपति' विजयादित्य (पं० ४५) था, और उसका पुत्र दुर्गराज (श्लो० १६) था ।

दान की गई चीज मल्लियपुण्डि (पं० ५५) नामका एक छोटा गाँव था; यह कम्मनाण्डु (पं० ४२) जिलेमें था । इसकी सीमाएँ पंक्ति ५६ में दी गई हैं । उत्तरकी सीमा धर्मवुरमु (धर्मपुरी) के दक्षिणमें यह विनालय था ।]

[EI, IX, n° 6]

१४४

कलुचुम्बरू (जिला जन्तली)— संस्कृत तथा तेलुगू ।

[विना कालनिर्देशका (ई० सन् ९४५ से ९७० के लगभग)]

ओं स्वस्ति श्रीमतां सकलभुवनसंस्तूयमानमानव्य-सगोत्राणां
हारिति-पुत्राणां कौशिकीवरप्रसादलब्धराज्यानाम्मातृगणपरिपालितानां
खामिमहासेनपदानुष्यातानां भगवन्नारायणप्रसादसमासादित-वर-वराह-
लाञ्छनेक्षणक्षणवशीकृतारातिमण्डलानामश्रमेधावभृतज्ञानपवित्रीकृतवपुषं
चालुक्यानां कुलमलंकरिणोस् सत्याश्रयवह्ममेन्द्रस्य भ्राता [I]

श्रीपतिर्विक्रमेणाद्यो दुर्जयाद्वलितो हृतां

अष्टादशसमाः कुब्ज-विष्णुजिष्णुर्महीमपालयत् ।(I)

तदात्मजो जयसिंहखयाक्षिशतं [I] तद-

दूसरा पत्र; प्रथम ओर

नुजेन्द्रराज-नन्दनो विष्णुवर्धनो नव । तत्सुनुर्मङ्गी-युवराजः
पञ्चविंशतिं । तत्पुत्रो जयसिंहखयोदश ॥ तस्य द्वैमातुरानुजः कोकिलिः
षण्मासान् [I] तस्य ज्येष्ठो भ्राता विष्णुवर्द्धनस्तमुच्चाट्य सप्तत्रिंशतम् ।
तत्सुतो विजयादित्यभट्टारकोऽष्टादश । तत्सुतो विष्णुवर्द्धनः षट्-
त्रिंशतं । तत्सुतो नरेन्द्रमृगराजस्साष्टचत्वारिंशतं । तत्पुत्रः कलि-वि-
ष्णुवर्द्धनोऽध्यर्द्ध-वर्षं [II] तत्सुतो गुणग-विजयादित्यश्चतुश्चत्वारिं-
शतं । अथवा ।

सुतस्तस्य ज्येष्ठो गुणग-विजयादित्य-पतिरं-

ककारस्ताक्षाद्वल्लभनृप-समभ्यर्चितमुजः

प्रधानः शूराणामपि सुभट-

दूसरा पत्र; दूसरी तरफ

चूडामणिरसौ

चतस्रश्चत्वारिंशतिमपि समा भूमिममुनक् ॥

तद्भ्रातुर्युवराजस्य विक्रमादित्यभूपतेः ।

शत्रुवित्रासकृत्पुत्रो दानी कानीनसन्निभः ॥

जित्वा संयति कुष्णावल्लभमहादण्डं सदायादकन् (?)

दत्त्वा देव-मुनि-द्विजातितनयो धर्मार्थमर्थ्यम्मुहुः ।

कृत्वा राज्यम[क्र]ष्टकन्निरुपमं संवृद्धमृद्धप्रजं

मीमो भूपतिरन्वभुंक्त भुवनं न्यायात् समाक्षिशतं ॥

तदनु विजयादित्यस्तस्य प्रियतनयो महा-
नधिकधनदस्सत्य-त्याग-प्रताप-समन्वितः ।
परहृदयनि[र्]मेदी नाम्नेव कोल्लविगण्ड-भू-
पतिरकृत षण्मासान् राज्यन्नयस्थितिसंयुतः ॥

तस्याग्रसूनुरपराजितशक्तिरम्म-

राजः पराजितपरावनिराज्जाजिः ।

राजाभवद्विदितराजमहेन्द्रनामा

वर्षाणि सप्त सरणिः करुणारसस्य ॥

तस्यात्मजविजयादित्यबालमुच्चाढ्य श्रीयुद्धमल्लात्मज-
स्तालपराजो मासमेकमरक्षीत् ॥ तमाहवे विनिर्जित्य चालुक्य-
भीमतनयो विक्रमादित्यो विक्रमेणाक्रमे निक्षिप्य नव मासान-
पालयत् ॥ ततो युद्धमल्लात्तालप-राजाग्रजन्मा सप्त वर्षाणि गृही-
त्वाऽतिष्ठत् ॥

तत्रान्तरे विदितकोल्लविगण्ड-सूतो

द्वैमातुरो विनुत-राजमहेन्द्र-नाम्नः

भीमाधियो विजितभीमबलप्रतापः

प्राचीं दिशं विमलयन्नुदितो विजेतुम् ॥

श्रीमन्तं राजमध्यन्-धच्छग-सुरुत्त(त)रन् तातविकिं प्रचण्डं
विज्जं स[ज्जं च] युद्धे बलिनमतितरामद्यपं भीममुग्रं
दण्डं गोविन्द-राज-प्रणिहितमधिकं चोळपं लोवविकिं
विक्रान्तं युद्धमल्लं घटितगजघटान् सन्निहल्यैक एव ॥
भीतानाश्चासयन् सच्छरणमुपगतान् पालयन् कण्ठकानुत्-
सन्नान् कुर्वन् सुगृह्णन् करमपरमुवो रक्षयन् खं जनौषं ।

तन्त्रन् कीर्त्ति नरेन्द्रोच्चयमवनमयन्नार्जवन् वस्तुराशी-
नेवं श्रीराजमीमो जगदखिलमसौ द्वादशाब्दान्यरक्षत् ॥

तस्य महेश्वरमूर्त्तेरुमासमानाकृतेः कुमारसमानः

लोकमहादेव्याः खल्व यस्समभवदम्मराज इति विख्यातः ॥

यो रूपेण मनोजं विभवेन महेन्द्रमहिमकरं

उरुमहसा हरसरि-पुरदहनेन न्यक्कुर्वन् भाति विदितनिर्मलकीर्तिः ॥१॥

यद्बाहुदण्डकरवालविदारितारि-

मत्तेभकुम्भगलितानि विभान्ति युद्धे

मुक्ताफलानि सुभट-क्षटजोक्षितानि

वीजानि कीर्ति-विततेरिव रोपितानि । ॥१॥

स समस्तभुवनाश्रयश्रीविजयादित्यमहाराजाधिराजपरमेश्वरपरममहा-
रकः परमब्रह्मण्योऽत्तिलिनाण्डुविषयनिवासिनो राष्ट्रकूटप्रमुखान् कुटुम्बि-
नस्समाहूयेत्यमाज्ञापयति ॥ अङ्कलि-गच्छ-नामा । बल-

चतुर्थपत्रः दूसरी बाजू

हारिगणप्रतीतविख्यातयशाः[ः] । चातुर्व्यर्ष-श्रमण-विशेषानश्राणना-
भिलषित-मनस्कः ॥ श्रीराजचालुक्यान्वयपरिवारित पट्टवर्द्धिकान्व-
यतिलका । गणिकाजनमुखकमलद्युमणिद्युतिरिह हि चामेकाम्बामूढ
सा । ॥१॥ जिनधर्मजलविषर्धनशशिरुचिरसमानकीर्त्तिलाभविलोला ।
दानदयाशीलयुता चारुश्रीः श्रावकी बुधश्रुतनिरता ॥

यस्याः गुरुपंक्तिरुच्यते—

सिद्धान्तपारदश्चा प्रकटितगुणसकलचन्द्रसिद्धान्तमुनिः ।

तच्छिष्यो गुणवान् प्रभुरमितयशास्सुमतिरग्यपोटिमुनीन्द्रः ॥

तच्छिष्याऽर्हण्यङ्कितवरमुनये चामेकारथा सुभक्त्या ।

श्रीमच्छ्रीसर्व्वलोकाश्रयजिनभवनख्यातसत्त्वार्थमुच्चै ॥

र्व्वेङ्गिनाथाम्मराजे क्षितिभृति बलुचुम्बरुसुग्राममिष्टं ।

सन्तुष्टा दापयित्वा बुधजनविनुतां यत्र जग्राह कीर्त्ति ॥

उत्तरायणनिमित्तेन खण्डरफुटितनवकर्म्मार्थं सर्व्वकरपरिहारं शासनी-
कृत्य दत्तमस्यावधयः [I]

पूर्व्वतः आरुविल्लि । दक्षिणतः कोरुकोलनु । पश्चिमतः यिडि-
युरु । उत्तरतः युष्टिकोडमण्डु । तस्य क्षेत्रावधयः । पूर्व्वतः शर्करा-
कर्क । दक्षिणतः ईरुलकोळ । पश्चिमतः इडियूरि पोल्गरुसु ।
उत्तरतः कश्चरिगुण्डु ॥ अस्योपरि न केनचिद्वाधा कर्त्तव्या यः करोति
स पञ्चमहापातकसंयुक्तो भवति । (II)

बहुभिर्व्वसुधा दत्तां (त्ता) बहुभिश्चानुपालिता ।

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् ।

षष्टिवर्षसहस्राणि विघ्नायां जायते कृमिः ॥

अस्य ग्रामस्य ग्रामकूटत्वं कड्डलाम्बात्मज-कुसुमायुधाय दत्तं शाश्वतं ॥

अस्य ग्रामस्य [क ?] प्याभिधानं करवर्जितं ॥

आज्ञप्तिः कटकाधीशो भट्टदेवश्च लेखकः ।

कविः कविचक्रवर्त्ती शासनस्साश्युकृत् ॥

पेङ्गु-बलुचुम्बरिति शासनम्बुशेसिन भट्टदेवनिकार्हणन्दिभटारुळ
गुम्सिमिय रेड्डेडुल्लगाम्बुलुनुण्डिपनु(पने) ण्डु तूमुन नि बुट्टु विट्टु-पङ्गु
असादश्चेसिरि [III]

[यह लेख प्राच्य चालुक्यराजा अम्म द्वितीय अपरनाम विजयादित्य षष्ठकी प्रशस्ति है। इसका काल नहीं दिया है। लेकिन दूसरे प्रमाणोंसे पता चलता है कि उसका राज्याभिषेक शुक्रवार, ५ दिसम्बर, ९४५ ई० को हुआ था और उसने २५ वर्षतक राज्य किया था।

अत्तिलिनाण्डु प्रान्त (विषय) के कल्लुचुम्बर्ह नामके गांवके दानका इसमें उल्लेख है। यह दान बलहारि गण और अङ्कलि गच्छके अर्हानन्दि जैन गुरुको किया गया था। दानका प्रयोजन सर्व्वलोकेश्वर-जिनभवन नामके जैनमन्दिरके धर्मदिकी भोजनशाला (या भोजनभवन) की मरम्मत वगैरः कराना था। यह दान स्वयं अम्म द्वितीयने किया था, लेकिन पट्टवर्धिक वंशकी और अर्हानन्दिकी एक शिष्या चामेकाम्बाकी ओरसे दिलवाया गया था। प्रशस्तिके अन्तका तेलुगू भाग स्वयं अर्हानन्दिके द्वारा प्रशस्तिके लेखकको दिये गये एक इनामका जिक्र करता है।]

[EI, VII, n° 25, f. 5.]

१४५

हुम्मच—संस्कृत।

[काल लुप्त, संभवतः लगभग ९५० ई० (लु० राइस) ।]

[पार्श्वनाथवस्तिके दरवाजेकी पश्चिम ओरकी दीवालपर]।

श्रीमत् स्वस्त्यनवद्य-दर्शन-महोत्तरं प्रताप-सम्पन्नं पर-चक्रगण्डं.....
य्युत्तिरे शक-वर्षमेण्टु-नू.....नाड नाळ्गामुण्डं मळ्ते-
 यर म.....सर्गतन्.....नाळ्गामुण्ड बी...ळ्ळिडोळ् किषुकवे
 सर्गतन बाणसिगेयाकेय पिरिय-मगं...ळ्ळियक्कं तोलापुरुष-सान्तरन
 बळ्ळैयाके तम्मब्बेय सन्या.....लुत्तमी-कळ्ळ बसदियुमोन्दु-देवारमुमं माडि-
 सिदळ्.....श्रीसामियब्बे सेदेगोड्डे सान्तरन विन्ननप्प भोगमं नोडेनेन्द-
 रसि.....पषिट्टु प्रभावति-कन्तियरेन्दु पेसरं कोण्डु सन्यासनं गेळ्ळोडे.....
 कुक्कस-नाड किषिय-सालेयुरं बसदिगित्तं बलक-नाड सुळ्ळिळ्ळोडं देवा-
 र्क्के.....भटारगं बळ्ळियं नदि बसदिगं देवारक्कं कोड्डळ् पाळ्ळियक्कं बोलि-

यकं पुत्तु.....णकेय्यं.....ईर्कण्डुग-वित्तवुदं कोट्टळ् कुन्दस्यं कोन्दरोळ्.....
 ...येम्बुदु मण्णिर्कण्डुग.....इं पोरवकनुं सेम्बकनुं पाळियकन केळ-
 दिये पुळियण्णवी-धम्मं नडयिसु.....री-नाडरसं रणविक्रमं पाळियकन
 बसदिगे बदरीनाडानन्दु प्पनेरड वण्ण तम्म बाणसिगेय बयलं कोट्ट
 ईधम्मं श्रीसामियब्बे गेल्लुगनं मुन्नमे सालिय्.....र ने डि पाळियकन
 बसदिगित्तळ् गेल्लुगन धम्मं कावोनुं नडयिसुकौनु.....गळ महा श्री ॥
 श्री-माधवचन्द्रत्रैविद्य-देवर शिष्यरप्प नागचन्द्र-देवर पुत्र मादेय-
 सेनबोव.....स.....पुन-प्रतिष्ठेयं माडिदनु मङ्गळ महा श्री श्री-नीतरा[ग] ॥

[स्वस्ति । जिस समय अनवद्यदर्शन, महोग्र, प्रतापमम्पल, परचक्रगण्ड,
शासन कर रहा था,—(उक्त मितिको), प्रत्यक्षरूपसे
 तोलापुरुष-शान्तरकी पत्नी पालियकने, अपनी माताकी मृत्युपर, पाळि-
 यकक बसदि नामकी एक पाषाण-बसदि खड़ी की और बहुतसे दान इसके
 लिये किये गये ।]

[EC, VIII, Nagar tl., n° 45]

१४६

कुम्भी—संस्कृत तथा कन्नड़—भग्न ।

[वर्षे साधारण ९५० ई० (लु० राइल)]

[कुम्भीमें, किलेके भण्डार-गृहके पासके पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्जनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

तनगेन्दु.....व.....नन्- ।

द.....पुत्रङ्गति-मीतिय.....मतावष्टम्भदि माडि को- ।

डनो जाम.....सोम्युवेत्त पोळलोळ् कुम्बशिकेयोळ माडिदम् ।

जिन-गोहङ्गळ्वाशेयि पल्लवु.....॥

.....धिणेन्द्र.....तुङ्गाद्रिय ।

दोरेय.....भक्ति-मनर्दिं पुम्बुचुमिपन्नेगम् ।

.....लोकियब्बेयं जिन-गोहमं माडिदम् ।

धरेयेळ्ळं पोगळ्वन्नेगं वि.....अवनीपाळकम् ॥

जिनदत्त-रायं श्रीमन्महा.....धिपति-बोम्मरस-गौडर
मक्कळु.....ति-दत्त तन्न अनुज मानिभद्र-गौडर मक्कळु रायविभाड
राज.....रेवन्त नडे-गौड सुरितण्ण हिरिय-तम्मगौडरु मुख्यवाद आतन
अनुज पद्मयनु आतन तम्म चिक-तम्म-गौडरु आतन अनुज होन्नण-
गौडरु धर्म-शासनवं साधारण-संवत्सरद कार्तिक-सुद्ध-पुन्नमि-सो.....
.....सेट्टि सोक्कि-सेट्टि पदुम-सेट्टि.....वाद आ-
दिव्य-स्थानके.....सन्दायवेन्दु.....देरिगे येन्दु विट्टि येन्दु केळ-
सल्लदु ईधम्मव नडसिदवरिगे स्वर्गपदव पडेवरु ईधर्मके तप्पिदवरु
एळ्णेय नरकके होहरु जिन-रभिषेक-निमित्तं । घन-पूर्णं कुम्बकेन्दु
**कुम्बसे-पुरमम् । जिनदत्त-रायनित्तं । कनक-कुळोद्भवुरु कलस-
राजान्वयरुम् ॥ सन्नकोप्पद वस्तिथिन्द बडगलु बेळ्ळ कोप्पद केरे.....
कल्लु सरुद्ध सह विट्टरु.....बीजवरि.....कोट्टरु प्रतिपालिसुवदु**

[जिनशासनकी प्रशंसा । पोल्लु और कुम्बसिवेमें, पोम्बुच्च
बबतक जिन्दा रहे तबतक उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये; जिनमन्दिरमें लोक-
बब्बेकी स्थापना की । और जिनदत्त-राय [की स्वीकृतिसे], शासक
बोम्मरस और अनेक गौडोंने (जिनके नाम दिये हैं),— तथा कुछ सेट्टि
लोगोंने उक्त मितिको इसके लिये वार्षिक दान दिया । शापारम्भक श्लोक ।

जिनदत्तराय, जिसने जिनके अभिषेकके लिये कुम्बसे-पुरका दान किया
था, कलस राजाओंके खानदानके कनककुळमें उत्पन्न हुआ था । उसने कुछ
बबयीन भी दी थी ।]

१४७

खजुराहो—संस्कृत

(विक्रम संवत् १०११=९५५ ई०)

- १ ॐ [II] संवत् १०११ समये ॥ निजकुलधवल्लोयं दि-
 २ व्यमूर्त्ति खसी (शी) ल स (श) मदमगुणयुक्त सर्व-
 ३ सत्वा (त्वा) नुकंपी [I] खजनजनिनतोषे **धांगराजेन**
 ४ मान्य प्रणमति जिननायोयं भव्यपाहिल (छ) -
 ५ नामा । (II) १ ॥ पाहिलवाटिका १ चन्द्रवाटिका २
 ६ लघुचंद्रवाटिका ३ सं (शं) करवाटिका ४ पंचाई-
 ७ तलवाटिका ५ आम्रवाटिका ६ ध (धे?) गवाडी ७ [III]
 ८ पाहिलवंसे (शे) तु क्षये क्षीगे अपरवंसो (शो) यः कोपि
 ९ तिष्ठति [I] तस्य दासस्य दासोयं मम दतिस्तु पाल-
 १० येत् ॥ महाराजगुरुस्त्री (श्री) **वासवचंद्र** [III] वैसा (श) ष (ख)
 ११ सुदि ७ सोमदिने ॥

[एपिग्राफिआ इण्डिका, जि० १, पृ० १३६]

[El. 1, p. 135-136]

[यह शिलालेख खजुराहोमें जिननाथके मन्दिरके बायें दरवाजेपर उत्कीर्ण है। इसमें ११ पंक्तियाँ हैं। इसमें बताया गया है कि राजा धाङ्ग या धाङ्गके राज्यकालमें विक्रम सं० १०११ या ९५४ ई० में भव्य पाहिल या पाहिलने जिननाथके मन्दिरको बहुत तरहकी वाटिकाओं (छोटे उद्यानों या बगीचों) का दान किया। वानोंके निम्नलिखित नाम हैं:—

१. पाहिल-वाटिका, या पाहिल बगीचा
२. चन्द्र-वाटिका, या चन्द्र बगीचा
३. लघु-चन्द्रवाटिका, या छोटा चन्द्र बगीचा
४. शंकर-वाटिका, या शंकर बगीचा

५. पञ्चाङ्गक-वाटिका ?
६. आश्व-वाटिका, या आश्वके पेड़ोंका बनीया
७. धङ्ग-वाड़ी, या धङ्ग उद्यान-भवन ।

ए० कनिंघमने संवत् १०११ को सुधारकर और युक्तिपूर्वक सिद्ध कर इसको सं० ११११ पढ़ा है । शिलालेखका पूरा श्लोक प्रो० एफ् कीलहो-नेने इस तरह सुद्ध किया है:—

निजकुलधवल्लोयं दिव्यमूर्तिः सुशीलः
 क्षमदमगुणयुक्तः सर्वसत्त्वानुकम्पी ।
 सुजनजनितलोको धङ्गराजेन मान्यः
 प्रणमति जिननाथं भव्यपाहिल्लनामा ॥ १ ॥]

१४८

सुहानिया [ग्वालियर]—संस्कृत ।

[सं० १०१३=९५६ ई०]

संवत् १०१३ माधवसुतेन महिन्द्रचन्द्रकेनकभा (खो ?) दिता
 [सुहानियामें माधवके पुत्र महेन्द्रचन्द्रने एक जैन मूर्ति प्रतिष्ठापित
 की । संवत् १०१३ ।]

[JASB, XXXI, p. 399, a; p. 410, t.]

[ई० ए० जिल्द ७, पृ० १०१-१११ नं० ३८ १-५१ की पंक्तियाँ]

१४९

लक्ष्मेश्वर—संस्कृत ।

[शक ८९०=९६८ ई०]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्जनं ।

जीयान्नैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

१ यह 'प्रतिष्ठिता' का अपभ्रंश मालूम पड़ता है ।

खस्ति जितं भगवता गतघनगगनाभेन पद्मनाभेन [॥] श्रीमज्जाह-
वीयकुलामलव्योमावभासनभास्करः खखड्गैकप्रहारखण्डितमहाशिलास्त-
म्भलब्धबलपराक्रमो दारुणारिगणविदारणोपलब्धव्रणविभूषणविभूषितः
ऋष्यायनसगोत्रः श्रीमान् कोङ्गणिवर्म्मधर्म्ममहाराजाधिराजपरमेश्वर-
श्रीमाधवप्रथमनामधेयः ॥ तत्पुत्रः पितुरन्वागतगुणयुक्तो विद्याविनय-
विहितवृत्तः सम्यक्प्रजापालनमात्राधिगतराज्यप्रभोजनो विद्वत्कविकाञ्चन-
निकषोपलभूतो नीतिशास्त्रस्य वक्तृप्रयोक्तृकुशलो दत्तकसूत्रवृत्तेः प्रणेता
श्रीमन्माधवमहाराजाधिराजः ॥ तत्पुत्रः पितृपितामहगुणयुक्तो(ऽ)नेक-
चतुर्दन्तयुद्धावाप्तचतुरुदधिसलिलास्वादितयशः श्रीमद्द्विर्वर्म्ममहाराजा-
धिराजः ॥

अपिच ॥ वृत्त ॥

आसीज्जगद्गहनरक्षणराजसिंहः

क्षमामण्डलाब्जवनमण्डनराजहंसः ।

श्रीमारसिंह इति बृंहितबाहुकीर्त्ति—

स्तस्यानुजः कृतयुगक्षितिपालकीर्त्तिः ॥

आदेशाद्देवचोलान्तकधरणिपतेर्गंगचूडामणिस्त्वां
वेगादभ्येति योद्धुं त्यज गजतुरगव्यूहसन्नाहदर्पम् ।

गङ्गामुत्तीर्य गन्तुं परबलमतुलं कल्पयेत्पाप दूतै-
र्विज्ञप्तं गूर्जराणां पतिरकृति तथा यत्र जैत्रप्रयाणे ॥

पद्माम्भोरुहभृङ्गभृत्यभरणव्यापारचिन्तामणिः

संत्रासग्रहविद्वलीकृतरिपुक्षमापालरक्षामणिः

विद्वत्कण्ठविभूषणीकृतगुणप्रोद्भासिमुक्तामणि—

ईवस्सज्जनवर्णनीयचरितश्रीगङ्गचूडामणिः ॥

मन्दाकिन्या जिनेन्द्ररूपनिधिपयस्स्वन्दसम्पादितायाः
 कालिन्द्या खण्डवैरिप्रहतगजमदघेतनिर्व्वर्त्तितायाः ।
 सम्भेदे श्रीनिकेतनेऽङ्गणभुवि भवतो गङ्गाकन्दर्पभूर्प-
 व्यातन्यो दिग्बधूनां विधुविजयी (यि) यशो हारमाचन्द्रतारम् ॥

अपि च ॥ वृत्त ॥

निर्व्वादोज्ज्वलबोधपोतबलतस्सिद्धान्तरत्नाकरम्
 चारित्रोत्प्लुतयानपात्रबलतस्संसारमीनाकरम् ।
 उत्तीर्णस्समुदीर्णभक्तिविनतैर्बन्धाभिधानो बुधै-
 रासीद् देवगणाग्रणीर्गुणनिधिर्देवेन्द्रभङ्गारकः ॥

उद्दामकामकालिनिर्दलनैकवीर-
 स्तस्यैकदेव इति योगिषु देव एकः ।
 शिष्यो बभूव हृदि यस्य दधाति भव्यो
 रत्नत्रयं शिरसि यच्चरणद्वयं च ॥

महितस्य तस्य महितैर्महतां, प्रथमस्य च प्रथमशिष्यतया ।
 जयदेवपण्डित इति प्रथितः, प्रथमानशास्त्रमहिमद्रविणः ॥
 अपि च ॥ गद्य ॥

तस्मै स भुवनैकमङ्गलजिनेन्द्रनित्याभिषेकरत्नकलशः स तु सत्त्व-
 वाक्य-कोङ्गणिवर्म-धर्ममहाराजधिराजपरमेश्वरश्रीमारसिंहदेवप्रथम-
 नामवेयः गङ्गाकन्दर्पः ॥ शुकनृपकालातीतसंवत्सरेऽश्वतेष्वष्टेसु-
 नवत्युत्तरेषु प्रवर्त्तमाने विभवसंवत्सरे शङ्खवसति-तीर्थव-
 सतिमण्डलमण्डनस्य गङ्गाकन्दर्पजिनेन्द्रमन्दिरस्य दानपूजादेवमोग-
 निमित्तं पुल्लिगेरे-नगरात्पूर्व्वस्यां दिशि तल्ल-वृत्तिं दत्ते स्म [॥] तस्या-
 स्तीमा समाख्यायते तथा ।

१ शुद्धपाठ संभवतः 'भूपस्यातेने' इति वाहिये ।

कुमारीसरसः पूर्वस्यामाशायामेकनिवर्त्तनान्तरादुपलब्धुगलदक्षिणस्यां दिशि बेलकनूरग्रामपश्चिमसीमाः पावकदिशि श्रेष्ठितटाकपुरोवर्त्तिन-
 विशालसरसस्समीरणदिकोणे हस्ति-प्रस्तरात् पश्चिमस्यां दिशि षट्-तटाक-
 पुरोत्तिकटनिम्नोत्तरदिग्वर्त्तिनः कृष्णपाषाणादुत्तरस्यां दिशि नामपुरग्राम-
 मार्गादक्षिणस्यां दिशायां मळिगमार्त्तण्डगृहक्षेत्रादैशान्यां दिशायामानी-
 लशिलायाः पुनः पश्चिमस्यां दिशि कृष्णसरसः उत्तरजलप्रवाहनिर्गमा-
 दुत्तरस्यां दिशि नीलिकार-तटाकागतप्रवाहादुत्तरस्यामाशायामेकनिव-
 र्त्तनान्तरे वायव्यदिकोणवर्त्तिरक्तपाषाणपार्श्ववर्त्तिन्यादशम्याः । पूर्वदि-
 ग्मुखेनागत्योत्कीर्णादरुणपाषाणाद्भागपुरग्राममार्गस्योत्तरपार्श्वे पूर्वदि-
 ग्मुखेन गत्वोत्तरदिशं प्रति निवृत्तात्पश्चिमदिशायामेकनिवर्त्तनान्तरे
 पूर्वोत्तरदिशि कृष्णपाषाणादक्षिणस्यामाशयां शमी-कन्थारीगुल्मान्त-
 र्गतानीलशिलायाः पश्चिमतः पुरोक्तव्यक्तपाषाणयुगले सङ्गता सीमा
 [11] प्राक्प्रकाशितकृष्णसरःपुरोभागवर्त्तीनि षण्निवर्त्तनान्यम्यन्तरी-
 कृत्य सुष्टि(स्थी)कृतानि षष्टि-शतं निवर्त्तनानि ॥ तस्मादेव नगरा-
 द्दरुणदिग्भागवर्त्तिन्यास्तलवृत्तेस्सीमा समान्नायते तद्यथा । देशग्रामकूट-
 क्षेत्राद्वायव्यां ककुभि त्रिशमीरक्तोपलाद् वायव्यामाशायामेकशम्या आख-
 ण्डलदिशायामेकदण्डान्तरादरुणपाषाणादाग्नेयकोणवर्त्तिनो विशालशमी-
 कन्थारीजालात्पश्चिमस्यां दिशि श्रेष्ठितटाकदक्षिणजलप्रवाहनिर्गमाद् बहु-
 भराजमार्गात् पूर्वस्यामाशयां कन्थारीगुल्मात् सवसी-ग्राममार्गादक्षि-
 णतश्शमीकन्थारीकुञ्जात् कुबेरककुभो वायव्यायामाशयां ज्येष्ठलिङ्ग-
 भूमेर्निर्ऋत्या हरितकृष्णपाषाणात् पूर्वस्यां दिशि बहुभराजमा-
 र्गात् पश्चिमस्यामाशायामुत्तरदिग्मुखप्रवृत्तमहाप्रवाहान्तर्गतकिन्नर-
 पाषाणाद् दक्षिणस्यां दिशायामन्धकारक्षेत्रात् पश्चिमसीमि प्राक्प्र-

कटीकृतारेशग्रामकूटक्षेत्राद् वायव्यां दिशि त्रिशमीशोणपाषाणे सीमा समागता । एवं पश्चिमदिग्बर्त्तानि चत्वारिंशच्छतं निवर्त्तनानि ॥ शङ्ख-
वसतेर्ब्राह्मणदिशि निवर्त्तनमात्रः पु२प(पुष्प)वाटः पश्चिमदिशि च
निवर्त्तनद्वय-द्वयदो (?) पु२प(पुष्प)वाटः ॥ तस्य चैत्यालयस्य पुरप्रम-
णमाख्यायते [I] पूर्वतः बाळबेश्वरपश्चिमप्राकारः पावकदिशि चर्म्म-
कारदेवगृहसीमान्तम् [I] तत्पश्चमतः वारिवारणसीमां कृत्वा दक्षिणस्यां
दिशि पु२प(ष्प)वाटाङ्ग(?)जचैत्यपुरुरः श्रीमुक्करवसतेः पश्चिमस्यां दिशि
गोपुरपर्यन्तात् पश्चिमदिग्बर्त्तित्तिदेवगृहद्वयमभ्यन्तरीकृत्य मरुदेवीदेवगृहस्य
पश्चान्नागादुत्तरस्यां दिशि चन्द्रिकाम्बिकादेवगृहात् पूर्वतः मुक्करव-
सतिं प्रविष्टीकृत्य रायराचमल्लवसतिं(ति)दक्षिणप्राकारः ततः
पूर्वतः श्रीविजयवसतिदक्षिणप्राकारः ई (ऐ)शान्यां दिशि कर्म्म-
टेश्वरदेवगृहं तदक्षिणतः पूर्वोक्तबाळबेश्वरपश्चिमसीमा [III] देवनगरा-
त्पश्चिमदिशि पु२प(ष्प)वाटद्वयनिवर्त्तनक्षेत्रं दत्तम् ॥ तस्य सीमा पृथक्कृ-
यते [I] परवसरसः पूर्वदिशि तपसीग्रामपथादुत्तरतो पु२प(ष्प)वाटनिव-
र्त्तनमेकं । गङ्ग-पेर्म्माडिचैत्यालयपु२प(ष्प)वाटादुत्तरतो निवर्त्तनमेकं
नागवल्लीवनम् । एवं गङ्गकन्दर्पभूषाळजिनेन्द्रमन्दिरदेवभोगनिमित्तं
निवर्त्तनशतत्रयमात्रक्षेत्रं पु२प(ष्प)वाटत्रयमुर्वींशदेशग्रामकूटाकारविष्टिप्र-
भृतिबाधापरिहारं मनोहरमिदम् ॥ श्लोक ॥

बहुभिर्वसुधा दत्ता राजाभिस्सगरादिभिः ।

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥

मद्राजाः परमहीपतिवराजा वा


पापादपेतमनसो मुनि भाविभूपाः ।

ये पालयन्ति मम घर्म्ममिं समर्द्धा
तेषां मया विरचितोऽञ्जलिरेष मूर्ध्नि ॥

[यह शिलालेख धारवाड़ जिलेके दक्षिण-पूर्व कोनेकी ओर मिरज रिया-
सतके लक्ष्मेश्वर तालुकेके प्रसिद्ध शहर लक्ष्मेश्वरके साङ्गबसति नामके
मन्दिरमें पत्थरकी एक लम्बी शिलापर है। इसमें ८२ पंक्तियाँ हैं। अक्षर
दक्षिणी सारसिद्धकी पुरानी कर्णाटक (कन्नड़) लिपिके हैं। इसमें तीन
विभिन्न शिलालेख समाविष्ट हैं।

पहला भाग—१ से लेकर ५१ वीं पंक्तिक तक गङ्ग था कोड्डु वंशका
शिलालेख है। इसमें उद्धिखित दान, ८९० शक वर्षके व्यतीत होनेपर और
जब विभव संवत्सर प्रवर्त्तमान था, भारसिंहदेव-सख्वाक्य-कोङ्कणिवर्मा,
के द्वारा जिन्हें गङ्ग-कन्दर्प भी कहते थे, जयदेव नामके एक जैन पुरोहित
(पण्डित) को किया गया था। विभव संवत्सर शक ८९० ही था और
शक ८९१ शुक्ल संवत्सर था, इसलिये शिलालेखका समय ठीक दिया
हुआ है। यह दान पुलिगेरे (जिसका अर्थ होता है नीलेके तालाबका
नगर) नगरकी कुछ भूमियोंका था। इस 'पुलिगेरे' नगरको मिस्टर फ्ली-
टने लक्ष्मेश्वरका ही पुराना नाम माना है। यह दान एक जैनमन्दिरके
लिये, जिसे इसमें 'गङ्गकन्दर्प जिनेश्वरमन्दिर' कहा गया है, किया गया
था। इस मन्दिरको स्वयं भारसिंहदेवने बनवाया या उसका जीर्णोद्धार
किया था।]

वंशावली इस तरह दी गई है:—



[ई० ए०, खिन्न ४, पृ० १०१-१११, नं० ३८ (१-१५१ की प्रतियों)]

१५०

कहूरा—कवच

[शक ८९३=१७१ ई०]

[कहूरमें, किलेके दरवाजेके एक सम्भयर]

(पश्चिममुख) खस्ति श्री-कोण्डकुन्दान्वय देशिय-गण-मुख्यर् देवै-
न्द्रसिद्धान्त-भटार-रवर पिरियशिष्यर् चान्द्रायणदमटाररवर-शिष्य-
गुणचंद्र-भटाररवर-शिष्यर् श्रीमद्भयणन्दि-पण्डित-देवर नाण-
ब्बे-कन्तियर शिश्शिनियर्पाण्डियर-धोरपय्यन पिरियरसि पाम्बब्बे
तले-वरिदु मुवत्त-वरिसं तपं गेय्दब्दं नोन्तुच्छम-ठाणमेरिदबेरेदोन-
वर मगं विडि.....

(उत्तरमुख) परसे महा-प्रसाददोळोरेवकनिम्मडि-धोरनोब्दु-
तन्न्- ।

अरसुममौल्य-वस्तुगळुमं कुडे बूतुरानकनेन्दु विसु ।

तरिसे धरित्रि जीय बेसनेनेने सन्दिबु सन्दवळेविन्दु ।

अरसु दलेन्दु पाम्बबेगळन्तु तपो-नियमस्तरादोइ (आदोइ) आइ ॥

खस्ति यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-मोनानुष्ठान-परायणे(यणे)यरप्प
श्री-पाम्बब्बे-कन्तियरय्दं नोन्तुच्छम-ठाण-मेरिदइ । बरेदोनवर मगनईवु-
भक्तम् ।

(दक्षिण मुख) [ऊपरका श्लोक, जो 'परसे' इत्यादिले छुट होजा है,
वहाँ दुहराया गया है ।]

शक-काल ८९३ य प्रजापति-संवत्सरदन्तर्गत मगर्गशिर-
मासद शुद्ध-त्रयोदशियु गुरुवार[द]न्दु अब्दं नोन्तुच्छम-द्विण
भेरिदर बरेदोनवर मगं वि.....

[पण्डित-दोरपण्यकी ज्येष्ठ राणी पाम्बबेने,—जो कोण्डकुन्दान्बयके
देशिय-गणके मुख्य देवेन्द्र-सिद्धान्त-भटारके ज्येष्ठ शिष्य चान्द्रायणदभटा-
रके शिष्य गुणचन्द्र-भटारके शिष्य अभयनन्दि-पण्डित-देवकी (शिष्या)
नाणबे-कन्तिकी शिष्या थी,—केसलॉच कालके बाद, तपके पूरे ३०
साल पूर्ण किये, और पाँच अणुवर्षोंको धारण करके उच्च अवस्थाको
पहुँची । उसके पुत्र विधिसे लिखा हुआ ।

जागेके श्लोकमें उसके त्याग और तपकी प्रशंसा है । दक्षिण और पूर्व
मुखकी तरफ भी ये ही लेख कुछ भेदके साथ, उसके अन्य दो पुत्रों,
अर्हन्तिक और वि.....के द्वारा लिखाये गये हैं ।]

[EO. VI, Kadur tl., n° 1]

१५१

अवण बेल्गोला—कन्नड

[विना काल-निर्देशका]

[देखो, जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग]

१५२

अवण बेल्गोला—संस्कृत तथा कन्नड

[विना काल-निर्देशका, लगभग ९७५ ई० (फ्लैट)]

[देखो, जैन शि० ले० सं० प्रथम भाग]

१५३

[सुहानिया (ग्वालिपर)—संस्कृत

[सं० १०३४=९७७ ई०]

संवत् : । १०३४ श्री वज्रदाममहाराजाधिराज वज्रसाखवदि
पाचमि * * *

संवत् १०३४ की वैशाख वदी ५ को महाराजाधिराज वज्रदाम (शेष-
लेख स्पष्ट नहीं है ।) ।

[JASB, XXXI, p. 399, a; p. 411, t.]

१५४

पेरगूर—कन्नड़

[शक ८९९=९७७ ई०]

[पेरगूर (किन्नर-नाम) में एक पाषाणपर]

स्वस्ति शक-चतुप-कालातीत-संवत्सर-सतङ्ग ८९९ त्तनेय ईश्वर-सिं
वत्सरं प्रवर्त्तिसे सत्या(त्य)वाक्य-कोङ्गिणिवर्म-धर्म-महाराजाधि-
राज कोळाळ-पुरवरेश्वर नन्दगिरिनाथ श्रीमत् राचमळ्-पर्मनडिगळ्
तद्वर्ष[१]म्यन्तर पा(फा)ल्युण(न)-शुळ-पक्षद नन्दीश्वरं तल्प-देवसमागे
स्वस्ति समस्तवैरिगजघटाटोपकुम्भिकुम्भ-स्तळ-स्फुटितानर्घ्य-मुक्ताफल-
ग्रहण-भीकर-करासे-निवासित-दक्षिण-दोर्दण्ड-मण्डित-ग्रचण्डं अण्णन-
बण्ट बडवर-नण्टं श्रीमत् रकस बेहोरेगरेयनाळुत्तिरे भद्रमस्तु
जिनशासनाय श्री-बेळ्गोळ-निवासिगळप्प श्री-वीरसेनसिद्धान्त-
देवर वर-शिष्यर् श्री-गोणसेन-पण्डित-भट्टारकर वर-शिष्यर्
श्रीमत् अनन्तवीर्य्ययङ्गळ् पे[र]र्गदूरं पोस-वादगमुमन् अम्यन्तर-
सिद्धियागे पडेदरदके साक्षी तोम्भत्तरुसासिर्ब्रुमय्-सामन्तरं बेहोरेगरे-
येळ्पदिम्बरुमेण्टोक्कळुमिदं कावर्त्तल्लवर् म्मलेपरुमय्-नूर्ब्रुमय्-दामरिगरं
श्रीपुरुष-महाराजरदत्तियनावोनोर्ब्रुनळिदोम् बाणरासियुं सासिर्ब्रु-ब्राह्म-
णरं सासिर-कविल्लियुमनळिद पञ्चमहापातकनक्कु इदनारोर्ब्रुर् कादरवर्गे
पिरिदु पुण्यं चन्दशान्दिय्यन लिखितम् ॥ पेरर्गदूर वसदिय शासनम् ।

[शक चतुपके सैककों वर्ष बीतने पर जब ईश्वर नामका संवत्सर ८९९
वाँ पाळ् था:—

१ ये-दोनो शब्दसमूह 'देवरवर शिष्यर्' तथा 'भट्टारकरवर शिष्यर्' भी पढ़े
जा सकते हैं ।

जौर जिस समय सत्यवाच्य-कोट्टिकिचर्म-अर्म-महाराजाधिराज राधमल्ल
पेर्मविका, जो कोलाळपुरके ईश्वर तथा नन्दगिरिके नाथ थे, राज्य था,
उस समय श्रीमत्-रक्षस बेहरेदेगरेपर राज्य कर रहा था। उससे श्री-वे-
ल्लोळके निवासी श्रीमत् अनन्तवीर्यव्यने थे [र] गज्वर तथा नयी खाई
प्राप्त की। अनन्तवीर्यव्य गणसेन-पण्डित भट्टारकके शिष्य थे और वे
वीरसेन-सिद्धान्त-देवके शिष्य थे। यह लेख चन्द्रणन्दियकका लिखा
हुआ है।]

[EC, I, Coorg. ins., n° 4.]

१५५

श्रवण-बेल्लोला—कन्नड़

[बिना काल-निर्देशका]

१५६

श्रवण-बेल्लोला—कन्नड़ तथा तामिल ।

[बिना काल-निर्देशका]

१५७

श्रवण-बेल्लोला—कन्नड़

[बिना काल-निर्देशका]

[देखो जैनशिलालेखसंग्रह, भाग १]

१५८

बिदरे—कन्नड़

[शक ९०१=९७९ ई०]

[बिदरे (बेदूर परगना) में, तालाबके प्यर्थ पड़े हुए बाँध-
परके एक पाषाणपर]

खलि स (श) क—वर्ष ९०१ नेय प्रमातिक-संबत्सरद
कार्तिक-मासदोळ त्रिलोकचन्द्र-भटारर शिष्य रविचन्द्र- भटारर
संन्यसनं गेय्दु मुडिपिदर कोण्डकुन्दान्वयद देसिग- गणद भानुकीर्ति-
भटारर परोक्षविनय माडिसिदर

[कविति । (उक्त-सिद्धिको), सिद्धिको-मन्त्र-मन्त्रारके विभिन्न-सिद्धिको-मन्त्रारके 'सन्ध्यासन' धारण किया और मन्त्रको प्राप्त हुए । कोष्ठाकुन्दान्वय तथा देसिन-गणके भानुकीर्ति-मन्त्रारके उनकी स्वर्गयात्राका यह मन्त्रक बनवाया ।]

[EC, XII, Gubbi tl. n° 57.]

१६९

धरुण—कवड-भद्र

...१९... (काक कुल) = संभवतः लगभग १६० ई०

[धरुण गौडमें, कसबगुडीके सामनेके शम्भपर]

.....१९.....स्य सकळ-सममेन्दु दर्म्म गेन्दु सन्धसद.....

.....निज-सिद्धि.....

[मुनिव्रत धारण करके विभंगत होनेवाले एक जैन यतिका मन्त्रक ।]

[EC, III, Mysore tl., n° 40.]

१६०

सांघति—कवड

[शक १०२=१६० ई०]

रङ्कुळान्वयनृपरं पट्टद पतवर्म्म नेगळेनिप गावुण्डुगळुं विट्टर्जि-
नेन्द्रपूजेगे नेट्टने धान्यंगळोळ्मो पो(दिद) कुळ्मं ॥ रट(इ) र
पट्टजिनालय विट्टळ्वादव्यतोक्कलनुमतदिन्द कोट्टर्जिनेन्द्रपूजेगे नेट्टने
.....घ(पं) ॥ दीपावळिय (प) वेक्के देवर सोड्ढरिगे गाणद लोम्मा-
नेण्णे ॥ श्रीमत्परमगम्भीरस्वाहादाम्मोघलाञ्छनं जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य
शासनं जिनशासनं ॥

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रयं श्रीप्रि(पृ) श्वीवल्लभं महाराजाधि-
राज-परमेश्वर-परममहाराकं सस्याश्रयकुळरिळ्ळकं चालुक्य(क्या)
भरणं श्रीमत्सैल्यदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिष्टुद्विपिं सल्लुत्तरे ।

तत्पादपद्मोपजीवि । समधिगतपंचमहाशब्दमहासामन्तं समरविजय-
लक्ष्मीकान्तं वै (चै ?) सान्वयसरोजवनमार्तण्डं नुडिदंतेगण्डं ह्यवत्स-
राजं रूपमनोजं परवळ-सूरेकारं वैरिवंगारं नरसं (शं) कमीमं
चलदंकरामं गण्डरगण्डं वैरिभेरुण्डं प्रतिपन्नमन्दरं शरणागतत्रजपंजरं
श्रीमत् शान्तिवर्मरसर वंशावतरमेन्तेन्दोडे [॥] श्रीमदभरेन्द्रविभवो-
द्दामं संप्रामरामनूर्जिततेजं भीमपराक्रमनेनिसिद्धी महियोळ् पृथ्वीराम-
ननुपरूपं ॥ तत्सुत ॥ आरूड (ढ) वत्सराजनुदारगुणं विनुतकन्दुका-
दिस्यं श्रीनारीकान्तं निर्जितवैरिप्रजनेनसि पिड्डगं सले नेगर्द ॥ वृ ॥ अन्त-
कनन्ते बन्दिदिरोळ्यन्तजम(व)र्मन नोडिसुत्ते मारान्तोरनेकरं तविसि
वस्तुगळं मदवारणगळं कान्तेयरं तुरंगचयमं पिडिदित्तोडे मेच्चिराभयं
दन्तियनित्तनन्तदुवे पेळदे पिड्डग निन्न गेल (छ) मं ॥ तदग्रपत्ति ॥
वृ ॥ पोगळळळुम्बमप्प चरितं मिगे बण्णिमलब्जसंभवंगणितमप्प
रूपविभवं पतिभक्तियोलोन्दि सज्जनीकेगे नेलेयाद मान्तनद पेंपु
समन्तळवट्ट नीजिकब्बरसिगे सन्दरुन्धति पे०० द्वोरेयेन्ददे दोस(ष)
वल्लदे ॥ तत्तनूज । कं ॥ श्रीमदुदयाद्रिशिवरोद्दामोदयतपनविभवरूपं कीर्ति-
श्रीमहिमातिशयं जयरामारमणं जितारि शान्तनृपाळं ॥ दयेयिन्दोळ्पिन
तेळ्पिनि गुणगणाळंकारदिं मार्गनिर्णयदिं तत्व(स्व)विचारदिं गमक-
दिंदाहारमैष्यसाभयशास्त्रामळदानदिन्दधिकनेन्दन्दोळ्पिनि शान्ति-
वर्मन विख्यातियनोन्दे नाळिगोयोळ्पिने वण्णिपं वण्णिपं ॥ तदग्रपत्ति ॥
श्रीवनिते ताने बन्दु महीवनितेगे तिळकमेनिसि शान्तन ललितश्रीवनि-
तेयाद विभवमने वोगळ्बुदो चन्दिकब्बेयरसिय पेंप ।

यतितारकापरीतः कण्डूरगणोरुकन्धिवृद्धिकरः । बाहुबलिदेवचन्द्रो
जिनसमयनभस्तले भाति ॥ व्याकरणतीक्ष्णदंष्ट्रस्सिद्धान्तनख(खः)
प्रमाणकेसरभारः । बाहुबलिदेवसिंहं (हः) प्रवादिगजतीव्रमदहरस्सं-

जयते ॥ वृ ॥ अवनीपाळानतश्रीपदकमळयुगं तत्व(स्व)निर्नि
 (णिण) करारान्तविदं चारित्ररत्नाकरनमळवच(चः)श्रीवधूकान्तनं-
 गोद्ववदर्पारण्यदावानळनुदितलसद्बोधसंशुद्धनेत्रं रविचन्द्रस्वामी भव्या-
 म्बुजदिनपनघो (घौ) धाद्रिसद्व्रजापात ॥ कं ॥ कंहुर्गीणाब्धिचन्द्रनख-
 ण्डितसुतपोविभासि खण्डितमदनं दिण्डीरपिण्डसुरवेदण्डयशःपिण्डन-
 र्हणन्दिमुनीन्द्र ॥ वृ ॥ कन्तुराजगजेन्द्रकेसरि भव्यलोकसुखाकरं
 कान्तवाग्वनितामनोरमनुप्रवीरतपोमयं शान्तमूर्ति दिगंतकीर्तिविराजितं
 शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवनिळेश्वरवदितपादपंकरुहद्वयं ॥ क ॥ नुतयाप-
 नीयसंघप्रतीतकण्डूर्गणाब्धिचन्द्रमरेन्दी क्षितिवळे(ळ)यं पोगळ्पिन
 मुन्नतिवैत्तम्भौनिदेवदिव्यमुनीन्द्र ॥ जितकर्म्मारातिभूपाळककुळ्ळितळ
 काळंकृतांघ्रिद्वयं राजितभव्यव्रातपंकेरुहवनदिनपं चारि(रु)चारित्रमार्गां-
 चितसूकं (कं) शब्दविद्यागमकमळभवं श्रीप्रभाचन्द्रधे (दे) वत्र
 (व्र) ति षट्कर्ककळंकंगेयेने नेगर्द । जैनमार्गाब्धिचन्द्र ॥॥

खस्ति स (श)कनृपकाळातीतसंवत्सरशतंगळ् ९०२ नेय विक्रम-
 संवत्सरद पौषशुद्ध दशमी बृहस्पतिवारदन्दिनुत्तरायण शं(सं)क्रमणदोळ्
 बाहुबलिभट्टारकरकालं कच्चि शान्तिवर्म्मरसं सुगन्धवर्त्तियल्
 तन्न माडिसिद बसदिगा वूर तन्न सीवटद पोलदोळगे सर्वबाधापरिहार-
 मागि विट्ट मत्तर्नूरखत्तदर चतुराघाटद सीमेयाबुदेन्दडे ॥॥ तद्द
 पोलद बदगिवोळ्द सन्दिनलीशान्यद गुड्डे । अळि तेंकळेळ्येकेरेय
 विळिय कळ्ळु अळि पडुवल् सीवट्टद सन्दिनोळ् नैरि (ऋ) तिय गुड्डे ।
 अळि बडगल् सीवट्टद तद्दरपोलद संदिनल् वायव्वद गुड्डे ॥॥ मत्तं नी-
 जियव्वरसि तन्न मगं शान्तिवर्म्मरसं माडिसिद पिरिय बसदिगे
 तन्न सीवटं पिरियपस(सु)ण्डिगे पोद बट्टेयि तेंक काडियूर पोलद.....नु

रख्त्तुं म(त्त)कैष्यं नमस्यमागि विट्ठळा भूमिय चतुस्सी.....र
 कुकुम्बा[ळ] पोलद सन्दिनलीशान्यद गुडे । अळिं तेंक... कुकुंबाळ
 सुगन्ध[ब]र्त्तिय पोलद सन्दिनलाप्रेयद [गुडे ।].....गिनकूद.....
 गिनोळ[गे नै]रि[ऋ]तिय गु [डे]..... वायव्य [द गु] डे । इन्ति
 [नि] तु भूमियि.....[हं]वीर्वरं प्र[तिपाळि]सुवर [॥] मा.....[य] मुना
 साग[र] दवर्ग पडन् भु.....वन्धरान्ध.....

[यह लेख भी उसी जैनमन्दिरसे लिया गया है जिसमेंसे लेख नं० १३०। यह पृथ्वीरामके पुत्र, प्रपौत्र तथा उनकी पत्नियोंके नाम बताता है। पृथ्वीरामके पुत्र पिट्टगके सम्बन्धमें एक ऐतिहासिक तथ्य वर्णित है, पर मि० जे. एफ. फ्लीट इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि यह अजवर्मा कौन था जिसे पिट्टगने जीता था। लेखमें पिट्टगके प्रपौत्र शान्त या शान्तिवर्माके १५० 'मत्तर' भूमिके दानका उल्लेख है, जिसे उसने ९०३ शकमें किया था। इतना ही दान शान्तिवर्माकी माता नीजिकम्बे या नीजियम्बेने सुगन्धवर्त्तियमें बनवाये हुए जैनमन्दिरको किया।]

[JB, X, p. 171-172, a; p. 204-207, t.; p. 208-212, tr. (ins. n° 3.)]

१६१

मथुरा,—संस्कृत

[सं० १०३८=९८१ ई०]

[तीर्थंकरोंकी विशाल पद्मासनस्थ मूर्तियाँ]

इसका लेख साफ-साफ पढ़नेमें नहीं आता है। कुछ भाग पढ़ा जाता है, कुछ नहीं। परंतु लेख सिर्फ दो पंक्तियोंका है। यह मूर्ति या लेख सिर्फ कालकी दृष्टिसे ध्यानगम्य है। डा० फूहररके मतसे यह लेख बताता है कि इस मूर्तिका निर्माण मथुराके श्वेताम्बर संप्रदायकी तरफसे हुआ था।

१ मूलमें "शक राजा कालके ९०२ वर्षे बीतने पर" है। २ "Progress Report" for 1890-91, p. 16.

ये दोनों सम्भवत् (विनाशः) मूर्तियाँ (विक्रम सं० १०३८ और ११३४ [शि० ले० नं. २११]) दिसम्बर १८८९ में, श्वेताम्बर संप्रदायके मालूम पड़नेवाले मध्यवर्ती मन्दिरके पास मिली थीं ।

महमूद गजनवी (गजनविका रहनेवाला) के द्वारा मथुराका विनाश ई० सन् १०१८ में हुआ । उक्त प्रतिमा (सं० १०३८=९८१ ई० की) इस विनाशसे पहिलेकी स्थापित हुई हैं और ख्रि. ले. नं. २११ की इस घटनाके करीब ६० साल बाद । आक्रामकने चाहे-जितना विनाश किया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि जैन लोगोंके पास उनके पवित्र स्थान विना किसी ज्यादा बाधाके बने रहे ।]

[Antiquities of Mathura (ASI, XX), p. 53, t.]

१३२

श्रवणवे-लोलो—कच्छ-भग्न ।

[वर्ष पित्रभानु=९४२ ई० (ल. राइस)]

[जैन शि० ले० सं०, भाग १]

१३३

श्रवणवे-लोलो—संस्कृत तथा कच्छ

[शक ९०४=९८२ ई०]

[जैन शि० ले० सं०, भा० १]

१३४

हेमावती—कच्छ

[शक ९०४=९८२ ई०]

[हेमावतीमें, पूर्वकी तरफके खेतमें पाषाणपर]

उद्-वल्मेळेवरेम्बुदे ।

विई मुन्नल्लि कडुपिनोळ् बहु-विधदिन्दू ।

उद्-वल्मेळेदु मुरिगुम् ।

विद्मेनळ् बलब्द पोरगनेळेव-बेडङ्गम् ॥

एरकमल्लदे पोल्लदागेरगि दोरेकाप्पे कोव्व तेरनल्लदे ।
 नेरेये वरल् तक्कडियल्लि विसुवल्लिये विस अरिदयिल्ल ।
 पारियना दिट्टि मुरिवल्लि कडुपिनोळ् मुरिदयिल्लिल्लिय विन्नणवन् ।
 नेरेये कल्पदे बीरर बीरनं गिडेगळाभरणनं नेडिकल्ल ॥

आसुवनुं कूसुवनुम् ।

वीसुवनुं गडेय नेगळ्द तक्कडियोळ्नुत्त ।

आसदेयुं कुङ्कदेयुम् ।

बीसन्देयु बिद्द मेळेगुमेळेव-वेडङ्गम् ॥

एरगळ्ळरियदे मेण्टुकम्मगुळ्दुं वरळणपरियदे तप्पा पिन्दम् ।

तेरेननरियदे भागमनिकियुं मूरेडेगळ्ददे कडाडियुं मुरिये पायिसिद ।

तुरुय कोन्दु धरेगेडेतेगे गेडेयिवनेनिसदं ।

नेरेये कडु-जाणनेनिमल्के बर्कुमे गडेगळाभरणन कल्लदन्नम् ॥

काल्गळ कय्गळ तुरगद ।

कोल्गळ तिणिवुगळ्ळोळ्ळि बच्चिसुतेळेगुम् ।

गेल्गुमेने नेगळ्द मार्गदे ।

गेल्गुमे बणेदल्लि कीर्त्ति-नारायणनम् ॥

वनधि-नभो-निधि-प्रमित-संख्य-स(श)कावनिपाळ-कालमं ।

नेनेयिसे चित्रभानु परिवर्त्तिसे चैत्र-सितेतराष्टमी-

दिन-युत-भौमवारदोळनाकुळ-चित्तदे नोन्तु ताळ्दिदम् ।

जन-नुतनिन्द्र-राजनखिळामर-राज-महा-विभूतियम् ॥

[एरेव-वेडङ्गम्, कीर्त्ति-नारायणके युद्धमें शौर्यके कार्योंका वर्णन । (उक्त मितिको) अनाकुळ चित्तसे बर्त्तोंको पालते हुए, प्रसिद्ध

इन्द्रराजने स्वर्गकी विभूति पाई—(अर्थात् मर गये) १ ।]

[EC, XII, Sira tl., n° 27.]

१६५

श्रवण-बेलगोला—संस्कृत

[विना काल-निर्देशका]

[जै. वि. ले. सं., भा. १.]

१६६

अङ्गिका—संस्कृत तथा कन्नड-भग्न

[काल लुप्त, पर लगभग ९९० ई० का]

[अङ्गिका (गोपीबीडु परगना) में, बसदिके पासके पाषाणपर]

(सामने).....सुद पञ्चमी-बृहस्पति वारदन्दु

स्वस्तियम-स्वाध्याय-ध्यान-मौनानुष्ठान-परायणरूप द्रविल-संघद.....

अद श्री-कोण्डकुन्दान्वयद त्रिकालमौनि-भट्टारक शिष्यर् श्रीमदिरिव-

बेडेङ्ग.....लन गुरुगळ् विमलचन्द्र-पण्डित-देवर् सन्यासन-विधियि

मुडिपि मुक्तियनेय्दिदर् ॥ (पीछे) श्रुत-विमळादिचन्द्र.....

श्रीमनु.....पण्डिताह्वयसु-विमळचन्द्र-मुनिः ॥

नमो विमळचन्द्राय कळाकळित-मूर्त्ये ।

सत्त्वात् सद्-बुधसेव्याय शान्तामृतमयात्मने ॥

श्री-विमळचन्द्र-पण्डित-देवर गुड्डी हवुम्बेया तङ्गे शान्तियब्बे
तम्म गुरुगळ् परोक्ष-विनयं गोव्दर् ॥

[(साधु-गुणोंसहित), द्रविल-संघ, कोण्डकुन्दान्वय तथा पुस्तक-
गळ्के त्रिकालमौनि-भट्टारकके शिष्य, —श्रीमद् ईरिव-बेडेङ्ग...के गुरु,—

१ उसका काल और अंतिमावस्थाका कथन वही है जो श्रवणबेलगोला नं०
५७ के शिलालेखमें है । इन्द्रराज अन्तिम राष्ट्रकूट राजा था ।

विमलचन्द्र-पण्डितदेवने, संन्यास-विधिसे मरण कर, मुक्ति प्राप्त की ।
पण्डित पदके साथ विमलचन्द्रमुनिकी प्रशंसा ।

विमलचन्द्र-पण्डित-देवकी गृहस्थ दिव्या हवुम्बेकी छोटी बहिन
शान्तिवस्त्रेने अपने गुरुके स्वर्गवासके उपलक्ष्यमें स्मारक खड़ा किया ।]

[EC, VI, Mudgere tl., n° 11]

१६७

पञ्चपाण्डवमलै—तामिल

[काल लगभग ९९२ ई०]

श्री

१ स्वस्ति

[[[

२ [को] विराजराज [क] [सर] ीव [न] मर्कु याण्डु ८ आ
[व]दुपडवूर्क [ो]दुत्तुप्पेरुन्-तिमिरिनादुत्तिरुप्प[ान]मलैप्पो-

३ गमागिय कूरग[न्प्]ाडि [इ] रैयिलि प[ळ]ळिच्चन्दत्त की [ळ]-प्-
[प]ग[ळ]ाड[इ]लाडर[ान]जर्गळ कर्पूर-विलै को [ण्डु इ] द्द[र्]म[]मङ्के

४ द्रुप्पोगि[न]रडेन् [रु उ]डैयार् इला[ड]राजर् पु[ग]ळ्वि-
प्पवर्-[ग] ण्डर् म्मा[न]ार् [वी]रशोळर् तिरु[प्पान्]मलैदेवर्-
त्तिरुव-

५ [डित्तो]ळु [देळुन्]द[रु]ळि इ [र]उक्क इ[व]र देवियार्
इलाडमह[ान]देवि[य]ार कर्पूर-विलैयुमन्निया[य]वावद[ण्ड]विर् [यु]
म [ो] -

६ च्चिन्द[रुळ] वे[ण्डु]मेन्नु विण्णप्पज्जेय् [य उ]डै[या]र [वी]
र-शोळर् कर्पूर-विलैयुमन्निया[य] वावद[ण्ड]विर्-

७ युमो [ळ] िञ्जोमेन्नुच्चैय्य अरि[य]ऊर् किळ [वन्] ।
गि[य] वी र-शोळवि-लाड-प्पेर [र] ै य[नु]डैयार् [क] न्मियेया]-

- ८ णतियागविदु^१ कर्पूर-विलैयुमन्नियाय-[वा] वदण्ड[व्]-इरैयुमोळि
ञ्जु शासनाञ्चेय्द-पडि [I] इदु [व]-
- ९ छ [द्] उ कर्पूर-विलैयुमन्नियाय-वावदण्डव्-इरैयुमिप्पळ्ळिच्चन्द-
तैक्कोळ्[व्]।न गङ्गैयि-
- १० डै [क्कुमारिय्] इडैचेय्दार् शे[य्] द पा [व]ङ्कोळ्वारिदुवल्लदिप्प-
ळ्ळिच्चन्दत्तै केडुप्पार वल्लव[रै]
- ११[न]रु[व] [I] [इ]-न्न [र्मत्] ते [र]क्षिप्पान् पादधूळिय्
एन्-[रलै] मे[ल]न [I] अर[म]रवर्क अरमल्ल तु[ण]यैयिळ्ळै ॥

[यह शिलालेख तमिल गद्यकी ११ पंक्तियोंका है । लेखकी दूसरी पंक्ति-
में राजराज-केशरीवर्मन्के राज्यका ८ वां साल इसका काल बताया गया
है । प्रस्तुत लेख महाराजा राजराज चोलके राज्य-कालका है । यह ९८४-
८५ ई० में गद्दीपर बैठे थे । इस लेखमें किसी विजयका वर्णन नहीं है ।
इस शिलालेखके नीचे एक पशु बनाया गया है, वह शीता होना
चाहिये, क्योंकि चोल राजाओंका वह शिह्न रहा है ।

लेखमें (पंक्ति ३) लाटराज वीरचोलका एक शासन है । वह चोल
राजा राजराजका कोई अचीनस्थ राजा होना चाहिये, क्योंकि राज्यकाल
उसीका (राजराजका) दिया हुआ है । लाटराज वीर-चोल पुगळ्विप्पवर
गण्डका पुत्र था । वीर-चोल और उनके पूर्वजोंके नामके पहले लाटराज
ऐसा बिरुद लगा रहनेसे मालूम पड़ता है कि ये लोग पहले किसी समय
लाट (गुजरात) से आये थे ।

यह अभिलेख इस बातका उल्लेख करता है कि अपनी रानीकी प्रार्थना
पर वीर-चोलने तिरुप्पान्मलैके देवताके लिये (पं० ४) कूरगन्पाडि
गाँवसे कुछ आमदनी बाँध दी थी ।

यद्यपि चैत्यालयका नाम सिर्फ 'तिरुप्पान्मलैका देवता' दिया गया
है, परंतु 'पल्लिच्चन्दम्' इस शब्दसे मालूम पड़ता है कि यह कोई जैन

बैखाल्य होना चाहिये। शिलालेख नं० ११५ से भी यह निर्णीत होता है। उसमें यक्षिणी और नागनन्दि गुरुकी प्रतिमा है। यद्यपि यक्षिणियोंको बौद्ध और जैन दोनों ही मानते हैं, परन्तु नागनन्दि यह जैन नाम है।]

लेखमें कूरगम्पाडिके 'पल्लिञ्चन्द' की आमदनी दो तरहकी बताई गई है:— एक तो कपूरखिले (कपूरके खर्च) की, दूसरी 'अश्लियाय वावदण्ड-विरै' की। कपूरखर्चकी बात तो ठीक समझमें आ जाती है, लेकिन उत्तरकी आमदनी 'अश्लियाय-वावदण्डविरै' का क्या अर्थ है, सो स्पष्ट नहीं है। इसके भी दो अर्थ किये जाते हैं: एक तो अन्याय वावदण्ड (जुलाहोंका करघा) हरै (कर)। इसका अर्थ होगा 'अनधिकृत करघोंपरका कर' (The tax on unauthorised looms)। दूसरा अर्थ इसका यह हो सकता है अन्याय + आव + दण्ड + हरै। 'आव'का अर्थ होता है वाणोंका तूणीर। इसका तात्पर्य यह है कि बिना अधिकारपत्र पाये जो धनुष-वाणका प्रयोग करते थे उनपर जुर्माना (दण्ड) किया जाता था।

[El, IV, n° 14, B.]

१६८

श्रवण-बेलगोला—कन्नड़

[बिना काल-निर्देशका]

[जै. शि. ले. सं., भा. १.]

१६९

कुम्बरहल्लि—कन्नड़—भद्र

[बिना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग १००० ई०]

[कुम्बरहल्लि (कूहनहल्लि परगना) में, बसवगुडिकी दक्षिणी दीवालपर]

स्वस्ति श्रीमदजितसेनपण्डितदेवर शिष्यण ना...क पुणि-समय

[इसमें अजितसेन-पण्डितके शिष्यका वर्णन है।]

[EC, III, Mysore tl., n° 31.]

१७०

मुत्सन्द्र—कषड

[विना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग सन् १००० ई० का]

[मुत्सन्द्र (देवलापुर परगना) में, गाँवके पूर्वमें एक गोल बटिया
(Boulder) पर]

श्रीमत् कलुकरै-नाड् आळ्वरु चोक-जिनालयके मत्तिकेरैय
नट्ट कळ चतुस्सीमान्तरेषु विट्ट दत्ति इदं किडिसिदवं कविले बाह्मणनुव
कोन्द ब्रह्म.....एय्दुगु

[कलुकरै-नाड्के शासकने चोक जिनालयके लिये मत्तिकेरैका दान दिया ।]

[EC, IV, Nagamangala tl., n° 92.]

१७१

तिरुमलै—(नार्थ बर्काट)—तामिल

[१००५ ई०]

- १ स्वस्ति श्री [II] तिरुमगळ् पोलप्पेरु निलच्चे—
- २ लियुन् तनक्के युरिमै पूण्डमै मनक्कोळ् कान्दल्लुर् चालै कलम-
रुत्तरुळि वेङ्गैनाडुड् गङ्गपाडियु
- ३ नुत्तंबपाडियु न्तडिगै पाडियुड् कुडमलैनाडुड् कोल्लमुड् कलिङ्गमुं
एण्डिशै पुगळ्तर विळमण्डळमुं तिण्डरल् वेन्नि च्च—
- ४ ण्डार्कोण्ड[त्ते]ळिल् वळरुळि एल्लयाण्डुं तोळुतेळ विळङ्गुयाण्डै
चेळिन्नारैत्तेचु कोळ् श्रीकोवि—
- ५ राज इराजकेशरिपन्मरान श्रीइराजइराजदेवर्कु याण्डु २१
आवदु अलंपुरियुं पुनर् पोन्नि आरुडैय चोळन्
- ६ अरुमोळिक्कु याण्डु इरुपत्तोन्नावदेन्नुळ्ळै पुरियुमतिनिपुणन् वेण्
किळान्

७ गणिशेखरमरुपोरचुरियन्नन् नामत्ताल् वामनिलै निररकुड्—
 ८ कलिञ्चिट्टु नीमिर् वैद्यगैमलैक्कु नीडुळि इरुमरुक्कु नेल् विळैय—
 ९ कण्डोन् कुलै पुरियुं पडै अरैचर कोण्डाडुं पादन गुणवीरमा-
 मुनिवन्

१० कुळिर् वैद्यगैकोवेय् [III]

[यह अभिलेख कोविराजाराजकेलरिबर्मन्, उर्फ राजराज-देवके २१ वें वर्षमें अभिलिखित है, तथा पोन्न, अर्थात्, कावेरी नदीके स्वामी 'शोरन् अरुमोरी' के इक्कीसवें वर्ष में (शब्दोंमें) ।

लेख बताता है कि किसी गुणवीरमामुनिवन्ने एक नहर या मोरी (Sluice) गणिशेखर-मरु-पोरुंरियन् नामके उपाध्यायके नामसे बन-वाई थी । तिरुमलै चट्टानका उल्लेख "वैद्यगैमलै" नामसे है ।]

[South Indian Ins., I, n° 66 (p. 94-95), t. & tr.]

१७२

बेल्लूरु—कण्ड-भम्भ

[शक ९४४=१०२२ ई०]

[बेल्लूरु (कोत्तत्ति परगने)में, तालाबपर दुर्गा-देवीके पीछेके पाषाणपर]

स्वस्ति समस्त-रिपु-नृप-कुम्भ-कुम्भ-दळ्ळ-पञ्चास्य समुदित-श्रीम.....
 ल-विमुक्त-चोळ-भूपाल.....लिन.....जित-वीर-लक्ष्मी आश्रित-भक्त-मला-
 पकर्षण भूमिसञ्चरण जय-मूल-स्तम्भ श्रीमद् अ.....गङ्गमण्डलेश्वर प्रभु-
 पद्म-युग्माशोक-भोगिकाश्रित-भ्रमद्-भ्रमर जित-रिपु संसित-समर-प्रताप
 राज्य-भार-धुरन्धरं अमात्य-समिति-विराजमानम् सत्यत्व-नाभि-कानीनम्
 समर-जित-भूप-जीव-प्रदनुं अतिपूताचरणम् रिपु-खरकिरणम्.....
 तिगाञ्जनेयं सौच-गाङ्गेयं शरणागत-यज्ञ-पञ्चरम् रिपु-कञ्ज-कुञ्जरम्
 तच्च-रक्षामणि मञ्जी-चिन्तामणि विनेय-बिळासम् श्रीमत्-पेर्गडे-हासम्

विश्व-विस-हासर प्पतिहिताभरणम् ॥ शक-नृप-कालातीतसंवत्सर-
शतकञ्च ९४४ नेय दुर्म्मिखि (दुर्म्मिति) संवत्सरद फाल्गुण-मास-सुद्ध-
पञ्चमी-सोमवार पुनर्वसु-नक्षत्रदन्दु गङ्ग-पेर्म्मनडिगळु कर्नाटनाळुत्त-
मिरे तम्म ख-दोराळदन्दु.....नव जिनालयके पेर्म्मनडि जीवितम्
.....द बलोर-कट्टलाळ्वाद केरेंय मेहुकं बोयिस कट्टेय कट्टिसि
तूवनिरसि मुन्नं तव.....कोळग मण्णु विट्ट दोन्द....केरेंगे.....मुमं
विट्ट मिदनळिद कोटि-कविलेयं ब्राह्मणरुं काशियुमनलूकिरे

बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः ।

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥

[इस लेखमें 'पेर्म्मडे-हासम्' के द्वारा, उक्त मितिको, बलोर-कट्टे
गहरे तालाबकी सीढ़ियोंके बनवाने, बांधके निर्माण कराने, नहर या
मोरीके बनाने जाने, तथा.....एक 'कोळग' भूमिके देनेका जिक्र
है । उसके समयमें कर्णाट (कर्नाटक) पर गङ्ग पेर्म्मनडि शासन कर रहे
थे । यह पुण्यकार्य पेर्म्मनडिके दीर्घजीवनकी कामनाके लिये उसकी
सरकारके स्थानमें एक नये जिनालयके रूपमें किया गया था ।]

[EC, III, Mandya II., n° 78]

१७३

मथुरा—संस्कृत

[संवत् १०८०=१०२३ ई० सन्]

१ ओ श्रीजिनदेवः स्वरिस्तदनु श्रीभावदेवनामाभूत् ।

आचार्यविजयसिङ्ग-

२ स्तच्छिष्यस्तेन च प्रोक्तैः ॥ [१ ॥]

मुष्ठावकैर्नवग्रामस्थानादिस्थै स्वसक्तितः ।

१ संवत्सर 'दुर्म्मिखि' दिया हुआ है: यह स्पष्टतः गलतीसे लिखा गया है ।
इसकी जगह 'दुर्म्मिति' होना चाहिये जो शक ९४४ से मेल खाता है ।

३ वर्द्धमानश्चतुर्विंशः कारितोयं सभक्तिभिः ॥ [॥ २]

संवत्सैर १०८० थंभकप-

४ प्पकाम्यां घटितः ॥ ओं^१

अनुवादः— ॐ । श्री जिन्देवसूरि हुए; उसके बाद श्री भावदेव हुए । उनके शिष्य आचार्य विजयसिङ्ग (विजयसिंह) हैं । उनके उपदेशसे नवग्राम, स्थान आदि (शहरों) में रहनेवाले भुंश्रावकोंने स्वशक्ति और स्वभक्तिके साथ वर्द्धमानकी चतुर्विंश (सर्वतोभद्र) प्रतिमाका निर्माण करवाया । यह प्रतिमा १०८० [विक्रम] संवत्सें थंभक और पप्पक शिक्पियोंके द्वारा बनकर तैय्यार हुई थी । ओं ॥

[El, II, n° XIV, n° 41]

१७४

तिरुमलै - तामिल

[१०२३ ई०]

१ स्वस्ति श्री [॥] तिरुमन्नि वळरविरु निलमडन्दैयुं पोरुच्चयप्पायैयुञ्
चीरत्तनिचेत्तियुन् तन् पेरुन् देवियराकि इन्पुळु नेडु तियल्
ऊळियुळ् इडैतु-

२ रैनाडुन्तुडर वनवेलिप्पडर वनवासियुञ् चुळ्ळिच्चुळ् मदिट्को-
ळ्ळिप्पाकैयु नण्णरकरु मुरण् मण्णैकडकमुं पोरु कडल्
ईळत्तरशर तमुडियुं आड्ग-

३ वरु देवियरोङ्केळिन् मुडियुमुन्नवर पक्कल्त्तेन्नवर वैत्त सुन्दर-
मुडियुं इन्दिरनारमुन्तेण्डिरै ईळमण्डलमुळुवदुं एरि पडैक्के-
रळर्

१ यह छेद श्वेताम्बर सम्प्रदायका मालूम पड़ता है ।

- ४ मुरैमैयिर्शुडकुलतनमाकिय पलर् पुगळ् मुडियुञ्चेड्कदिर्
मालैयुञ् चड्कदिर् वेलैतोल् पेरुड्कावर् पल पळन्तिवुञ्
चेरुविर् चेन-
- ५ विल् इरुपत्तोरु कालरैचुकळै कट्ट परशुरामन् मेवरुञ् शान्ति-
मत्तिववरण् करुति इरुत्तिय चेम् पोर्रिरुत्तकु मुडियुं भयड्कोड्ड
पळि मिग मुशङ्गियिल् मु-
- ६ दुकिट्टोळित्त जयसिङ्गन् अळप्पेरुं पुगळोड्डुं पीडियल् इरड्डु-
पाडि एळरै इलक्कमु नवनेदिकुल प्पेरुमलैकळुं विकिरमवीरर
शकरकोड्डुमु-
- ७ मुदिरपडवळै मदुरमण्डलमुं कामिडैवळैय नामणैकोणमुं
वेञ्जिलैवीरर पञ्चप्पळ्ळियुं पाचुडैप्पळनन् माशुणिदेशमुं
अयर्वि-
- ८ ल् वण् किरुत्तियातिनगर वैयिर् चन्दिरन् रोल् कुलत्तिरतरनै
विलैयमर्क्कळत्तुक्किलैयोड्डुं पिडित्तुप्पल तनत्तोड्डु निरै कुल
तनक्कुवै-
- ९ युञ् चिड्कुरुञ्चेरि मिलैयोड्डविषैयमुं भूशुर् चेर नल्कोशलै-
नाडुन्तन्मपालनै वेम् मुनैयळित्तु वण्डुरै चोलैत्तण्डयुत्तियु-
मिरण
- १० शूरनै मूरनूर ताक्कि त्तिक्कणै किर्त्तित्तक्कणलाडमुड् गोविन्द-
चन्दन् माविलिन्तोडत्तड्गाद चारल् वड्गाळदेशमुन्तोड्डु
कडरशङ्गुकोड्डुन् महीपालनै
- ११ वेञ्जम वळाकत्तञ्चुवित्तरुळि ओण्टिर्ल् यानैयुं पेण्डिर् पण्डार-
मुनित्तिल नेड्डुड्कडलुत्तिरलाडमुं वेरि मण्णरिर्त्तेरि पुनर्गङ्गुमै
शुमाप्-

१२ पोरु तण्डार्कोण्ड कोप्परकेशरिपन्मरान उडैयार् श्रीरा-
जेन्द्रचोळदेवर्कु याण्डु १२ आवदु जयङ्गोण्डचोळम-
ण्डलत्तु पङ्गाळनाट्टु नडुविल्

१३ वगैमुगैनाट्टुप्पळ्ळिच्चन्दं वैगवूर् तिरुमलै श्रीकुन्दवैजिनाल
यत्तु देवर्कु प्पेरुवाणपाडिक्कैवळिमल्लियूर् इरुक्कु-
व्या-

१४ पारि नन्नप्पयन् मणवाट्टि चाणुण्डप्पै वैत्त तिरुनन्दाविळ-
क्कु [॥] ओन्निकुक्काशु इरुपट्टुं तिरुवमुदुक्कु वैत्त काशु
पत्तुम् [॥]

[यह अभिलेख कोपरकेशरिवर्मन्, उर्फ उडैयार् राजेन्द्र-चोल-देवके
बारहवें वर्षका है। इसके आरम्भमें उन सभी देशोंके नाम दिये हुए हैं
जिनको इस राजाने जीता था। उनमें हमें ७॥ लाख भूमिकरवाले 'हरट्ट-
पाडि' का पता चलता है जिसे राजेन्द्रचोलने जयसिंहसे लिया था। इस
देशको उन्होंने अपने राज्यके ७ वें और १० वें वर्षके मध्यमें जीता होगा।
इस अभिलेखका जयसिंह 'पश्चिमी चालुक्य राजा जयसिंह तृतीय' (लग-
भग शक ९४० से लगभग ९६४ तक) के सिवाय और कोई नहीं हो
सकता। जब कि राजेन्द्र-चोल और जयसिंह तृतीय दोनों एक-दूसरेको
जीतनेकी र्डींग मारते हैं, तब हमें यह मान लेना चाहिये कि या तो सफ-
लता दोनोंको क्रमशः मिली होगी, या चिर विजय किसीको भी नहीं
मिली होगी।

दूसरे दो देश, जिन्हें राजेन्द्र-चोलका जीता हुआ कहा जाता है, 'इडैतु-
रैनाडु' और 'वनवासि' हैं। पहला 'इडतारे' देश है, जोकि मैसूर जिलेके
एक तालुकेका हेड-क्वार्टर है, दूसरा बम्बई प्रान्तके 'नॉर्थ केनारा' जिलेका
'वनवासि' है।

“कोल्लिप्पाक्के” मि० फ्लीटके अनुसार, पत्रिमी चालुक्य राजा जयसिंह-
तृतीयकी राजधानियोंमेंसे एक था ।

‘ईरम्’ या ‘ईर-मण्डलम्’ से मतलब सीलोन (लङ्का) से है । तेन्न-
वन्न=‘दक्षिणका राजा’ से प्रयोजन पाण्ड्य राजासे है । उसके विषयमें
अभिलेख कहता है कि उसने पहिले ‘सुन्दर’ का मुकुट सीलोनके राजाको
दे दिया था जिससे राजेन्द्र-चोलने पुनः वह सुन्दरका मुकुट ले लिया ।
वर्तमान लेखमें ‘सुन्दरका मुकुट’ से मतलब ‘पाण्ड्य राजाका मुकुट’
मालूम पड़ता है । यहाँ ‘सुन्दर’ कोई पाण्ड्य-वंशका राजा मालूम पड़ता
है । उसका नाम लेखके कर्त्ताने नहीं दिया और न सीलोनके राजाका
नाम जिसे राजेन्द्र-चोलने जीता था । आगे लेख यह भी बताता है कि
राजेन्द्र-चोलने ‘केरळ’ अर्थात् मलबारके राजाको जीता था । उसने ‘शकर-
कोट्टम्’ के राजा विक्रम-वीरको भी हराया था । लेखका ‘मदुरा-मण्डलम्’
पाण्ड्य देश है, जिसकी राजधानी मदुरा थी । ‘ओडु-विषय’ उड़ीसा है ।
‘कोशलैनाडु’ दक्षिण कोसल है, जो जनरल कर्निंभमके अनुसार, महानदी
और इसकी सहायक नदियोंकी ऊपरकी घाटी है । ‘तङ्कणलाडम्’ और
‘उत्तिरलाडम्’ से मतलब क्रमशः दक्षिणी और उत्तरी छाट (गुजरात) से
है । पहला किसी ‘रणशूर’ से लिया गया था । आगे बताया जाता है कि
राजेन्द्र चोलने ‘बङ्गालदेश’ अर्थात् बङ्गाल को किसी गोविन्दचन्द्रसे जीतकर
उसका विस्तार गङ्गातक किया था । शेष देश और राजाओंके नाम, ई
हुल्ज (E. Hultzsch) कहते हैं कि, वे पहचान नहीं सके ।

लेखमें तिरुमलै, अर्थात् ‘पवित्र पहाड़’ का वर्णन है, और वह इसके
ऊपरके मन्दिरको जिसे ‘कुन्दवै-जिनालय’ कहा गया है, दिये गये दानका
उल्लेख करता है । यह ‘कुन्दवै’ कौन थी, इसके विषयमें ऐतिहासिकोंके दो
मत हैं ।

इस झिलालेखके अनुसार, तिरुमलै पहाड़की तलहटीमें जो गाँव है
उसका नाम ‘वैगवूर’ है । यह ‘मुगैनाडु’ का है, जो ‘जयङ्कोण्ड-चोल
मण्डलम्’ के ‘पङ्गलनाडु’ का एक विवीजन (भाग) है ।

१७५

चिक्क-हनसोगे—संस्कृत

[बिना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग १०२५ ई० का]
[चिक्क-हनसांगे (हनसोगे परगना)में, जिन-बस्तिके दरवाजेके ऊपर]

(ग्रन्थ और तामिल अक्षर)

श्री-राजेन्द्र-चोळन जिनालयं देशिगणं बसदि पुस्तक-गच्छम्
[राजेन्द्र-चोळ जैनमन्दिर, देशि-गण और पुस्तक-गच्छकी बसदि]
[EC, IV, Yedatore tl., n° 21]

१७६

खजुराहो—संस्कृत

(सं० १०८५=१०२८ ई०)

संवत् १०८५ । श्रीम्त् आचार्य पुत्र श्री
ठाकुर श्री देवधर सुत । श्री सिवि
श्री चन्द्रयदेवः श्री शान्तिनाथस्य प्रतिमा कारी ।

[इस लेखमें स्थापित प्रतिमाका नाम शान्तिनाथ है, सेतनाथ नहीं, जैसा कि लोगोंमें प्रसिद्ध है । सम्वत् (विक्रम) भी साफ १०८५ दिया हुआ है ।]

[A. Cunningham, Reports, xx i. p, 61.]

१७७

मुल्हूर—संस्कृत

[बिना काल निर्देशका । लगभग १०३० ई० (छ० राइस) ।]
[मुल्हूरमें, बस्ति मन्दिरमें शान्तीश्वर बस्तिके सामने पादद कल्लू पर]
गुणसेन-पण्डितस्य गुरोः पुष्पसेन-सिद्धान्त-देवस्य श्री-पादम् ।
[गुणसेन-पण्डितके गुरु पुष्पसेन-सिद्धान्त-देवके पवित्र पदचिह्न या पादु-
कार्ण ।]

[EC, IX, Coorge tl., n° 41]

१७८

अङ्किका—कच्छ-भग्न

[बिना काल-निर्देशका, पर संभवतः लगभग १०४० (?) ई०

(ल० राहस) ।]

[अङ्किका (गोणीबीड परगना)में, हरमक्ति दोडु-उडवेमें पाषाणपर]

.....राज्यं गेये....द्रविणान्वयद मूल-सं.....

.....पण्डित.....तु तर्काच्चालितामा....जलधि-यशो...कुत्-

हल...शय वज्रपाणि पण्डित-चरण ॥ एनिसि सले गङ्गवाडिय ।

मुनि-वररि राजमल्ल-भूपालकनीमनु-नीति-मार्गनभयं । जन-पति-सम्य-

क्व-मार-नृपतिय गुरुगल् ॥ वृ ॥ इरदापनिगळङ्गळि तळ...व्यत

हो....। दुरितारण्यमनेयदे सुदु सोमवूरोल् विब्द कालान्तदोल् ।

रे सन्यास-विधानादिं मुडिपि पूज्यं वज्रपाणि-व्रतीश्वररत्युत्तम-मुक्तियं

पडेदरेम् पुण्यक्वर् नो.... ॥

(बार्थी ओर).....रविकीर्तिमुनीन्द्रनेन्दु पड्डळिगेये

पेळदेनेव्व कलनेले-देवर साहसोक्तियम् ॥ श्रीमत्-कलनेले-देवर्त्तम्म

गुरुगळ्णे निपिधिगेयं माडिसिदर मङ्गळ

[द्रविणान्वय, मूलसंघके...पण्डितके शिष्य वज्रपाणि-पण्डितके चरणोंमें

जब ..राज्य कर रहा था:- गङ्गवाडिके मुनियोंमें प्रसिद्ध राजा राजमल्ल था ।

इसके गुरु वज्रपाणि-व्रतीश्वरने सोसवूरमें अपना जीवन व्यतीतकर अन्तमें

संन्यास-भरण धारण किया और उन्हींका यह स्मारक है ।]

[EC, VI, Mādgera tl., n° 18]

१७९

ब्या(बया)ना (राजपूताना)—संस्कृत

[सं० ११००=१०४४ ई]

[1A, XIV, p. 8-10 n° 151, t. & a.]

१ यह शिलालेख श्वेताम्बर सम्प्रदायका है ।

१८०

दोड्ड-कणगालु—कन्नड़ ।

[वर्ष तारण=१०४४ ई० ? (ल० राहस) ।]

[दोड्ड-कणगालुमें, गौडके खेतमें एक दूसरे पाषाणपर]

श्री-मूलसंघ देशिय-गण पुस्तक-गच्छ कोण्डकुन्दान्वय इङ्गलेश्वरद
बळिय.....शुभचन्द्र-देवर प्रियाप्र-शिष्यरुमप्प प्रभाचन्द्र-देवर
निसिधि तारण-संवत्सर-चैत्र-शुद्ध-पञ्चमी-शुक्रवारदन्दु मुक्तरादरु ।

[श्री-मूलसंघ देशिय-गण पुस्तक-गच्छ कोण्डकुन्दान्वय और इङ्गलेश्वर
बळिके...शुभचन्द्र-देवके प्रिय ज्येष्ठ शिष्य प्रभाचन्द्र-देवकी समाधि
(निसिधि) । (उक्त वर्षमें) उन्हें छुटकारा मिला, अर्थात् स्वर्गगत हुए ।]

[EC, IX, Coorg tl., n° 56]

१८१

बेळगामि—कन्नड़

[शक ९७०=१०४८ ई०]

[सोमेश्वर मन्दिरके पासके एक पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर
परम-भट्टारकं सत्याश्रय-कुळ-तिळकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रैलोक्यमल्ल-
देवर विजय-राज्यं प्रवर्त्तिसे तत्पाद-पल्लवोपशोभितोत्तमाङ्गं खस्ति सम-
धिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं वनवासि-पुर-वरेश्वरं महाल-
क्ष्मी-लब्ध-वर-प्रसादं त्याग-विनोदमायदाचार्यनसहाय-शौर्यं गण्डर
गण्डं गण्ड-भेरुण्डं मूरु-रायास्थान-कलि विरुद-मण्डलिक-वृषभ-शंकरं
कलिगळ मोगद कायि विरुदरादित्यम् प्रत्यक्ष-विक्रमादित्य जगदेक-दानि-

नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमम्महा-मण्डलेश्वरं चामुण्ड-रायरसर
 बनवासि-पन्निर-च्छासिरमनालुत्तमिरल् राजधानि-बळिगावेय नेले-
 वीडिनोळ् शक-वर्ष ९७० नेय सर्व्वधारी-संवत्सरद ज्येष्ठ-शुद्ध-
 त्रयोदशी-आदित्यवारदन्दु जजाहुति-श्री-शान्तिनाथ-सम्बन्धियप्प
 बळगार-गणद मेघनन्दि-भट्टारकर-शिष्यरप्प केशवनन्दि-अष्टो-
 पवासि-भळा(ट्टा)रर बसदिगे पूजा-निमित्तदिं धारा-पूर्व्वकं जिड्डुळिगे
 ७० र बळिय राजधानि-बळिगावेय पुल्लेय-त्रयलोळ् मेरुण्ड-गळ्योळ्
 कोट्ट गळ्दे मत्तरय्यु अदर सीमे (सीमाओंकी चर्चा)

धर्मेण शौर्य्य-सत्येन त्यागेन च महीतले ।

गण्ड-मेरुण्ड-सादृश्यो न भूतो न भविष्यति ॥

(हमेशाके अन्तिम श्लोक)

बनवासे-देसदोळगण ।

जिन-निळयं विष्णु-निळयमीश्वर-निळयम् ।

मुनि-गण-निळयमिवं रा- ।

यन बेसदि नागवर्म्म-विमु माडिसिदम् ॥

[जिस समय, (हमेशाकी चालुक्य उपाधियों सहित), त्रैलोक्यमल्ल
 देवका विजयराज्य प्रवर्द्धमान था:—बनवासि-पुरवरका ईश्वर, महालक्ष्मीसे
 जिसने वर प्राप्त किया था, 'गण्ड-मेरुण्ड' 'जगदेकदानी' इन और दूसरे पदों
 सहित, महामण्डलेश्वर चामुण्डराय रायरस बनवासी १२००० पर शासन
 कर रहा था;—बळिगावे राजधानीमें, (उक्त मितिको), जजाहुति शान्ति-
 नाथके-साथ सम्बद्ध बळगार-गणके मेघनन्दि-भट्टारकके शिष्य केशवनन्दि
 अष्टोपवासि-भट्टारकी बसदिमें पूजा करनेके लिये, जिड्डुळिगे-सत्तरमें, राज-
 धानी बळिगावेके सृगवनमें, 'मेरुण्ड' दण्ड (माप) अनुसार, ५ मस्त
 धान (चावल)-क्षेत्रका दान किया । (भूमिकी सीमाएँ) ।

गण्ड-भेरुण्ड' की प्रशंसा । हमेशाके अन्तिम श्लोक ।
बनवासे देशमें, जिन-निवास, विष्णु-निवास, ईश्वर-निवास और मुनिगणके
लिये निवास । ये, रायकी आज्ञासे, नागवर्मा-विभुने बनवाये ।]

[EC, VII, Shikarpur tl., n° 120]

१८२

कल्भावी—संस्कृत तथा कर्बड ।

शक २६१ (?)

ॐ (॥) श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं

जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वस्त्यमोघवर्षदेव-परमेश्वर-परमभट्टारक-विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-
प्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कतारंवरं सल्लत्तमिरे [।] तत्पादपद्मोपजीवि समधिग-
तपञ्चमहाशब्द-महामण्डलेश्वरं कुवलालपुरवरेश्वरं पद्मावतीलब्धवरप्रसा-
दिनं कोङ्कणि-पट्टवन्धविराजितं शासनदेवीविजयमेरीनिर्घोषणं भगवदह-
न्मुमुक्षुपिञ्जलध्वजविभूषणं सकलभूपालमौलिमाणिक्यचूडारत्नरञ्जितचरणं
विद्विष्टमनोरमालङ्कारहरणं सारस्वतजनितभापात्रयकविताललितवाग्ललना-
लीलाललामं गजविद्याधामं श्रीमत्-शिवमाराभिधानसैगोडूगङ्ग-पेर्मान-
डिगल् मरदल्लमेतेयागे गङ्गवाडि-तोम्भत्तारु-सासिरमं सुखसङ्कथाविनोददिं
प्रतिपात्रिसुत्तिब्दु कादलवल्लि-मूवत्तरोऽगण कुम्मुदवाडदोल् जिनेन्द्रम-
न्दिरमं माडिसिदनदे दोरेयदेन्दोडे ॥ वृ ॥

इदु गङ्गाधीश्वर-श्रीगृहमिदु विलसद्गङ्गभूपालारम्नायद

कीर्तिश्रीविहारास्पदकरमिदु गङ्गावनीनाथरौदार्यद

जन्मस्थानमेम्बन्तिरे विबुधजनानन्दमं भव्यसंपत्पदमं

सैगोडू-पेर्मानडि जिनगृहमं माडिदं भक्तिचिन्दम् ॥

आ जिनमन्दिरके । वृ० ।

विमलश्रीगुणकीर्तिदेवरवरतेवासिगळ-

नागचन्द्रमुनीन्द्रतदपत्न्यरुद्धजिनचन्द्राख्य-

सदीयात्मजर्दमिताघश्शुभकीर्तिदेवसेद-

संच्छिष्यरुद्धचोरमणीयस्सले देवकीर्तिगुरुगळ्वादीभकण्ठीरव[३ ॥]

आ परमेश्वरर्परवादिविध्वंसिगळुं विदिताशेषशास्त्रं मैलापान्वय
मेनिसिद [क]ारेयगणगगनचूडामणिगळुमप्य देवकीर्तिपण्डित-
देवर कालं कर्चि ॥ ॐ शक्रवर्ष २६१ नेय विभवसंवत्सरद पौष्य
(१)-बहुल-चतुर्दशीसोमवारमुत्तरायण-संक्रान्तियन्दु सैगोडु-गङ्ग
कुम्मुदवाडमेम्बूरं विट्टनल्लिये मत्तं दानसालेगे पोलनुमं कुम्मुदब्बेय देगुलदिं
बडग पोगि मूड मुखं केरिवुमं बसदियि मूडल्ल दानसालेगे पन्निर्क्कियि-
निवेसणमुमं । ऊरिं मूड सपसिं (?)गे-गर्देंयुं वयल्लुमं विट्ट-॥ना ग्रामद
सीमेयेन्तेन्दोडे । आलिगोण्डदिं । सिडिलनेरिलि । समेयदातनकेरेयिं ।
मलप-बूदनिं । तोळप-बळप-बळियत्तरियिं । गङ्गरोळ्ळादुव-संकिय-केरेयिं ।
हिच्चलगेरेय कोडियिं । निन्दबेलिं । सिन्दगिरि-वोर्भागदिं । सून्दिगेरेय
नीर तट-वोर्भागदिं । सिङ्गस-गेरेयिं । कदिक्कोट्ट-बळिवळि-गर्देंयिन्दोळ-
गुळ्ळ भूमि कुम्मुदवाडके ॥ मत्तमूरिं तेङ्क दानसालेय पोलके एरप-
केरेय मूडण कोडिय बडगण गुत्तिय तेङ्क मुखदे मूडल्लमेरे । तेङ्क [लु]
बळिवळि-गर्देंयुं । आलिगोण्डमुं मेरे । बडगल्लिविन-केरेय मध्यं मेरे ।
पडुवल्ल विक्किय-बेड्द तेङ्कण बागोळगागि मेरे ॥ (१) इल्लिन्दोळ्ळुल्ल
भूमि दानसालेगे ॥ ओम् [॥]

ॐ स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द-महामण्डलेश्वरं कुवलाल-पुरवरेश्वरं
पद्मावतीलब्धवरप्रसादितं कोङ्कणिपट्टबन्धविराजितं शासनदेवीविजय-

मेरीनिर्घोषणं भगवदहंन्मुमुक्षुपिच्छध्वजविभूषणनुमप्य श्रीमत्कञ्जरस-
 स्सैगोदृ-गङ्गनि बन्द धर्ममं समुद्धरिसिदिनिदन्तपपदे प्रतिपालिसिदातं
 वारणासियोळ् सासिर्वरु ब्राह्मणर्गे सासिर कविलिय[म्] कोट्ट फलम् ।
 इदनळिदातं वाणरासियोळ् सासिर कविलियुमं सासिर्वर्त्तपोधनरुमं
 सासिर्वर्त्तब्राह्मणरुमनळिद पातकमक्कु [II] ओम् [II]

सामान्योऽयं धर्मसितुं नृपाणाम् ५

काले-काले पालनीयो भवद्विस्-

सर्वनितान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान्

भूयो-भूयो याचते रामभद्रः । (II)

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्

षष्टि-वर्ष-सहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥

न विषं विषमित्याहुः देवस्वं विषमुच्यते

विषमेकाकिनं हन्ति देवस्वं पुत्र-पौत्रिकम् ॥

बहुभिर्वसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः ।

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥

ॐ [II]

[कल्भावी बम्बई प्रान्तके बेलगाँव जिलेके सम्पगाँव तालुकेके मुख्य-
 शहर सम्पगाँव (Sampgaum) से दक्षिण-पूर्व करीब ९ मीलदूर एक
 गाँव है । इसका पुराना नाम इसी शिलालेखकी पंक्ति ८, १५, और २१
 में 'कुम्मुदवाड' दिया हुआ है । लिपिकी लिखावटसे यह लेख ई० ११
 वीं शताब्दिका मालूम पड़ता है ।

लेख प्रकट करता है कि किसी अमोघवर्ष नामके राजाने मैलाप अन्वय
 और कारेय गणके देवकीर्त्ति नामके जैन गुरुके पादों (चरणों) का प्रक्षा-
 लन किया था । उस अमोघवर्षके सामन्त, गङ्ग महामण्डलेश्वर सैगोदृ-
 पेर्मानञ्जि या सैगोदृ-गङ्ग-पेर्मानञ्जिने, जिनका दूसरा नाम शिवभार था,

कुम्मुडवाड (कल्भावीका ही पुराना नाम) गाँवमें एक जिनेन्द्रका मन्दिर बनवाया और इसके लिये गाँव दानमें दे दिया । इस दानका काल शक-संवत् २६१, विभव संवत्सर दिया हुआ है । लेकिन, जे० एफ० फ्लीटकी रायमें, यह काल ज़ाली है और वास्तविक उल्लेख लेखके उत्तरार्ध में सन्निहित है (ॐ स्वस्तिसे लेकर), जिससे मालूम होता है कि उपर्युक्त दान बीचमें या तो ज़ब्त कर लिया गया था या असावधानीके कारण बन्द कर दिया गया था और उसे कञ्जरस नामके किसी दूसरे गङ्ग-महामण्डलेश्वरने फिरसे चालू किया । भले ही तमाम लेख बनावटी हो, पर, जे० एफ० फ्लीटकी मान्यतानुसार, इसका उत्तरार्ध तो सच्चा है । मौलिक दानपत्रके खो जानेसे ही स्वयं लेखगत दानकी बनावटी तिथि देनी पड़ी है । लेखमें खाली 'अमोघवर्ष' ऐसा नाम देनेसे यह पता नहीं चलता कि 'अमोघवर्ष' नामके राष्ट्रकूट राजाओंमेंसे कौन-सा अमोघवर्ष इस समय शासन कर रहा था । मौलिक दानका काल मैलाप अन्वय तथा कारेय गणके आचार्य गुणकीर्ति, नागचन्द्र, जिनचन्द्र, शुभकीर्ति और देवकीर्तिके वर्णनसे निकाला जा सकता है । प्रथम दान देनेके समयका काल शक सं० २६१ गलत है, क्योंकि विभव संवत्सर चालू शक सं० २३१ पड़ता है ।]

[Ind. Ant., Vol. XVIII, pp. 309-13.]

१८३

नल्लूर—संस्कृत तथा कन्नड़

[विना काल-निर्देशका; लगभग १०५० ई० (लूई राइस)]

[नल्लूर (हत्तुगट्टुनाड) में, तीतरमाडके घरके पास सर्वे (Survey) ११७ नं. के तालाबके बाँधपर एक पाषाणपर]

भद्रं भूयाज्जिनेन्द्राणां शासनायाधनाशिने ।

कु-तीर्थ-ध्वान्त-संघात-प्रभिन्न-घन-भानवे ॥

स्वस्ति श्री

प.....धने परत्र-हित-कारणकं परमोपकारकम् ।

कुडे त.....ताब्दि.....य तिग.....मतिग.....भया.....दन्तम.....।

शि० १५

तडेयदे मुक्तियं पडेवेनेन्दु विचारिसि बन्धु-वरगव....।

विडिसि समाधियं पडेदुदेहियुमच्चरि जकियब्बेय ॥

कस्तूरि-भट्टारगें अवर श्रावकि चन्दियब्बे-गावुण्डि....यर
मन्नकि जकियब्बे सन्यसत्तं गेय्दु मुडिपिदल् ॥ आकेय गण्ड परम-
श्रावक एडय्य मङ्गळम्

[जिनशासनके लिये कल्याण-कामना । स्वस्ति । भयके साथ यह सुनकर कि दाय-तिगमति परलोककी इच्छासे मृत्युको प्राप्त हुई—तथा इस बातको न सहन कर, अपने सम्बन्धियोंकी सम्मति लेकर जकियब्बेने, जो चन्दियब्बे-गावुण्डिकी 'मन्नकि' और कस्तूरी भट्टारकी 'श्राविका' थी, संन्यसन विधि की और स्वर्गगत हुई । उसका पति श्रावक एडय्य था ।]

[EC, IX, Coorg tl., n° 31]

१८४

नल्लूरु — कण्ड

[विना काल-निर्देशका; लगभग १०५० ई० ? (लुई राइस)]

[नल्लूरु (हत्तुगट्टुनाड) में, तीतरमाडु मादय्यके घरके पश्चिमकी तरफ हित्तल्लमें]

.....कोडङ्गाळ...ए मग.....दिळे आळदडे
मेन्दु यति-वरगेंल्लं मादरदि बीळि...पा [द]दोळेरगि ताळिदरुना-
सुर-कीर्त्ति भद्रमस्तु जिन-शामनाय श्रीम मदुवङ्गनाड् दोर किविरि-
यय्यङ्गळ् चाङ्गळद वसदियोळ् पनेरडं नोन्तु मुडिपि नवर मकळ्
बाकियु बुकिय निरिसिदरु

[...जब कोडङ्गाळुवका पुत्र शासन कर रहा था, बीळिय-सेट्टिने देवोंके यशका लाभ किया । जिनशासनका कल्याण हो ।

मदुवङ्गनाडुका स्वामी, किविरिके अर्थने १२ दिन तक चाङ्गळ वसदिमें व्रत रक्खा और स्वर्गगत हुआ । उसके पुत्र बाकि और बुकिने इसकी स्थापना की ।]

[EC, IX, Coorg tl., n° 30]

१८५

अङ्गडि—कन्नड़

[शक ९२४, वर्ष जय (ठीक शक ९७६=१०५४ ई०) लहईं राइस]

[अङ्गडि (गोणीबीडु परगना) में, बसदिके पासके पाषाणपर]

खस्ति सक-वर्ष ९२४ नेय जय-संवत्सरद चैत्र-मामद सुद्ध-
दशमी.....वार पुष्य नक्षत्रदन्दु विनयादित्य-पोय्सळन
राज्यं प्रवर्त्तिसे सूरस्त-गणद श्री-वज्रपाणि-पण्डित-देवर.....गन्तियरप्प
जाकियब्बे-गन्तियर (पीळे) मोसवूरोळे नाडे पोपणद दिसेयनरसर्गे
योक्कल्यं पोन्नरे कोडु मण्णरेकोण्डु सोसवूर-बसदिगे विट्टर निसिदिगे
यडेबळ्ळेय.....ण्ण आरतारगे.....एरडु-हळ्ळद मेगण गण्ण नाळ्कु
मकर-जिनालयके विट्टर (हमेशाका अन्तिम श्लोक)

[(उक्त मितिको) जिस समय विनयादित्य-पोय्सळका राज्य प्रवर्त्तमान था—सूरस्त-गणक वज्रपाणि पण्डितकी शिष्या जाकियब्बे-गन्तिने सोस-
वूरमें नाडकी ओर जानेवाली दिशामें निवासस्थानके लिये पूरा रूपया राजाको देकर और पूरी जमीन लेकर उसे स्मारकरूप सोसवूरकी 'बसदि' के लिये छोड़ दिया । और यडेबळ्ळे...ण्णने दो खड्डों (ravines) के ऊपर चार गण्ण मकर-जिनालयके लिये दिये ।]

[EC. VI, Mûdgore tl., n° 9]

१८६

होन्वाड—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक ९७६=१०५४ ई० सन्]

ॐ [||] भद्रमस्तु जिनशासनाय संभद्रतां प्रतिविधानहेतवे [||]

अन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसि [||]

१ शक ९२४ जय वर्ष दिया हुआ है । लेकिन शक ९२४ प्लव संवत्सर है; त्रय शक ९७६ है, और यही ठीक मिति मालूम पड़ती है ।

ओं स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीपृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज पर-
 मेश्वर परमभट्टारकं सत्याश्रयकुलतिलकं चालुक्याभरणं श्रीमत्
 त्रैलोक्यमल्लदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्धमानमाचन्द्रार्कतारं
 बरं सल्लुत्तमिरे [I] तद्विशालोरःस्थलनिवासिनियरप्प श्रीमत्-केतलदेवि-
 यर तर्द्धवाडि-सासिर-दोळ्गणरुनूरुं-बाडद स्वम्पण चागेयय्वत्तर
 वळियमुत्तम-मग्रहारं पोन्नवाडमं त्रिभोगाभ्यन्तरसिद्धियिन्द्राल्लुत्तमिरे [II]
 तत्पादपद्मोपजीवी गणकचूडामणियु [म्] वाणसकुलाम्बरभानुवुं अर्ह-
 च्छासन-मूलस्तम्भवुं कलिकाल-श्रेयांसनुं सम्यक्त्व-रत्नाकरनुमप्प ॥

वानसवंशकूर्मनिभकोम्म जगद्विनुनात्तिकाम्बिका-सूनुरदात्तकी-
 त्तिधवलीकृतदिग्जिनयोगिराण्महासेनमुनीन्द्रपादकमलवभ्रमरं

परिपूर्णचारुविद्यानिधिचाङ्किराजविभुराश्रितशिष्टजनेष्टतुष्टिदः ॥

गम्भीरो बहुशङ्खमत्स्यमकरश्रीमत्तलं सात्त्विके

लक्ष्मीजन्मगृहसमस्तवसुधाव्यावेष्टनोद्यद्यशः

अन्तर्ज्योतितचारुरत्ननिवहो निर्द्वैतकलमापको

जीवानन्दरसाकरो विजयते सम्यक्त्वरत्नाकरः ॥

आहाराभयभैषज्यशास्त्रदाने तथा परं ।

चाङ्कणार्यस्समो (आर्यममो) नाम्नि न भूतो न भविष्यति [II]

ओम् [III] श्रीमूलसंघे जिनधर्ममूले गणाभिधाने वरसेननाम्नि

गच्छेषु तुच्छेऽपि पोगर्यभिल्ये संस्तूयमानो मुनिरार्यसेनः ॥

अनेकभूपालकमौलिरत्नशोणांशुबालातपजालकेन ।

प्रोज्जम्भितश्रीचरणारविन्द-श्रीब्रह्मसेनप्र(व्र)तिनाथशिष्यः ॥

तस्यार्यसेनस्य मुनीश्वरस्य

शिष्यो महासेनमहामुनीन्द्रः ।

सम्यक्त्वरत्नोज्ज्वलितान्तरङ्गः

संसारनीराकरसेतुभूत[ः] ॥

तज्जैनयोगीन्द्रपदाब्जभृङ्गः

श्रीवानसाम्नायवियत्पतङ्गः ।

श्रीकोम्मराजात्मभवस्सुतेज-

स्सम्यक्त्वरत्नाकरचाङ्किराज[ः] ॥

कलङ्कमुक्तस्सततैकरूपो

दोषेतरश्रीनिलयस्समस्त-

भव्याब्जसंदोहविकासहेतु[ः]

विराजते नूतनचाङ्किराजः ॥

तन्निर्मितं भुवनबुम्भुकमत्युदात्तं

लोकप्रसिद्धविभवोन्नत-पोन्नवाडे

रंम्यते परमशान्तिजिनेन्द्रगोहं

पार्श्वद्वयानुगतपार्श्वसुपार्श्ववासम् ॥

महासेनमुनेच्छात्रं^१ चाङ्किराजेन निर्मितं

द्रष्टुकामाघसंहारि शान्तिनाथस्य बिम्बकम् ॥

महासेनमुर्नान्द्रस्य च्छात्रेण जिनवर्मणा

छत्रीकृतमहानागं रचितं पार्श्वदैवतम् ॥

जनकस्य कोम्मराजस्य धर्मोद्देशाद्विनिर्मिता

राजते चाङ्किराजेन सुपार्श्वप्रतिमोत्तमा [॥]

ॐ ॐ शकवर्ष ९७६ नेय जयसंवत्सरद वैशाखदमा-
वास्ये सोमवारदन्दिन सूर्यग्रहणनिमित्तदिं भीमनदिय तडिय

१ 'भुनि-च्छात्र-चाङ्कि' पदो । २ 'जनककोम्म' पदो ।

मणियूर-अप्पयणवीडिनोळ पोन्नवाडदोळ चाङ्किमय्यन माडि-
सिद श्रीशान्तिनाथदेवर त्रिभुवनतिलक-चैत्यालयदलिर्ण ऋषियरजिय-
राहारदानके सर्वनमस्यवागि श्रीमत्रैलोक्यमल्लदेवर् श्रीकेतलदेवियर
विन्नपदिं मूवत्तुगेण गळेयोळ विट्ट नेल मत्त [२] ३५ तोण्ट मत्त [२]
१ निवेसणदगलमा गळेयोळ गळे ४ गेणु १७ नीळं गळे ९ बळम्बे-
निवेसण मूडण बेळदोळा गळेयोळगलं गळे ३ नीळं गळे ७ गोपुरद
मूडण अङ्गडिगं गाण १ अल्लि बेस-गेयव कल्कुटिगर मने १ सावगरिर्ण
पोलेमने १ [II] ॐ अल्लिय सुपार्श्वदेवर बसदिगे आ गळेयोळ मत्तर
सल्लिके अरुवणद लेकदे विट्ट नेलं मत्त[२] ३५५ आ गळेयोळ तोण्ट
मत्त [२] १ गाण १ [III] ओं तम्मं जिनवर्ममय्यन माडिसिद पार्श्वदेवर
बसदिगे करहड-नालछासिरदोळगण कळम्बडि-३००२२ वळिय
कळडिगेय मङ्गरसन मगं मनेयं वज्जरसन गुड्डे-मान्य ५०० मत्तर-
क्येयोळगे मूवत्तु-गेण गळेयोळसर्वनमस्यमागि चाङ्किमय्यं मारुगोण्ड
विट्ट नेलं मत्त[२] ३५ [II]

[यह लेख पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथमका, जो यहाँ अपने
विरुद्ध 'त्रैलोक्यमल्लदेव' से वर्णित हुए हैं, उल्लेख करता है और उसकी
रानी केतलदेवीका भी जो पोन्नवाड 'अग्रहार' पर शासन कर रही थी ।
यह एक जैन शिलालेख है; इसका उद्देश यह बताना है कि किस तरह
चाङ्किराज, चाङ्किणार्थ, या चाङ्किमय्यने, जो कि वानस या वाणस वंशके
तथा केतलदेवीके भौतिकीय थे, शान्तिनाथ, पार्श्व, और सुपार्श्वकी वेदियोंको
पोन्नवाडमें त्रिभुवन-तिलक नामक चैत्यालयमें बनवाया और किस तरह
उन वेदियोंके लिये कुछ जमीन और मकानात दान किये गये ।]

[JA 19, p. 268-275, n° 190]

१ लेखमें वर्णित पोन्नवाड, वास्तवमें, वर्तमान होन्वाड ही है ।

१८७

बङ्गापुर—कन्नड़

[मन्मथ संवत्सर=शक ९७७=१०५५ ई०]

[इस लेखका परिचयमात्र मिलता है, लेख नहीं । बङ्गापुर धारवाह जिलेके वर्तमान शिगगौम या बङ्गापुर तालुकेसे दक्षिण-पश्चिम छह मील पर है ।

यहाँके सारे लेख किलेमें हैं । यह लेख एक दीवालके सहारे है जो कि पूर्वकी तरफसे किलेमें घुसते समय दाहिने हाथकी तरफ है । एक विशाल चिकने पत्थरपर ५९ पंक्तियोंका यह एक लेख है, हर एक पंक्तिमें करीब ३७ अक्षर पुरानी कनड़ी लिपि और भाषामें हैं । शिलालेखका अधिकांश अच्छी स्थितिमें है; लेकिन चौथी पंक्ति जानबूझकर मिटा दी गई है और उस शिलापर दरारें पड़ी हुई हैं जिनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि इस शिलाको किसी सुरक्षित स्थानपर ले जानेका प्रयत्न किया जायगा तो वह टूट जायगी । शिलाके अग्रभागके चिह्न चालाकीसे मिटा दिये गये हैं; लेकिन निम्नलिखित फिर भी कुछ चिह्न मिलते हैं:—मध्यमें लिङ्ग है; इसके दाईं ओर एक बैठी हुई या घुटने टेकी हुई मूर्ति; उसके ऊपर सूर्य है और इसके बाहरकी ओर एक गाय और बछड़ा है; और इसके बाईं ओर एक स्थानापन्न पुरोहित या पुजारी, उसके ऊपर चन्द्रमा और उसके बाहर बसवकी मूर्ति बनी हुई है । लेखका काल शकवर्ष ९७७ (१०५५-६ ई०), मन्मथ 'संवत्सर' दिया हुआ है, जब कि चालुक्य राजा गङ्गपेर्मानन्द-विक्रमादित्यदेव, —जो कि त्रैलोक्यमल्लका पुत्र; कुवला-पुरका अधीश्वर; नन्दगिरिका स्वामी, और जिसके मुकुटमें कुँड़े हाथीका चिह्न था,—गङ्गावाडि ९६००० और बनवासि १२००० पर शासन कर रहा था, तथा जब कि महाप्रधान हरिकेसरीदेव, जो कादम्ब-सम्राट् मयूरवर्माका कुलतिलक था, उसके अधीन बनवासि १२००० पर शासन कर रहा था । हरिकेसरीदेवकी उपाधियाँ अधिकतर उसी तरहकी हैं जैसी कि अन्य कादम्ब राजाओंकी । लेखमें कुछ भूमिके दानका उल्लेख है । यह भूमि निडगुन्दरो बारह, की थी जो पानुङ्गल ५०० का एक 'कम्पण' था । यह भूमि-दान एक

जैनमन्दिरको हरिकेशरीदेव और उसकी पत्नी लक्ष्मलदेवी तथा बङ्गापुरके पाँच मतोंको आश्रय देनेवाली जनता, नगरमहाजनोंकी गिरुड (कम्पनी) तथा 'सोलह' वर्गोंने किया था ।^१]

[1A, IV, p. 203, n° 1, a; ASI, XVI, p. 133, a.]

१८८

मुल्लूर—संस्कृत तथा कन्नड़

[विनाकाल-निर्देशका, पर लगभग १०५८ ई०]

[मुल्लूरमें, पार्श्वनाथ बस्तिकी उत्तरी दीवालपर]

स्वस्ति श्री-राजाधिराज कोङ्गाळवनब्बे पोचब्बरसियर् द्रविळ-गणद नन्दि-संघद अरुङ्गलान्वयद गुणसेन-पण्डितदेवर गुड्डि माडि-सिद बसदि मङ्गळ महा ।

[स्वस्ति । द्रविळ-गण, नन्दि-संघ, तथा इरुङ्गलान्वयके गुणसेन-पण्डित-देवकी गृहस्थ-शिष्या, राजाधिराज-कोङ्गाळवकी माँ पोचब्बरसिने इस बस्तिकी बनवाया । महा मङ्गळ ।]

[EC, IX, Coorg. tl., n° 37]

१८९

मुल्लूर—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक ९८०=१०५८ ई०]

[मुल्लूरमें, पार्श्वनाथ बस्तिके पश्चिममें दूसरे पाषाणपर]

धर्म-सेट्टि वरेदं स्वस्ति शक-वर्ष ९८० तेनेय विलम्बि-संव-त्सरद उत्तरायण-संक्रान्तियन्दु श्री-राजेन्द्र-कोङ्गाळवं तम्मय्य माडिसिद बसदिगे कोट्ट हारुवनहळ्ळि अरकनहळ्ळि निडुतद गोडल खण्डुगम् ३ के (दूसरे गावोंमें ऐसे ही दान) श्रीराजाधिराज-कोङ्गाळवनब्बे पोचब्बरसियर् तम्म गुरुगळु द्रविळ-गणद नन्दि-

१ 'बङ्गापुरद पञ्चमत(ठ)स्थानमुं नगरमहाजनमुं पदिनखरुम्' ।

संघदरुङ्गळान्वयद गुणसेन-पण्डित-देवर्गे माडिसि धारा-पूर्वकं कोट्टरु ॥ (वही अन्तिम श्लोक) ।

[धर्म-सेट्टिके द्वारा लिखित ।

स्वस्ति । (उक्त मितिको), राजेन्द्र-कोङ्गाळवने, अपने पिता द्वारा निर्मित बसदिके लिये हेरुवनहळिळ, अरकनहळिळ, तथा निडुत गोडलुमें तीन खण्डु-गका दान दिया, और इसी तरह दूसरे गाँवोंमें (जिनके नाम दिये हैं) ।

और राजाधिराज कोङ्गाळवकी माँ पोचब्बरसिने अपने गुरु द्रविळ-गण, नन्दि-संघ, तथा अरुङ्गळान्वयके गुणसेन-पण्डित-देवकी प्रतिमा बनवाकर जलधारापूर्वकं इसे समर्पित की । शाप ।]

[EC, IX, Coorg tl., n° 35]

१९०

मुल्लूर—संस्कृत तथा कन्नड

[विना काल-निर्देशका, पर लगभग १०५८ ई० का]

[मुल्लूरमें, पार्श्वनाथ बस्तिके नीचे देहलीमें]

स्वस्ति श्री राजेन्द्र-चोळ-कोङ्गाळवन पुत्र श्री-रा...कोङ्गाळव... वास-स्थानमें तम्म गुरुगळ् तिवुळ-गणदरुङ्गळान्वयद नन्दि-संघद गुण-सेन-पण्डित-देवर्गे धारा-पूर्वकं कोट्टं मङ्गळ महा श्री श्री ।

[स्वस्ति । राजेन्द्र-चोळ-कोङ्गाळवके पुत्र रा...कोङ्गाळवने तिवुळ-गण, अरुङ्गळान्वय और नन्दि-संघके अपने गुरु गुणसेन-पण्डित-देवको रहनेके स्थानके रूपमें...दिया ।]

[EC, IX, Coorg tl., n° 38]

१९१

मुल्लूर—कन्नड

[विना काल-निर्देशका, पर लगभग १०५० ई०]

[उसी बस्तिके प्राङ्गणमें एक पाषाणपर]

स्वस्ति श्री गुणसेन-पण्डित-देवर अगळिसिद नागवावि नकरद धर्म

[स्वस्ति । नाग-कुआँ जिसको गुणसेन-पण्डित-देवने नकर याने व्यापारी संघके धर्मके रूपमें खुदवाया ।]

[EC, IX, Coorg tl., n° 42]

१०२

सोमवार—कन्नड़

[विना काल-निर्देशका; लेकिन संभवतः लगभग १०६० ई०]

[सोमवार (मल्लिपट्टण परगना) में, बसवण्ण मन्दिरकी बाहरी दीवाल के पाषाणपर]

धरेयोळगेचल-देविगे ।

गुरुगळ् गुणसेन-पण्डितर्द्रविळ-गणम् ।

वर- नन्दि-संघमन्वय-।

मरुङ्ग.....नगदेन्दडेम्बण्णिपुडो ॥

भद्रमस्तु ।

[एचलदेविके गुरु,—द्रविळ-गण, नन्दि-संघ और अरुङ्गल-अन्वयकं, गुणसेन-पण्डित, जो इतने प्रसिद्ध हैं, उनका वर्णन इस संसारमें कैसे हो सकता है ? कल्याण हो ।]

[EC, V, Arkalgud tl., n° 98.]

१०३

कडवन्ति—कन्नड़-भद्र ।

[विना काल-निर्देशका पर संभवतः लगभग १०६० ई०]

[कडवन्तिमें, मेलु-कडवन्तिकी चट्टानपर]

भद्रमस्तु जिनशामनाय श्रीमत्-दान.....खचर-कन्दर्प सेनमार पृथुवी-राज्यं गेय्युत्तमिरे देव-गणद पाषाणान्वयद महेन्द्र-वोळळं पडेद अङ्कदेव-भटारर शिष्यर्महीदेव-भटारर गुडं निरवद्यय्यं मेळसरय मेगे निरवद्य-जिनालयमं माडि खचर-कन्दर्प-सेनमारन द्यगोये निरवद्यय्यं मानियं पडेदु जक्कि-मानियेन्दु पेसरनिडु निरवद्य-जिनालयके कोडं

एडेमलेय सासिर्व्वरं गळ्देय मेक्कळ तम्म तम्म गळ्देय मेगे एल्ला-कालमुं पळं दप्पदे जक्कि-गोळगमेन्दित्तर्कडमन्तियोम् मादेर रचिपन्दूरुगं एङ्गळिग सिरिपुरसनुमित्तुवु मूगण्डग-भत्तं पोकुळि-मक्किय पलिसिन तार-नित्तरुजेनियोळ नाल्-गण्डग भगमनित्तरईवाडियोळपिन्दगर-ण्डुग मूगण्डुग मित्तमुळ्ळि-भागदोळ्.....मूगण्डुगमित्तं शालादि-त्यर कप्पिगमिर्कण्डुगं.....मुळियर कुन्द कोण्टार्पण्णियो सार.....
.....मेदुकय्यं किरगादण्ण मू-गण्डुगं मण्ण...म् इकुळ-भत्तमुमन....
.....न्ददणिकिग देपण्ण मूगण्डु.....मित्तर्.....योळ श्री-त्र.....

[जिस समय खचर-कन्दर्प सेनमार पृथ्वीपर राज्य कर रहे थे:— निरवद्यने, जो देवगण और पाषाणान्वयकं अङ्कदेव-भटारके शिष्य मही-देव भटारका गृहस्थ-शिष्य था और जिसने महेन्द्र-बोळलुको पाया था,— मेलस चट्टानपर निरवद्य जिनालय खड़ा किया; और खचरकन्दर्प सेनमारकी कृपा प्राप्तकर निरवद्यको एक 'मान्य' मिला, जिसे उसने जक्कि-मान्यका नाम देकर निरवद्य-जिनालयको भेंट कर दिया ।

और एडेमले हजारने अपनी हरएक धान्यकं खेतोंकी फसलसे कुछ धान्य (चावल) दानरूपमें हमेशा के लिये दिया ।

और भी जिन लोगोंने अनाजका दान किया उनके नाम दिये हैं ।]

[EC, VI, Chikmagalur tl., n° 75]

१७४

अङ्गडि—कन्नड

[विना काल-निर्देशका, पर संभवतः लगभग १०६० ईसवी]

[अङ्गडि (गोणीबीडु परगना) में, छठे पाषाणपर]

(ऊपरका हिस्सा टूट गया है) सोसवूर सेडिगळ लोकजितनिगे निषिधिय कळ नखर-समूह नट्टरु

[सोसवूरके ब्यापारी लोकजितके इस स्मारकको उस नगरके ब्यापारी लोगोंने खड़ा किया ।]

[EC, VI, Mūdgere tl., n° 16.]

१९५

चिक-हनसोगे—कण्ड

[बिना काल-निर्देशका, पर संभवतः लगभग १०६० ई० का]

[चिक-हनसोगे (हनसोगे परगना) में जिन-बस्तिके दरवाजेके ऊपर]

श्री-वीर-राजेन्द्र नन्नि-चङ्गाळव-देवर्माडिसिद् पुस्तक-गच्छद

बसदि

[श्री-राजेन्द्र नन्नि-चङ्गाळव-देवने पुस्तकगच्छकी बसदि बनवाई]

[EC, IV, Yedatore tl., n° 22.]

१९६

चिक-हनसोगे—कण्ड ।

[बिना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग १०६० ई०]

[जिन-बस्तिमें, दरवाजेपर पड़े हुए पत्थरोंपर]

• दशाशिर-प्रहारियप्प रामस्वामि विद् परमेश्वर-दत्तियं शकनोड
 विक्रमादित्यं पडिसलिसि-तान.....मुन्निनन्ते बडगण-तूम्बिन
 नीर्व्वरिदनि तु नेलनं ख.....ताम्ब्र-शासन-पूर्व्वकं कोट्टरदं
 मारसिंह-देव पडिसलिसलेन्ता-परमेश्वर-दत्तिय बडगण तूम्बिन
 नीर्व्वरिदनि तु.....मुन्निनन्ते कादना-रामर दत्तिय ताम्ब्र-शासन
 पडिय.....मडि ईयक्कर बरेदवदं नन्नि-चङ्गाळव-देवर्पुनर्णवं
 माडिसिद् बसदिय तूम्बिनलक्करबु प्रतिमेयु माडिद तप्पिदग्गे कविल्लेगे
 तप्पिद पाप

[पहलेकी ही तरह, उत्तरीय नहरसे, सींची गई सारी जमीन, -दशाशिर
 (रावण) के वधक रामस्वामीके द्वारा जो छोड़ दी गई थी, परमेश्वरने
 जिसे दिया था, और जिसे इनामके तौर पर शक तथा विक्रमादित्यने भी
 दिया था,—ताम्ब्रेके शासन (लेख) पूर्व्वक.....दी । परमेश्वर-प्रदत्त तथा
 उत्तरीय नहरसे सींची गई सारी जमीनका दान मारसिंह-देवने किया और
 पहलेकी ही तरह उसका रक्षण भी किया ।

...महिने रामके दिये हुए इस ताम्बेके शासनपर दानके अक्षर लिखे और बसदिके पानीकी राहके फाटकपर मूर्तियाँ और अक्षर खोदे । इस बसदिको नभि-चङ्गाल-देवने फिरसे बनवाया ।]

[EC, IV, Yedotore tl., n° 25.]

१९७

हुम्मच—कन्नड़

[शक ९८४=१०६२ ई०]

[सूले बस्तिके सामनेके पाषाणपर]

खस्ति समस्त-सुरासुर-

मस्तक-मुक्तांशु-जाल-जल-धौत-पदम् ।

प्रस्तुत-जिनेन्द्र-शासन-

मस्तु चिरं भद्रमखिल-भव्य-जनानाम् ॥

खस्ति श्री पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर परम-भट्टारकं सत्याश्रय-कुळ-तिलकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रैलोक्यमल्ल-देवरराज्यं सल्लुत्तमिरे ॥ खस्ति ममधिगत-पञ्च-महाशब्द महामण्डलेश्वरनुत्तर-मधुरा-धीश्वर पट्टि-पोम्बुर्चे-पुर-वरेश्वरं महोप्र-वंश-ललामं पद्मावती-लब्ध-वर-प्रसादासादित-विपुल-तुलापुरुष-महादान-हिरण्यगर्भ-त्रयाधिक-दानं वान-रध्वज-विराजित-राजमानं मृगराज-लाञ्छन-विराजितान्वयोत्पन्नं ब्रह्म-कल्या-कीर्णं शान्तरादित्यं सकळ-जन-स्तुत्यं कीर्ति-नारायणं सौर्भ्य-पारायणं जिन-पादाराधकं रिपु-बल-साधकं नीति-शास्त्रज्ञै विरुद-सर्वज्ञं श्रीमत्-त्रैलोक्यमल्ल-वीर-शान्तर-देवं सान्तलिगे-सायिरमुमनेकच्छत्र-च्छा-येयिन्दमाल्लुत्तमिरे ॥ तत्पाद-पद्मोपजीवि स्वस्त्यनेकगुण-गणाभिमण्डनं नखर-मुख-मण्डनं शान्तर-राज्या-भ्युदय-कारणं कलि-युग-दोस(ष)-निवारणं आहाराभय-भैषज्य-शास्त्र-दान-कानीनं विशद-यशो-निधानरप्प

श्रीमत्-पट्टण-स्वामि-नोक्य-सेट्टि स (श) क-वर्ष ९८४ शुभकृत-
संवत्सरद कार्तिक-मुद्द ५ आदित्यवारदन्दु तन्न माडिसिद
पट्टण-स्वामि-जिनालयके वीर-सान्तर-देवङ्गे (यहाँ दानकी विस्तृत
चर्चा आती है) मर्व-वाधा-परिहार-मागि माडि तन्न सहधर्मिगल् सक-
लचन्द्र-पण्डितदेवर्गे कोट्टम् (यहाँ वे ही हमेशाके अन्तिम वाक्याव-
यव आते हैं) ।

इष्टनोर्व्वनधिदेवतेगेन्दोसेदित्तुदम् ।

दुष्टनोर्व्वनदर फलवं सले तिन्दवम् ।

सिट्टि-मेले परमात्मने वन्देडेगोवदम् ।

कट्टिकोण्ड विदिरन्ते कुल-क्षयमागुगुम् ॥

(वे ही अन्तिम श्लोक ।)

अकर ॥ ईवरेन्दत्ति पल्लिरिदरदप...तागि बेळदपर ल्हेज्जेगेट्टु काव-
रेन्दल्...मरणेन्दु वन्दपर तावञ्जि मरेवकुं बाल्वेमेन्दु साम-वङ्गदा
मरेवकुं वन्...विडियुं निदे पट्टियदन्दु

जीवम्जीवके त्कके वारदे किळ्वट्टु वरवेके वीर-देव ॥

धुरदोळमि-लतेयनुच्चिदद् ।

अरि-नृप-युवतियर मुगुळ कङ्कणदा-कील् ।

तरतरदिनुळ्चिदवु निज- ।

वर-गवळगमवर्के कीले शान्तर-नृपति ॥

वीरुगन दोरेगे दोरे पे- ।

राहं बन्दवरी-कृत-युगं त्रेते द्वा- ।

परं कलि-युगदोळगण ।

वीरुदार-प्रतापिगाळ् धर्म-परद् ॥

वृत्त ॥ परम-श्री-जैन-धर्मकृतिशय-विभवं मार्प्य विद्वज्जनका- ।
 दरदिन्दं सन्तोसं (ष) माडुव मुनि-जनकाहार-भैषज्यमं वि- ।
 स्तरदिन्दं चिन्ते-गेयुन्नत-गुण-[.....] युतं पट्टण-स्वामिनोकं- ।
 वरमारुभव्यकृत्तन्ता-पुरुप-रतुनदिं वीरदेवं कृतात्थम् ॥
 पुदिदं तमम्-तमः-पटलं ओन्दिदं चिन्ते तगुळ्दु तळ्दु प- ।
 त्तिदं रुजे पेच्चिं सार्चिदं दरिद्रते बट्टेयोळ्दु सेदं बड्-
 गिदपुट्टु कण्ड काण्केयोळे तप्पट्टु पट्टण-सावि नोक्कनि- ।
 छदडे बळ्दु वन्द बुध-मण्डलिगी-मले सू (शू) न्यमागदे ॥
 बल्ललनप्प पेव्वुमिय वय्किगे भाजनमाद दोळ्गे वी- ।
 लळ् वरिवन्ते नेल्द नरे-गड्दु दोडुर बेळ्वातुगळ् ।
 कोल्गुमवार्के केम्मनेडेयाडदिरोवेले शिष्ट बेडिको- ।
 ल्लोव्वडे नम्म धम्मदं तवम्मने पट्टण-सामि नोक्कनम् ॥
 जिननं वण्णिप पूजिप ।
 जिनागमोक्तियाडे नेगळ्ळ जिन-पदमं भा- ।
 वनेयं निच्चं ताळ्दुवन् ।
 एने पट्टु [ण]-सावि ये जिनागम-निधियो ॥

वचनम् ॥ सम्यक्त्व-वारासियुमेनिमिदं पट्टण-स्वामि नोक्कय्यं....
 हुदोळ्दु देवर वल्लभरनेरगिमि रत्तङ्गळ्ळम् खचियिमि । पोन्न बेळ्ळिय
 पवळ्दु महा-मणिय पञ्च-लोहदोळ्ळं प्रतिमेगळ्ळं साडिमिदं । (यहाँ दानकी
 विस्तृत चर्चा है ।) सकळ्चन्द्र-पण्डितदेवर गुडु मल्लिनाथं
 बरेदम् ॥

सुजन-जन-कुमुद-चन्द्रन ।

सुजन-जनानन-विलोक-मणिमुक्कुरनना- ।

सुजन-जन-वनज-हंसन ।

सुजनजनं पोगळे मल्लिनार्थं नेगळ्दम् ॥

गुडिवयलुमं विट्ट (सिरेपर) पट्टण-स्वामिय परि नेम-व्रतवेरेदन्दे
तुरवनिन्तिदु...गेय्यद.....येत्तिद य.....सा.....सन्तोस(ष)-दान-
विनोद.....॥ श्री-पट्टण-सामिय गुरुगळ् श्रीमद्-दिवाकरणन्दि-सि
द्धान्त-रत्नाकर-देवरु श्री-विरुद-सर्वज्ञं वीर-सान्तर-देवम् ॥

पुसियदिरारोळ्व-नदिं पर-नारिय तपोगे तप्प् ।

पसगदिराव-जीवदेळमेवडेयेम्बुदनेन्तुमोळ्दिर ।

कुसियदिरायदिं पोणर्दु तळ्तेडेयोळ् व्रतमेन्दु कोण्डुदम् ।

विसडदिरैम्बुदी-वरेद.....सने सान्तर-वीर-देवनम् ॥

नेगर्दुप्रान्त्रय-पद्मिनी-दिनकरं श्री-शान्तरोव्वींशनु- ॥

द्व-गुणाम्भोनिधि वीरुगं विरुद-सर्वज्ञं धरा-मण्डळम् ।

पोग[ळ]ळ् कूर्म्मियिनीये निर्म्मळ-यशं धर्म्मधिकं ताळ्दिदम् ।

जगदोल् पट्टण-सामि-वट्टमनिदंम् नोक्कं यशो-भागियो ॥

पट्टणस्वामि-जिनालयद शासनम्

[जिनेन्द्रकी प्रशंसा ।

जब, (उन्हीं चालुक्य-पदों सहित), त्रैलोक्यमल्ल-द्वेवका राज्य प्रवर्त्त-
मान था—जब, (उन्हीं पदों सहित जिनसे अलङ्कृत नन्दि-शान्तर शि०
ले० नं० २१३ में हैं), त्रैलोक्य-मल्ल-वीर-शान्तर-देव शान्तळिगे हजार-
पर एकलत्र राज्य कर रहा था; —

तत्पादपद्मोपजीवी (उन्हीं पदों सहित जैसे कि पद शि० ले० नं०
२११ में हैं) । पट्टण-स्वामि नोक्कय-सेट्टिको (उक्तमित्तिको) अपने
बनवाये हुए पट्टण-स्वामि जिनालयके लिये वीर-शान्तर-देवको सोने के १००
गद्याण भेंट करने पर, मोलकरेका दान मिला; इस गाँवकी सीमायें । इसने

(नोक्तय्य-सेट्टिने) अपना गाँव कुकुडवळिक भी दानमें दे दिया, और इसको (उक्त) सब करोंसे मुक्त कर दिया, और अपने सह-धर्मी सकल-चन्द्र-पण्डितदेवको सौंप दिया ।

शापात्मक और वे ही अन्तिम श्लोक ।

राजा बीर शान्तर और 'सम्यक्त्व वारासि' नामसे प्रसिद्ध पट्टण-स्वामि नोक्तकी प्रशंसामें श्लोक । माहुरमें प्रतिमाको रत्नोंसे मढ़ दिया और उसके पास सोना, चांदी, मूंगा (Coral), रत्नों और पञ्चधातुकी प्रतिमायें थीं । शान्तगेरे, मोळकेरे, पट्टण-स्वामिगेरे और कुकुडवळिकके तळेविण्डेगेरे—ये सब तालाब उसने बनवाये थे । और सौ सुवर्ण गद्याण देकरके उसने उगुरे नदीका सौळंगके पाणिमगल तालाबमें प्रवेश कराया ।

सकलचन्द्र-पण्डित-देवके गृहस्थ-शिष्य महिनाथने इसे लिखा, उसने गुडिवयलका दान किया । पट्टण-स्वामिके गुरु दिवाकरनन्द-सिद्धान्त-रत्नाकर-देव और सर्वज्ञ-पदलाञ्छित बीर-शान्तर-देवकी प्रशंसा]

[EC, VIII, Nagar tl., n° 58]

१९८

हुम्मच;—कन्नड़

शक ५८४=१०६२ ई०

[पार्श्वनाथबस्तिमें मुलमण्डपके खम्भोंपर]

(दक्षिण-स्तम्भ)

(पूर्व-मुक्त).....पृथुवी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर परम-भट्टारक सत्याश्रय-कुळ-तिळक चालुक्याभरण श्रीमत्-त्रैलोक्यमहल्ल-देवर् चतु-स्समुद्र-पर्यन्तं पृथ्वी-राज्यानुष्ठानदिनिरे ॥ तत्पादपद्मोपजीवि ॥ समधि-गत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरनुत्तर-मधुराधीश्वरं पट्टि-पोम्बुर्च्च-पुर-वरेश्वर महोप्र-वंश-ललामं पद्मावती-लब्ध-वर-प्रसादासादित-विपुल-तुला-पुरुष-महादान-हिरण्यगर्भ-त्रयाधिक-दान वानर-ध्वज-विराजित-राजमान-मृगराज-लाञ्छन-विराजितान्वयोत्पन्नं बहु-कलाकीर्णं सान्तरादिस्य सक-

ल-जन-स्तुत्य कीर्त्ति-नारायणं सौख्य-पारायणं जिन-पादाराधक रिपु-
बल-साधकं नीति-शास्त्रज्ञं विरुद-सर्वज्ञं नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहित
श्रीमत् त्रैलोक्यमल्ल-वीर-सान्तर-देवं सान्तकल्लिगे-सासिरमं निर-हा-
यादमं निष्कण्टकमं निराकुळमुं माडि निजान्त्रय-राजधानि-पोम्बुर्चदोळ्
सुख-संकथा-विनोददिनरसु-गेय्युत्तिब्दु स(श)क वर्ष ९८४ नेय
शुभकृतसंबत्सरं प्र.....

(उत्तर-मुख) जिनदत्तं तनगन्दु देवतेय कारुण्यं पोदब्दिर्पिनम् ।

दनु-पत्रंगतिभीतिथं निज-भुजावष्टम्भदिं माडि कों-।

ड निजाम्नायद पेम्पु-वेत्त पोळलोळ् पोम्बुर्चदोळ् माडिदम् ।

जिन-गेहङ्गळनर्त्तियि पळवुसं श्रीवीर-भूपाळकम् ॥

सुरसैलेन्द्रमो मेण् कुबेरगिरियो मेण् तुङ्ग-ताराद्रियो ।

दोरेयेम्बन्तिरे तन्न भक्ति मनादिं पोप्पुत्तमिर्पन्नेगम् ।

परमोत्साहदे नोक्कियब्बेय जिन-श्री-गेहमं माडिदम् ।

धरेयेल्लं पोगळवन्नेगं विरुद-सर्वज्ञावनीपाळकम् ॥

वचन ॥ अन्तु नेगब्द वीर-शान्तरन मनो-

नयन-वल्लभेयेनिसिद चागलदेवि ॥

वृत्त ॥ गुणदोळ् रूपिनोत्तोक्पिनोळ्

सुबगिनोळ् शृङ्गारदोळ् सौम्यल-।

क्षणदोळ् मैमेयोळोजेयोळ्

विभवदोळ् शीलङ्गळोळ् भृत्य-पो-।

षणदोळ् भोगदोळ्पिर्पिनोळ्

विभुतेयोळ् कारुण्यदोळ् पोलिसल्ल्-।

एणेयार् गोल्ल बेडङ्गिणेन्दनुदिनं

विद्वज्जनं बणिणकुम् ॥

(उत्तरस्तंभ)

(दक्षिणमुख) कन्द ॥ जयदङ्कुकात्ति दान-।
 प्रिये शान्तर-देवनोपुवर्द्धाङ्गद-ल-।
 क्षिप्रयेनिप्प पुण्यवतियम् ।
 जय-देवतेयन्नदुन्ते पेरतेनेम्बर् ॥
 श्री-वनितेगे वीरन वाक्-।
 श्री-वनितेगे कीर्त्ति-वधुगे सान्तर-विजय-।
 श्री-वनितेगधिके चागल-।
 देविये भाविसुवदखिल-विश्वम्भरेयोळ् ॥
 सलुगेगे साम्यक्केकेगे ।
 पलरक्केम मतियरहितरं गेल्वेडेय्.....।
 गेल्व बेडङ्गिये वीरन ।
 बलद भुजा-दण्डदळ्ळि केलदोळ् निल्वळ् ॥
 पतियं वञ्चिसि सले निज-।
 कृतकदिनर्द्धात्रलोकनाक्षिगळिं भ्रु-।
 लतेयोळ्मोळपोष्वी-दुर्-।
 व्रतेयर् प्पोल्लतपरे चागियब्बरसियरम् ॥
 सङ्गत गुणनमळ-लसत्-।
 तुङ्गाखिल-कीर्त्ति-वीर-सान्तर-नृपन-।
 र्द्धाङ्ग-स्थित-लक्ष्मयेनल्क् ।
 एङ्गळ् पोल्लतपरे चागियब्बरसियरम् ॥
 नेत्रावळि-दोच्छर्दि-वि-।

चित्राम्बर-कनक-रजत-मणि-मौक्तिकमम् ।

पात्रमरिदीव-गुणकति-।

मात्रेयरोचिदपरे चागियब्बरसियरम् ॥

(पूर्वमुख) वृ ॥ अतिशयमप्य रूपिनोळुदारतेयोळ् विनयोपचारदोळ् ।

पतिगतिभक्तिनोळ् विपुळ-भोगदोळिं पेरतेननेम्बे माण् ।

रतिगनुसारि पाव्वतिगे तोडु कुजासैगे पाटि नोडरुन्-।

धतिगेणे वासवाङ्गनेगे पासटि चागल-देवि धात्रियोळ् ॥

येनिसिद चागल-देवि निज-ब्रह्मं वीर-शान्तरन कुल-देवते नोक्कि-
यव्वेय बसदिय मुन्दे मकर-तोरणं माडिसि ॥ मत्तं बळ्ळिगावेयले
चागेश्वरमेम्ब देगुलं माडिसि पळवरुं ब्राह्मणर कन्ने-दानं माडिसि
महादानङ्गेय्दु वन्दि-वृन्दक्कवाश्रितर्गं पोन्नुं बुट्टिगेयुमं बेर्पन्नेगमित्तु चा-
गमं मेरेदळ् ॥ अन्तु नेगई चागल-देविय तायेनिप अरसिकव्वे प्रसि-
द्धकेसेदळ् सान्तरन मनेय सर्व्व-प्रधानं ब्रह्माधिराज काळिदासय्यं-
बगेदं (पश्चिम मुख) श्री-लोकिय बसदिगे देकरसं जम्बहळ्ळिय
विई श्री-माधवसेन-देवङ्गे धारा-पूर्व्वकं माडि कोट्टम् ॥

[जब, (उन्हीं चालुक्य पदों सहित), त्रैलोक्यमल्ल-देव समुद्र-पर्यन्त
दुनियाके राज्यपर शासन करनेमें लगे हुए थे:—

तत्पादपद्मोपजीवी (नं० २१३ वाले लेखमें जो नक्षि-शान्तरके पद हैं
उन्ही पदों सहित) त्रैलोक्यमल्ल वीर-शान्तर-देव, सान्तलिंगे हजारको
मुक्त करके, अपने वंशकी राजधानी पोम्बुर्चमें शासन कर रहा था:—
(उक्त मितिको),— अपने वंशके प्रसिद्ध नगर पोम्बुर्चमें वीर-भूपालकने
बहुतसे जिनमन्दिर बनवाये । इसी पोम्बुर्चमें जिनदत्तने देवी (संभवतः
पद्मावती देवी) के प्रसादको प्राप्त करके एक राक्षसके पुत्रको अपने
अनुजबलसे भयभीत कर दिया था । वीर-भूपालने नोक्कियव्वे जिनमन्दिर
बड़ी शोभाके साथ खड़ा किया था ।

वीर-शान्तरकी पत्नी चागल-देवी थी। उसकी प्रशंसामें बहुत-से श्लोक दिये हैं। अपने पति वीर-शान्तरके कुल-देवतारूप नोकियब्बेकी बसदिके सामने उसने 'मकर-तोरण' बनवाया था और बल्लिगावेमें चागेश्वर नामका मन्दिर बनवाया था और बहुत-से ब्राह्मणोंको कुमारिकायें भेंटकर उसने 'महादान' पूर्ण किया था, तथा प्रशंसकों और आश्रितोंकी भीड़को यथेच्छक दान देकर अपनेको दानी प्रसिद्ध किया था। (तथा) चागल-देवी की माँ अरसिकब्बेकी भी बहुत प्रसिद्धि हुई। (और) शान्तरके घरका 'सर्व-प्रधानं' ब्रह्माधिराज कालिदास विख्यात हुआ था।

लोकिय बसदिके लिये, देकररसने जम्बहक्कि प्रदान की, इसका दान माधवसेन-देवको किया था।]

[EC, VIII, Nagar, tl., n° 47]

१९९

श्रवण-बेलगोला;—संस्कृत-भद्र

[सं० १११९=१०६२ ई०]

(जैन शि० ले० सं०, भा० १.)

२००

अङ्गुलि—कन्नड़-भद्र

[शक ९८४=१०६२ ई०]

[अङ्गुलि (गोणीबीडु परगना) में, ७ वें पाषाणपर]

.....विनयादित्य.....पोयसळ..... भट्टार

गुरुगळं...

सक-कालं गति-नाग-रन्ध्र-शुभकृत-संवत्सराषाढदोळ् ।

सुकरं पौर्णामि-भौमवार मोसेदिळ्दा-श्रावण.....

.....कदिन्दं बरे शान्तिदेवरमळ् सन्यासनं गेष्टु भक्- ।

ति करं कैत्रशमागे गेष्टु पडेदर निर्व्वाण-साम्राज्यमम् ॥

(पीछे)शान्ति-देवर् श्रीमत् सो[सेवू]र.....नकर-समूह तम्म
गुरुगळ्मो परोक्ष-विनयं गेय्दु निषिदिगे मङ्गळमहा

[.....विनयादिव्य.....पोय्सळके गुरु.....(उक्त मितिको)
शान्तिदेवने, अपने धर्मके फल-स्वरूप निर्घाणको प्राप्त किया ।

नगर(व्यापारी संघ)के लोगोंने अपने गुरु शान्ति-देवकी मृत्युके
उपलक्ष्यमें यह स्मारक खड़ा किया ।]

[EC, VI, Mūdgere tl., n° 17.]

२०१

अङ्गडि—संस्कृत तथा कन्नड-भद्र

[शक ९८४=१०६३ ई०]

[अङ्गडि (गोणीबीडु परगना)में, बसदिके पासके पाषाणपर]

.....तन्त्र-प.....व्वरसिय

.....साम्पराय..... (७ पंक्तियोंमें
दानकी चर्चा है) पोय्सळन विद्यावन्तं पोय्सळाचारि आतन मंग
माणिक-पोय्सळाचारि आतं माडिद बसदि उळि-वळ्ळि-पिडिवर चड्
(पीछे) इन्तिनितुं भूमियुमं कोट्टु शक-वर्ष ९८४ नेय शुभकृत-सं-
वत्सरद फाल्गुन-सुद्ध-पञ्चमी-बुधवारं रोहिणी-नक्षत्रदन्दु प्रति-
ष्ठे-गेय्दु पूजेयं माडि तिरु-नन्दीश्वरदन्दु दान-माडेयुं पोय्सळन गुरुगळ्
मुळूर श्री-गुणसेन-पण्डित-देवर्गो धारा-पूर्वकर्दि स्थानमं कोट्टु ॥

श्री-वनितेगे धरणिगे वाग्-देविगे रुग्मिणिगे रतिगे रम्भगे सीता- ।
देविगे कोन्तिगे परियल- । देवियिमिळ्ळि गुणके वप्परुमुण्टे ॥
श्रीमदभिमानपिण्डः । पर-गण्ड-प्रलय-काल-यम-दण्डः ।

सद्गुणरत्नकरण्डः । स जयतु सुवि मलेपरोल् गण्डः ॥

रकस-वोय्सलनेम्बा- । इ-अक्करवं बरेदु पटमनेत्तिदडिदिरोळ् ।

लक्ष्मण सव-लेख्मण मरु- । वक्त्रं निन्दपुत्रे समर-संघटनदोष् ॥

(हमेशाके अन्तिम श्लोक)

[प्रथम भाग बहुत बिसा हुआ है और अन्तिम पंक्तियोंमें दानकी विशेष खर्चा है ।

छेनी और बल्लिको पकड़नेवालोंमें प्रधान, अर्थात् पाषाणशिल्पियोंमें प्रधान विद्यावान पोयसळाचारिके पुत्र माणिक-पोयसळाचारिने यह बसदि बनवाई ।

इतनी भूमि देकरके, उन्होंने (उक्त मितिको) भगवानकी प्रतिष्ठा की, और पूजाकर तिरु-नन्दीश्वरके कालमें दान देकर मन्दिर पोऽसळके गुरु मुल्लूरके गुणसेन-पण्डितदेवको सौंप दिया ।

परियल-देवी और मलेपरोळ-गण्डकी प्रशंसा । “रक्षस-होयसळ” इन ६ अक्षरोंको अपने झण्डेपर लिखकर यदि वह उसे उड़ाता है, तो लक्षावधि शत्रु भी क्या उसका युद्धमें सामना कर सकते हैं ? (हमेशाके अन्तिम श्लोक)]

[EC, VI, Müdgere tl., n° 13.]

२०२

मुल्लूर—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक ९८६=१०६४ ई०]

मुल्लूर (निडुत परगना) में, बस्ति मन्दिरमें पार्श्वनाथ बस्तिके पश्चिममें प्रथम पाषाणपर]

(पहली ओर) खस्ति शक-नृप-कालातीत-संवत्सर-शतङ्गळ ९८६ नेय क्रोधि-संवत्सरं परिवर्तिसुत्तिरे तच्च-चैत्र-बहुल-नवमी मङ्गळवारं पूर्वाभाद्रपद-नक्षत्रम्मिनोदयदल ॥

खस्ति समस्त-सुरासुरेन्द्र-मकुट-तट-घटित-मणि-मयूख-रेखालङ्कृत-चा (दूसरी ओर) रु-चरणारविन्द-युगलं भगवदहृत-परमेश्वर-परम-भट्टारक-मुख-कमल-विनिर्गतागामामृत-गम्भीराम्भोराशि-पारगरुप श्रीमद्-गुणसेन-पण्डित-देवस्मोक्ष-लक्ष्मी-निवासके सन्दर् (तीसरी ओर)

गुरुगळ् सिद्धान्त-तत्त्व-प्रवचन-पट्टगळ् पुष्पसेन-व्रतीन्द्र ।

वर-सङ्घं नन्दि-सङ्घं द्रविळ-गण-महारुङ्गळाम्नाय-नाथम् ।

परमार्हन्त्यादि-रत्न-त्रय-सकल-महा-शब्द-शाखागमादि- ।

स्थिर-षट्-तर्क-प्रवीणर् व्रति-पति-गुणसेनार्थ्यार्थ्य-प्रणूतर् ॥

[(उक्त मितिको), आगमरूपी अमृतके गहरे समुद्रके पार जाने वाले श्रीमद् गुणसेन-पण्डित-देवने मोक्ष-लक्ष्मीका निवास प्राप्त किया । उनके गुरु पुष्पसेन-व्रतीन्द्र थे । गुणसेन-पण्डित-देव द्रविळ-गणके नन्दिसंघके तथा महा अरुङ्गळाम्नायके नाथ थे । ये सब विद्यार्थी—व्याकरण, आगम, तर्क—में प्रवीण थे ।]

[EC, IX, Coorg tl. n° 34]

२०३

हुम्मच—कन्नड

[शक ९८७=१०६५ ई०]

[हुम्मचमें, चन्द्रप्रभ बस्तिकी बाहरी दीवालपर]

भद्रमस्तु जिन सा (शा).....स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-
पृथिवी-वल्लभं महाराजाधिराज परमेश्वर परम-भट्टारकं सत्याश्रय-कुळति-
ळकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रैलोक्यमल्ल-देवर् चतुस्समुद्र-पर्यन्त-
पृथ्वी-राज्यानुष्ठानदिनिरे तत्पादपद्मोपजीवि । स्वस्ति समधिगत-पञ्च-
महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरनुत्तर-मधुराधीश्वर पङ्क्ति-पोम्बुर्च-पुर-वरेश्वरं
महोप्र-वंश-ललामं पद्मावती-लब्ध-वर-प्रसादासादित-विपुळ-तुळापुरुष-म-
हादान-हिरण्यगर्भ-त्रयाधिक-दान वानर-ध्वज- विराजित-राजमानं मृग-
राज-लाञ्छन-विराजितान्वयोत्पन्नं बहु-कलाकीर्णं सान्तरादित्यं सकळ-
जन-स्तुत्यं कीर्त्ति-नारायणं सौर्ष्य-परायणं जिन-पदाराधकं रिपु-बल-
साधकं नीति-शास्त्रज्ञं विरुद-सर्वज्ञं नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमत्
त्रैलोक्यमल्ल-भुजबळ-शान्तर-देवं शान्तळिगे-सासिरमं निर्द्दयादबुं निरा-

कुळं माडि राज्यं गेय्युत्तिब्दु स(श)क-वर्ष ९८७ नेय विश्वावसु-
संवत्सरं प्रवर्त्तिसुत्तमिरे निजान्वय-राजधानि-पोम्बुर्षदोळ् भुजबळ-शा-
न्तर-जिनालयके माघ-मासद सुद्ध-पञ्चमी-सोमवारमुमुत्तरायण-संक्रमण-
दन्दु तम्म गुरुगळ् कनकणन्दि-देवर्गे धारा-पूर्वकं माडि हरवरियं विट्टम् ।
(यहाँ सीमाओंकी विस्तृत चर्चा आती है) ।

जिनशासनके कल्याणकी कामना । स्वस्ति । जब, (उन्हीं चालुक्य पदों
सहित) चतुस्समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके राज्यपर त्रैलोक्यमल्लदेव शासन कर
रहे थे:—

तत्पादपन्नोपजीवी,—जिस समय, (उन शान्तरके पदों सहित जो कि
क्षि० ले० नं० १९७ में दिखाये गये हैं), त्रैलोक्यमल्ल भुजबल-शान्तर-
देव, शान्तलिंगे हजारको उपद्रवों और कष्टोंसे मुक्तकर शासन कर रहे
थे:—(उक्त मितिको), अपनी राजधानी पोम्बुर्षमें भुजबल-शान्तर जिना-
लयके लिये अपने गुरु कनकनन्दि-देवको हरवरिका दान किया था: इसकी
सीमायें । बसदिका ऐसा शासन (लेख) है ।]

[EC, VIII, Nagar tl., n° 59]

२०४

बलगाम्बे—संस्कृत तथा कन्नड़ ।

[शक ९९०=१०६८ ई०]

[बलगाम्बेमें, बडगियर-होण्डके पासके आंगनमें पाषाण-खण्डोंपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोवलाञ्जनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर
.....मद्भारकं सत्याश्रय-कुल-तिलकं चालुक्याभरणं श्रीमत्त्रैलोक्य-
मल्लनाहवम.....सुख-संकथा-विनोददि राज्यं गेय्युत्तमिरेयिरे ॥

वृत्त ॥ मलेपद् म्माराम्परिल्लक्रमदि.....तराटर्परिल्लुर्किं दर्कुन्- ।

दले-वाय्वुद्धृत्तरिल्लोड्जि-वेरसु कुरुम्बर्त्तरुम्बिर्परिल्ले- ।

तल्लु...वर्ष दळ्ळेन्दुरिव रिपुगळ्ळिम्बिनं कुन्तळोर्वी- ।
 तिळकं त्रैलोक्यमल्ल-क्षितिपतिगे धरा-चक्रदो...क-चक्र ॥
 लाट-कळिग-गंग-करहाट-तुरुष्क-वराळ-चोळ-क- ।
 ण्णाट-सुराष्ट्र-माळव-दशार्ण-सुकोशल-केरळादि-दे- ।
 शाटविकाधिपरू म्मलेदु निल्लदे कम्पमनित्तु निर्मित्ता- ।
 घाटदोळिर्ष...अळवी-दोरेताहवमल्ल-देवन ॥

कन्द ॥ इन्तु चतुरन्त-धात्री- । कान्तेयनळवडिमि चक्रवर्त्ति-श्रियम् ।
 तां तळेदु सुखदे पल-का- । लन्तव तव-निधिगधीशनाहव-मल्लम् ॥

वृत्त ॥ म ... धावन्ति-वंग-द्रविळ-कुरु-खसाभीर-पाञ्चाळ-लाळा
 दिगळं पेसेळे कोन्दुं कवर्दुममदळं कोट्टुजं गोण्डुमाळो- ।
 लिगे दण्डुं तोळ-तीनुं मनद तवकमुं पोगदेन्दिन्द्रनं का- ।
 डि गेल्ल कपं गोडळ् वरिमि तळर्दनेकांगदिं सार्वभौमम् ॥
 गगन-नवाङ्क-संख्ये शक-काळदोळागिरे कीळकाब्दकम् ।
 नेगळे तदीय-चित्र-बहुळाष्टमियोळ् रविवारदोळ् जमम् ।
 मिगे कुरुवर्त्तियोळ् परम-योग-नियोगदं तुम्...द्रेयोळ् ।
 जगदधिपं त्रिविष्टपमनेरिदनाहवमल्ल-वल्लभम् ॥

कन्द ॥ आ-चालुक्य-ललाम-म- । हा-चक्रिय पेर्मगं धरा-तळमं गो-
 त्राचळ-जळधि-परीतमन् । आ-चन्द्र-स्थायि यागळाळ्व महात्मं ॥

...दित-व्योम-नवाङ्क-संख्ये सक-काळं वर्त्तिमल् कीळका-
 ब्दद वैशाखद सुद्ध-सप्तमियोळ् इज्य-ज्योतियोळ् शुक्रवा- ।
 वृत्तं ॥ रदोळ्यन्त-कुळीर-लग्नदोळिभाश्च-त्रात-रत्नातप- ।

च्छद-सिंहासन-पूज्य-राज्य-पदमं सो[मे]श्वरं ताळिददम् ॥

वृत्तं ॥ जयमं धम्मकें धम्मन्वयमनसदलं साधु-वर्गके वरगं- ।
 त्रयमं तन्नन्तरङ्गकोडरिसि धरेयं कूडे सन्मान-दान- ।
 ब्रयदिं सन्तप्से काळं कृत-युग-मयमासेम्बिनं तन्न राज्यो- ।
 दयदोळ् लोकके रागोदयमोदविदुदेम् धन्यनो सार्व्वभौमम् ॥
 आ-प्रस्तावदोळ् ॥

वृत्तं ॥

नव-राज्यं वीर-भोज्यं पुगल्लिदवसरं सुत्तुवै गुत्तियं मु- ।
 तुवेनेम्बी-गर्ब्रदिं चोलिकनधिक-बळं मुत्ति मार-गुत्तियं प- ।
 ण्णुवुदं केळ्देत्तेनुत्तेत्तिद तुरग-धळन् तागे सय्तागदप्रा- ।
 हवदोळ् वेङ्गेट्टु सोमेश्वर-नृपन बळकोडिदं वीर-चोळम् ॥
 पेसरं केळ्दळ्ळिक बेळ्कुर्त्तुदु पर-धरणी-मण्डलं गण्डु-गोत्रेळ्- ।
 वेसनं पूण्दत्तु शौर्य्योन्नतिगगिदसुहृन्मण्डळं मेलपनावर- ।
 ज्जिसिदोन्दाज्ञा-विसेपकेळ्ळसिदुदु सुहृन्मण्डळं सन्तमिन्ता- ।
 देसकं कैगप्पे सोमेश्वर-नृपति मही-चक्रमं पाळिसुत्तम् ॥
 अन्तःकण्टकरं पडल्वडिसि दुर्गाधीशरं दुष्ट-सा- ।
 मन्त-द्रोहरनुद्धताटविकरं निर्म्मूळनं गेय्दु वि- ।
 क्रान्तारातिगळं कळ्ळिच धरेयं निष्कण्टकं माडि नि- ।
 श्विन्तं श्री-भुवनैकमल्ल-महिपं राज्यं गेयुत्तिर्पिनम् ॥

वचन ॥

तत्पादपद्मोपजीवि समधिगत-पञ्च-महा-शब्द-महा-मण्डलेश्वरनुदार-
 महेश्वरं चलके बल्लगण्डं शौर्य्य-मार्त्तण्डं पतिगेक-दाशं संप्राम-गरुडं मनुज-
 मान्धातं कीर्ति-विख्यातं गोत्र-माणिक्यं विवेक-चाणिक्यं पर-नारी-सहोदरं

वीर-वृकोदरं कोदण्डपार्थं सौजन्य-तीर्थं मण्डलिक-कण्ठीरवं परचक्र-
भैरवं राय-दण्ड-गोपालं मलय-मण्डलिक-मृग-शार्दूलं श्रीमत्-त्रैलोक्यमल्ल-
देव-पाद-पङ्कज-भ्रमरं श्री-भुवनैकमल्ल-वल्लभराज्य-समुद्धरणं पति-हिता-
भरणं मण्डलिक-मकरध्वजं विजय-कीर्ति-ध्वजं मण्डलिक-त्रिनेत्रं रिपु-राय-
मण्डलिक-यम-दण्डं जयाङ्गनालिङ्गित-दोर्-दण्डं विसुळर-गण्डं गण्ड-भूरि-
श्रवनेम्बिव मोदलागे पल्लवुमन्वर्थाङ्क-मालेगळिञ्जलंकरिसि ॥

कं ॥ त्रैलोक्यमल्ल-वल्लभन्- । आळेनिसिदरोळगे मिक्क पसयितनुं मि-
क्काळुं मिक्कण्मिन ब- । ह्हाळुं लक्ष्मणने पेररनरिवरुमोळरे ॥

भुवनैकमल्ल-देवन । भवनदोळं ताने मानसं ताने महा- ।
व्यवसायि ताने विजय- । प्रवर्द्धकन् ताने पसयितं लक्ष्म-नृपम् ॥

अन्तेनिसि ॥

वृत्त ॥ अणुगाल् कार्थ्यद शौर्यदाळ् विजयदाळ् चालुक्य-राज्यके का-
रणमादाळ् तुळिलाल्तनके नेरेदाळ् कशायदाळ् मिक्क म- ।
अणेयाळ् मान्तनदाळ् नेगळ्ते-वडेदाळ् विक्रान्तदाळ् मेळदाळ्
रणदाळाब्दन नच्चुवावेडेयोळं विश्वामदाळ् लक्ष्मणम् ॥
एरडुं राज्यदोळं प्रजा-परिजनं कोण्डाडे चक्रेशरि- ।
व्वरु मोरन्दद कूर्मैयिन्दे बनवासी-देशमं शासनम् ।
बरेदश्व-द्विप-पट्टसाधन-समेतं कोट्ट कारुण्यदिम् ।
पोरेयल्मण्डलिक-त्रिणेत्रनेसेदं भू-भागदोळ् लक्ष्मणम् ॥
किरियं विक्रम-गङ्ग-भूपनेनगा-पेर्माडि-देवङ्गे ने-
र्गिरियं वीर-तोणम्ब-देवनेनगं पेर्माडिगं सिङ्गिगम् ।
किरियै नीं निनगोळरुं किरियरेन्दगयिस् कारुण्यदिम् ।
नेरे कोट्टं प्रतिपत्ति-वृत्ति-पदमं लक्ष्मङ्गे सोमेश्वरम् ॥

मिगे बनवासे-नाळ्के विभु लक्ष्मणनागे नोळम्ब-सिन्दवा-
डिगे विभुवागे विक्रम-नोळम्बनळंपुरमादियाद भू-
मिगे विभु गङ्ग-मण्डलिकनागे यमाशेगे नीळ्द लाड-वि-
ण्डिगेयेने कण्डु कोइनवर्गा-नेलनं भुवनैक-वल्लभम् ॥

मदवद्वैरि-नरेन्द्र-मण्डलिक-सेना-भञ्जनं वीर-नी ।

रद-दुर्वार-समीरणं वितरण-क्रीडा-विनोदं प्रता- ।

प-दिलीपं रिपु-पुञ्ज-कञ्ज-वन-केली-कुञ्जरं लङ्घिका- ।

मदनाखं चलदङ्क-राम नृप-लक्ष्मी-लक्ष्मनं लक्ष्मणं ॥

कं ॥ बलिवलेव मलेव केलेवद-टलेव पळञ्चलेव मलेपरेल्वं मुरिदं ।

मलेयद केलेयद बलियद । मलेपरनिसुवेसके बेससिदं लक्ष्म-नृपम् ॥

वृ ॥ धाळियनिट्टु कोङ्कणमनङ्कणियोक्किदपं तगुळ्दु कोम्ब- ।

एळुमनट्टि मुट्टि मले-येळुमना मुर्च्चि मुक्कि नि- ।

मूर्च्छिमिदपनेन्दु मलेपत्तिले दोरदे रायदण्ड-गो- ।

पाळ-नृपङ्गे मुन्दुवरिदेन्दुःनेन्दपरेम् प्रतापियो ॥

आळवलमुळ्ळडश्व-वलमिल्ल भटाश्व-वलङ्गुळ्ळडम् ।

तोळ्वलमिल्ल भृत्य-हय-दोर्-व्वलमुळ्ळडमेर्व्वलङ्गळिळ् ।

आळ् वेसगेय्यदेके बलिवर् मलेपर् म्मलेयम्बुदेनदम् ।

बेळ्वलमागे मुन्तुळिदनल्लने लक्ष्मणनेम्ब कावणम् ॥

कवि दुग्ग चातुरङ्गं बवसे दळ्वुळं धाळि सूळ्ळेरनिप्पा- ।

हवदोळ् चालुक्य-रामं बेससे रिपु-वळ्ळक्केन्ननिन्द्रारियन्नम् ।

भवनन्नं भद्रन्नं सिडिल बळ्ळादन्नं ज्वळ-ज्वाळियन्नम् ।

जवनन्नम्मारियन्नं समर-समयदोळ् लक्ष्मणं रामन्नम् ॥

कुदुरेय मेले बिल् परसु श्लिगे तीरिके भिण्डिवाळ्मे-

त्तिद करवाळमाटिडुव कर्कडे पारुव चक्रमेन्दोडेन्त ।
 ओदरुवरेन्तु पायिसुवरेन्तु तरुम्बुवरेन्तु निल्परेन्तु ।
 ओदवुवरेन्तु लक्ष्मणनोळान्तु बर्दुक्कुवरन्त्य-भूमुजरु ॥
 ईयल् बन्दडे कल्प-वृक्षमिदिरं बन्दान्त विद्विष्टरम् ।
 सोयल् बन्दडकाळ-मृत्यु शरणायातावनीपाळरम् ।
 कायल् बन्दडे वज्र-शैल-कृत-दुर्गा लौह्य-भावं पर-
 स्त्रियल् बन्दडे रात्रणात्मज-चमू-विद्रावणं लक्ष्मणम् ॥
 विसुपळिदकेनुक्कुडिगुमिन्दुव कान्ति कळ्ळुमागसम् ।
 कुसिगुमिळा-तळं तळ्ळुमम्बुधि बत्तुगुमिळ्ळि लक्ष्मणम् ।
 पुसिदोडमार्गे टेप्परमनोड्ढिदोडं मनमोल्दु कूडि लि-
 द्विसिदोडमन्य-नारिगे मरुळ्दोडमाहवदोळ् मरल्दडम् ॥
 शत्रघ्नं हरि-शौर्यनङ्गद-भुजं सुप्रीवनामेश-सौ-
 मित्रं रामनपामरं नर-वरं दुर्योधनं भीम-गान-
 त्रं भीष्म युधिष्ठिरं गुरु कृपं सत्-कर्णनेन्दन्दे दल् ।
 चित्रं भाविसे लक्ष्म-भूप-चरितं रामायणं भारत ॥
 कलितनमिळ्ळ चागिगे वदान्यते मेय्गलिगिळ्ळ चागि मेय्- ।
 गलियेनिपङ्गे शौच-गुणमिळ्ळ करं कलि-चागि-शौचिगम् ।
 निले-नुडि-वोजे यिळ्ळ कलि चागि महा-शुचि सत्य-वादि मं-
 डलिकरोळीतनेन्दु पोगळ्ळुं बुध-मण्डलि लक्ष्म-भूपन ॥
 कं ॥ मुनियिं किमुकञ्जुवरोसे- । दु नगुवरिन्तिते पेरर मुनिसुं मेञ्चुं ।
 मुनियिसे मुनिद जवं ह- । र्धनागे हर्षं गवृषभ-लक्ष्मं लक्ष्मम् ॥
 एने नेगळ्द लक्ष्म-भूपं । विनमित-रिपु-नृपति-मकुट-घट्टितचरणम् ।
 बनवसे-पन्निर्ळासिर- । मनाळुतुं सुखदिनरसु-भ्येयुत्तिब्दम् ॥

- इरे बनवसे-पन्निच्छा- । सिरक्कमर्त्याधिकारियुं कार्थ्य-धुर- ।
 न्धरनुं तद्-राज्य-समु- । द्दरणनुमेने नेगळ्द मन्नि मन्नि-निधानं ॥
- वृ ॥ कविता-चूताङ्कुर-श्री-मद-कळ-कळकण्ठोपमं काव्य-सौधा- ।
 ण्णव-त्रेळा-पूर्ण-चन्द्रं सम-विषम-महा-काव्य-वल्ली-तलान्तो-
 त्सव-चञ्चञ्चरीकं वसुधेगोसेदनुर्वी-नुतं दण्डनाथ- ।
- प्रवरं श्री-शान्तिनाथं** परम-जिन-मताम्भोजिनी-राजहंसम् ॥
 कुनयङ्गळ् जैन-मार्गाभृत दोळिरे जल-क्षीरदन्तलि सद्-या- ।
 क्य-निशातोच्चञ्चुविन्दं कुमत-कलुप-पानीयमं तूळिद जैना- ।
 नन-निर्यत्-तत्त्व-दुग्धाभृतमनखिळ-भव्योत्करं मेचलाखा- ।
 दने-गोव्योळिपन्दमादं परम-जिन-मताम्भोजिनी-राजहंस ॥
- परमात्मं निष्ठितात्मं जिनपति परम-स्वामि तद्-धर्ममार्म्मम् ।
 गुरु-बन्धं वर्धमान-व्रति-पति जनकं सन्द गोविन्द-राजम् ।
 पिरियण्णं कन्नपाय्यं तनगधिपति लक्ष्म-क्षमापालनात्मा- ।
 वरजं वारभूषणं रेवणनेने नेगळ्दं धात्रियोळ् शान्तिनाथम् ॥
- कं ॥ सहज-कवि चतुर-कवि निम्- । सहाय-कवि सुकवि सुकर-कवि
 मिथ्यात्वा-
 पह-कवि सुभग-कवि नुत-महा-कवीन्द्रं सरस्वती-मुख-मुकुरम् ॥
 सुकर-रसभावदि व- । ण्णकदि तत्त्वार्थ-निचयदि सूक्तमेनल् ।
 सुकुमार-चरितमं पेळ् । द कवीन्द्राप्रणि सरस्वती-मुख-मुकुर ॥
 असहायनागियुं सुज- । न-सहायं मद-विहीननागियुमर्त्थि- ।
 प्रसरोत्कट-दानाधिक- । नसद्द्रुश-विभवं सरस्वती-मुख-मुकुर ॥
- वृ ॥ हरहासाकाश-गङ्गा-जळ-जळरुह-नीहार-नीहार-धात्री- ।
 धर-नीहारांशु-तारावनीधर-शरदम्मोधर-क्षीर-नीरा- ।

कर-तारा-भारती-दिग्-रदन-रदन-पीयूष-डिण्डीर-मुक्ता- ।
 कर-कुन्देन्द्रे भ-हंसोज्ज्वल-विशद-यशो-बल्लभं शान्तिनाथ ॥
 ओडवेयनोळिपनिं पडेदु पुञ्जिसि पूजिसि कोण-ताणदोळ् ।
 मडगदे शिष्टरिड्डेगे बन्धुगळिल्ल मेगप्पुदेन्दुमे- ।
 नोडमे शरीरमेन्दु नियोगद पर्वमिदेन्दुदेन्दु मे- ।
 ळपडदिरिमेन्दु गोसने तोळ्ळुवुदु.....शान्तिनाथन ॥

कं ॥ एने नेगळद शान्तिनाथं । जिन-शासन-सत्-सरोजिनी-कलहंसम् ।
 विनयदे निजाधिपति-ल- । क्षम-नृपङ्गे सु-धर्म-कार्यमं विन्नविकुं ॥
 चञ्चामीकर-र । तःश्चित-जिन-रुद्र-बुद्ध-हरि-विप्र-कुलो-
ह-सङ्कुळदिं । पञ्चमठ-स्थानमेनिसुगुं बळि-नगर ॥

व ॥ अन्तु समस्त-देवता-निवास-पवित्रीभूतमप्य राजधानियोऽत्राद
 जिनधर्म-प्रभावमं पेळ्वडे ॥

वृ ॥ सले जम्बू-द्वीपमोळ्यं तळेदुदु पलवुं....भारतोर्वीन
 वळ्यं तद्-द्वीपदोळ् रञ्जिसुगुमेसेगुमा-क्षेत्रदोळ् कुन्तळं कु-
 न्तळदोळ् सन्तं वसन्तं बनवसे वनवासोर्व्वियोळ् भव्य-सेव्यम् ॥
 बळि-नाम-ग्राममा-ग्रामदोळमर-नुतं शान्ति-तीर्थेश-वासम् ॥

कं ॥ अ.....र्म-निर्मित-। मदं शिला-कर्ममागे माडिसु कोळ्यो-।
 दुदु निनगे धर्ममेम्बुदुम् । अदकें बगेदन्दु धर्म-निर्मळ-चित्तम् ॥

वृ ॥ जिननाथावासमं वासव-कृतमेने मुन्नं शिला-कर्मदिं शा-
 सनमपन्तागिरल् माडिसि बळिके शि.....स्तम्भमं तज्-।
 जिनगेह-द्वारदोळ् निर्म्मिसि विलिखित-नामाङ्क-मालावळी-शा-
 सनमं चन्द्रार्क-तारं निले निलिसिदनेम् धन्यनो लक्ष्म-भूपम् ॥

कं ॥ मिगे मूल-संघदोळ् दे-। सिग-गणदोळ् सन्द कोण्डकुन्दा-
 न्दान्वयमं ।

जगती-त.....न्त । इरे नेगळिचदर नेगळद-वर्द्धमानमुनीन्द्र ॥
 वृ ॥ पडेदडे पेम्पनेद्ये वडेयर् श्रुतमं श्रुतदोन्दु मध्येयम् ।
 पडेदडे दिव्यमप्प तपमं पडेयर् तपमं निरन्तरम् ।
 पडेदडे कीर्त्तियं पडेयरी.....गुणङ्गळम् ।
 पडेवडे **वर्द्धमान-मुनिपुङ्गवरन्तिरे** मुन्ने नोन्तु...॥
 सन्ततमोन्दि निन्द तपदोळ् श्रुतदोळ् गुणदोळ् विशेषरि-
 त्तिन्तिवरेल्लरिं पिरियरिन्तिवर् अगळदग्रगण्यरोर्-
 अन्तिवरेन्दु कीर्त्तिपुदु कूर्त्तु.....**देव-सि-**
द्धान्त-मुनीन्द्रं नत-नरेन्द्ररनद्विध-परीत-भूतळम् ॥
 मुनिमणमागळ्याग मुनिमं मुनियुं मुनि-वन्ध्यनागना-
 मुनिसु ममवर्दि ममते मायेयिनन्तदु लोभर्दि प्रव-
 र्द्धनकरमेन्दु.....वीत-कषायराद स-
 न्मुनि **मुनिचन्द्र-देवरे** धरित्रिगे देव....देवरल्लरे ॥
 मार-कटा-प्रवोधित-सुदारकर्त्तजित-माधु-संव-नि-
 स्तारकर....जात-महीजात-विदारकरुप्र-कर्म-सम्-
 हारकरव्युदार.....**सर्व्वणन्दि-भ-**
द्वारकरलते भव्य-सुकुमारक-करव....धिपर् ॥
 उरग-पिशाच-भूत-विहगोप्र-नव-ग्रह-शाकिर्ना-निशा-
 चर-भय....चरदोळ्ङ्कुतर्दि विपरीतमाडदम् ।
 बरेदुदे यन्नमो.....तन्नम्.....॥
॥
 जित-कुसुमाखरुर्जित-यशो-धनरार्जित-पुण्य-कर्मर-
 न्वित-बहु-शाखराद्भुत-सुशीलरधःकृत-किल्बिन्मर् प्रवो-
 शि० १७

धित-बुध.....।

.....॥

.....अभिविनुत् श्री-माघनन्दि-देवर् प्पलवुं जिन-निलयङ्गळम-खिल्ला-
 वनि वण्णिसे वळ्ळिगा.....जिन-पूजाभि
र्चना-निरतनाहारादि-दान-प्रवर्द्धन-शीलं नुत्त-भव्य.....हा-
 मण्डलेश्वरं लक्ष्मरसं श्रीमल्लिकामोद शान्तिनाथ-जि.....कीलक-
 संवत्सरद भाद्रपदद पुण्णमे-सोमवारद.....देसिगगणद
 ताळकोलान्वयद माघनन्दि-भट्टार.....गे मुत्तं श्रीमज्जगदे-
 कमल्ल-देवर् व्वळ्ळिगावेय.....ळ्ळे
 मत्तर् प्पनेरडु अल्लिय गोळपय्यन वसदिगे.....
 श्रीमच्चालुक्य-गङ्ग-पेर्म्मनडि-विक्रमादित्य- देवर्.....
मुमं नन्दन-वनद वसदिगे पूर्वदिन्नडेव.....भूपं
 समुचित-विनयं विन्नपं गेय्ये.....दर्प-देवम् ॥ अनघ-
 श्री-शान्तितीर्थेश्वर-पद.....विधि-सहितं शासनं माडि कोट्ट
(हमेशाके अन्निम वाक्यावयव तथा श्लोक).....जिङ्गळिगे
 गुळिद नाल्कारु पोम्मानिगर्द्धम्.....एरडक्कु कृष्ण-भूमकदररे
 किसु.....अदररेयुं नोडि सिद्धायमक्कुम् ॥.....ग दासोजं खण्ड-
 रिसिदं मंगळ महा श्री ॥

[जिन शासनकी प्रशंसा ।

जिस समय (चालुक्य उपाधियों सहित) त्रैलोक्यमल्ल आहवमल्ल-देव
 शान्ति और बुद्धिमानीसे राज्य कर रहे थे:—उन्हें लाट, कलिंग, गंग,
 करहाट, तुरुष्क, वराड, चोळ, कर्णाट, सुराष्ट्र, मालव, दशार्ण, कोशल,
 केरल ये सब राजा भेंट देते थे । मगध, आन्ध्र, अवन्ति, वंग, द्रविळ,
 कुह, खस, आभीर, पाञ्चाळ, लाल और दूसरे देशोंका उन्होंने नाश कर

दिया था । शक सं. ९९० में उक्त मितिको उन्होंने प्रधान योगका उत्सव किया और वे तुंगभद्रामें स्वर्गवासको सिधार गये ।

इनका उयेष्ट पुत्र सोमेश्वर था । उसका दूसरा नाम 'भुवनैकमल' था । वह जब राज्य कर रहा था:—

तत्पादपञ्चोपजीवी लक्ष्मण था । उसकी बहुत-सी प्रशंसा । जिस समय यह बनवसे १२००० पर राज्य कर रहा था:—

उसका दण्डनाथ शान्तिनाथ था । उसकी प्रशंसा । बलिनगर, या बलिग्राम (बलगाय्बे)में सभी धर्मोंके मन्दिरोंके होनेकी बात । राजा लक्ष्मणने भी वहाँ मन्दिर (जिन भगवान्का) बनवाया ।

मूल संघ, देसिग-गण और कोण्डकुन्दान्वयके वर्द्धमान मुनीन्द्र । मुनि-चन्द्र-देव सिद्धान्त । इन दोनोंकी प्रशंसा । इन्होंने भी जैनमन्दिर बनवाये । महामण्डलेश्वर लक्ष्मणसने, मल्लिकामोद शान्तिनाथ-मन्दिरके लिये, (उक्त मितिको) देसिग-गण तालकोलान्वयके माघनन्दि-भट्टारको कुछ जमीन दानमें दी । दासोजने इस लेखको उत्कीर्ण किया ।]

[EC, VII, shikarpur tl., n° 136.]

२०५

सौंदर्यिका—कन्नड-भग्न

[काल लुप्त ?]

भद्रमस्तु जिनशासनाय ॥ श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं [I]
 जीयात्रै(त्रै)लोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं [II] स्वस्ति समस्त-
 भुवनाश्रयं श्रीपृथ्वीवल्लभमहाराजाधिराज-परमेश्वर-परमभट्टारकं सस्याश्रय-
 कुळतिलकं चालुक्याभरणं श्रीमद्भुवनैकमलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरा-
 भिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कतारं सलुत्तमिरे [I] तत्पादपञ्चोपजीवि [II]
 समपिगतपंच-महा-शब्द-महामण्डलेश्वरं लत्तल्लूपुरवरेश्वरं त्रिवलीतूर्य्य
 निर्वोषणं वैरिकुळविलयान्तकविभीषणं सिन्दूरलाञ्छनं समस्तविद्या-
 विरिचनं सुवर्णगरुडध्वजं विदग्धमुग्धाङ्गनामकरध्वजं रङ्गकुळवनज-

वनमार्त्तण्डं कदनप्रचण्डं रिपुसमरवीरवृकोदरं परनारीसहोदरं साह-
 सोत्तुंग सेननसिग नामादिसमस्तप्रशस्तिसहितं श्रीमन्महामंडलेश्वरं
 कार्त्थवीर्यरसर वंशावतारमेन्तेन्दडे ॥ श्रीरमणनतुळ्विजयश्रीरमणं विपुळ
 विमळ समुदित कीर्ति श्रीरमणं चतुरवचःश्रीरमणं नन्नभूपननु-
 परूप ॥ आतन तनय । स्थिरनुडिवं कलितनदोळपोरेदाळि
 मुन्नमिरिवनेन्दडे सकळोर्व्वरेयोळ् कत्तन * सत्यद दोरेगं शौर्यद
 पोगळ्केगं समनोरे ॥ अन्तेनिसिद वीरकत्तरसर्नि पिरिय ॥ वृ ॥
 वसुधा चक्रदोळ्केन्तु वणिसुवदं तन्न(न्ना) [ङ्के] तन्नेळ्को
 तन्नेसकं तन्न पोगत्ते तन्न विभवं तन्नोजे तन्नुद्धसाहससंपन्नतेयि
 धरावळयमं नानाविध (धं) कूडे मुद्रिसिदं रडर मेरु डायिम महीपाळं
 नृपाळोत्तमं ॥ तदनुज ॥ सुरकुजमं पळंचल्लुवु[दी]वगुणं मले संद वज्र
 पंजरमननागतं पळिवुत्तिर्पुदु [का]वगुणं परीक्षिसल् सरधियनेय्दे रेग-
 पुदु तन्न गभीरगुणं समस्तदिक्परिवृड(द)डेळ्ळोयं नगुवुदुद्धगुण(णं)
 कलिकन्नभूपन । तत्सुत ॥ क ॥ निरुपम समस्त कडेयोळरसिज
 भवनेसेव धाद्यविधाधरनोळ्ळरसंकसंकरं कप्परवर्षनेरेगे नेगईनेरेग
 महीश ॥ तदनुज ॥ वृ ॥ कदनदोळान्तरातिगहि[यल्ल]द राहुवि-
 जाति रूपनल्लद विनतासु [हंगेयु]र्व्व(वे) दळ्ळुरियल्लद देहिकालन-
 ल्लद जवन ॥ * * * म (?) वे गतनल्लद वादव(न)न्त मानविल्लध (द)
 रवियेन्दोडांपदटर[रु रणा]ग्रदोळकभूपन ॥ तदप्रजनप्पेरगभूपा-
 त्मज ॥ असुहृद्भूपकिरीटताडितपदं वीरांगनालि(लि)गनोळ्ळमि[तां]
 गं हरहासकाशशिवान्ताकाशगंगाजळप्रसरामोघदिगंतकीर्ति तपनप्र-
 द्योतसन्सूर्ति सन्द सु(सा)जद्दुणदीपवर्ति नेग[ई] श्री सेन-
 भूपाळक ॥ तत्तनय ॥ अरिभूपाळ कृशान्तनुद्धतरिपुक्ष्मापाळसंदोह

शीकर काळानळनु (ने).....तदप्प (?) भयंकरवि[द्वि]ड्महिपाल
 मेघलयकाळोत्पातवातं क्षितीश्वर-चूडाम[णि]..... [॥] श्रीवनि-
 तेशं कीर्तिश्रीवनिताधीशानुदित संशुद्धवच(चः)श्रीरमणीशं वीर (श्री)
[॥ जिन] नाराधिपदेवनुद्धचरितर्विद्यावन.....
 टासनधर्मा (?) रुगळ्विरो.....जनकनुर्विजाते प्रत्यक्ष गोमिनि तायि
 म्मळलदेवियेन्दधिक.....नोळ्दमतक्किवर्ष (?) री क्षितिपति
 सैनि (?) र वधूप्रकर.....दिति.....आतन कुळांगने [॥] श्री
 वनिते ताने बन्दु मही वनितेगे तिळकमेनिसि कत्तन वक्ष (क्षः) श्रीव-
 निते नेगई [भाग]लदेवी जगज्जननि सज्जनाप्रणियेनिकु ॥ आ दंपति-
 गळगे गिरिसुतेगं हरंगमनुरागदे षण्मुखनेन्तु पुट्टुवंत(वि)रे नेगई रुग्मि-
 णिगमा ह[रिगं] स्मरनेन्तु पुट्टुवन्तिरे सले कान्तिग रविगमर्कतनूभव नेतु-
 पुट्टुवन्तिरलवग्गोल्दु पुट्टिदनु रगु कलि **सेनभूभुज** ॥ अत्रनीपालानत
 श्री[पद]कमळयुगं तत्वनिर्णिणक्तराद्धान्तविदं चारित्ररत्नाकरनमळ-
 वच(चः)श्रीवधूकान्तनं गोद्धवदप्पारण्यदावानळनुदितलसद्बोधसंशुद्धनेत्रं
रविचन्द्रस्वामि भव्याम्बुजदिनपनश्रौवादिसद्व्रजपात ॥ कं ॥ कङ्क-
 र्गणाब्धिचन्द्रन खण्डितसुतपोविभासिखण्डितमदनं डिंडीरपिंड सुर-
 वेदण (ण्ड)[य]शशःपिण्डन**हृणंदि** मुनीन्द्र ॥ मल्लिकामाले ॥ कन्तु-
 राजगजेन्द्रकेसरि भ[व्यलोकसुखाकरं कान्तवाग्वनितामनोरमनुप्रवी-
 रतपो]मयं शान्तमूर्ति दिगन्तकीर्तिविराजि द्रडा (दाभिमानी रणभू-
 सेनानि रङ्गान्वयश्रीनेत्रं बुधमित्र नुज्व (ज्व) लयशशपात्रं नृपं रंजिपं
 आ सेनावनिपंगमप्रतिमलक्ष्मीदेविगं पुट्टिदं । भूसंरक्षणदक्षदक्षिणभुजं
 विध्वस्तशत्रुत्र (त्र) जं त्रासानम्रनृपालपाळितजयश्रीस(श)स्तान्विता

भासं सूनुतवाग्विळासनवनीनाथोत्तमं कत्तमं ॥ आ विभुविन वधु पञ्चलदेवी
 कळारूपविभवजिनमतदोळ्वाग्देवी रतिदेवी लक्ष्मीदेवी शचीदेवियेनिसि
 मिगे सोगयिसुवळ् ॥ श्रीपति ना विष्णुः पृथुवीपति येने लक्ष्मीदेवनो-
 गेदु वसुदेवोपमकत्तमविभुगं श्रीपञ्चलदेवियेम्ब मुतदेवकिगं ॥ प्रकटि-
 ततेजनन्वयसरोजसमूहविकासि(शि) सज्जनप्रकररथांग सम्मदकर (रं)
 नियताभ्युदयप्रशोभिताधिकनिजमण्डळं जितकळंक पवित्रचरित्रनागि
 चन्द्रिकेगधिनाथनादनिदु विस्मयन्त प्रभुलक्ष्मीभूभुजं ॥ श्रीयुवतीशहेम-
 गरुडध्वजमंडितमण्डलेश्वरनारायणलक्ष्मणंगे तनुजम्भुजदन्ते धरोरु-
 भारधौरेयरनून दानजयधर्मधरर्विभुकार्तवीर्यलक्ष्मीयुतमल्लिकार्जुन
 महीश्वररादरतर्क्यविक्रमर् ॥ परचक्रं निजविक्रमकक्रगिदु तेजःच
 (जशज) क्रमं विदु कोवर चक्रक्केणे र्याप्पनन्तिरेविनं दिक्चक्रमं
 व्यापिसुत्तिरे

[यह लेख भी एक टुकड़ा है और उस पाषाण-तलसे लिया गया है जो मि० फ्लीटको उस मन्दिरके आँगनमें आधा गड़ा हुआ मिला था जिसमें कि पूर्वके दो लेख (नं. १३० और १६०) मिले थे । इसमें नक्षसे ले कर कार्तवीर्य द्वितीय तककी वंशावली मिलती है । का० द्वि० को चालुक्य राजा भुवनैकमल्लदेव या सोमेश्वर द्वितीय बतलाया गया है । इसका काल सर डब्ल्यू इलियट (Sir W. Elliot) ने शक ९९१ ? (१०६९-७० ई०) से लेकर शक ९९८ (१०७६-७ ई०) तक बताया है । इसमें उसके पुत्र सेन द्वितीयका नाम भी आता है, लेकिन लेखकी वंशावलिके भागका मुख्य उद्देश्य स्पष्टतः ७ वी पंक्तिमें है जिसमें कार्तवीर्यकी सन्तान-परम्पराका उल्लेख है । यही कार्तवीर्य उस समय अपने कुटुम्बका प्रतिनिधि था, उसका पुत्र सेन नहीं, क्योंकि वह उस समय निरा बच्चा रहा होगा । दानगत लेखका भाग लुप्त है ।]

[JB, X, p. 172, a; p. 213-216, t; p. 217-219, tr. (ins. n° 4)]

२०६

मुल्लूर—संस्कृत तथा कन्नड़

[काल लुप्त पर लगभग १०७० ई०]

[मुल्लूर (निडुत परगना)में, पार्श्वनाम बस्तिके पश्चिममें तीसरे पाषाणपर]

.....यानिधि सत्या.....ल-देवि ॥ भूतल
विनिर्गत.....लोक्यविरुयाते.....यण मोक्षदे
वर्ण.....द्यामुलं.....पनिद.....मालि.....
 नुर्वीपाळ-भूत.....बरसिद कारुणियोदव.....न वचन काय वदिग
तुळ्ळिन.....यम्बन्तिरे स.....त दिविजलोक ॥ खं
पृथुविकोङ्गाळवनरसि.....

[यह समस्त लेख बहुत बिगड़ा हुआ है । किसी मरे हुएका स्मारक है । और पृथुविकोङ्गाळवकी रानी.....]

[EC, IX, Coorg tl., n° 36]

२०७

बन्दलिके—संस्कृत तथा कन्नड़-भद्र

[शक ९९६=१०७४ ई०]

[बन्दलिकेमें, उसी बस्तिके उत्तरकी ओरके एक दूसरे पाषाणपर]

भद्रं समन्तभद्रस्य पूज्यपादस्य सन्मतेः ।
 अकलंक-गुरोर्भूयात् शासनाय जिनेशिनः ॥
 श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाच्छनम् ।
 जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥
 खस्ति श्री-प्रमदा-प्रमोद-जनकं यस्योरु-वक्ष-स्थलम्
 यद्दोर्दण्ड-कृतान्त-वक्त्र-विवरे मग्नं द्विषट्-पार्थिवैः ।

यस्येयं वसुधा चतुर्जलनिधिव्यविष्टिता प्रेयसी
 जीयाच्छ्री-भुवनैकमल्ल-नृपतिः सोऽयं नतानन्दनः ॥
 तेनेदं नरपाल-मौलि-विठसन्माणिक्य-लीटाङ्घ्रिणा
 श्रीमद्-मल्ल-सुतेन शासनमहो दत्तं द्विषणमाथिना ।
 आहारादि-चतुर्विधं मुनिगणे दानं च यस्य प्रियम्
 तेनाप्तं कुलचन्द्र-देव-मुनिना शुभ्रैश्च-सत्-कीर्तिना(म्) ॥

खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर
 परम-भट्टारक सत्याश्रय-कुळ-तिलकं चालुक्याभरणं श्रीमद्-भुवनैकमल्ल-
 देवर विजय-राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कितारं-वरं सल्लत्त-
 मिरे बङ्गापुरद नेलेवीडिनोळ् सुख-संकथा-विनोददिं राज्यं गेय्युत्तमिरे ॥
 तत्पादपद्मोपजीविं खस्ति समस्त-भुवन-प्रस्तुत-ब्रह्म-क्षत्र-वीरान्वय श्री-
 पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वरं कोळाळ-पुरवरेश्वरं विक्रम-गङ्ग
 जयदुत्तरङ्गं.....मणि मण्डलिक-मकुट-चूडामणि श्रीमच्छा.....
 पेर्माडि भुवनैक-वीरनुदयादित्यनुं चालु.....ल-स्तम्भं नर-वैद्यं
 कुमार-मण्डलिकं बुद्धर.....गेय्यलु श्रीमद्-भुवनैकमल्ल-देवरु भर
कवर्त्ति-नवीकृतमप्प वन्दणिके-य तीर्थ.....शान्ति-
 नाथ-देव.....त-नवीकार.....लाप्रवर्त्तन.....कालान्तरित-पु
नव.....द कम्पणं नागरखण्ड.....बाड.....
 शक-वष ९९६ रनेय आ.....द पुष्य-मासदुत्तरायण-संक्रमण.....
श्री-मूल-संधान्वय-क्राणूर-गण.....च्छद श्रीमद्भुभय-
 सिद्धान्त-वार्द्धि-चू.....प्प राम(परमा)नन्दि-सिद्धान्त-देवर
 शिष्यरु कुळ.....देवर कालं कर्द्धि सर्व्य-नमश्यं धारा-पूर्व्व.....
 ब्रशासनमुं शिला-शासनमुं माडि.....(हमेशाकं अनितम वाक्यावयव

और श्लोक).....तं रितोक्ति-सहितं.....खं मुखाब्ज-लसित
.....मतोदयं सद.....मदनेम्बिनं नेगब्द.....(हमेशाका
अन्तिम श्लोक) ।

[जिनशासनके कल्याणकी कामना । श्रीमद् मल्लके पुत्रद्वारा यह शासन (दान) कुलचन्द्र-देव-मुनिको मिला था । जिस समय (चालुक्य पदों सहित) भुवनैकमल्ल-देवका विजय-राज्य प्रवर्द्धमान था और वे बंका-पुरमें रहते थे:—तत्पादपद्मोपजीवी चालुक्य पेम्माडि भुवनैकवीर उदयादित्य शासन कर रहे थे:—भुवनैकमल्ल-देवने शान्तिनाथ-मन्दिरके लिये, (उक्त मितिको), मूलसंघान्वय तथा काणूर-गणके परमानन्द-सिद्धान्त-देवके शिष्य कुलचन्द्र-देवको नागरखण्डमें भूमिदान किया ।]

[EC, VII, Shikarpur tl., n° 221.]

२०८

बलगाम्बे—कन्नड़

[विना काल-निर्देशका, पर संभवतः लगभग १०७५ ई० ?]

[बलगाम्बेमें, चन्न-बसवप्पके खेतमें भग्न जिन-मूर्तिपर]

(नागरी अक्षर)

स्वस्ति श्री चित्रकूटाम्नायदावलि मालवद शान्तिनाथ-देव-
सम्बन्ध श्री-बलात्कार-गण मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवर शिसिनु अनन्त-
कीर्ति-देवरु हेग्गडे केसव-देवङ्गे धारा-पूर्वकं माडि कोटेवु प्रथिष्टे
पुण्य सान्ति (यहाँ दानकी विगत दी हुई है) ।

[बलात्कार-गणके, मालवके शान्ति-नाथ-देवसे सम्बन्धित चित्रकूटा-
म्नायके मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवके शिष्य अनन्तकीर्ति-देवने हेग्गडे केशव-
देवको दान दिया (यहाँ उसकी विगत है) ।]

[EC, VII, shikarpur tl., n° 134.]

२०९

कुप्पुद्रू—कण्ड

[शक ९९७=१०७५ ई०]

श्रीमज्जयत्यनेकान्त-वाद-सम्पादितोदयम् ।

निष्प्रत्यूह-नमपाकशासनं जिन-शासनम् ॥

पदिनात्कु.....आस्पृष्टमा- ।

दुदशेष-लोकमल्लिर्-पुद्दु मध्यम-.....एक-रज्जु-प्रमितम् ॥

आ-मध्यम-लोकद

.....नडुवण ।

पोम्बेइद तेङ्कलेसेव भरतावनि.....॥

.....बुजवदनेय कुन्तळ्व ।

एम्बन्ते सेदत्तु ललित..... ॥

कुन्तळ-भूतळके तोडवाडुदु तां वनवासि-देशमो- ।

रन्तेसेवग्रहार-पुर-पल्लिगळिन्दुरु-नन्दनाळियिन्- ।

दं तुरुगिर्द शाळि-वनदिन्दु..... ।

क्रान्त-विरोधियिर्दु वनवासियोळ्वय-राजधानियोळ् ॥

खस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वर वनवासि-पुर-
वरावीश्वर.....लब्ध-वर-प्रसादं कादम्ब-कुळ-कमळ-मार्त्तण्डने-
निसिद कीर्त्ति-देवन वंश-वीर्य-प्रभावमेन्तेन्दडे ॥

विनुतानन्द-जिन-व्रतीन्द्र-भगिनी..... ।

वन-जैनाङ्घ्रि-सरोज-भृङ्गनधिकाभ्यस्ताख-शाखं..... ।

.....नुतोर्वीज-तळ-प्रसूति-वर-वानप्रस्थ-तद्-योगि-पू- ।

जन-शीलं वनवासियागि.....इन्द्रोत्तमम् ॥

शासन-देवियि कुडिसि राज्यमना.....तद्-वनम् ।
 देशमदागि निर्मिसि नोसल्लिगडे पट्टमिदेन्दु पीलियम् ।
 बास्.....बल्लिका-विभुविङ्गवे नाममादुवुद्- ।
 भासि मय्.....वर्मनभिवन्द्य-कदम्ब-कुळं त्रिलोचनम् ॥
 नयदा **मयूरवर्मा**-न्वय.....अलर्च्चिदं कुवळयमम् ।
 जय-लक्ष्मी-रमणं.....जय-भुज-ब्रलनमळकीर्त्ति **कीर्त्ति-नृपाळ** ॥
 असम-वितरण.....स-भीमं **कीर्त्ति-देवनेम्बी-पेसरम्** ।
 वसुधे कुडे पडेदनेण्टुं-देसेयानेगे कीर्त्ति कीर्त्ति-मुख्यवादुदरिम् ॥
 किं कर्णः किं.....विज-पतिष् किं स्मरः किं विधाता
 दानी नूनं प्रतापी पृथु.....र-विभवश्चारु-रूपप् कला-वित् ।
 य.....यस्येति नित्यं वितरण-विजय.....न्दर्य-विद्या- ।
 वार्द्धिम् संस्तूयतेऽसौ सकळ-रिपु-कुलो.....नः **कीर्त्ति-देवः** ॥
 चळदिं साधिसि सप्त-कोङ्कणमनाटन्दिक्कि विद्धिष्ट-मण्-।
उव्वरा-वळयमड् केयूरमं पेतत् ।
 तळे.....दक्षिण-बाहु-दण्डदोलुदात्तं **कीर्त्ति-देवं** यशो-।
 मळ-मुक्ता-फळ्.....णोचित-लसद्-दिक्-कामिनी-सङ्कुळम् ॥

आ-**कीर्त्ति-देव**नग्रमहिषी ॥

परिवार-सुरभि जिनमत-। शरधि-सुधाकिरण-लेखे सुचरि* ।
 भरणेयेने नेगळ्द नृप- सौन्-। दरि **माळल-देवियेगेगे** राणिय-रेणेये ।
 पुरु-जिन-पति कुल-देव्यं । गुरु वेद्द*.....मुनि **कीर्त्ति-नृपेश्वरम्** ।
 आत्म-कान्तनेने वा-। पुरे **माळल-देवि-राणियेगेयाइ** स्सतियर् ॥
 सिरि गिरिजाते सीते रति भा.....रुक्मिणि-देवि रूप-सौन्द-
 रतेगे पेर्मेगुद्घ*.....कधिकं सुबगिङ्गे सत्कळा-

करतेगणं जिनेन्द्र-पद-भक्तिगे पासटि.....।
 सरि कलि-कीर्त्ति-देवन कुळाङ्गने माळल-देवि-राणियोळ् ॥
 मिळ्ळिर्च पताकेगळ् मकर-तोरण-मण्डलि मान-गाम्बमग्-।
 गळिसिरे.....चैत्य-गृहावळि लेक्किपङ्गे सङ्-।
 गलिपडे लक्केगं मिगिलशेष-जनं तणिवन्तु कोळ्व पू-।
 मळेयोळे नोम्प नोम्पि सतकोटिये मळळ.....॥

व ॥ आ-बनवासे नाडोळु ॥

बळेद सुगन्धि-शाळि-वनदिन्दोळगोप्पुव नारिकेळ-कान-।
 दळ-नव-पूग-नागलतिका-वनदिं परि.....ळदिम् ।
 वळयितमागि विप्र-सुर-चित्र-निकेतन-माळेयिन्दे कण्-।
 गोळिपुद् कुप्पटूर स्मकळ-विद्येगे तानेने जन्म-भूतलम् ॥
 नेगळ्दस्खिवळ.....ति-पुराण-कळा-बहु-तर्क-तन्न-पान-।
 रगरुचिताध्वरावभृथ-संस्त्रपनाति पवित्र-गात्रन-।
 ल्यगणित-मत्य-शौच.....तिथि-पूजन-देव-पूजेथिम् ।
 सोगयिप कुप्पटूर विभु-विप्ररिदेम् भुवन-प्रसिद्धरो ॥
 धरेगे चतुस्समय-समु ।.....शरणागतैक-रक्षामणिगळ् ।
 निरवद्य-चरितराज्ञान-। धररारी-कुप्पटूर सासिर्वरवोळ् ॥
 ब्रह्मैकश्वतुरा.....थ विबुधा देवाः कविर्भार्गवो
 येषामग्रत एव नान्य इति ये प्रस्तुत्य-विद्यार्णवाः ।
 उत्तङ्गाः कुळशैळवत्तरणिवत्तेजस्विनो वाङ्मिवत्
 गम्भीरा भुवि कुप्पटूर-विविभु-वरा विप्रा जयन्ति स्थिरम् ॥
 प्राणुतं बन्दणिका-सु.....कृत-सम्बन्धं जगक्केध्दे भू-।
 षण्मी-ब्रह्म-जिनालयं दलेने पेळ्दी-कुप्पटूरोळ् गुणो-

व्वने मुं मा.....दी-स्थलकदेडे-नाडोळ् चल्नु-वेतिर्द - सिडु ।

डणियं माळल-देवि तां विडिसिदळ् श्री-कीर्ति-भूपाळनिम् ॥

अन्ता-बन्दणिका-तीर्थादि-सकळ-चैल्यालयक्का-चार्य्यरुं मण्डळाचा-
र्य्यरुमेनिसिद पद्मनन्दि-सिद्धान्त-देवर गुरु-कु.....न्वय-प्रभावमेन्ते-
न्दोडे ॥

दुरित-कुलान्तकं चरम-तीर्थाकरं विभु वीरनाथनी- ।

धरे तिळिवन्तु हेयमिद.....समस्त-तत्त्वमम् ॥

परिविडियिन्दे पेळ्दु जनमं वर-मोक्ष-पथके तिर्दिं बित्- ।

तरिसिद मुक्ति-कान्तेय लताङ्गमनपिदनिन्द्र-वन्दि -॥

आ-नेगळ्दन्त्य-कश्यपनिनादुदु काश्यप-गोत्रमी-जनम् ।

ज्ञान-निधानना-जिनन सद्गण-नायकरप्रिमावधि- ।

ज्ञानिगळ्प गौतम-मुनि.....मु.....रे श्रुतकेवळ-प्रभा- ।

भानुगळ्प विष्णु-मुनि-मुख्यरुमा-पथमं निमिर्च्चिदर ॥

यतिगळ्वरिन्दे पल्यरुन् । अतीतत्रा.....वळिकमवतरिसि बहु-।

श्रुतनागियुं वळं वि- । श्रुतनादं भद्रबाहु-यतियिदुचित्रम् ॥

अवरिं वळिके ॥

श्रुत-पारगरनवघर् । चतुरङ्गुळ-चारणर्दि-सम्पन्नर् स्सं- ।

हृत-कु-मत-तत्त्वरेनिसिदर । अतर्क्य-गुण-जलधिकुण्डकुन्दाचार्य्यर् ॥

आ-क्रोण्डकुन्दान्वयदोल्लु ॥

श्री-कुण्डकुन्दान्वय-मूलसंघे क्राणूर्-गणे गळ्-सु-तित्रिणीके (य)

अम्भोनिधाविन्दुरिवोदपादि सिद्धान्ति-चक्रेश्वर-पद्मनन्दी ॥

शान्त-रसं पोन्ल्-वरिदु संयमवळ्ळि मडल्लु पर्थिब तो- ।

.....चराचर-व्रजमनात्म-वचोऽमृतदिं विनेयर ।
 खान्त-रजो-मळ तोळेदु पोय्तेने पेळ् बुध-पद्मनन्दि-सि- ।
 द्वान्तिक-चक्रवर्तियनदार पोगळ् गुण-शील-मूर्त्तियम् ॥

आ-प्रतिष्ठाचार्यरेनिसिद श्री-पद्मनन्दि-सिद्धान्ति-देवरिं सु-प्रति-
 ष्ठितमाद कुप्पटूर श्री-पार्श्वदेवर चैत्यालयमं पट्ट-मा-देवि माळल-
 देवि नेरेये माडिसि खस्ति यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-धारण-मौनानुष्ठान-
 जप-समाधि-शील-गुण-सम्पन्नरूप श्रीमदनादियप्रहारं कुप्पटूरशेष-महा-
 जनङ्गळं यथोक्त-विधिधिं पूजिसियवरिं ब्रह्म-जिनालयमेन्दु पेसरिड्डुयल्लिय
 कोटी वर-मूलस्थान-प्रमुख-पदिनेण्टु-स्थानदाचार्यरुं बेरसु वनवसेय
 मधुकेश्वर-देवराचार्यरं वरिसि पूजेयं कोडु जोग-वडिगेय-निकिसिया-
 महाजनङ्गळिगेय्यनूरु-होन्न कोडु स्त (स्थ) ल-वृत्ति (आगेकी ३ पंक्तियोंमें
 दानकी विस्तृत चर्चा है) शक-नृप-वर्षद ९९७ य पिङ्गल-संवत्सर
 दक्षय-तदिगेयमावासे-आदित्यवार-संक्रमण-व्यतीपातवोन्दिद
 दिनदोळु देवर नित्य-नैमित्त-पूजेगं ऋपियराहार-दानकवेन्दु पद्मनन्दि-
 सिद्धान्तिक-चक्रवर्त्तिगळ् कालं तोळेदु धारा-पूर्वकं माडि कोडुळु (हमेशा
 के अन्तिम वाक्याद्ययव) आरुवणव नमस्यवागि विट्टरु ॥ (हमेशाके
 अन्तिम श्लोक) वम्मरहरियण्ण हेळ्द शासन मङ्गळ महाश्री ॥

[मेरु पर्वत, भरत क्षेत्र, कुन्तल-देश, और वनवासिके उल्लेखपूर्वकः—
 कादम्ब-कुल-कमल-मार्त्तण्ड कीर्त्ति-देव राज्य करते थे, जिनका वंशावतार
 निम्न प्रकार हैः—मयूरवर्मा नामके एक राजा या युवराज थे। शासन-
 देवीकी कृपासे इनको राज्य मिला था, और एक वनको राज्यके रूपमें
 रूपान्तरित किया गया था। एक मयूरके पङ्क्तिका बनाया हुआ पट्ट उनके
 सिरपर रक्खा गया था, इसलिए उनका नाम मयूरवर्मा था। ये कदम्ब-
 कुलके अभिवन्ध थे। उन्हींकी साक्षात् सन्तान कीर्त्ति-देव थे; उनकी

प्रशंसा । उन्होंने सप्त कोंकणोंको, लीलामात्रमें ही वक्ष कर लिया था ।
उनकी ज्येष्ठ रानी माळल-देवी थी; उसकी प्रशंसा ।

उस बनवासे-नाइमें, (अनेक आकर्षणों सहित) कुप्पटूर था, जिसके हजार ब्राह्मण अपनी विद्या और भक्तिके लिये विख्यात थे । प्रसिद्ध बन्द-गिकेसे सम्बन्ध रखनेवाली चीजोंमेंसे कुप्पटूरका ब्रह्म-जिनालय सबसे भागे था; इसके लिये माळल-देवीने राजा कीर्तिसे सिद्धिणि, जो एडे-नाइमें सर्व-सुन्दर स्थान था, प्राप्त किया था ।

बन्दगिके तीर्थ तथा दूसरे चैत्यालयोंके मुख्य पुरोहित मण्डलाचार्य पञ्चनन्दिसिद्धान्तदेवके आध्यात्मिक वंशका अवतार-वर्णन:—भगवान वीरनाथ, गणधर गौतम (इन्द्रभूति) मुनि, तथा श्रुत-केवली विष्णुमुनि ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिन-मार्गका विशेष रूपसे विस्तार किया । उनके बाद कई मुनियोंके गुजर जानेके बाद भद्रबाहु यति हुए । उनके बाद, जैनपरम्परामें परिपूर्णरूपसे निष्णात, चार अङ्गुल ऊपर जमीनसे चलनेवाले (चारणऋद्धिधारक) कुन्दकुन्दाचार्य हुए । उसी कुन्दकुन्दान्वयमें मूल-संघ, काणूर-गण तथा तिच्चिणीक-गच्छके सिद्धान्ति-चक्रेश्वर पञ्चनन्दि हुए; उनकी प्रशंसा ।

उस पट्ट-महिषी माळल-देवीने कुप्पटूरके पार्श्व-देवचैत्यालयको उन पञ्चनन्दिसिद्धान्त देवसे सुसंस्कृत कराके और उसका नाम वहाँके ब्राह्मणों (जिनमें साधुओं-मुनियोंके गुण थे) से 'ब्रह्म जिनालय' रखवाकर कोटी-श्वर-मूलस्थान तथा वहाँके सभी अन्य १८ मन्दिरोंके पुरोहितोंके साथ, तथा बनवासि-मयुक्तेश्वरको भी बुलवा कर उनकी पूजा करके और उन्हें ५०० 'होबु' देकर, और उनसे (उक्त) भूमियाँ प्राप्त करके,—इन सबको तथा कीर्ति-देवसे प्राप्त सिद्धिणिवल्लिको (उक्त मितिको) प्राप्तकर, पञ्चनन्दि सिद्धान्त-चक्रवर्तिके पाद-प्रक्षाल-पूर्वक दैनिक पूजा और ऋषियोंके आहारके लिये दान कर दिया ।]

२१०

गुडिगेरी—कन्नड़—भग्न

[शक सं० ९९८=१०७६ ई०]

१ ँ ँ ँ लवर बसदि [म्] ॥ वृ ॥ सर ँ ँ ँ ँ ँ ँ
 ँ
 नय-मूकरनन्तदु माणो
 वाग्न— *

२ याकरनभयाकरं द्विज-दिवाकरन्- ँ ँ ँ ँ ँ ँ ँ
 भीकरं बुध-निशाकरनुद्धयशं प्रभाकरम् ॥ अन्तेनिसिद
 पेर्गडे

३ प्रभाकरय्यननुभवणोयलु ॥ ॐ स्वस्ति समस्त-भुवनवल्य-
 निलय-निरतिशय-केवलज्ञान-नेत्रतृतीय-विराजमान-
 भगवदहर्हत्सर्वज्ञवीतरागपरमेश्वरपरमभट्टारकमुखकमलविनिर्ग-
 तानेक-सदसदादिवस्तुस्वरूपनिरूपणप्रवीणसिद्धा-

५ न्तादि-समस्तशास्त्रामृतपारावारपारगरुमनेकतृपतिमकुटतटघटि-
 तमणिगणकिरणजलधाराधौतावद्रातपूतचर-

६ णारविन्दरुं बुधजनमनःपुण्डरीकवनमार्त्तण्डरुं षट्त्कपण्मुखरुं
 परमतपश्चरणनिरतरुं परवादिशरभभेरुण्डापर-

७ नामधेयरप्प श्रीमत् श्रीनन्दिपण्डितदेवराचार्यरागि तपो-
 राज्य-भोग्युत्तमिरे ॥ वृ ॥ जिनसमयागमाम्बुनिधिवारगरु-

८ प्रतपोनिवासिगळ् मनसिज-त्रैरिगळ् शम-दमाम्बुधिगळ् बुध-
 सज्जनस्तुतर्ब्विनतनरेन्द्ररुन्द्रमकुटार्चितपादपयोज-

९ युग्मरेभ्रिनितु महत्त्वदिं सिरियनन्दि-मुनीन्द्ररे देवुरुब्बि-
 योळ् ॥ अत्रर शिर्षितियर् ॥ शम-दम-यम-नियमयुतर्ब्वि-

- १० मल-चरित्रर् जिनेन्द्रधर्म्मोद्धरणक्रमनिरतरेलेले लोकोत्तमरेसेवष्टो-
पवासिगन्तियरेळ्योल् ॥ वृ ॥ अन्तवरेळु
- ११ मत्तरेने पण्डितरीये नमस्यमागि कल्पान्तदिनं वरं पडेदु पार्श्व-
जिनेश्वर-पूजेगं श्रुताख्यन्तसदान्नदान-
- १२ त्रिधिगं सले कोडरिदं नितान्तवोरन्तिरे रक्षिप[३] ष्वज-
तटाकद पन्नेरडुं-गवुण्डुगल् ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥
- १३ ॐ समस्तगुणसम्पन्ननप्प श्रीमत्सेनवोव सिङ्गणङ्गे ॥
अरुहने नम्बिद देय्वं गुरुगळु परवादि-शरभ-भेरुण्ड-
- १४ बुधर्प्पर-हितमे तनगे चरितं दोरे-वेत्तुदु सिङ्गनेम् कृतात्थनो
जगदोल् ॥ परमश्रीजैनधर्म्मकनवरतविशेषान्नदानक्रे
- १५ मुन्नं भरतं श्रेयांसनीगळु निजकुलतिलकं जैनधर्म्माब्धिचन्द्रं
स्फुरदुद्यत्तेजनत्युन्नतनमलयशं शिष्टरत्नाकरं-
- १६ वापपुरे सिङ्गं भव्यसेव्यं शुचि-शुभचरितं धात्रियोळु पुण्य-
पुञ्जम् ॥ कन्द ॥ परहितचरित्रननुपमवरगुणनिल-
- १७ यं प्रियम्बदं धर्मदनक्षरपक्षपाति यतिपति-सिरिणन्दिब्र(त्र)ति-
पदाब्जभृङ्गं सिङ्गम् ॥ अमलचरित्रं बुधहृत्क-
- १८ मलाकरदिनकरं कृतात्थं जैनक्रमनलिनेष्टं श्रीनन्दिमुनीन्द्रर
सेनवोवसिङ्गं धरेयोल् ॥ अन्तेनिसिद ॥ ॐ ॥
- १९ शकवर्ष ९९८ नेय नल-संवत्सरद श्राहेयोळु खस्ति
श्रीमत् परवादि-शरभभेरुण्डापरनामधेयरप्प
- २० श्रीनन्दिपण्डितदेवर्म्मुन्नं श्रीमत् चालुक्य-चक्रवर्त्तिविजया-
दित्यवल्लभानुजेयप्प श्रीमत् कुङ्कुम-महा-
बि० १८

- २१ देवि पुरिगेरेयलु माडिसिदानेसेजेय-वसदिगे ताम्र (ताम्र)
शासन-मर्यादेयिन्दाळव गुडिगेरेय भूमियोळगे प-
- २२ डुवण पोलनोत्तु-त्रोगिब्दडे कालदिय-नायिम्मरसंगे शासनमं
तोरि पडेद भूमियोळगे तम्म गुडुं सिङ्गयंगे कारु--
- २३ प्यदिं सर्व्वनमस्यमागि पदिनाल्लुकु मत्तरं दये-नोय्दु कोइदा-
यय्यना पदिनाल्लुकु मत्तरुमं ऋषियर्गे गुडि-
- २४ गेरेयोल् आहारदानं नडेवन्तागि विठनी केय्योल् पुट्टिदर्थ-
मन्निहियाहारदानकल्लदे पेरतोन्दु धम्मकं
- २५ पेरतोन्देडेगमुप्यलागदिन्ती मर्यादियनरसुं पण्डितरं पन्निर्व्व-
ग्गवुण्डुगल्लं धम्मवरिववरेल्ल-
- २६ रुडेयरागि परिरक्षे-नोय्दु स्वधम्मदि नडसुवुदु ॥ कन्द ॥
गुडिगेरेयोल् धम्मगळिगोडरिसुववरेल्ल
- २७ वोडेयरी धम्मं कावोडेयरेमोव्वरे तेनवेदुडुपति रवि जलधि धात्रि
निलुपनेवरं ॥ अन्तु सिङ्गणं विट्ट
- २८ केय्ये चतुस्सीमेयेन्तेने मूड वन्दि-गावुण्डन केयि तेङ्क पुल्लुङ्गर
वट्टे पडुव वमदिय केय्यु [म्]
- २९ नाकय्यन केयि बडग गावुण्डुगळ पसुगेय पोलनन्तु मत्तर्प-
दिनाल्लुकु ॥ मत्तमष्टोपवासि-कन्तियर
- ३० विट्ट केय्ये चतुस्सीमेयेन्तेने मूड बङ्गगेरिय केयि तेङ्क ग्रामचै-
त्यालयद केयि पडुव पेर्गडे
- ३१ प्रभाकरय्यन केयि बडग पुल्लुङ्गर वट्टेयन्तु मत्तरेल्लुमन्ति
येरडुं पर्यायद मत्तरिर्पत्तो

- ३२ न्दुमं प्रतिपालिसुत्रवर्गे वारणासि कुरुक्षेत्रं प्रयागेयर्घ्वतीर्थं
मोदलागि पुण्यतीर्थङ्गो-
- ३३ लु सूर्यप्रज्ञणद्रोळु भासिर कविलेयनलङ्कारमहितं चतुर्वेदपार-
गरप्प सासिर्व्वर्वाह-
- ३४ णर्गेयुभयमुखिगोऽ प(फ)ळमक्कुवी धर्ममनळियलु मनंदं-
दवर्गंधिन्ती पुण्यतीर्थङ्गोळु सासि-
- ३५ रकविलेयुम [म्] सासिर्व्वर्वाहणरुमनळिद पञ्चमहापातकनक्कु ॥
ॐ स्वस्ति श्रीमत् परवादि-शरभ-भे-
- ३६ रुण्डापरनामधेयरप्प श्रीनन्दिपण्डितदेवर्मत्तमा पडुववोल-
दोळ्ळो पन्निर्व्वर्गावुण्डुगळ्ळो दये-गेय्दुम्बळियागि
- ३७ कोऽ मत्तन्नूर पन्नोन्दु पेर्गडे प्रभाकरय्यन मग रुद्रय्यङ्गे दये-
गेय्दुम्बळियागि कोऽ मत्तर्पदि-
- ३८ नान्कु । सेनबोव हब्बण्णंगे दये-गेय्दुम्बळियागि कोऽ मत्त-
र्पदिनाल्कु भूकियर-कावण्णंगे दये-गेय्दुम्बळि-
- ३९ यागि कोऽ मत्तरेळु कन्तियर-नाकरय्यङ्गे दये-गेय्दुम्बळियागि
कोऽ मत्तर्वाल्कु कम्मवरुनूरु श्रीमद्भुवनै-
- ४० कमल्ल-शान्तिनाथ-देवर्गे सर्व्वनमस्यमागि पडेद मत्तरिर्पत्तु ॥
वहुभिर्व्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः य-
- ४१ स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा प(फ) लम् ॥ खदत्तां
परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् पष्टिर्व्वर्षसहस्रा-
- ४२ यां (णि) मि (वि) ष्टायां जायते कृमिः ॥

[प्रभाकर (पंक्ति २) या प्रभाकरय्य (पंक्ति, ३) नामके 'पेर्गडे'
की जगहपर काम करनेवाले एक अधिकारीके वर्णनके साथ यह लेख शुरू
होता है। उसके समयमें श्रीनन्दि पण्डितदेव (पं. ७) सिरियनन्दि

मुनीन्द्र (पं. ९), या सिरिणन्दि (पं. १७) नामके गुरु थे जो सर्व पदार्थोंके व्याख्यान करनेमें चतुर थे, जिनकी पदवी 'परवादि-शरभ-मेरुण्ड' (पं. ६) थी । जब ये आचार्य, श्रीनन्दिपण्डित, तपश्चर्यामें संलग्न थे, उनके शिष्य 'अष्टोपवासिगन्ति' (पं. १०), या अष्टोपवास-कन्ति (पं. २९) थे, जो जिनधर्मके उद्धार करनेमें बहुत प्रसन्न थे । और इनको श्रीनन्दि पण्डितसे सात 'मत्तर' भूमिका 'नमस्य' दान मिला था और इस दानका उपयोग ध्वजतटाक (पं० १२) (गौवके) १२ 'गवुण्ड' सरदारोंकी छत्रछायाके नीचे, पार्श्वजिनेश्वरकी पूजा तथा शाक लिखनेवालोंके भोजनके प्रबंधके लिये किया । इसके बाद लेखमें एक 'सेनबोव' या पटवारी सिङ्गण (पं. १३), सिङ्ग (पं. १४), या सिङ्गय्य (पं. २२) का उल्लेख आता है जो जिनधर्मभक्त था । यह सिङ्ग श्रीनन्दिका पटवारी था ।

इसके बाद कथन है कि अनल संवत्सर, जो व्यतीत शक सं. ९९८ था, की श्राही या आश्रहीमें श्रीनन्दिपण्डितको गुडिगेरीकी भूमिमें पश्चिम दिशाके खेतोंका अधिकार मिल गया था । ये खेत, एक ताम्रपत्रके अनुसार, उस आनेसेज्येय बसदिके जैनमन्दिरके अधिकारमें थे, जिसको श्रीमत् चालुष्यचक्रवर्ती विजयादित्यवल्हभकी छोटी बहिन कुङ्कुममहादेवीने पहले पुरिगेरीमें बनवाया था । श्रीनन्दि पण्डितने इन खेतोंमेंसे अपने शिष्य सिङ्गय्य (पं. २२) को, 'सर्वनमस्य' दानके तौर पर, १५ मत्तर भूमि दी । सिङ्गय्यने यह भूमि गुडिगेरीके मुनियोंके आहारके प्रबंधके लिये दे दी, और इस बातका ध्यान रखते हुए कि इसकी उत्पन्न इसी कार्यमें खर्च होती है, किसी दूसरे धर्म या कार्यमें खर्च नहीं होती, यह काम राजा, पण्डितों, १२ 'गवुण्ड' लोग, और शेष सभी धार्मिक लोगोंको (पं. २५) सौंप दिया । जबतक चन्द्र, सूर्य और समुद्र तथा पृथ्वी हैं तबतक यह दान जारी रहे, यह बात भी निगाहमें रखनेके लिये इन लोगोंको कहा । इसके पश्चात् इस भूमिकी सीमायें दी हुई हैं ।

उन्हीं पश्चिम दिशाके खेतोंमेंसे श्रीनन्दि पण्डितने, लगान-मुक्त जमीनके रूपमें, १२ गवुण्डोंको १११ मत्तर (पं. ३६); 'पेगंडे' प्रभाकरय्यके पुत्र रुद्रय्यको १५ मत्तर; सेनबोव हबण्णको १५ मत्तर (पं. ३८);

मूकियर-कावणको ७ मत्तर; कन्तियर-नाकर्यको ४ मत्तर और ६०० 'कम्म' (पं. ३९); और 'सर्वनमस्य'-दानके रूपमें श्रीमद्भुवनैकमल्ल शान्तिनाथदेवको २० मत्तर (पं. ४०) दिये । भुवनैकमल्ल शान्तिनाथदेव नामका मन्दिर 'भुवनैकमल्ल' विरुदवाले पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वितीयने बनबाया था या उसमें शान्तिनाथकी प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई थी ।]

[इ० ए०, १८, पृ० ३५-४०, नं० १७३]

२११

मथुरा—संस्कृत

सं० ११३४=१०७७ ई०

[पद्मासनस्थ तीर्थकरकी विशाल मूर्तिका लेख]

[इस मूर्तिका लेख साफ-साफपढ़नेमें नहीं आता । कुछ भाग पढ़ा जाता है, कुछ नहीं । परन्तु लेख सिर्फ दो पंक्तियोंका है । इस मूर्तिका लेख सिर्फ कालकी दृष्टिसे ध्यान देने योग्य है । डा० फूहरर (Dr. Führer) के मतसे यह लेख बताता है कि इस मूर्तिका निर्माण मथुराके श्वेताम्बर सम्प्रदायकी तरफसे हुआ था । शेष लेख नं० १६१ के अनुसार जानना ।]

[Antiquities of Mathura, (ASI, XX), p. 53, t.]

२१२

हुम्मच-कन्नड

[विना काल-निर्देशका; पर लगभग १०७७ ई० का]

[हुम्मचमें, सूले बस्तिके सामनेके मानस्वम्भपर]

(पश्चिम मुख) श्री-वीर-सान्तरन पिरिय-मंग तैलह-देवं भुजब-
लशान्तरनेन्दु पट्टमं कट्टिसि कोण्डु पट्टण-स्वामि माडिसिद तीर्थद-
बसदिगे बीजकन-बयलं विट्टन् (वे ही शापारमक वाक्यावयव)
स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-कल्याणाष्ट-महाप्रातिहार्य-चतुर्विंशदतिशय-

विराजमानं भगवद्दर्हत्-परमेश्वर-परम-भङ्गारक-मुख-कमळ-त्रिनिर्गत-सद-
सदादिवस्तु-स्वरूप-निरूपण-प्रवीणरुं सिद्धान्तामृत-वार्द्धि-वारुद्धौत-विशु-
द्धेद्ध-बुद्धि-समृद्धरुभय-सिद्धान्त- रत्नाकररूप श्रीमद्-दिवाकरनन्दि-सि-
द्धान्त-देवर गुह्य स्वस्त्यनेक-गुण-गणाभिमण्डनं नरवर-मुख-मण्डनं
शान्तर-राज्याभ्युदय-कारणं कलि-युग-दोष-निवारणं शान्तलि-देश-
कान्तारान्तर-जङ्गम-तीर्थं कलि-युग-पार्थं बोम्बुर्ष-कुलोद्भव-दिवाकरं
जिन-पाद-शेखरं आहाराभय-भैषज्य-शास्त्रदान-कानीनं विशद-यशो-
निधानं सम्यक्त्व-वाराशियुमप्य श्रीमत्पट्टण-स्वामि-नाकथ्य-सेट्टियर
वृत्त ॥ जिन तत्त्व व्याप्त-चित्तं जिन-मन-तिळकं जैन-कल्पपावनीजं ।

जिन-धर्माभ्योधि-चन्द्रं जिन-समय-सरोजाकरोत्तंस-हंसम् ।

जिन-राज-स्तोत्र-माळाविळ-मुख-कमलोद्भासि सिद्धान्त-रत्ना- ।

कर-देव-श्री-पदाम्भोरुह-मधुपनेनल् पट्टण-स्वामि सन्दम् ॥

(उत्तरमुख) गुणिगळ् सिद्धान्त-रत्नाकररमळ-चरित्रर्महा-योगि-वृन्दा- ।

प्रणिगळ् श्री-शान्तिनाथ-क्रम-कमळ-युगाराधकर् भारती-भू- ।

पणबुद्धर ज्ञानिगळ् देशिग-गण-तिळकर् जैन-सिद्धान्तचूडा- ।

मणिगळ् श्री-पट्टण-स्वामिगे गुरुगळेनल् नोकनन्तार कृतार्थर ॥

परम-श्री-जैन-धर्मकृतिशय-विभव मार्षे विद्वज्जनका- ।

दरदिन्दं सन्तोसं माडुव मुनि-जनकाहार-भैषज्यमं वि- ।

स्तरदिन्दं चिन्ते-गोखुजत-गुण-युतं पट्टण-स्वामि नोकम् ।

वरमारु बभ्यर्कळ् अन्ता पुरुष-रतुनदि बीर-देवं कृतार्थम् ॥

हरि-संघातदे कट्टु-पेत्त बडय-ज्वाळाळिथि बेन्द मी- ।

कर-पाठीन-तिमिङ्गिळाळियिनतिशोभके सन्दिब्दग- ।

स्वरिनपू-प्राशनकेय्दे वारदति-तीक्ष्ण-क्षार-वारि-प्रभं- ।

गुर-वाराशियोळन्तु पोलिपुदो पेळ् सम्यक्त्व-वाराशियम् ॥
 सिरिगावासमनेकरत्न-निचयोत्पत्त्याश्रयं भीरु-र- ।
 क्ष-रतं चन्द्र-कळा-प्रवर्द्धन-मुदं पीयूष-पिण्डास्पदम् ।
 वर-वेळा-वळ्यामृतं समतेयिं वारासि पोलतुं मनो- ।
 हर-दानत्वदिनेष्टे पोलदे वलं सम्यक्त्व-वाराशियम् ॥

पट्टण-स्वामिय मंगं मल्लं बरेदम् ।

(पूर्वमुख) जडरं बाळकरं बुध-प्रकरमुं तत्त्वार्थमं कलतघम् ।

किडे सम्यक्त्वमनेष्टि सप्त-परम-स्ता(स्था)नाप्तियं निश्चयम् ।

पडेयल् माडिदरोप्पे.....तत्त्वार्थसूत्रके क- ।

नडदि वृत्तियनेल्लिगं नेगळ्पिनं सिद्धान्त-रत्नाकरम् ॥

कन्तु-दर्प-हरं जिनं तनगाप्तनाब्दनवार्थ-वि- ।

क्रान्तनोळ्यालि वीर-शान्तरनम्मणं गुणि तन्दे दिग्- ।

दन्ति-वर्त्तित-कीर्त्तिगळ् गुरुगळ् दिवाकरणन्दि-सि- ।

द्धान्त-देवरेनल्के पट्टण-सामिनोकने सन्नुतम् ॥

स्नानं पञ्चामृताख्यं पट्टु-पटह-रणं श्लरी-शब्द-रम्यम्

पूजां पुष्पाभिरामं मळयज-पयसा लेपनं दिव्य-धूपम् ।

निव्यं कृत्या जिनानां सकल-जन-दया-जीव-रक्षान्न-दानम्

पोम्बुच्चार्हेत्-प्रतिष्ठा तत्र भवति परं लोक-विद्या-विवेकः ॥

दारिद्र्य-लोभ-मद-भय-नाशकरं एकमेव तत्क्षणतः ।

पञ्चाक्षरमिदं मन्त्रं **पट्टण-सामि** ते जप-विबुधम् ॥

पुसि नुडिव चपल-वित्तियोळ् ।

असदळमेसगुव पराङ्गना-सङ्गतिगा- ।

टिसुव तवगिल्लदोळ्पम् ।

पसरिप नररणम-नोक्कंनं पोल्तपरे ।

(दक्षिण मुख) चारु-चरित्ररी-दोरेयरारेनिपोळ्पिन चन्द्रकीर्ति-भ- ।

द्वारकरप्र-शिष्यरघ-हारिगळाहृत-तत्त्व-वस्तु-वि- ।

स्तारिगळङ्गजारिगळशेष-विशेष-गुणावली-मनो- ।

हारिगळेम्बिनं नेगळ्दरल्ते दिवाकरणन्दि-स्ररिगळ् ॥

वचन ॥ उभयसिद्धान्त-चूडामणिगळुं त्रैविद्य-दैवरुमेनिसिद श्री-दिवाकर-
णन्दि-सिद्धान्त-रत्नाकर-देवर शिष्यर् ॥

सकलचन्द्र-मुनि-नाथरुर्वरा- ।

सकलदोळ् परम-योग्यरेम्बुदम् ।

ककुभ-दन्तिगळ दन्तदोळ् करम् ।

प्रकटमाणे बरेदं पितामहम् ॥

वचन ॥ सम्यक्त्व-वाराशियुमेनिसिद पट्टण-स्वामिनोक्क्य्य-सेट्टियर
मगम् ॥

सुन्दर-रूपदिं विनयदिन्दभिमानदिनोळ्पिनिं जना- ।

नन्द-परोपकार-गुणदिं सुजनत्वदिनोजेयिं जगद्- ।

वन्दित-कीर्तिं पुण्य-निधिं तन्देयोळ्च्चिनोळोत्तिदन्ननेन्द- ।

अन्देले वैश्य-वंश-तिलकं नेगळ्दिदन्दिदरनेम् कृतात्थ्यनो ॥

[वीर-शान्तरके ज्येष्ठ पुत्र तैलह देवने, जो भुजबल-शान्तर नामसे मी
ज्ञात था, राजा होकर, पट्टण-स्वामिके द्वारा निर्मित तीर्थद-बसदिके लिखे
मन्दिरके दानके रूपमें, वीजकन-बयलका, दान किया । (शाप)

भगवदर्हत्के द्वारा प्रतिपादित सत्य और असत्यकी प्रकृतिके प्रतिपादन
करनेमें निपुण दिवाकरनन्दि सिद्धान्तदेव थे, जिनके गृहस्थ-शिष्य पट्टणा
स्वामी नोक्क्य्यसेट्टि थे । उनकी और उनके गुरुकी प्रशंसा । उसके द्वार-

वीरदेव भी सफल हैं । आगेके श्लोकोंमें उनकी समुद्रसे तुलना की गई है । पट्टण-स्वामीके पुत्र महने इसे लिखा ।

सिद्धान्त-रत्नाकरदिवाकरनन्दिने मूर्खों या बच्चों तथा विद्वानोंके सबके अथबोधार्थ कन्नडमें तत्त्वार्थसूत्रकी वृत्ति लिखी । पट्टणस्वामीके इष्ट देव जिन थे; उसके शासक वीर-ज्ञान्तर थे, उनके पिता अम्मण, गुरु दिवाकरनन्दि सिद्धान्तदेव थे । (जिनकी पूजाके लिये दैनिक सामग्री तथा लोगोंके कल्याणका वर्णन करनेके बाद),—नोककी प्रशंसा ।

चन्द्रकीर्ति-भट्टारकके मुख्य शिष्य दिवाकरनन्दिसूरिकी प्रशंसा । उन्हींका अपर नाम सिद्धान्त-रत्नाकर था । उनके शिष्य सकलचन्द्र-मुनिनाथ थे ।

पट्टण-स्वामीनोककट्य-सेष्टिके पुत्र वैश्य-वंश-तिलक इन्दरकी प्रशंसा ।]

[EC, VIII, Nagar tl., n° 57]

२१३

हुम्मच;—संस्कृत तथा कन्नड

[शक९९९=१०७७ ई०]

[हुम्मच में, पञ्चवस्तिके आँगनके एक पाषाणपर]

भद्रमस्तु जिन-शासनाय ॥

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

शक-वर्ष ९९९ नेय पिङ्गळ-संवत्सरं प्रवर्तिसुत्तमिरे स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर परम-भट्टारकं सत्याश्रय-कुळ-तिलकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल-देवर राज्यमुत्तरोत्तराभिष्टुद्धि-प्रवर्धमानमा-चन्द्रार्कतारं सलुत्तमिरे । तत्पाद-पद्मोपजीवि ॥ समधिगतपञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरनुत्तर-मधुराधीश्वरं पट्टिपोम्बुर्ष-पुर-वरेश्वरं महोग्र-वंश-ललामं पद्मावती-लब्धवर-प्रसादासादित-विपुळ-तुळापुरुष-महादान-हिरण्यगर्भ-त्रयाधिक-दान वानरध्वज

शुगराज-लाञ्छन-विराजितान्वयोत्पन्नं बहु-कला-सम्पन्नं सान्तर-कुल-कुमुदिनीशशांक-मयूखाङ्कुरं रिपु-मण्डलिक-पतङ्ग-दीपाङ्कुरं तोण्ड-मण्ड-लिक-कुळाचळ-वज्र-दण्डं विरुद-भेरुण्डं कन्दुकाचार्य्यं मन्दर-धर्य्यं कीर्त्ति-नारायणं सौर्य्य-पारायणं जिन-पादाराधकं पर-बल-साधकं सान्तरादित्यं सकळजन-स्तुत्यं नीति-शास्त्रज्ञं विरुद-सर्वज्ञं श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरं नन्नि-सान्तरदेव ॥

वृत्त ॥ चरण-विनम्ननागि तोदळेम्बिडि मुन्ने ललाट-पट्टदल् ॥

बरेद दुरक्षरावळिगळं तोळेदप्पुवु तामे निन्न सच्- ।

चरण-रजङ्गणेन्दोडुळिदर्निनगादारे देव मण्डळे- ।

श्वर-कळभैक-केसरि नरेन्द्र-शिखामणि नन्नि-सान्तरा ॥

प्रतिबिम्बं रूपिनोळ् पोल्केम गुणदोळदार पोल्तपर्निन्ननेम्बी- ।

स्तुतियं निश्चयिस् गोविन्दर बेसेयदिरेन्तेम्ब निन्नन्ते नोडु- ।

न्नतियोळ् हेमाचळं क्षान्तियोळवनि-तळं मेरेयोळ् वार्धि शौच- ।

व्रतदोळ् सिन्धूद्वयं सत्यदोळिन-तनेयं सौर्य्यदोळ् भीमसेनम् ॥

अन्तेनिसिद नन्नि-सान्तर-देवरन्वयमदेन्तेने । उत्तर-मधुराधीश्वरनु मुप्रवंशोद्भवनुमेनिसिद राहनेम्ब मण्डलेश्वरं कुरुक्षेत्रदोळ् भारतदल् कादि गेल्वडे नारायणं मेच्चि एक-संखमुमं वानर-ध्वजमुमं कोट्ट ॥ आतनि पलबरुं राज्यं गेष्टु पोगे । सहकारनातं नर-मांस-व्रतनागे आतङ्गं श्रिया-देविगं पुष्टिद जिनदत्तनातन चरितके पेसि दक्षिणाभि-मुखनागि बरुत सिंहरथनेम्बसुरनं कोन्दडे जकियब्बे मेच्चि सिंहलाञ्छनं कोट्ट ॥ अन्धकासुरनेम्बसुरन कोन्दु अन्धासुरमेन्दु माडिद । कनकपुरके वन्दळि कनकासुरनं कोन्द । कुन्दद कोटि-

योळिई करतुं करदूषणतुमं कादि योळिसिदडे पद्मावती-देवी मेच्चि
 कनकपुरं एनिसिद पोम्बुर्चद लोक्किय मरदल् नेलसि लोक्कियब्बेये-
 म्बेरडनेय पेसरं ताळ्ळिद पोम्बुर्चमातङ्गे राज्यस्थानमेन्दु पोळ्ळं माडिदल् ॥
 अळ्ळि जिनदत्तनुं पलवरुमरसु-गेय्दु सले श्री-केशियुं जयकेशियुमा-
 दरा-श्रीकेशिगं मुददि महादेविगं रणकेसि पुत्रनादनातनि पलवररसु-
 गेय्ये । हिरण्यगर्भमिर्दु महादानं माडियधियासद पलवररसुगळं
 कोन्दुं ओळिसियुं तेङ्क सूलद-होळे पडुव तवनसि बडगं बन्दगे मेरेयागे
 सान्तलिगे-सायिर-नाडुमुमनेकायत्तं माडि कन्दुकाचार्यनुं दान-
 विनोदनुं विक्रमसान्तरनुमेनिसिदम् । आतङ्गं वनवासियरसं काम-
 देवन मगळु लक्ष्मी-देविगं चागि-सान्तरं तनेयमादनातं चागिस-
 मुद्रमं माडिसिदन् । आतङ्गं (म्) आळ्वर नञ्जयन मगळेञ्जल-
 देविगं वीर-सान्तरं सुतनादन् । आतङ्गमदेयूर शान्ति-वर्मन सुते
 जाकल-देविगं कन्नर-सान्तरं तनूभवनादन् । आतनि किरिय काव-
 देवङ्गं वीर-वयल्लनाथन मगळु चन्दलदेविगं त्यागि-सान्तरनात्मजना-
 दन् । आतगं कदम्बर हरिवर्मनात्मजे नागल-देविगं नन्नि-सान्तरं
 तनूजनादम् । आतगं पलसिगे-नाडरिकेसरिय नन्दने सिरिया-देविगं
 राय-शान्तरं पुत्रनादन् । आतगमक्का-देविगं चिक्क-वीर-शान्तरं नन्दन
 नादन् । आतगं विज्जल-देविगं मम्मण-देवनात्मजनादन् । आतङ्गं
 होचल-देविगं मगळु वीरवरसियुं मगं तैल्पदेवतुं पुट्टिदर ॥ आ-वीरल-
 देवि बङ्कियाळ्वरङ्गे महादेवियादल् । या-बङ्कियाळ्वरनि किरिय माङ्क-
 ळ्वरसियुं गङ्गवंश-तिलकं पालय-देवन सुते केळेयव्वरसियुं तैल्प-
 देवङ्गे वल्लभेयरादरळ्ळि मादेवि-केळयव्वरसिगे ।

वृ ॥ वर-लक्ष्मी-लक्ष्मणं सान्तर-कुल-तिळकं सूर्य-तेजःप्रभावं ।
 पर-नारी-दूरमावर्जित-गुण-निळयं वैरि-कालानलं मन्- ।
 दर-धैर्यं नीति-पारायणनमळ-लसत्-कीर्ति-मूर्त्ती-वितानम् ।
 धरेयं कायल् समर्थं सुरपति-विभवं पुष्टिदं बीर-देवम् ॥

क ॥ धुरदोळसि-लतेयनुच्चिदोड् ।

अरि-नृप-युवतियर मुगुळ कङ्कणदा-कौल् ।

तरतरदिनुच्चिदवु निज- ।

कर-खड्गमवर्के कीले शान्तर-नृपति ॥

बीरुगन दोरेगे दोरे पेरर् ।

आरुं बन्दपरे कृत-युगं त्रेता-द्वा- ।

पार-कलि-युगदोळगण बी- ।

ररुदारर् प्रतापिगळ् धर्म-परर् ॥

आतननुजर जगद्वि- ।

ख्यातर् श्री-सिङ्गि-देवनुं रिपु-बळ-निर्- ।

ग्घातनेने बर्म-देवनुम् ।

आतत-कीर्त्ति-वितानरवनी-तळदोळ् ॥

व ॥ अन्तेनिसिद बीर-देवङ्गे काडव-मादेवियेनिसिद चट्टल-देवियि
 किरिय बीरल-मादेविथं विवाहोत्सवदिं कूडेया-वीर-मादेवियु नोळम्ब
 नारसिंग-देवन सुते विजल-देवियुमाळवर मगळचलदेवियु कुल-
 वधुगळवरोळो वीर-महादेवियन्वय-क्रममदेन्तेने ॥ स्वस्ति समस्त-भुव-
 नाधीश्वरेक्ष्वाकु-कुल-गगन-ग भस्तिमालिनीपराक्रमाक्रान्त-कन्याकुब्जा-
 धीश्वर-शिरो-विलम्ब-निशित-शिळीमुख पांथिव-पार्थस् समर-केली-धनञ्जयो
 धनञ्जयः तद्-वल्लभा गान्धारी-देवी तत्सुतो हरिश्चन्द्रस्तदग्र-महिषी

रोहिणी-देवी तत्सुतौ राम-लक्ष्मणौ तौ दडिग-माधवापर-नामवेयौ
तदन्वयो गङ्गान्वयः ॥

कं ॥ माधवन जय-श्री-रा- ।
मा-धवन भुजावलेपमं बणिणसला- ।
माधवनु त्रि-भुवनदोलु- ।
माधवतुं नेरेयरुळिदवर् नेरेदपरे ॥
आ-नृपनप्रजनातन- ।
मानुष-शौर्यावलेप-मत्स्य-महीधृत्- ।
सेनेगे नेट्टने कौरव- ।
सेनेयनाटङ्कु बडिद दडिगं दडिग ॥

व ॥ आतन नन्दनं किरिय-माधवं माधन-पराक्रमनेनिसि नेगळे ॥
क ॥ तत्-तनयं हरिवर्म्मनु- ।
पात्त-नयं विष्णुगोपनातन सुतनु- ।
द्वृत्त-रिपु-नृपति-सैन्यो- ।
न्मत्त-द्विप-सिंहना-नृ-सिंहन तनयम् ॥

व ॥ अन्ततिबळ-पराक्रमं तडङ्गाल-माधवनातनात्मजर् ॥
क ॥ अविनीत-रिपु-बळाटविग् ।
अविनीतरमोधमेनिसि विस्मयमुग्रा- ।
हवदोळ-विनीतरेनिसिदर् ।
अवनियोळविनीत-दुर्व्विनीत-नरेन्द्रर् ॥

वसुधेगे रावण-प्रतिमनेम्ब नेगर्त्तैय काडुवेड्डियम् ।
विससन-रङ्गदोळ् पिडिदु तन्न तनूजेय पुत्रनं प्रति-
श्रिसि जयसिंह-वल्लभननन्वय-राज्यदोळुर्व्वियोळ् विगुर-

विसिदनिदेनगुब्बों निज-दोर्-बळदुअतिदुर्विनीतन ॥

व ॥ अन्तातानिं मुष्करनति-मुष्करनागि राज्य गेब्ये तन्-नन्दनम् ॥

क ॥ ताविय तडि-बरेगं धर-

णी-वळयमनाब्दु बाहु-विक्रमदिम् ।

श्रीविक्रम-भूविक्रम-

भूवल्लभरधिक-कीर्त्ति-वल्लभरादर् ॥

व ॥ अन्तातननुज नृप-कामं गज-दाननं अर्थिगित्तुचागियेम्ब
पेसर पडेदनातन मम्मं श्रीपुरुषं श्रीवल्लभनेनिपन्वर्थ-नाममं ताब्दि
गज-शास्त्र-कर्तृवेनिसि ॥

वृ ॥ शात्रव-सङ्कुळ-प्रळय-भैरवनेम्ब यशं पोदब्दु लो-

क-त्रय-मध्यदोळ परेये बीरद कश्चिय काडुवेट्टियम् ।

चित्रविदं चिळदेयोळसुगोळे कादि तदीय-पल्लव-

च्छत्रमनिर्दुकोण्डु मेरेदं भुज-गर्वमना-महीभुज ॥

क ॥ आ-नृप-चूडामणि काञ्-

ची-नाथन कब्योळिर्दुकोण्डं गड पेर्- ।

म्मानडियेम्बी-पेतरुमन् ।

एनेम्बुदो गङ्ग-नृपर शौथ्योन्नतियम् ॥

व ॥ अन्तु वीरमार्त्तण्ड-देवनेनिसिदातन मगं शिवमार-देवं
सैगोडुनेम्बेरडनेय पेसरं ताळिऽ सिवमार-मतमेन्दु गज-शास्त्रमं माडि
मत्तम् ॥

कं ॥ एवेळबुदो शिवमार-म- ।

ही-वळयाधिपन सुभग-कविता-गुणमं ।

भू-वळयदोळ गजाष्टक ।

भोवनिगेयुमोनके-वाडुमादुदे पेळ्गु ॥

वृ ॥ विजयादित्य-नरेन्द्रनातननुजं तन्नन्दनं चागि भू- ।

भुजरोल् मिक्केरेगङ्ग-नातन मगं श्री-राजमल्लं तदा- ।

त्मजनातं मरुळं तदीय-तनेयं श्री-बूतुंग तत्-सुतम् ।

विजिगीषुत्वमनाळ्दु निन्देरेयपं ताना-महेन्द्रान्तकम् ॥

क ॥ एनिप भुवनैकवीरन ।

तनयं नरसिंगनवने बीर-वेडेङ्गम् ।

मनुजपति राजमल्लाड्- ।

कनातर्नि किरियनवने कच्चेय-गङ्गम् ॥

व ॥ अन्तातङ्गनुजनुं सकळ-शास्त्रज्ञानुमेनिप बूदुग-वेर्मानडि
कृष्ण-राजङ्गे भावनेनिसि ॥

वृ ॥ तानिरदन्दु कोन्दपुदु मण्डलमं पेररोल् समानमेम्बु ।

ई-नुडि वेड कोळकोडेगे बल्लहनातन सञ्चिवारदुद्- ।

दानिगे रायनापेडेगे चोळनिवर् दोरेयेन्दोडिन्न भू ।

तो न भविष्यमेन्नदवरारळवं जगदुत्तरङ्गन ॥

त्रि ॥ जाहवि साक्षी मध्याहार्क-सम-कोप- ।

वहि लल्लयन अळूरे बूतगं राज्य- ।

चिह्नम-तदन्तुळिगङ्गे ॥

अकर ॥ बलवं पेळवडे धाल्लियोळ् कोण्डना-चित्रकूटमुमेळुमाळवम- ।
तलेयं कोण्डना-रायतम्मनं दहळेयं कोण्डनन्तोन्दे मेथ्योळ् पलवुं कलाळ-
नेल्लियुं निरिसिदं गङ्ग-मालवमेन्दु पेसरनिडुकलियपेळेन्दोडेयम्ब कलिय-
निन्तचलित-गङ्गनं पोल्वनावम् ॥

क ॥ रेवक निम्मडिगं वि- ।

व ॥ आतनिं किरिय वासव-महीमुजङ्गं त्रैलोक्यमल्लनेनिसिदाह-
वमल्लदेवन मावनय्यण रेवरसन ताप् साधि निम्मडियिं किरियकञ्चल-
देविगं पुट्टिद गोविन्दरदेव ॥

क ॥ निरवद्य-चरितनन्वय- ।

धुरन्धरं सत्यवाक्य निर्व्वर-गण्डम् ।

परचक्र-कर्कशं ग- ।

ण्डरमूकुति गण्ड-दल्लळं नृप-तिळकम् ॥

वृ ॥ वसुधालंकारनारोहकर मोगद कै वल्कणि ब्रह्मनुग्रा- ।

रि-समूहोत्साह-शक्ति-प्रलय-कर-करामीळ-खळ्ळं यशश्री-

प्रसर-प्रच्छन्न-दिड्मण्डलनधिक-बळं गङ्ग-नारायणं र- ।

कस-गङ्गं गङ्ग-चूडामणि निरूप (नृप)-तिळकं वीर-मार्त्तण्डदेव ॥

क ॥ तळियं दाटुव करियम् ।

घळिलेने पिडिदुगिये निज-शिरं पेचकमम् ।

कळिदुदु करि-सिरमुरमम् ।

पळिलेने तागिदुदु कदन-कण्ठीरवन ॥

आतननुजं जगद्-वि- ।

ख्यातं कोमरङ्ग-मीमनरुमुळि-देवम् ।

नीतिज्ञनधिक-तेजन- ।

राति-बळ-प्रलय-काळनाहव-धीरम् ॥

व ॥ अन्तातङ्गे कदम्ब-मयूरवर्मनात्मजे जाकल-देविगं पञ्चल-
देवङ्गम् पुट्टिद सान्तिवब्बरसिगं गुडिय-दडिगेगे पट्टं गट्टि राज्यं
गेविसदनन्वयद बलवर्म-देविगं पुट्टिद-बल-देविगं सहस्रबाहु-प्रतापतुं

व ॥ आतनि विरिय वासव-महीभुजङ्ग त्रैलोक्यमण्डनेमितिहा-
वमल्लदेवन भावनप्यण रेवरसन तात् साधि विम्मडि वि विरियकञ्जल-
देविगं पुष्टिद गोविन्दरदेव ॥

क ॥ निरवच-चरितनन्वय- ।

धुन्वरं सत्यवाक्य निर्वर-गण्डम् ।

परचक्र-कक्षशं ग- ।

पडरभूकृति गण्ड-दल्लुं नृप-तिलकम् ॥

वृ ॥ वसुधालंकारनारोहकर मोमद कै बल्कणि ब्रह्मनुग्रा- ।

रि-समूहोसाह-शक्ति-प्रलय-कत-करामीळ-खळ्वां यशश्री-

प्रसर-प्रच्छन्न-दिङ्मण्डलनधिक-बलं गङ्ग-नारायणं २- ।

कस-गङ्गं गङ्ग-चूडामणि निरुप (नृप)-तिलकं वीर-मार्चण्डदेव ॥

क ॥ तंळियं दाटुव करियम् ।

घळिलेने छिडिदुगिये निज-शिरं पेचकमम् ।

कळिदुदु करि-सिरमुरमम् ।

पळिलेने तागिदुदु कदन-कण्ठीरवन ॥

आतननुजं जगद्-वि- ।

ख्यातं कोमरङ्क-मीमनरुमुक्ति-देवम् ।

नीतिज्ञनधिक-तेजन- ।

राति-बळ-प्रलय-काळनाह्व-धीरम् ॥

व ॥ अन्तातङ्गे कदम्ब-मयूरवर्मनात्मजे जाकल-देविगं पञ्चल-
देवङ्गम् पुष्टिद सान्तियब्बरसिगं गुडिय-दडिगैर्गे घट्टं गट्टि राज्यं
गेभिसदनन्वयद बलवर्म-देवगं पुष्टिदकल-देविगं सहस्रबाहु-भ्रतापनुं

मही-हय-वंशोद्भवन्तु ज्योतिष्मती-पुरवरेश्वरन्तु मध्य-देशाधिपतियुं एनिसि-
दय्यण-चन्द्रसङ्गं पुट्टिद गावम्बरसिगं अरुमुळि-देवङ्गम् ॥

क ॥ सरसतियुं सिरियुं दिन- ।

करन्तुं पुट्टिद्वैवेम्बिनं चट्टलेयुम् ।

वर-वधु कञ्चलेयुं सत्- ।

पुरुषोत्तमनेनिप राज-विद्याधरनुम् ॥

पुट्टे तनगन्दु राज्यद ।

पट्टं कै-सार्हुदन्दु रकस-गङ्गम् ।

निट्टिसि तन्नरमनेयोळ् ।

नेट्टेने तन्दिरिसिदं महोत्सवदिन्दम् ॥

व ॥ अन्तु सुखादिं बळेयुत्तिर्द कन्या-रत्नङ्गळिञ्चरिं पिरिय-चट्टल-
देवियं तोण्डे-नाडु नाल्वत्तेण्णसिरकधिपतियुं कञ्ची-नाथनुवीश्वर-वर-
प्रसादन्तु वृषभ-लाञ्छननुमेनिसिद काडुवेट्टिगे रकस-गङ्ग-पेम्मानडि
विवाहोत्सवमं माडि चट्टल-देविगे काडव-महादेवि-वट्टमं कट्टि सुखदि
निरिसिदन् । आ-वीर-देवङ्गं कञ्चल-देवियेनिसियुं वेरट्टनेय पेसरं
ताळिद वीर-महादेविगम् ॥

क ॥ दसरथन तनयरन्दमन् ।

एसेदिरे पोळ्तिर्द तैलन्तुं गोगिगनुम् ।

कुसुमाखनेनिसिदोडुग- ।

वसुधेसनुमन्तु बर्म्मन्तुं तनयरवर ॥

पुट्टलोडमात्म-गृहदोळ् ।

पुट्टिदुदैश्वर्यमोळ्पुमार्युं कूर्पुम् ।

नेड्नरि-नृपर गृहदोळ् ।

पुट्टिदुवुत्पात-भीति चेतो-विकळम् ॥

व ॥ अन्ता-कुमार सुखदि बळेयुत्तिरे यवरोळप्रजं तैलप-देव-
नसहायसिंहनेनिसियुं तन्न बाहा-बळमे चतुरङ्ग-बळमागे दाधिगरुमनाट-
विकरुमं राज्य-कण्टकरुमं निःकण्टकं माडि तन्न दोर्बळ-विक्रमदि सान्तर-
वट्टमनवट्टिस भुजबळ-शान्तरनेनिसि सुखदि राज्यं गेय्द ॥

भुजबळ-शान्तर-नृपतिय ।

भुजबळदळवुं प्रतापमुं शौर्यतेयुम् ।

विजिगीषु-वृत्तियुं निज- ।

विजयमुमी-लोकदोळगे भुम्मुकमेनिकुम् ॥

अन्तातननुज गोविन्दर-देवम् ॥

गोविन्दरन पराक्रमम् ।

आवगमवु तन्नोळेय्दे तोरिरे धरेयं ।

काव पर-नृपरनळ्करे ।

सोव महा-गुणमे तनगे निज-गुणमेनिकुम् ॥

वृ ॥ देव समुद्र-मुद्रित-वसुन्धरेयोळ् नृपरादरेल्लरम् ।

भाविसि कण्डेनान्त रिपु-सन्ततियं नेलेगोड्डु पोपिनम् ।

सोव बुधाळिगार्त्तु पिरिदीव शरण्-बुगे काव सद्-गुणक् ।

आवनो निन्नवोळ् नेरेद मण्डलिकर् कलि-नभि-शान्तर ॥

पिरिदेत्तं मेरुगं सागरमे जगदोळा-मेरुगं सागरक्कम् ।

धरणी-चक्रं करं भाविसुवडे पिरिदा-मेरुगं सागरक्कम् ।

धरणी-चक्रक्कमाशालिये कडुविरिदा-मेरुगं सागरक्कम् ।

धरणी-चक्रक्कमाशालिगमेले पिरियं शान्तरादित्य-देव ॥

ख्यातियनेनं पेळ्वुदो ।
 वृतुग-वेर्माडि पडेद महिमोन्नतियम् ।
 भूतळदोळ् शान्तरनुप- ।
 मातीतं चक्रि कुडल पडेदनमोघ ॥
 अर्द्ध-पथमिदिर्गे वोन्दु तद्
 अर्द्धासनमेनिप लोह-विष्टरदोळ् सम्- ।
 वर्द्धित-शान्तरनेनिप ध- ।
 नुद्धरनं चक्रवर्त्ति निलिसिदनेसेयल् ॥

व ॥ इन्तेनिसिदुन्नतियं ताळ्दि तन्न मण्डळदोळगण राज्य-कण्टकरं
 निष्कण्टकं माडि तनगे नन्निये निज-गुणमण्य कारणदि नन्नि-शान्तरने-
 म्ब पड्डमं ताळ्दि पळ-कालदि परायत्तमाद भूमियं स्वायत्तं माडि जग-
 देक-दानियेनिसि लोकदर्थि-जनके पिरिदन्तिु सम्यक्त्वरत्ताकरनुं
 जिन-पादाराधकनुमेनिसियुमेळ्हा-समयगळं स्व-धर्मदि नडयिसुतुं परा-
 ङ्गना-सहोदरनेनिसि वीरदोळं वितरणशोळं धर्मदोळं शौचदोळं लोकदोळ्
 पेररिलेनिसि नडेदु बन्धु-जनमुमं स्व-देशमुमं रक्षिसि चड्डल-देवियुं
 कुमारर ओद्दमरसनुं बर्म-देवनुं तामु पोम्बुर्चदोळ् सुखदि राज्यं
 गेय्युत्तमिर्द्दु धर्मं प्रागेव चिन्तेदेम्ब वाक्यार्थमुमं भाविसियरुमुळि-देवङ्गं
 गावब्बरसिगं वीरल-देविगं राजादित्य-देवङ्गं परोक्ष-विनयमं माडले-
 न्दुवर्वा-तिलकमेनिसिद पञ्च-वसदियं मार्प्युद्योगमनेतिकोण्डु ॥

कं ॥ 'श्रीविजय-देवरुप्र-त- ।

पो-विभवर् ग्गुरुगळखिळ-शाखागम-सं- ।

भावितरेनिसल् चड्डल- ।

देविये कृत-पुण्यवन्ते विश्वम्भरेयोळ् ॥

वृ ॥ जनकं रक्स-गङ्ग-भूमिपति काञ्चीनाथनात्म-प्रियम्
 विनुतर् श्री-विजयर् सुशिक्षकरेनल् विद्विष्ट-भूपाळ-सं- ।
 हण-विक्रान्त-यशो-विलास-भुज-खड्गोलासि तां गोग्गि-
 नन्दनना-चड्डल-देविगेन्दोडे यशश्रीगिन्तु मुन्नोन्तरार् ॥

क ॥ केरे भावि बसदि देगुलम् ।

अरवण्टगे तीर्त्य शत्रमारवे-मोदलाग् ।

अरिकेय धर्मादिगळम् ।

नेरे माडिसि नोन्तलेसेके चड्डल-देवि ॥

उत्तुंग-प्रासादमन् ।

उत्तर-मधुरेशनष्प गोग्गिय ताय् लो- ।

कोत्तरमेने माडिसिदळ् ।

वित्तरदि पञ्च-कूट-जिन-मन्दिरमम् ॥

देसेयागसमेम्बेरडुमन् ।

असदळमेध्दिद्वेम्बिनं पोस-गेरेयम् ।

बसदियुमं माडिसि तन्न ।

एसमं शान्तरन ताय् निमिर्च्चिदळेत्त ॥

वृ ॥ इन्तु समस्त-दान-गुणदुन्नतिगं पेररारो मुन्नमेम् ।

नोन्तवरेम्बिनं नेगर्द चड्डल-देवि चतुस्-समुद्र-प- ।

र्थन्तमनेक-विप्र-मुनि-सन्ततिगन्न-हिरण्य-वस्त्रमम् ।

सन्ततमित्तु शान्तरन ताय् पडेदळ् पिरिदष्प कीर्त्तिय ॥

व ॥ अन्तु पोगर्त्तेंगं नेगर्त्तेंगं नेलेयेनिसि चड्डल-देवियुं नन्न-शान्तरनु
 बोडेय-देवर गुड्डगळष्प-कारणादिं श्रीमत-तियङ्गुडिय निडुम्बरे-ती-
 र्थदरुङ्गळान्वयद सम्बन्धद नन्दिगणाधीश्वररेनिसिद श्रीविजय-भ-

ड्वारकर नामोच्चारणदिं शुभ-करण-तिथि-मुहूर्त्तदलवर शिष्यर् श्रेयांस-
पण्डितरुर्वी-तिळकमेनिसिद पञ्च-वसदिगुन्नतमपेडेयल् करुवेनिसे केसर्क-
छिक्किदरवराचार्यावळियदेन्तेने । श्री-वर्द्धमान-स्वामिगळ तीर्थ प्रवर्त्तिसे
गौतमर् गगन(ण)धररेने त्रि-ज्ञानिगळप्प मुनिगळ् सले यवरीं चतुरङ्कुळ-
ऋद्धि-प्राप्तरेनिसिद कोण्डकुन्दाचार्यरिं केलव-कालं पोगे भद्रबाहु-
स्वामिगळिन्दित्त कलिकाल-वर्त्तनेरियं गण-भेदं पुट्टिदुदवर अन्वय-क्रमदिं
कलि-कालगणधरं शास्त्र-कर्तुगळुमेनिसिद समन्तभद्र-स्वामिगळवर
शिष्य-सन्तानं शिवकोट्याचार्यरवरिं वरदत्ताचार्यरवरिं तत्त्वार्थ-
सूत्रकर्तुगळेनिसिदार्य-देवरवरिं गङ्ग-राज्यमं माडिद सिंहनद्या-
चार्यरवरिन्देकसन्धि-सुमति-भट्टारकरवरिम् ।

वृ ॥ राजन् बुद्धोप्यबुद्धस्सुरगुरुरगुरुः पूरणोऽपूरणेच्छः

स्थाणुः स्थाणुस्त्वजोजोर्विरविरळघुर्माधवो माधवस्तु ।

व्यासोप्यव्यास-युक्तः कणभुगकणभुग् वागवागेव देवी

स्याद्वादामोघ-जिह्वे मयि विशति सति मण्डपं वादिसिंहे ॥

व ॥ एनिसिदकलङ्क-देवरवरिं वज्रणनद्याचार्यरवरिं पूज्यपाद-
स्वामिगळवरिं श्रीपाल-भट्टारकरवरिं अभिनन्दनाचार्यरवरिं कवि-
परमेष्ठिस्वामिगळवरिं त्रैविद्यदेवरवरिनकळङ्क-सूत्रके वृत्तियं बरेदनन्त-
वीर्यं भट्टारकरवरिं कुमारसेन-देवरवरिं मौनि-देवरवरिं विमळचन्द्र-
भट्टारकरवरशिष्यर् ॥

क ॥ आदित्यन केलदोळ् चन्- ।

द्रोदयमेसेयदवोली-धरा-मण्डलदोळ् ।

वादिगळेम्बी-रुण्टुक- ।

वाडिगळेसेदपरे वादिराजन केलदोळ् ॥

व ॥ अन्तेनिसि राय-राचमल्ल-देवङ्गे गुरुगळेनिसिद कनकसेन-
भट्टारकरवर शिष्यर् शब्दानुशासनके प्रक्रियेयेन्दु रूपसिद्धियं माडिद
दयापालदेवरं पुष्पषेण-सिद्धान्त-देवरुम् ॥

वृ ॥ अळवे दिग्-दन्ति-दन्तं वरमेसेदुदु सद्-गद्य-पद्योक्तिविद्या-
बलवे सर्वज्ञ-कल्पं विरुदनुळिवुदिन्नन्य-वादीन्द्रनिं चा-
त्रळिसल् वेडोहो पत्रं गुडदिरेदळळिर् बेन्द्रपं पेळ्वोडिन्निन् ।
अळवल्लं वादिराजं पर-मत-कुभृत् आभीळ-वाग्-वज्र-पातम् ॥

व ॥ इन्तेनिसिद पट्-तर्क-पण्मुखनुं जंगदेकमल्ल-वादियुमेनिसिद
वादिराज-देवरं ॥ रक्कस-गङ्ग-पेर्मानडिगळ चड्डल-देविय बीरदेवन
ननि-शान्तरन गुरुगळेनिसिद ॥

व ॥ यद्विद्या-तपसोः प्रशस्तमुभयं श्री-हेमसेने मुनौ
प्रा.....चिराभियोग-विधिना नीतं परामुन्नतिम् ।
प्रायश्श्रीविजयेश-देव सकलं तत्राधिकायां स्थिते
संक्रान्ते कथमन्यथा.....दृक् तपः ॥
शाखं बुधानामुपसेव्.....
यं दातुकामं यत एव दाता ।
ततोपि हि श्रीविजयेति-नाम्ना
पारेण वा पण्डित-पारिजातः ॥

व ॥ एनिसिद श्री-विजय-भट्टारकरुमवर शिष्यर् चोळ्.....
शान्तादेवर गुणसेन-देवर दयापाल-देवर कमळभद्र-देवरजितसे-
नपण्डित-देवर श्रेयांस-पण्डितरन्तवरायुर्बर्ची-तिळकमेनिसिद पञ्चकूट-
वसदिय शक-वर्ष ९१९ नेय पिङ्गळ-संवत्सरद जेष्ठ शुद्ध-बिदिगे-
बृहस्पतिवारदन्दु प्रतिष्ठेयं माडिया-वसदिय खण्डस्फुटित-जीर्णोद्धारण-

कमलिर्द्ध ऋषि-समुदायदाहार-दानकं पूजा-विधानकामागे नञ्जि-सान्तर-
देवनुमोहमरसतुं बम्म-देवतुं चट्टल-देवियुमाचार्य्यं कमळ-
मद्र-देवर कालं कर्त्वि धारा-पूर्वकमासम्बन्धिय समुदाय-मुख्यमागे
माडि कोट्ट प्रा..... (यहाँ दान और सीमाओंकी विस्तृत चर्चा है ।)

[जिन-शासनकी प्रशंसा । (उक्त मितिको), जब (हमेशाके चालुक्य पदों सहित) त्रिभुवनमल्लदेवका राज्य सब ओर प्रवर्द्धमान था—
त्तरपादपद्मोपजीवी, महामण्डलेश्वर, उत्तर-मधुराधीश्वर, पट्टिपोम्बुर्च-पुर-
वशेश्वर, महोद्ग-वंशललाम, जिसने पद्मावती-देवीके प्रसादसे 'तुलापुरुष,'
'महादान,' और 'हिरण्यगर्भ' ये तीन दान पूरे किये थे, सान्तर-कुल-कुमु-
दिनीके लिये प्रदीप्त किरणोंवाला चन्द्रमा, जिनपादाराधक, सान्तरादित्य,
नीतिशास्त्रज्ञ,—महामण्डलेश्वर नञ्जि-सान्तर-देव था । इसकी प्रशंसा ।
नञ्जि-सान्तर-देवकी वंश-परम्परा इसप्रकार थी:—

उत्तर-मधुराका अधीश, उद्ग-वंशोत्पन्न राह राजा था, जो [महा]
भारतके युद्धमें कुरुक्षेत्रमें लड़ा था और जीतनेपर जिसे नारायणने प्रसन्न
होकर एक शंख और वानर-ध्वज दिया था । इसके बाद बहुत-से राजा
हुए, उन सबके बाद,—एक सहकार नामका राजा हुआ, जो अन्तमें नर-
मांस-भक्षी हो गया । उससे और श्रियादेवीसे जिनदत्त उत्पन्न हुआ, जो
अपने पिताके आचरणसे ग्लानि-प्राप्त होकर दक्षिणमें आया और जिसके
सिंहस्थ नामके असुरके मारनेसे जङ्कियब्बे (देवी) प्रसन्न हुईं और प्रसन्न
होकर उसने उसे सिंहका लाल्छन (मुद्रा) दिया । अन्धकासुर नामके
असुरको मारनेसे उसने अन्धासुर नामका नगर बसाया । कनकपुरमें आकर
उसने कनकासुरका वध किया; तथा कुन्दके किलेमें रहनेवाले कर और
करदूषणके भगा देनेसे पद्मावती देवी प्रसन्न हुईं और प्रसन्न होकर उसने
वहाँ कनकपुरमें, जो कि पोम्बुर्च (हुम्मच) का ही नामान्तर है, एक
'लोक्यि' वृक्षपर वास करना शुरू किया तथा लोकियब्बेका नाम धारणकर
उसके लिये एक राजधानीके रूपमें शहर बसा दिया । जिनदत्त तथा दूसरे
और भी राजाओंके राज्य करनेके बाद श्रीकेसि और जयकेसि हुए । श्रीकेसि

और उसकी रानीसे रणकेशी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद अनेकोंके शासन करनेके बाद हिरण्यगर्भ हुआ, जिसने 'महादान' नामका दान किया और जिसने सान्तलिगे-हजार-नाइका एक सिद्ध राज्य स्थापित किया,—इससे वह कन्दुकाचार्य, दान-विनोद, विक्रम-सान्तर, इन तीन नामोंसे प्रसिद्ध हुआ। उस और लक्ष्मीदेवीसे चांगि-सान्तर उत्पन्न हुआ, जिसने चांगि-समुद्रका निर्माण कराया। उस और जाकल-देवीसे कञ्जर-सान्तर उत्पन्न हुआ। उसके छोटे भाई काव-देव और चन्दल देवीसे त्यागिसान्तरने जन्म लिया। उस और नागल-देवीसे नखि-सान्तरका जन्म हुआ। उस और सिरिया-देवीसे राय-सान्तरने जन्म धारण किया। उस और अक्का-देवीका पुत्र चिक्क-वीर-सान्तर हुआ। उस और विज्जलदेवीका पुत्र अम्मण-देव हुआ। उस और होचल-देवीसे एक पुत्री बीरबरसि तथा एक पुत्र तैलप-देव हुआ। वह बीरल-देवी बङ्कियाळवकी रानी हो गई। उस बङ्कियाळवकी छोटी बहिन माङ्कळबरसि, और गङ्गवंशललाम पाळय-देवकी पुत्री केलय-बरसि तैलपदेवकी पत्नियाँ हो गईं। इनमेंसे, मादेवि केलयबरसिके बीर-देव उत्पन्न हुआ। उसकी प्रशंसा। उसके छोटे भाई विश्व-विख्यात सिङ्गि-देव और बर्म-देव थे। उस बीरदेवसे जब काडवकी रानी चट्टल-देवीकी छोटी बहिन बीरल-मादेवीसे विवाह हो गया, तब उसके बीर-मादेवी, बिज्जल-देवी और अचल-देवी ये तीन स्त्रियाँ और थीं। इनमेंसे, बीर-महा-देवीकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं।

इक्ष्वाकु कुलके सूर्य, कान्यकुब्ज (कन्नौज) के अभीश्वर धनञ्जय नामके राजा थे, जिनकी पत्नी गान्धारी-देवी थी। उनका पुत्र हरिश्चन्द्र हुआ, जिनकी ज्येष्ठ रानी रोहिणी देवी थी। उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण थे, जिनके अपर नाम दडिग और माधव थे। उनका वंश गङ्ग-वंश था। माधवकी प्रशंसा। उसके बड़े भाई दडिगकी प्रशंसा। माधवका पुत्र किरिय-माधव;

उसका	पुत्र	हरिवर्म;
”	”	विष्णुगोप;
”	”	तडङ्गालमाधव;

”	”	अविनीत;
”	”	दुर्विनीत;
”	”	मुष्कर
”	”	श्रीविक्रम
”	”	भूविक्रम

उसका छोटा भाई राजा काम (या नृप-काम) था जिसने एक अर्थी (याचक) को गजका दान दिया था और इस कारणसे 'चागि'का नाम प्राप्त किया था ।

उस नृप-कामका प्रपौत्र श्रीपुरुव था, इसका 'श्रीवल्लभ' अन्वर्थक नाम प्रसिद्ध था तथा यह गज-शासकका प्रणेता था । इसने विळर्दे (या चिवर्दे) की लड़ाईमें काञ्चीके युद्धप्रिय राजा काडुवेट्टिसे उसका पल्लव-छत्र छीन लिया था तथा उसके हाथसे 'वेर्मानडि' का नाम भी छीन लिया था । तब उसका पुत्र शिवमार-देव (सैगोट्ट) हुआ, वह वीरमार्तण्ड-देव नामसे भी प्रसिद्ध था । उसने 'शिवमारमत' नामसे एक गज-शासकका भी प्रणयन किया था । राजा विजयादित्य उसका छोटा भाई था । उसका पुत्र प्रेयङ्ग था । उसका पुत्र राजमल्ल; उसका पुत्र मरुल्ल; उसका पुत्र बूतुग; उसका पुत्र प्रेयप; उसका पुत्र नरसिंग; उसके तीन नाम और भी प्रसिद्ध थे— वीर वेडेग, मनुजपति तथा राजमल्ल । उसका (नरसिंगका) छोटा भाई कञ्जिय-गङ्ग था । उसका छोटा भाई बूतुग-वेर्मानडि था । यह कृष्ण-राजाकी बहिनका पति था । उसके पराक्रमकी प्रशंसा । इसका ज्येष्ठ पुत्र मरुल्ल-देव था । उसका छोटा भाई मारसिंह देव था । इसका छोटा भाई राजमल्ल देव था, जिसे नोलम्बकुलान्तक, पल्लव-मल्ल, और गुत्तिय-गङ्ग भी कहते थे । इसकी प्रशंसा । उसका छोटा भाई नीति-मार्ग था । उसके छोटे भाई राजा वासव और कञ्जल-देवीसे गोविन्दर-देव उत्पन्न हुआ था । उसके पराक्रमकी प्रशंसा । उसका छोटा भाई अरुमुळि-देव था ।

अरुमुळि-देव और गावम्बरसिसे चट्टल, कञ्जल और राजविद्याधर उत्पन्न हुए थे । इनमेंसे चट्टल-देवी की शादी काडुवेट्टिसे,—जो तोण्डे-नाड् ४८००० का शासक तथा काञ्चीका अधिपति था—कर दी थी । कञ्जल

देवी, (जिसका दूसरा नाम वीर-महादेवी था) और वीर-देवसे ये पुत्र उत्पन्न हुए—तैल, गोगिग, राजा ओङ्गुग, और बम्म ।

इनमेंसे ज्येष्ठ पुत्र तैलप-देवने अपने भुज-बलसे शान्तरका मुकुट प्राप्त किया और भुजबल शान्तरके नामसे शान्तिसे राज्य किया । उसका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया था । उसका छोटा भाई गोविन्दर-देव था । इसका अपर-नाम नञ्जि-शान्तर था । नञ्जि-शान्तरके नामसे ही इसने मुकुट धारण किया था । वह जिन-पादाराधक था, तथा चट्टल-देवि और राजकुमार ओङ्गुरस और बम्म देवके साथ शान्तिसे राज्य करता हुआ पोम्बुर्बमें था ।

चट्टल-देवीने अरुमुळि-देव, गावंबरसि, वीरल देवी और राजादित्य-देवकी स्वर्गयात्राके स्मारकके उपलक्ष्यमें उर्वी-तिलक नामसे प्रसिद्ध पञ्चवसदिके बनानेका काम अपने हाथमें लिया ।

सर्व शास्त्रों और आगमोंमें पारङ्गत होनेसे सम्मानित, तपस्वी श्रीविजय-देव चट्टल-देवीके गुरु थे । उसका पिता राजा रङ्कसंग था । काञ्ची-अधिपति (काडुवेट्टि) उसका पति था । गोगिग उसका पुत्र था । तालाब, कुआँ, बसदि, मन्दिर, नाली, पवित्र स्नानागार, श (स) त्र, कुअ इत्यादि प्रसिद्ध धर्म एवं पुण्यके कार्योंको चट्टल-देवीने सम्पन्न किया था ।

उत्तर-मथुराके अधिपति गोरिगकी माँने बहुत उत्सुकतासे दुनियामें अग्रगण्य स्थान प्राप्त करनेवाले पञ्चकूट जिनमन्दिरको बनवाया । क्षितिज और आकाश दोनोंसे बात करनेवाले ऐसे एक नये तालाब और मन्दिरका उसने निर्माण किया । इस तरह शान्तरकी माँ प्रसिद्ध चट्टलदेवीने बहुत यश प्राप्त किया ।

श्रीविजय-भट्टारक तियङ्गुळिके निटुम्बरे-तीर्थके अरुङ्गळान्वयके नन्दि-गणके अध्यक्ष थे । इनके गृहस्थ-शिष्य चट्टल-देवी और नञ्जि शान्तर थे । किसी शुभदिन, उनके शिष्य श्रेयान्सपण्डितने पञ्च-बसदिके नींवका पत्थर डाला ।

श्रेयांसके आचार्योंकी परम्पराका वर्णनः—वर्द्धमान-स्वामीके तीर्थमें त्रिकालज्ञ गौतम-गणधर हुए । उनके बाद कोण्डकुन्दाचार्य हुए, जो जमीनसे चार इञ्च ऊँचे चलते थे । कुछ समय बाद भद्रबाहु-स्वामी हुए, जिनके

बाद कलि-कालका अवतार (उत्पत्ति) हुआ और विभिन्न गणोंकी उत्पत्ति हुई ।

उनमेंसे कलिकालगणधर, शास्त्र-प्रणेता समन्तभद्र-स्वामी हुए । उनकी शिष्य-परम्परामें शिवकोट्याचार्य हुए; उनके बाद वरदत्ताचार्य; उनके बाद तत्त्वार्थसूत्रके प्रणेता आर्य-देव; उनके बाद सिंहनन्दाचार्य जो गङ्गा-राज्यके स्थापक थे । उनके बाद एकसन्धि सुमति-भट्टारक हुए । इसके बाद अकलङ्क-देव (वादिर्सिंह) हुए । पुनः क्रमशः वज्रनन्दाचार्य, पूज्यपाद-स्वामी, श्रीपाल-भट्टारक; पुनः अभिनन्दनाचार्य; कवि परमेष्ठि-स्वामी; त्रैविद्य देव; अनन्तवीर्य भट्टारक, जिन्होंने अकलङ्क-सूत्रकी वृत्ति लिखी थी । इनके बाद कुमारसेन-देव; उनके बाद मौनि देव; उनके बाद विमलचन्द्र-भट्टारक; उनके शिष्य कनकसेन-भट्टारक थे जो राजा राजमल्लके गुरु थे । उनके शिष्य थे दयापाल जिन्होंने 'शब्दानुशासन' की 'प्रक्रिया' रूप-सिद्धि लिखी है—तथा पुष्पसेन-सिद्धान्त-देव । वादिराज-देव 'षट्-तर्क-षण्मुख,' 'जगदेकमल्ल-वादी' थे । श्रीविजय-देव रक्षस-गङ्गा-पेर्मान्डि, चट्टल-देवि, बीर-देव तथा नक्षि-शान्तरके गुरु थे । विद्वानोंको वे शास्त्र देते थे तथा जो शास्त्रका महत्त्व नहीं समझते थे उन्हें उनका महत्त्व समझाते थे, इसी कारणसे उनका नाम श्रीविजय था तथा उन्हें 'पण्डित-पारिजात' भी कहते थे ।

उपर्युक्त श्रीविजय-भट्टारक और उनके शिष्य चोल्लट..., शान्त-देव, गुणसेन-देव, दयापाल-देव, कमलभद्र देव, अजितसेन-पण्डित-देव तथा श्रेयान्स-पण्डित-देव । इनने (उक्त मितिको) उर्वी-तिलक नामसे प्रसिद्ध पञ्चकूट-बसदिकी स्थापना की । बसदिकी मरम्मत, ऋषि-वर्गके आहार तथा पूजाके प्रबन्धके लिये, नक्षि-शान्तरदेव, ओङ्कमरस, बम्म-देव, तथा चट्टल-देवीने,—आचार्य कमलभद्र-देवके पाद-प्रक्षालन-पूर्वक (उक्त) गौं दिये ।

शेष भाग बहुत बिसा हुआ है ।]

२१४

हुम्मच—संस्कृत तथा कन्नड

[शक ९९९=१०७७ ई०]

[हुम्मचमें, तोरण-बागिलके दक्षिणी खम्भेपर]

(पूर्वमुख) श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

('स्रस्ति' से लेकर पाँचवी पंक्तिके 'महा-मण्डलेश्वरं' तक का लेख पूर्वके शि० ले० नं० २१३ की पंक्ति १ से ६ तक से मिलता है ।)

एलगे चेन्नने बीरुगं वपुविनि भावोद्भवं तक्कनेन्त् ।

एलगे वीरने वीरुगं विरुदिनिं मीमोपमं बाप्पु मत्त् ।

एलगे दानिये वीरुगं पिरियना-कर्णाख्यनिन्दक्कुमेन्त् ।

एलगे बीरल-देवि नोन्तळवनोळ् कूडिर्पि सौभाग्यमम् ॥

अन्तेनिसिद् बीर-शान्तर-देवगं बीरल-महादेविगं ॥

दशरथन तनेयरन्दमन् ।

एशेदिरे पोत्तिर्द तैलनुं गोगिगगनुम् ।

कुसुमाखनेनिसु वोडुग-

वसुघेशानुमन्तु बोम्मनुं तनयरदाइ ॥

अवरोळप्रजनराति-सैन्य-शोषण-बाडवानळनुमाश्रित-कल्प-वृक्षनु-
मेनिसि परायत्तमाद देशमं तनगेकायत्तं माडि सान्तर-वट्टमं ताळ्दि ।

निज-भुज-बळदिन्दरि-भू- ।

भुजरं कोन्दोत्तिकोण्डु देशमनन्ता- ।

विजिगीषु तैल-भूपम् ।

भुजबळ-शान्तरनेनिष्प पेसरं पडेदम् ॥

आतननुजं गोविन्दर-देवननेक-राज्य-कण्टकरं निष्कण्टकं माडि

सम्यक्त्व-चूडामणियुं जगदेक-दानियुं एनिसि सान्तळिगे-सायिरमुमनेक-
छत्र-च्छायेयिन्दमाळ्दु नक्षि-सान्तरनेम्बेरडनेय पेसरं पडेदम् ॥

(दक्षिणमुख) ख्यातियनेनं पेळ्दुशे ।

ब्रूतुग-पेर्माडि पडेद महिमोन्नतियम् ।

भूनळदोळ् शान्तरनुप- ।

मातीतं चक्रि कुडल् पडेदनमोत्र ॥

अर्द्ध-पथमिदिर्गे वन्दु त- ।

दर्द्धासनमेनिप लोह-विष्टरदोळ् सं- ।

वर्द्धित-सान्तरनेनिप ध- ।

नुर्द्धरनं चक्रवर्त्ति निलिसिदनेसेयल् ॥

अन्तातन तम्मनोडुगनशेष-धरा-वळयमं कर-वळयमं ताळ्दुवन्ते
लीलेयिं ताळ्दि विक्रम-सान्तरनेम्ब पेसरं पडेद ॥

खस्ति श्री-लसदुप्र-वंश-तिलकः श्री-वीर-देवात्मजः

दृप्यद्-वैरि-निकाय-दर्ष्य-दळन-प्रादुर्भवद्-विक्रमः ।

सम्पूर्णैन्दु-करावदात-सु-यशो-व्यालिस-दिक्-भित्तिकः

श्रीमान् विक्रम-शान्तरो विजयते लक्ष्मी-वधू-वल्लभः ॥

आतननुज ॥

पर-नरप-शिरः-कुञ्जो- ।

त्कर-करि-कमळा-पयोधर-द्वय-हारम् ।

स्मर-मूर्त्ति निखिळ-दिग्-मुख- ।

परिचुम्बित-कीर्ति बर्म्म-देव कुमार ॥

अन्तेनिसिदवर तायि ॥

जनकं रक्स-गङ्ग-भूमिपति काञ्ची-नाथनात्म-प्रियम् ।

विनुत् श्रीविजय सु-सि (शि) क्षकरेनल् विद्विष्ट-भूपाळंन-
हन-विक्रान्त-यशो-विळास-भुज-खळ्गोळासि तां गौगि नन् ।
दनना-चड्डल-देविगेन्दोडे यशश्रीगिन्तु मुन्नोन्तरार ॥

अन्तु समस्त-गुण-सन्दोहकं धर्मकं जन्म-भूमियेनिसिद चड्डल-देविद्युं
भुजबळ-शान्तर-देवनुं नन्नि-शान्तर-देवनुं विक्रम-शान्तर-देवनुं
बर्म-देवनुं पोम्बुचर्चदोळ् सुखदिं राज्यं गेय्युत्तमिहुं धर्मं प्रागेव
चिन्तेदेम्ब वाक्यार्थमं भाविसि तमगे श्रेयो-निबन्धनार्थं उर्वी-तिळक-
मेनिसिद पञ्च-वसदियं मार्षुद्योगमनेत्ति कोण्डु तामेळर मोडेयदेवर गुड्ड
गळ्प कारणदिन्द द्रविळ-संधद नन्दि-गणदरुङ्गुळान्वयद श्रीविजय-
देवर नामोच्चारणं गेय्दवर शिष्यरु श्रेयान्स-पण्डितरिन्दुर्वी-तिळक-
मेनिसिद पञ्च-वसदिगे सु(शु)भ-मुहूर्तदोळाचन्द्रार्क-स्थायियप्पन्तुन्नत-
मप्येडेयोळ् केसर्कळ्ळिसिदरु अवराचार्यावळियेन्तेने । श्री-चर्द्धमान-
स्वामिगळ तीर्थं प्रवर्त्तिसे सप्तर्द्धिसम्पन्नरप्प गौतमर् गगणधरने
त्रिज्ञानिगळ्प मुनिगळ् पलंबरं सले अवरिं चतुरङ्गुळ-ऋद्धि-प्राप्तरेनिसिद
कोण्डकुन्दाचार्यं श्रुतकेवळिगळेनिसिद भद्रबाहुस्वामिगळ् मोद-
लागि पलम्बराचार्यर् पोदिम्बळियं समन्तभद्र-स्वामिगळुदयिसिदरवर-
न्वयदोळ् गङ्ग-राज्यमं माडिद सिंहनन्याचार्यरवरिं अकलङ्कदेवरवरिं
रायराचमल्लन गुरुगळ्प वादिराज-देवरेनिसिद कनकसेन-देवरुमवर-
शिष्यरोडेय-देवरं रूपसिद्धियं माडिद दयापाळ-देवरं पुष्पसेन-
सिद्धान्त-देवरं पट्ट-तर्क-षण्मुखरं जगदेकमल्ल-वादियुमेनिसिद वादि-
राज-देवरवरिं कमळभद्र-देवरवरिम्

एकास्यः चतुराननो गणपतिर्त्रैभाननो भारती

न स्त्री सर्व्व-कलाधरोऽशशधरः कामान्तको नेश्वरः ।

विद्यानां परिनिष्ठित-क्षिति-तलं तन्मूळमाळम्बनम्

चित्ते तेऽजितसेन-देव विदुषां वृत्तं विचित्रीयते ॥

अन्तेनिसिद शब्द-चतुर्मुखं तार्किक-चक्रवर्तियुं वादीभसिंह-
नुमेनिसिदजितसेन-देवर सह-धर्मिगळ

दुरित-कुळ-प्रध्वंसं ।

स्मर-माद्यत्-कुम्भि-कुम्भदलन-मृगेन्द्रम् ।

वर-वाग्-वनिता-कान्तम् ।

धरेयोळ् नेगर्ही-कुमारसेन-देव-मुनीन्द्रम् ॥

अन्तेनिसिद कुमारसेन-देवरिं वैद्य-गज-केसरियेनिसिद श्रेयान्स-देव-
रन्तवरायुर्वी-तिळकमेनिसिद पञ्च-वसदियना- शक-वर्षद९९९नेय
पिङ्गळ-संवत्सरद ज्येष्ठ-शुद्ध-बिदिगे-बृहस्पतिवारदन्दु प्रतिष्ठेयं
माडिया-वसदिय खण्ड-स्फुटित-जीर्णोद्धारणकमल्लिर्द ऋषि-समुदाय-
दाहार-दानकं पूजा-विधानकमागे समस्त-गुण-मणि-गणविराजमाने-
यरप्प श्रीमतु-चट्टल-देवियरुमन्तु तम्मं नाल्वरुमिर्हु कमळभद्र-देवर
कालं कच्चिं धारा-पूर्वकमासम्बन्धिय समुदाय-मुख्यमागे भुजवळशान्त-
रदेवं कोट्ट प्रामङ्गळ् (जैसाकि कहा गया है) मत्तमातननुजं नञ्चि-
शान्तर-देवं सुखदिं राज्यं गेय्युत्तमिर्हु पोम्बुर्च्च-नाडोळ्गण हादिगारु
अदर कालहळ्ळि हळवनहळ्ळियुं बिडेयुमं कोट्ट अन्तातन तम्मं विक्रम
शान्तर-देवं राज्यं गेय्युत्तमिर्हु पोम्बुर्च्च-नाडोळ्गण हालन्दूरुं कळूरु-नाडोळ्-
गण केरेगोड समीपद मडम्बळ्ळियुमं कोट्टरिन्ती-वसदिय वृत्ति-एल्लवळ्ळं
देवि-देरे अडे-गर्बु काणिके सेसे बिर्हु बीय-मोदलागे कुमार-गद्याणं किरु-
देरे किरु-कुलायं साम्यं सलगे मोदलागि पेरवुं तेरेगळेम्ब सर्व्व-बाधा-
परिहारवं माडिदर । (यहाँ सीमाएँ तथा हमेशाके अन्तिम वाक्यावयव
आते हैं) ।

[जिनशासनकी प्रशंसा । जिस समय, (उन्हीं चालुक्य पदों सहित), त्रिभुवनमल्ल-देवका विजयी राज्य चारों ओर प्रवर्द्धमान था—और तत्प्रादप-गोपजीवी (ऊपरके शिलालेख नं० २१३ में जो उपाधियाँ नक्षि-शान्तरकी हैं, उन्हींके सहित) महामण्डलेश्वर वीरुग या वीर शान्तर-देव था । उसकी प्रशंसा । उसकी रानी वीरल-महादेवी थी । उनके चार लड़के—तैल, गोविगक, ओडुग, और बम्म—थे । इनमेंसे तैलका नाम भुजबल-शान्तर, गोविगक या गोविन्दर-देवका नक्षि शान्तर तथा ओडुगका विक्रम-शान्तर प्रसिद्ध हुआ । सबसे छोटे भाईका नाम कुमार बम्म-देव ही रहा । इनकी माँ चट्टल-देवी (वीरल महादेवी) थी । उसके पिता राजा रक्स-गङ्ग, पति काञ्ची-अधिपति, गुरु श्रीविजय, और पुत्र गोविग (नक्षि-शान्तर) थे ।

इस प्रकार, जिस समय सब धार्मिक गुणों और पवित्रताकी जन्मभूमि चट्टलदेवी, भुजबल-शान्तर-देव, नक्षि-शान्तर-देव, विक्रम-शान्तर-देव और बम्मदेव पोम्बुच्चमें थे और शान्तिसे राज्य कर रहे थे 'धर्म सर्व प्रथम चिन्तनीय है', इसका खयाल करके, धर्म उपाजन करनेके लिये, उन्होंने 'उर्वा तिलक' नामकी पञ्च वसदिके निर्माणका कार्य अपने हाथमें लिया । ये सब ओडेय-देवके (श्रेयांस-पण्डितके शब्दोंमें जो श्रीविजय-देवका नामान्तर है) गृहस्थशिष्य थे । उन सबने किसी शुभ दिन पञ्चवसदिकी नींव डाली ।

श्रेयान्सदेवके आचार्योंकी परम्परा—वर्द्धमान स्वामीके तीर्थमें गौतम गणधर हुए । उनके पश्चात् बहुतसे त्रिकालज्ञ मुनियोंके होनेके बाद क्रमशः कोण्डकुन्दाचार्य, 'श्रुतकवली' भद्रबाहु स्वामी, बहुत-से आचार्योंके न्यतीत होनेके बाद, समन्तभद्र स्वामी, सिंहनन्दाचार्य, अकलङ्क-देव, कनकसेन देव (जो वादिराज नामसे भी प्रसिद्ध थे), ओडेयदेव (श्रीविजयदेव जिनका ऊपर नाम दिया है), दयापाल, पुष्पसेन सिद्धान्तदेव, वादिराज-देव (जो 'षट्-तर्क-षण्मुख' तथा 'जगदेकमल्ल-वादि' नामसे भी प्रसिद्ध थे), कमलभद्र-देव, अजितसेन देव (प्रशंसासहित) हुए । और अजितसेन-देवके सहधर्म शब्द-चतुर्मुख, तार्किक-चक्रवर्ती वादी भर्तृहरि हुए । तत्पश्चात् कुमारसेनदेव मुनीन्द्र । इनके बाद श्रेयान्सदेव हुए ।

(उक्त मितिको) पञ्चवसदिकी नीव डालकर, चट्टल-देवी और चारों बाइयोंकी उपस्थितिमें, कमलमद्भदेवके पैर धोकर, भुजबल-शान्तर-देवने (जैसा कि ऊपर कहा गया है) गाँव और भूमियाँ दीं। इसीतरह उसके छोटे भाई नखि-शान्तर देवने तथा इसके छोटे भाई विक्रम शान्तरदेवने (जैसा कि लेखमें बताया गया है) गाँव और भूमियाँ दानमें दीं और उसके इन दानोंको (जिसकी सूची लेख में दी हुई है) उन्होंने सभी करोंसे मुक्त कर दिया। सीमायें, शाप और आशीर्षचन।]

[EC, VIII, Nagar th., n° 36]

२१५

हुम्मच—संस्कृत तथा कन्नड

[बिना काल-निर्देशका; पर लगभग १०७७ ई० का]

[हुम्मचमें, मानस्तम्भके ऊपर, दक्षिणकी तरफ]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

नमो अर्हते ॥

स्वस्ति-श्री-रमणी-विनोद-भवनं यस्योद्ध(द्व)वक्षः-स्थलम्

वाग्-देवी-वनिता-विळास-निळयो यस्याननाम्भोरुहम् ।

वीर-श्री-युवतेरभूत् कुञ्ज-गृहं यद्-ब्राह्म-दण्ड-द्वयम्

यत्कीर्त्तिरशरदिन्दु-कान्ति-विमला पारेदिशं वर्त्तते ॥

साक्षादुग्र-कुळ-प्रभुर्निज-भुज-प्रोद्भासि-कौक्षेयक-

प्रञ्चस्तीकृत-भूरि-गर्व-वळ-शद्वेधेषि-भूपाळकः ।

दीनानाथ-जना यदीय-सु-महा-दानात् परेष्ट-प्रदस्

स श्रीमान् भुवि नखि-शान्तर इति ख्यातो भृशं भ्राजते ॥

विभाति यस्याप्रतिमः प्रतापः मानोगतो (!) वैरि-महीपतीनाम् ।

सन्तापयत्येव तदन्तरङ्गम् श्रीमानसावोद्दुग्ध-मण्डलेशः ॥
 कुमार-चूडामण्डिरेष भाति श्री-ब्रह्म-देवो गुणवाननिन्धः ।
 श्री-जैन-पादाम्बुज-युग्म-भृङ्गः यशोऽभिवेष्ट्याखिल-भूमि-भागः ॥
 श्रीमद्-राक्षस-गङ्ग-मण्डलपतिः श्री-गङ्ग-नारायणः
 दोर-दण्ड-द्वय-वीर्य्य-भीषित-रिपुः श्री-गङ्ग-पेर्मानडिः ।
 स्याद् यस्या जनको मतो निरुपमो विख्यात-कीर्त्ति-ध्वजः
 श्रीमच्चट्टल-देवि अत्र भुवने ख्याता वरीवृत्त्यते ॥
 दृष्टे यत्र महोत्सवैक-निलये पश्यजनानां मनः
 पुण्यं सञ्चिनुते-तरामतितरामंहो हरल्प्यलम् ।
 पूजाभिः पृथुभिः पुनः प्रतिदिनं वाभाति योऽयं सदा
 श्रीमत्पञ्च-जिनालयो निरुपमो भक्त्वा यया निर्मितः ॥
 संसारम्भोधिमध्यन् निरुपम-गुण-सद्-रत्न-भेदाधिवासम्
 निर्वर्षण-द्वीपमाप्तुं प्रतियत-मनसां पण्डितानां मुनीनां ।
 कृत्वा श्रीमज्जिनेन्द्रालय-विलसित-नावं व्यधाद् यक्षिणामन्-
 मानस्तम्भोद्भसत्-कूबरमपि च घनान्यर्थि-सार्थाय दत्वा ॥
 आहाराभय-भेषज्य-शास्त्र-दानैरनिर्नरैः ।
 श्रीमच्चट्टल-देवीयं वाभाति भुवन-स्तुता ॥
 रोहिणी चेलिनी सीता देवता च प्रभावती ।
 श्रूयन्ते वार्त्तया सेयं दृश्यन्ते विमलैर्मुणैः ॥
 श्रीमद्भविळ-संघेऽस्मिन् नन्दिसंघेऽस्त्यरुङ्गळः ।
 अत्रयो भाति योऽशेष-शास्त्र-वाराशि-पारगैः ॥
 यद्-वाग्-वज्राभिघातेन प्रवादि-मद-भूषुतः ।
 सञ्चूर्णितास्तु भाति स्म हेमसेनो महामुनिः ॥

शब्दानुशासनस्योच्चैरूपसिद्धिर्महात्मना ।
 कृता येन स वाभाति दयापालो मुनीश्वरः ॥
 श्री-पुष्पसेन-सिद्धान्त-देव-वक्त्रेन्दु-सङ्गमात् ॥
 जातावभाति जैनीयं सर्व्व-शुक्ला सरस्वती ॥
 नम्रावनीश-मौळीद्ध-माला-मणि-गणार्चिदम् ।
 यस्य पादाम्बुजं भातं भातः श्रीविजयो गुरुः ॥
 सदसि यदकलङ्कः कीर्त्तने धर्मकीर्त्तिः
 वचसि सुरपुरोध्या न्यायवादेऽक्षपादः ।
 इति समय-गुरूणामेकतस्संगतानाम्
 प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराजः ॥
 सांख्यागमाम्बुधर-धूनन-चण्ड-वायुः
 बौद्धागमाम्बुनिधि-शोषण-त्राडवाग्निः ।
 जैनागमाम्बुनिधि-वर्द्धन-चन्द्र-रोचिः
 जीघादसावजितसेन-मुनीन्द्र-मुख्यः ॥
 श्रेयांस-पण्डितर् गत- ।
 मायादि-काशायरमळ-जिन-मत-तारर् ।
 न्याय-परर् स्मित-कमळ- ।
 श्री-युत-द-न-कुन्द-रुन्द्र-कीर्त्ति-पताकर ॥
 नमो जिनाय ॥

[जिन-शासनकी प्रशंसा । नबि-शान्तरके यशकी प्रशंसा । राजा ओङ्गुग,
 ब्रह्म(बम्म-)देव, और चट्टल-देवीकी प्रशंसा ।

हेमसेन-मुनि, शब्दानुशासनके लिये 'रूपसिद्धि' बनानेवाले दयापाल
 मुनीश्वर, पुष्पसेन सिद्धान्तदेव, श्रीविजय, इन सबका प्रशंसापूर्वक उल्लेख ।

चादिराजदेवकी प्रशंसा । अजितसेन मुनीन्द्रकी प्रशंसा । श्रेयांसपण्डित-
की प्रशंसा ।]

नोट:—इस हिलालेखमें समय (काल) का कोई निर्देश नहीं है और न
किसी कार्य या दानका इसमें उल्लेख है । यह लेख शुद्ध प्रशंसात्मक है ।

[EC, VIII, Nagar, II., n° 39.]

२१६

हुम्मच—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक ९९९=१०७७ ई०]

(पश्चिम मुख)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

[तीसरी पंक्तिमें 'स्वस्ति'से लेकर १७ वीं पंक्तिमें "कृष्टिर्ष्व-सौभाग्यम्"
तक शि० ले० नं. २१४ की ११ से ३१ की पंक्तितक मिलता है ।]

एनिसिद वीर-देवनग्र-तनयम् ॥]

अरि-विरुद-भूभुजर्कळ ।

विरुदं बेरिन्दे किर्त्तु वीर-श्रीयोळ् ।

नेरेददट्टुप्रमातीतम् ।

धरेगेने भुजवळने शान्तरान्वय-नतिलकम् ॥

विरुद-रिपु-चृपर शिरमम् ।

भरदिं सेण्डाडि वीर-लक्षि यनोलिसल् ।

नरपतिगळारो धुरदोळ् ।

निरुतं निन्नन्ते नन्नि-शान्तर-चृपति ॥

उत्तर-मधुरावीश्वरम् ।

उत्तम-गुणनुप्रवंश-तिलकं विबुध- ।

स्तुत्य-यशोम्बुधि विरुद-नृ- ।
 प्रोत्तम भुजबलन तम्मनेनिपं गोग्गि ॥
 आतन तम्मं ॥
 ओड्डिदरि-नरपरोड्डुम् ।
 काड्डिं, कडिदण्णनङ्ककार-वेसकैळ् ।
 ओड्डुगनोळेसेये जगदोळ्गम् ।
 ओड्डुगनरसङ्ककार-वेसरं तळेदम् ॥

आ-कु-वळय-चन्द्रमननुजम् ॥
 कुरि-दरि-दरिदम् पगेयेम् ।
 अरिकेय काननमनदटरदटं मुरिदम् ।
 नेरेददटिं वर्म्मगनेम् ।
 अरितद कणि विरुद-कोमर-चूडारत्तम् ॥
 तैलन गोग्गियोड्डुगन बोम्मन ताय् जिन-राज-धम्म-सत्-
 लीलेय वीर-देव-नृपनत्तिगे कन्नेगे वीर-लक्षिमिग्- ।
 प्पालयमाद् मण्डलिक-रक्कम-गङ्गन पुत्रि काणि शी- ।
 ळालिगेनिष्पडेनवळे नोन्तले चड्डल-देवि नोन्तुदम् ॥
 वेरिनहीन्द्रनं नडुविनागसम् कुडिथिं दिवायमम् ।
 तार-नगङ्गळं कवलिनोळ्ळेयिं देसेयं मुगुळ्गळिम् ।

तारकियं सिताप्यजमने पुष्पदे पोल्वुदु पण्णि (उत्तरमुड) दिन्दुवन् ।
 नीरैरेदन्ते दुग्धमने चड्डल-देविय सद्-यशो-दुमम् ॥

इन्तेनिसिदिवरु सन्तळिगे-सासिरमं सुख-संकेथा-विनोददिं राज्यं
 गेष्युत्तिर्हुं तम्म राज्याभिवृद्धि-निबन्धनमप्य श्री-जैन-धम्मानुरागदिं शक-

वर्ष ९९९ नेय पिङ्गळ-संवत्सरद ज्येष्ठ-शुद्ध विदिगे-वृहस्पति-
वारदन्दु पञ्च-कूट-जिन-मन्दिरमं प्रतिष्ठिसि आ-बसदिय खण्ड-स्फुटि-
त-नव-कर्म-पूजा-विधानकर्मलिर्प ऋषिसमुदायकाहार-दानार्थमुमागे
द्रमिळगणद नन्दि-संघदरुङ्गळान्वयद श्रीवादिराजापर-नामवेय-
श्रीमत्-कनकसेन-पण्डितदेवर शिष्यरोडेय-देवरेनिसिद श्रीविजय-
पण्डितदेवरन्तेवासिगळप्प श्रीमत्-कमळभद्र-पण्डित-देवर कालं कर्चि
धारापूर्व तत्-समुदायं मुख्यमागे कोट्ट ग्रामङ्गळ् (यहाँ दानों और
उनकी सीमाओं की विस्तृत चर्चा जाती है) ।

[जिन शासनकी प्रशंसा । (जैसा कि लेख नं. २१४ में बीर-देव और
बीरल-देवीके पद और श्लोक हैं वैसे ही यहाँ हैं), बीर-देवके ज्येष्ठ पुत्र
भुजबळ शान्तर, उससे छोटे पुत्र गोगिग, जिसका दूसरा नाम नञ्जि शान्तर
है, उसके छोटे भाई ओडुग, तथा उसके भी छोटे भाई (चौथे पुत्र)
बम्मगकी प्रशंसा । तैल, गोगिग, ओडुग, तथा बोम्मकी माँ चट्टल-देवी
बहुत भक्त थी । उसके कीर्तिरूपी वृक्षकी कल्पनोक्ति ।

इन लोगोंने, जब कि ये सान्तळिगे-हजारका शान्ति और बुद्धिमत्तासे
शासन कर रहे थे (उक्त) गाँवोंका दान दिया । उन्होंने जैनधर्मके प्रेमवश
पञ्च-कूट-जिनमन्दिर स्थापित किया । तथा उस बसदिकी मरम्मतके लिये,
नये कामोंके लिये, पूजा और ऋषिगणके आहारके लिये,—द्रमिळ-गण,
नन्दि-संघ और अरुङ्गळान्वयके कनकसेन-पण्डित देवके, जिनका दूसरा नाम
वादिराज था, शिष्य श्रीविजयदेवके, जिन्हें ओडेय-देव भी कहते थे,
शिष्य कमळभद्र-पण्डित-देवके पाद-प्रक्षालन-पूर्वक यह सब दान किया
गया था ।)

[EC, VIII, Nagar tl., n° 40 (1st part).]

२१७

बलगाम्बे—संस्कृत तथा कन्नड

[विक्रमादित्य चालुक्यका २ रा वर्ष=१०७७ ई०]

[बलगाभ्येमें, बडणियर-होण्डके पास एक पाषाणपर]

खस्ति समस्त-सुरासुर-मस्तक-मकुटाश्म-जाळ-जळ-धौत-पदम् ।
प्रस्तुत-जिनेन्द्र-शासनमस्तु चिरं भद्रमखिल-भव्य-जनानाम् ॥
श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर
परम-भट्टारकं सत्याश्रय-कुळ-तिळकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रिभुवन-
मल्ल-देवर ॥

वृ ॥ अलगं चोळावणीशङ्गेणसनणियरं लाळ-भूपङ्गे बाहा- ।

बळदिन्दं तोरि मीरुत्तडसिदुभय-चक्रेश-सामन्त-भूमूत्- ।

कुळमं तन्नैरिदुप्रेभदिनुरदरे बेङ्कोण्डु चालुक्य-राज्यो- ।

ज्वळ-लक्ष्मी-नाथनाळदं भुवन-जन-नुतं विक्रमादित्य-देवम् ॥

धारा-नाथ-महा-भय-ज्वरकरं चोळोप्र-कालान्तकम् ।

सौराष्ट्रांग-कलिंग-वङ्ग-मगधान्ध्रावन्ति-पाञ्चाळ-.... ।

....राजावळि-मौळि-लाळित-पदं पूर्वापराम्भोधि-वेई

ळारामान्तर-शैळ-केळि-विभवं चालुक्य-दिक्-कुञ्जरम् ॥

नरसिंहाकारदिं दानत्र-पति-युरमं सीळदनणमणु रुद्र- ।

बेरसा-कैलासमं तृगिदनळवळवार्त्तिरिं चर्ममं ने- ।

ट्टेरदिन्द्रङ्गित्तनार्पर्णखिल-धरे गत-क्षत्रमपन्ते धात्री- ।

शरानर्पर्त्तोन्दु-सूळ् कोन्दन-चलमे-चलं विक्रमादित्य-निन्न ॥

पुदुवेकन्यर्गमानोर्बने तळ्यलिदं साल्वेनेन्दा-महा-कूर- ।

म्मद-बेन्निन्दा-भुजङ्गाधिपन-पेडेगळिन्दा-दिशा-कुञ्जर-स्कन्-

धदिना-भूसृष्टरी-मूळदिनखिल-धरा-भारमं तन्दु-विक्रा-

न्तद-बर्षिप-तन्न-तोळोळ्-पदुळ्मिरेसिदं विक्रमादित्य-देवम् ॥

अन्तु धरेयं निष्कण्टकं माडि सुख-संकथा-विनोददिन्देतगिरिय नेलेवी-
डिनोळ् राज्यं गथ्युत्तमिरे ॥ तत्पाद-पद्मोपजीवि ॥ स्वस्ति समधिगत-
पञ्च-महा-शब्द महा-सामन्ताधिपति महा-प्रचण्डदण्डनायकं दुर्जन-भय-
दायकं बन्धु-जन-बन्धुर-कुमुद-सुधाकरं विप्र-दिवाकरं सरस्वती-समय-समु-
द्धरणं गुण-गणाभरणं चतुर-चतुराननं विक्रम-पञ्चाननं प्रताप-सहायं पति-
हितवैनतेयं पिसुणर गण्डनहित-कुळ-कमळ-वन-वेदण्डं विनयावलोकं
कीर्त्ति-पताकं साहसोत्तुङ्ग श्रीमत-त्रिभुवनमल्ल-देवचरण-सरसीरुह-धृक्-
नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमद्दण्डनायकं बर्म-देवम् ॥

वृत्त ॥ धरेगेळं तन्न बहा-बळद नेरवु तन्नप्पु तन्नध-तेजम् ।
स्फुरितं तन्नाप्पु तन्नोर्त्तुडिय निलवु तन्नूर्जित-ख्यातियोळ्प-
च्चरियागुत्तिर्पिनं रञ्जिसि सकळ-गुणानर्थ-रत्नके रत्ना- ।
करनादं दण्डनाथाप्रणि सकळ-जगन्मण्डनं बर्म-देवम् ॥
जनकेळं ताने कण्णुं गतिमुमेनिसि तन्नि रिपु-क्षत्र-नक्ष-
त्र-निकायं निलदेळं मसुळे कळिमळ-द्वान्तमर्काडेविश्वा- ।
वनियं मिक्केळ्ळोयिन्दं वेळपेसकमनान्तिर्द्विपं विक्रमादि- ।
त्यन तेजश्चक्रमिर्पन्तेवोलनवधि-सत्वोदयं बर्म-देवम् ॥
हरियिं चाळितमादुदङ्कदचळेन्द्रं दैत्यनिं सार्द्धुदुर- ।
व्वि रसा-गर्व्वमना-लयानिळन पोथिळ पारिताशा-गजोत्- ।
करमेन्दन्दिवरल्लि धीर-गुणमेल्लित्तेन्दिवं नक्कु धि- ।
क्करिपं निश्चळमाद धैर्य्य-गुणदोळिप बर्म-दण्डाधिपम् ॥
कुडुवेडेगादुदेम्मडगलादुदे वित्तमरातियं पडल्- ।
वडिपेडेगादुदेम्बरिदे पोत्तिरलादुदे कन्दु सत्यम् ।

नुडिवेडेगादुदेम् पुसियलादुदे नाल्लिगे यिन्दु कीर्त्ति दाम् ।

गुडिवडे बम्मदेवननितुं क्षणदुन्नतियं नेगाच्चिंदम् ॥

अन्तु पोगत्तेगं नेगत्तेगं नेलयाद श्रीमन्महा-सेनाधिपति महा-प्रधानं
दण्डनायकं बम्म-देवरसर् ब्वनवसे-पन्निच्छासिरमुं सान्तळिगे-सासिरमुं
पदिनेण्टप्रहारगळ्ळं दुष्ट-निप्रह-विशिष्ट-प्रतिपूळनम् गेय्दनु-भविसुत्तं
राजधानि-बळ्ळिगावेयोळिरे ॥

वृत्त ॥ जिननाथ-स्वामिं देखं निज-गुरु गुणभद्र-व्रतीन्द्रं जगत्-पा-

वने ताय् जक्कब्बे सोमं जनकनवरजं मेचि भागब्बे पुण्याड्.....।

गने मावं लोक-पूज्यं गुण-निधि कलि-देवं बुधाधारनेन्दन्द् ।

अनवधं सिङ्गनेन् केवळमे हितकरोत्तुङ्ग-धम्म-प्रसङ्गम् ॥

विनेयद सीमे धम्मद तवर्-म्मने सत्यद जन्म-भूमि मान्- ।

तनदेरुवट्टु पेम्पिनदगुन्ति विवेकद वीडु-दाणवार- ।

प्पिनकणियेन्दु वण्णिपुदु भू-वळ्यं प्रतिकण्ठ-सिंगनम् ।

जिन-पति-पाद-पङ्करुह-भृङ्गननुदुध-गुण-प्रसङ्गनम् ॥

बरेपद वल्मे बाजनेय विन्नणमोप्पुत्र लेक्कदोजे सं- ।

कर-सुतनोळ् सरस्वतियोळ्म्बुरुहासन्नोळ् विचारिसल् ।

दोरे सारे पाटियेन्दु निखिळोर्ब्बरे वण्णिसुत्तिपुदेन्दोडेम् ।

पिरियनो सिङ्गनुज्जळ-यशो-विभवं प्रतिपन्न-मन्दरम् ॥

शुचि सुर-सिन्धुजं सुर-सरिद्धवनिन्दनिल-प्रियात्मजम् ।

शुचि गगनापगा-त्तनयानिं पवमान-तनूजनिं सुकम् ।

शुचि नेगळ्ळा-नदीसुतनिना-कपि-राजनिना-सुकर्षियिम् ।

शुचियेने सन्दने-दोरेतो शौच-गुणं प्रतिकण्ठ-सिंगन ॥

फळ-भरिताम्र-भूरुहके पक्षिगणं भ्रमरालि पुष्प-सं- ।

कुळ-नव-सौरभक्केरुवन्ते बुधाळिं नियोगमेम्ब दी- ।
 वळिगेय पर्वदोळ् बरे यथोचितदिं तणिपिं बळिके सञ्- ।
 चळतरमा-नियोगमेनुतिर्पुद्दु गोसने सिङ्ग-राजनम् ॥
 पर-हितमं कडङ्गि नेरे माडले कलतनशेष-सद्-बुधोत्- ।
 करमनोरलदु मन्त्रिसले कलतनेडार्पिंरिदेम्ब शिष्टरम् ।
 पोरेयले कलतनुत्तम-गुणाधिकरोळ् दोरे यप्पनेन्दु म- ।
 चरिसले कलतनिन्तुटिदु कलत-गुणं प्रतिकण्ठ-सिंगन ॥

कन्द ॥ जिनधर्म्माम्बर-दिनपं ।

जिन-धर्म्मसुधाम्बुरासिवर्द्धन-चन्द्रम् ।

जिन-धर्म्म-प्राकारम् ।

जिन-पति-चरणाम्बुजात-भृङ्गं सिङ्ग ॥

इन्तेनिसिद गुणङ्गळ् तनगे सहजमागे नेगळ्द श्रीमत्-प्रतिकण्ठ-
सिङ्गय्यं धर्म्म-कथा-कथन-प्रसङ्गं पुट्टिसि श्रीमत्-पेर्म्माडिय बसदि-
 गोन्दु-चाडमं श्री-बल्लवरसरल्लि पडेदु कुडिमेदु तन्नाळ्दङ्गे विन्नपं गेय्यल्
 श्रीमद्-दण्डनायकं **बर्म्मदेव** तत्-सम्मन्ध-मेळ्ळमं निज-स्वामिगे विन्नपं
 गेय्ये ॥ श्रीमत्-त्रिभुवनमल्लदेव् श्रीमच्चालुक्य-विक्रमं-वर्ष २ नेय
पिङ्गळ-संवत्सरद पुण्य-सुद्द ७ आदित्यवारदन्दिनुत्तरायण-संक्रा-
 न्तिय पर्व-निमित्तं राजधानि-बळ्ळिगावेयोळ् तम्म कुमार-गालदन्दु
 माडिसिद श्रीमच्चालुक्य-गङ्ग-पेर्म्मानडि-जिनालयद देवर्गर्च्चन-पूजनाभि-
 पेककं भोगकं ऋषियराहार-दानकं मेले बसदिय खण्ड-स्फुटित-नव-
 कर्म्मद बेसक्कागि ।

वृत्त ॥ जसमेम्बुज्वळ-दीप्ति पज्जळिसे भव्याम्भोजिनी-राजि रा- ।

जिसे दुष्कर्म्म-तमो-बळं बेदरे लोक-स्तुत्य-जैनागम- ।

प्रसर-व्योम-विभागदोळ् सोगयिकुं रत्न-त्रय-श्री-गुणा- ।
वसथ-श्री-गुणभद्र-देव-मुनिपाम्भोजात-मित्रोदयम् ॥

कन्द ॥ एनो-दूरं परम-त- । पो-निधि तन्मुनि-गणेश-सहधर्मि लसद्- ।
ज्ञान-परं नेगब्द महा- । सेन-व्रति तद्-व्रतीश-शिष्यर-ज्ञेगब्दद् ॥

वृत्त ॥ ओदविद शब्द-शास्त्रदेडेयोळ् भुवन्स्तुत-पूज्यपादरेम्- ।
बुदु नेरे तर्क-शास्त्रद विवेकदोळिन्तकळङ्क-देवरेम्- ।
बुदु कविता-गुणोत्कर-महत्त्वदोळ्येदे समन्तभद्ररेम्- ।
बुदु सले रामसेन-विबुधोत्तमं निखिळोर्ब्वरा-जनम् ॥

अन्तु समस्तशास्त्र-पारावार-पारग परमतपश्चरणनिरतरप्प श्रीमूल-
संघद सेनगणद पोगरि-गच्छद श्रीमत-रामसेन-पण्डितर्गे धारा-
पूर्वकं सर्व-नमस्यं माडि कोट्ट बनवसे-पन्निच्छासिरद कम्पणं
जिङ्गळिगे ७० र वळिय वाडं मनेवने १ । (हमेशाके अन्तिम
वाक्यावयव) । श्रीमद्-गुणभद्र-देवर गुड्डं चावुण्डमय्यं वरेदं मङ्गळ
महाश्री

[जिनशासनकी प्रशंसा । त्रिभुवनमल्ल-देवका प्रवर्धमान राज्य ।
विक्रमादित्य-देवकी प्रशंसा । जिस समय वे एतगिरिके निवासस्थानमें रहते
हुए राज्य कर रहे थे उस समय तत्पादपद्मोपजीवी (बहुत उपाधियोंसे
युक्त) दण्डनायक बर्म्मदेव थे (उसकी प्रशंसामें श्लोक) । जिससमय
दण्डनायक बर्म्मदेवरस बनवसे १२०००, सान्तलिगे १००० और १८
अग्रहारोंकी रक्षा करते हुए राजधानी बह्लिगाम्बेमें थे:—

सिंगके गुरुका नाम गुणभद्र-व्रतीन्द्र, माँ जङ्गवे, पिता सोम, छोटा
माई मेधि, पत्नीका नाम भागव्बे, ससुरका नाम कलि-देव था । (उसकी
प्रशंसामें श्लोक, जो उसे 'प्रतिकण्ठ-सिंग' कहते हैं)

प्रतिकण्ठ-सिंगरथने अपने शासक बर्म्मदेवको प्रार्थनापत्र देकर त्रिभुव-
नमल्लदेवसे, चालुक्य-विक्रम वर्ष २ में चालुक्य-गंग-पेम्मानडि जिनमल्लकडे

बनवसे १२००० के जिहुलिंगे ७० का मनेवने गाँव दिलवाया । यह दान गुणभद्रके शिष्य रामसेनको किया गया था । वे मूल-संव, सेन-गण, और पोगरिगच्छके थे ।]

[EC, VII, Shikarpur tl., n° 124]

२१८

हट्टण—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक १०००=१०७८ ई०]

[हट्टण (कब्बनहळिळ परगना) में, बस्तिके चन्द्रशालेमें एक पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रयं । श्री-पृथ्वी-वल्लभं । महाराजाधिराजम् । परमेश्वरं परम-भट्टारकम् । सत्याश्रय-कुळ-तिलकम् । चालुक्याभरणम् । श्रीमत्तु भूलोकमल्ल-सोमेश्वर.....देवरु । विजय-राज्यमुत्तरो-त्तराभिवृद्धिप्रवर्धमानमा-चन्द्रार्क-तारं-बरं सलिसुतमिरे ॥ श्रीमत्तु त्रिभुवनमल्ल एरेयङ्ग]-होयसळ-देवर्गम् । येचल-देविममुदितो-दितमागलु बन्द वंशावतारमेन्तेन्दडे ॥ स्वस्ति श्रीमनु-महा-मण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरम् । यादव-कुलाम्बर-द्युमणि । सम्यक्त्व-चूडामणि । मलपरोलु गण्ड । कदन-प्रचण्डम् । असहाय-सूर गिरिदुर्गा-मल्ल निरशङ्क-प्रताप भुजबळ-चक्रवर्ति श्री-वीर-बल्लाळ-देवरु । पृथ्वीराज्यं गेय्युत्तमिरे । तत्पादपद्मोपजीवि श्रीमन्महा-सामन्तं गण्डरादित्यङ्गम् हुगिगयवे-नायकित्तिगं सु-पुत्रं कुळ-दीपकरेनिसि पुष्टिदरु सामन्त-सुब्बयनु सामन्त-सातय्यनुं सामन्त-बूवय्यनुं श्रीमनु-महा-सामन्त माचय्यन प्रतापवेन्तेन्दडे । स्वस्ति सम-धिगत-पञ्चमहाशब्द-महा-सामन्त वीर-लक्ष्मी-कान्त । तुरेय रेवन्त

पर-बळ-कृतान्त । बिरद-गण्डर वदिसुव सामन्तर गण्ड ।
गण्ड । समर-प्रचण्ड । नुडिदन्ते गण्ड ।पराङ्गना-
 पुत्रं । दायिगमुरारि विनेयोपकारि ।वल्लभं दुष्टाश्व-मल्लं भीतर
 कोल्लं हडिय माक्कोल्लुवं दल्लुव बेङ्कोल्लुवं । इडगूर-देवी-लन्धवर-प्रसाद ।
 मृगमदामोद । यत्तिल-वन-विकासचन्द्र सदानन्दभोग-नागेन्द्र होयसळ-
 देव-पादाराधकम् । पर-बळ-साधकम् । नीति-चाणुक्यं एक-त्राक्य वैरि-
 मनो-भङ्ग । अय्यन सिङ्ग दायिग-दुष्टर गण्ड । तप्पे तप्पुव । धीरदिन्दो-
 पुव । सामन्तजगदळ । मलेय.....दुळिव । मलेगे.....आने । येत्तिद
 मोनेगे मुन्तु केट्ट काळ्ळके पिन्तु लडिद.....ळम् । चतुस्समयसमुद्ध-
 रणनप्प श्रीमन् महा-सामन्त-माचाय्यनन्वयवेन्तेन्दडे ।

बेळुगेरेय माचेय-नायक- ।

ननुपम-गुण-रत्ने माकल-देविय दान- ।

व्रतमेसेये चैत्य-गोहमु- ।

मनर्त्तियोळोप्पे साब्कुमा-पट्टणदोळ् ॥

[स]रसतिगे रतिगे सीतेगे ।

सरि दोरेयेनिसिद मारेय-नायकन ।

सतियं धरेयं वणिणसुबुदु ।

निरन्तरं नेगळ्द बस्मियव्वेय पेम्पम् ॥

सरणेने कायल्लु वल्लम् ।

नेरेदत्तियोळीय-वल्लनाश्रित-जनकम् ।

पर-बळ वैरि-भूपर ।

कोल बल्लं बेळुगेरेय बल्लनिम्मडि-बल्ल ॥

रुगुमिणि बेळगिदरुन्वति ।

मिगिलेनिसिद सीतेयेम्ब सतियरोळीगळ् ।

समनेनिप सतियेनिसिद ।

सति यल्लरे बल्लयनर्द्धाङ्गि केतवे देवियकं धरेयोळ् ॥

श्रीमत्तु सावन्त-बल्लि-देवनर्द्धाङ्गि केतवे-नायकितियरुं देवियक-
नायकितियरुमवर सुपुत्र सुद्य-देव पेरुमालु-देव सावन्त-मारय्य
माचि-देवतु सुख-सङ्कता(था)-विनोदादिं राज्यं गेय्युत्तिरे ॥

सादिसिद मोक्ष-लक्ष्मिय- ।

नादरदिन्दभयरन्न-दान-विनोदम् ।

मेदिनियोळोप्पे माडुव ।

सासल-बम्मय्य भव्य-तिलकं धरेयोळ्

भव्य-कुळ-तिलकनोपुद ।

अत्रज माणिक्य चाकि-सेट्टियरनुजन् ।

एरकाट्टि-सेट्टियेन्ती- ।

त्रै-पुरुषर् नेगळ्द दान-चिन्तामणिगळ् ॥

तक्क-व्याकरणदोळम् । वग्दाणगे वल्ल सकल-.....क्तिगळिम् ।

मिक्कदतिजाणं धर्- । म्मक्कस्थिग नेगळ्दिर्द माचि-सेट्टिये धन्यम् ॥

आ-माचि-सेट्टियनुजं । भाविये श्री-जैन-धर्म-सुर-कुजदन्नङ्गार

स्सममेनिसलुकार परि । यीव-गुणं काळि-सेट्टियोरेंगं दोरेगम् ॥

कलि-काल-कल्प-वृक्षमन् । अलसदे नीं बेडु काळि-सेट्टिय सुतनं

वल्लुं पोन्नुं बल्लम । सले यीयल्ल बल्ल मान्यना-बम्मय्यम् ॥

आश्रित-जन-चिन्तामणि । विश्रुत-कीर्तीशनमळ-बोधाधीसं (शं)

श्री-श्रेयांस-जिनेशं । वैश्रावण-सेट्टिगीगे सुख-सम्पदमम् ॥

नुडिदेरडु-नुडिवचनलं । कडु.....इल्ल आश्रित-जनकन्- ।

तेडेयुडुगदीव-दान- । व्रतियं कर्पूर-सेट्टियं वेडु बुदा ॥

कीर्त्ति-श्री-रमणन-बोलु ।

मूर्त्तियोळभिनव-मनोजन.....नम् ।

कूर्त्ताव मसण-सेट्टिगे ।

मार्त्तण्डन मग नळ-.....नृप लवे ॥

.....मनुजर्गम् ।

मरे-बोकरनेण्डि काव वन्धु-जनक्कम् ।

नेरे पोत्त कल्प-तरुवम् ।

नेरे ब्रण्णिपुदेण्डे काचि-सेट्टियम्.....॥

गणधर-भूपनन्वय-शिखागणि गोत्र-पवित्रन-द्विषम्

गुण-गण-नाथ गुण्णिपन.....पेम्बिन मेरु वोन्द ।

अगणित-वाव सखइ तवर्म्मने मानव-वन्धनेन्दोडिन् ।

एणे.....हट्टणदोळोप्पुव माणिकनन्दि-देवरोळ् ॥

स्वस्ति स(श)क-वरिस-सायिरद कालयुक्त-संवत्सरं प्रवर्त्तिसे
 नखरजिनालयके विट्ट भूमि-(यहाँ दानकी विगत जाती है) आ-पट्टण-
 दल्ल नडव देव-दाय हत्तु हेरिङ्गे हाग देवरिगे सोडरेण्णेगे गाण १
 (हमेशाके शापात्मक वाक्य) श्री-मूळ-संवदेसिय-गणपोस्तक-गच्छ-
 कोण्डकुन्दान्वयद श्रीमत्तु नागचन्द्र-चान्द्रायण-देवर-शिष्य रुणि-
 कच्छगोण्डि-देवरु मदवळिने बोप्पवे मगळु काचवे मल्लवे मादवे
 माचवे बालचन्द्र-देवरु । सेट्टिय हल्लिय मल्लि-सेट्टि चिकसेट्टि तम्म.....
 सेट्टिगे विट्ट भूमि जकसमुद्रदल्लि सलगे ५

* रोदद हलोजन मग बीरोज ई-शासनव होयिद ॥

* यह पंक्ति पत्थरके खिरेपर है ।

[जिनशासनकी प्रशंसा ।

जिस समय, (उन्हीं चालुक्य पदों सहित) भूलोकमल्ल सोमेश्वर-देव-का विजयी राज्य प्रवर्द्धमान था:—

त्रिभुवनमल्ल एरेयङ्ग-होयसल-देव और एचल-देवीके कुलमें उत्पन्न,— स्वस्ति । जब (अपने पदों सहित) वीर-बल्लाल-देव पृथ्वीका शासन कर रहे थे;—

तत्पादपद्मोपजीवी, महा-सामन्त गण्डरादित्य और हुगिगयन्वे नायकित्तिके सामन्त सुव्वय, सातय्य, और बूवय्य उत्पन्न हुए थे ।

महा-सामन्त माचर्यकी प्रशंसा । उसकी कुछ उपाधियाँ । माचर्यकी उत्पत्तिका वर्णन । जिस समय सामन्त बल्लि-देव (माचर्य) अपनी दोनों स्त्रियों और चार लड़कों सहित शान्ति और सुखसे राज्य कर रहा था;— सासल बम्मय्य और उसके दो लड़कों माणिक्य और जाकि-सेट्टिका उल्लेख । माचि-सेट्टि और उसके लड़के कालि-सेट्टि, फिर उसके लड़के बम्मय्यका वर्णन । माणिकनन्दि-देवका उल्लेख । (उक्त मिति को) नखर जिनालय-के लिये (उक्त) भूमियाँ, दस गट्टोंका दाम, एक कोरूहू दानमें दिये गये थे ।

श्री-मूलसंघ, देशिय-गण, पोस्तक-गच्छ, तथा कोण्डकुन्दान्वयके नाग-चन्द्र-चान्द्रायणदेवके शिष्य रुणिकच्छगोण्डिदेव थे; उनकी पत्नी बोप्पवे, बच्चे काचवे, मल्लवे, मादवे, माचवे और बालचन्द्रदेव थे । कुछ सेट्टियोंने और भी कुछ भूमियाँ दीं । रोद हलोजके पुत्र बीरोजने यह शासन लिखा ।]

[EC, XII, Tiptur tl., n° 101]

१ ऊपर जो १०७८ ई० काल दिया हुआ है, वह विनयादित्यके कालका है । उसके लड़के बल्लालदेवका (११०१-११०४ ई०) नहीं, और न भूलोकमल्ल (११२६-११३८ ई०) का ।

२१९

तट्टेकेरे—संस्कृत तथा कन्नड़—भद्र

[शक १००१=१०७९ ई०]

[तट्टेकेरे (शिमोगा परगना)में, रामेश्वर मन्दिरके सामनेके पाषाणपर]

खस्ति सक-वर्ष १००१ नेय क्रोधन-वत्सरद ज्येष्ठ-बहुल-
चट्टि-वड्डवार शासन निन्दुदु

श्रीमत्-परम-गंभीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

नमो वीतरागाय खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराजा-
धिराज परमेश्वर परम-भट्टारकं सत्याश्रय...तिळकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-
त्रिभुवनमल्ल-देवर कल्याणद-नेलवीडिनोल् सुखदिं राज्यं गेय्युत्तमि....

जीयात् समस्त-ककुभान्तर-वर्ति-कीर्तिर

इक्ष्वाकु-वंश-कुल-वारिधि-वर्द्धनेन्दुः ।

कैळाश-शैल-जिन-धर्म-सु-रक्षणार्थम्

भागीरथी-वि.....तो द्वितीयः ॥

खस्ति समस्त-भुवनाधीश्वरेक्ष्वाकु-वंश-कुल-गगन-गभस्तिमालिनी परा-
क्रमाक्रान्त-कन्याकुब्जाधीश्वर-शिरो.....लि-मुखो पार्थिव-
पार्थः । समर-क्रेलि-धनंजयो धनञ्जयः । तस्य वल्लभा गान्धारि-देवी
तत्सुतो हरिश्चन्द्रः । रोहि.....दडिग-माधवापरनामधेयः । आ-
गङ्गान्वयदरसुगळेलेव्वोपाडिवदचन्द्रनन्तुदितोदितवागि पल.....ज्यं
गेय्युत्तिरे तदन्वयाम्बर-द्युमणियुं गङ्ग-चूडामणियुमेनिसिद भुज-बल गंग-
पेम्माडि.....

गुणि बेळ्वर्ति-जनके दान-मणि दोर-गव्वोद्धताध्मात-निर-

घृण-त्रैरिप्रकरके बल्-कणि कळा-विन्यास-वारासि सत्-

प.....वेष्टित-यशं विक्रान्त-तुङ्गं नृपा- ।

प्रणियादं कलि-गंग-देवन सुतं श्री-वर्म-भूपाळकम् ॥

कन्द ॥.....र्वि बाहा- ।

परिवदिनरि-नृपरनलेदु सेले-योळ् वोय्दुर

र्वरे बणिसलेसेदं गं- । गर-मीमं लोकदोळ्गे भुज-बळ-....ग ॥

.....ळियेनिसिद पेर्माडि-वर्म-देवङ्गं पाण्ड्य-कुञ्जोद्भवेयेनिसिद

गङ्ग-महा-देवियर्गं रत्नत्रयं पुट्टवन्ते.....

वृ ॥ श्री-मारसिंग-नवनी-तळ-रक्ष-पाळम् ।

कामोपमं भगीरथान्वय-रत्न-दीपम् ।

भीम-प्रतापनहिता..... ।

सामान्यनल्लनुदितोदितनेकवाक्यम् ॥

आतनप्सुमार्पुं लोक-विख्यातमाद तदनन्तरदोळ् । स्वस्ति सत्य

.....वर्म-धर्म-महाराजाधिराज परमेश्वरं कुवळाल-पुर-व्रेश्वरम् ।

नन्दगिरि-नाथं राज-मान्धातम् । पद्मावती-लब्ध-वर-प्र.....चकि-

ळामोदन् । असती-सहोदरं वीर-वृकोदरम् । सम्यक्त्व-रत्नाकरं जिनपाद-

शेखरम् । मद-गजेन्द्र-लाञ्छनम् चतुर-वि.....ग-गङ्गेयं शौचाञ्जनेयं ।

गङ्ग-कुल-कमळ-मार्त्तण्डम् दुङ्गर-गण्डम् । मन्निय-गङ्गम् जयदुत्तरंगं ।

श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरम् त्रिभुवन-मल्ल-गङ्ग-पेर्माडि-देवरगङ्गवाडि-

तोम्भचरु-सासिरमं बाष्केळिसि तदाम्यन्तरद मण्डलिसासिरमं

श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल-देवर् इये-गेय्ये निधिनिधानमोळगागि त्रि-भागा-

भ्यन्तर-सिद्धियिन्दे सुखर्दि राज्यं गेय्युत्तिरे ।

कन्द ॥ श्रीगे नेल्लेयागि वचन- । श्रीगागरमागि निज-

भुजार्जितविजय- ।

श्रीगरुहनागिकीर्त्ति- । श्रीगधिपतियागि सुखदिनिरे गङ्ग-नृत्यं ॥

वृ ॥ नुडिदुदे नन्नि माडिदुद्धे शासनं इत्तुदे रामरेसु माइ- ।

प्पिडिदुदे वज्र-लेपपुरदिदुदे मृत्यु परोपकारदोळ् ।

नडेदुदे बट्टे षड् गुणमे मेथ्येने धम्मदोळोन्दि निन्नवोल् ।

नडेव नृपेन्द्रनावनखिळावनियोळ् कलि-गङ्ग-भूपति ॥

स्थिरने मेरु-गिरीन्द्रदोळ् सेणसुवं गंभीरने वार्द्धियोळ् ।

पुरुडिप्यं कलिये सुरेन्द्र-सुतनं मेच्चं महा-दानिये ।

सुर-भूजक्कोरेगइवं चदुरने पाञ्चाळनिं मिक्कनेन्- ।

दिरदीगळ् धरे वण्णिकुं रण-जय-प्रोत्तुङ्गनं गङ्गनम् ॥

क ॥ अमळ-चरित्रं पुरुषो- । त्तमनेनिसिद गङ्ग-भूपनातन तम्मम् ।

विमळ-यशं गोविन्दर- । नमोव-वाक्यं कुमार-चूडा-रत्नम् ॥

अन्तिर्व्वरुं सुखदिं राज्यं गेय्युत्तिरे ।

क ॥ धम्मक्काम्मं दयेगे त- । वम्मने शिष्टेष्ट-कल्प-भूजं गोत्रा-

शम्मम् कुलोत्तमं पोले- । यम्मनेनळ् नळ्-गुणक्के मच्चरमुण्टे ॥

आ-गुणोत्तमनेनिसिद पोलेयम्मङ्गं रमणी-रत्नमेनिसिद केळेयब्बेगं

सु-पुत्रः कुळ-दीपक एनिसि नोक्कय्यं पुट्टि समत्थनागि मण्डलिय केच्च-

गावुण्डन मक्कळु काळेयब्बेयुम्मल्लियब्बेयुमं मदुवेयागि काळब्बे-गावि-

तिगे गुज्जणं पुट्टि तन्देगे पदिम्मिडियागि पेम्मार्डि-गावुण्डनेम्ब पेसरं पडे-

दम् । मल्लियब्बे जिनदासनेम्ब मगनं पडेदळन्तिर्व्वरुम्मक्कळ् वेरसु नोक्कय्यं

सुखदिनिर्पुदुं गङ्ग-पेम्मार्डि-देवर तट्टेकेरेगे विजयं गेय्दु समस्ताधिकारं म-

कुडे देवेन्द्रङ्गे बृहस्पतियन्तु वळीन्द्रङ्गे भार्गवनेन्तन्ते समस्तराज्य-भर-निरू-

पितमहामात्य-पदवी-विराजमान-मानोज्ञत-प्रभु-मंत्रोत्साह-शक्ति-त्रय-सम्पच्चं

महा-महिमोत्पन्नम् । सुजन-जनाधारं बान्धव-प्राकारम् । पुरुष-रत्नाकरं

पर-बळ-भीकरम् । पति-कार्य-भार-क्रमनसहाय-विक्रमम् । उपार्जना-
चार्यम् अचलित-धैर्यम् ॥ क्षार-समुद्रं लञ्चकार-मुख-मुद्रं । पतिगे
कळापम् जय-लक्ष्मी-निक्षेपम् । कोदण्ड-पार्थ्यं सौजन्य-तीर्थम् । जिन-
पादाराधकम् । कलि-युग-साधकम् । गङ्गन हनुमन्तम् । जय-लक्ष्मी-
कान्तम् । श्रीमन्महाप्रधानम् । पिरिय-पेर्गडे नोक्कय्यम् ।

वृ ॥ पार्थिवरं निराकरिप दान-गुणोक्तियिनर्थिगर्थमम् ।
प्रार्थिसदीव-कारणदे पेर्गडे नोक्कणनी-परोपका-
रार्थमिदं शरीरमेनिपोन्दु पुराण-वरोक्तियिन्दम-
प्रार्थित-दानदिन्दे नेगव्वुन्नति सन्दुदिल्ला-तळाप्रदोळ् ॥
मार्गदोळोळिपनोळ् गुणदोळ्पिनोळ्पिनोळ्दुदोन्दु पेम्-
पार्गमसाध्यमिन्तिरिव-काव-गुणङ्गळे साजमेन्दु केळ्-
दर्गेदेगोण्डु जेङ्करिसे राज-गुणकळवट्ट नोक्कणम् ।
पेर्गडेयेम्बुदे धुरके मार्गडेयं पतिगेक-साधनम् ॥

क ॥ पेर्गडेननमं बल्लर् । ख्खळ्गमनणमरियरुळिदमात्यर् नोक्कं ।
पेर्गडे-गंगन मनेयोळ् । मार्गडे संगरद मोनेयोळेने मेच्चदरार् ॥
किरिदरोळ्ळवडद मनं । नेरे पिरिदक्कासे-मेय्व बुद्धियिनातम् ।
तेरे-विडिट्टु जोन्नदिन्दन । पेरेयन्ददे नोक्कनुत्तरोत्तरमादं ॥
अगळिसिद केरेगे माडिसि । द गळ्देगेत्तिसिद देवता-गृहकरवण्-
ठगेगन्न-दानदेडेगी-जगदोळ् पवणिल्लदेम् कृतार्थनो नोक्कम् ॥
सरनिधि बळसिदुदेम्बन्- । तिरिलित्ता-तट्टेकेरेय पेर्गेरे सुत्तल् ।
पलिय नडुवमरसैळद । दोरेयेनिसिद तेरदे बसदि सोगयिसि
तोक्कुम् ॥

पिरिय-मां गुज्जणनन्- । तरायवागिब्दनातनेन्दुगे सर्गम् ।
 बरलिन्दु नोक्क-पेर्गडे । हरिगेयलेत्तिसिदनेरडु जिन-मन्दिरम् ॥
 तनगेपर-हितमे हितमेन् । दनुमानिसि नोक्कनोल्दु माडिसे
 विश्वा-न वनियोळगे नेल्लवत्तिय-।

जिन-भवनं ऋभु-विमानमं पोस्तिकुम् ॥ आ-नेल्लवत्तिय तट्टेके-
 रेयेरडुं बसदियुमं जिनदासङ्गे परोक्ष-विनयमागे माडिसिद पेर्गडे-
 नोक्कथ्यन परोपकारार्थकं वीरकं वितरणकं श्री-गंग-पेर्माडि-देव
 म्मेच्चिरु-गळे-गुडि-चामर-मेघ्राडम्बरादि-राज्य-चिह्नङ्गळ-नित्तदके तेल्लन्ति-
 येन्दु मोदलमूळ-धन तट्टेकेरे कीळूरु अरेयूरु हेरिगे कडवूरु
 सीमोगे तरिकेरि हेन-बुरद-गावुण्ड-वृत्तियुमनिर्पत्तु-कुदुरेग-वश्नूरा-
 व्वाळनित्तूर्गीळ सिद्धायवनित्तु चन्द्रार्क-तारं-वरं सर्व-नमस्यमागे
 पनसवाडियं बिड्ढनितु महा-महिमेयं ताळिदद पेर्गडे-नोक्कयं मूल-
 संघद क्राणूर-गणद मेषपाषाण-गच्छद श्री-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्ति-
 गर गुडुनागि नाल्कु बसदियं माडिसि तट्टेकेरेय बसदियं पूजिसुवरा-
 गण-गच्छदस्थान-पतिगळगे तम्म बळियल् तट्टेकेरेय केळगे गळ्दे गळेय
 मत्तरोन्दु ओळ-गेरेयल् बेळ्दले मत्तरोन्दु अल्लि परेकारर्गे गळ्दे गुणिगण
 मत्तरु मूरु बेळ्दलेगळेय मत्तरोन्दु । कुम्बारर्गे गळ्दे गुणिगण मत्तरोन्दु
 बेळ्दले गुणिगण मत्तरोन्दु तट्टेकेरेय अङ्गडिय तेरेयुं सुङ्गमं बसदिगे
 गंग-पेर्माडि-देव्विड्ढि यी-धम्ममं रक्षिसिदातं सासिर-कपिलेयं दानं
 गेय्दं किडिसिदं गङ्गेयोळ् सासिर-कपिलेयं तिन्दम् । सन्धि-विग्रहि दाम-
 राजं सासन-गच्चमं पेळ्दु बरेदं पोय्दं सान्तोजं पञ्चनं मङ्गळ श्री ।

[(उक्त मितिको) यह शासन लिखा गया था । जिनशासनकी प्रशंसा ।
 जिस समय त्रिभुवनमल्ल-देव कल्याणमें रहते हुए शान्तिसे राज्य कर रहे थे:
 एक धनञ्जय नामका राजा हुआ, जिसने अपने पराक्रमसे कान्यकुब्जको

अधीनकर उसके राजाका सिर बाणोंसे छेद दिया। उसकी पत्नी गान्धारिदेवी और पुत्र हरिश्चन्द्र था। तदनन्तर दक्षिण-माधव इत्यादि जिस समय गंगवंशके राजा राज्य कर रहे थे, उसके वंशका सूर्य, गङ्ग-चूडामणि भुजबल-गंग-पेर्माडि.....हुआ।

राजाके रूपमें प्रसिद्ध (अन्य प्रशंसाओं सहित) कलिंग-देवका पुत्र बर्माभूपालक था। भुजबल-गंग, गङ्गर-भीमकी प्रशंसा।

पेर्माडि-बर्मादेव और गंग-महादेवीसे मारसिंग नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। (तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे, लेकिन औरोंका नाम नहीं गिनाया है।)

तदनन्तर जब गङ्ग-पेर्माडि-देव शान्तिसे राज्य कर रहे थे: गङ्ग और कलि-गङ्ग राजाओंकी प्रशंसा। गंग-भूपालका छोटा भाई गोविन्दर था। जब ये दोनों शान्तिसे राज्य कर रहे थे—पोलेयम्म हुआ। उसकी पत्नी केल्लेयम्बे थी, उनका पुत्र नोक्यय था, जिसने मण्डलिके केञ्ज-गावुण्डकी पुत्री कालेयम्बे और मल्लियम्बेसे विवाह किया। पहली स्त्रीसे गुञ्जण नामका लड़का हुआ, जो 'पेर्माडि-गावुण्ड' रूपसे विख्यात हुआ। दूसरी स्त्रीसे जिनदास हुआ। जब नोक्यय इन दोनों पुत्रोंके साथ सुखसे हता था, तब एक दिन गङ्ग-पेर्माडि-देवने तट्टेकेरे जाकर तमाम राज्य-शासनका भार उसे सौंप दिया। उसने तट्टेकेरेमें एक जिनमन्दिर और एक विशाल तालाब खुदवाया। उसने और भी दो मन्दिर हरिगे और नेल्लवत्तिमें बनवाये। नेल्लवत्ति और तट्टेकेरेकी बसदियोंके लिये गङ्ग-पेर्माडिदेवने उसे दो भेरी, एक मण्डप, चामर, तथा बड़े-नगाड़े राज्यकी तरफसे दिये, तथा बदलेकी भेंटमें ८ गावोंकी गावुण्ड-वृत्ति, २० घोड़े, ५०० दास तथा पनसवाड़ी दी। वह प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तीका शिष्य था तथा ४ मन्दिर उसने और बनवाये।]

[EC, VII, Shimoga tl. n° 10]

२२०

सोमवार—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक १००१=१०७९ ई०]

(देखो, जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग)

[EC, V, Arkalgud tl., n° 99, t. and tr.]

२२१

इसूर—संस्कृत तथा कन्नड-भग्न

[काल-निर्देश लुप्त, पर संभवतः लगभग १०८० ई० ?]

[इसूर (शिकारपुर परगना)में, कोटे रामेश्वर मन्दिरकी दीवालके
पाषाणपर]

.....धार्मिक-पुण्डरीक-षण्ड-मोदन-कराय गुणोत्तराय ।
 संसार-सागर-निमहस्तावळम्बनवते जिन-शासनाय ॥
 आदि-ब्रह्मन्जिनं तावेनुत सासिर्व्वरु ब्रह्म-जिन-निळयकर्त्तरु
 ब्रह्म-जिनासरं मुददिम् ॥

खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराज परमेश्वर
 परम-भट्टारकं सत्याश्रय-कुळ-तिळ त्रिभुवनमल्ल-देवर वि
 प्रवर्द्धमानमा-चन्द्रार्क-तारं अनवरत-परमकल्या लक्ष्मी-सम
अनवरत-वित्तमुख-दर्पणभ्युदय-सूचनमृदु-
 मधुर त्रिभुवनमल्लसंकथा वि
 गेय्युत्तं बनवासिकुळ-तिळकनियम-स्वाध्याय
कुळ-तिळकसक शिष्ट
 बळ-पराळोन्नतमतदमहाप्र
म-भट्टाशास्त्र-पारान्दान्वयद
 परमअपास्तजैन-शादेवरनिज-
 कीर्त्तिनर मासदिगन्तरबिणिय-ब
समूपुरहत्तु गद्याणकयेन्दु
बडगणबिणिय-बसेट्टि तन्न बसदिगे विडिसिद
 गळ्दे गुणिबडगण-जवळिय तन्न बसदिगे विडिसिदगुणिगन
 मत्त ओन्दु रायिगळ्दे गुणिगन मत्तओन्दु मत्त बिणिय

•••गुणिगन मत्तलोन्दु इन्ती-नाल्कु मत्तल्लु गळ्दे देवर•••अङ्ग-भोगळ्कं
पूजारिर्गु•••आहारन्दानळ्कं जीण्णोद्धार•••कर्म•••बेसळ्कं यिन्तीनाल्कु•••
गळ्देय•••सासिर्व्वरा-चन्द्रार्कन्स्थायिवरं••• (हमेशाके अन्तिम वाक्या-
वयव और श्लोक)

जाणनदेम् धरित्रि•••ईयु••• ।
क्षीण•••ओपि तोर्ण गीर- ।
व्वाण-पु•••उळ्ळं नेगळ्दप्रहारदोळ् ।
बीणैय•••उत्सवोदयम् ॥
•••निर्मिसिदोन्द-कृत्रिम-जिनेन्द्रागारमं••• ।
•••सङ्गनित-पुण्यर् ••• ।
•••त्तम-सद्धर्म न•••सन्देस••• ।
•••सुखोदयं••• ॥

•••व्यानमागळेके•••राजान्वित•••द्रागारमं माडि•••
माडल्के सासिर्व्वरु तम्म•••त्रं बिणैय बम्मि-सेट्टि माडिसिद•••
दोण्टं बेळुवेन्दु कारुण्यं गेय्दु•••इप्फत्तनाल्कु २४•••जन-
सालेयं•••बडगल्लु सासिर्व्वर बेसदि समस्त•••यी-जिनालयङ्गळ
धमङ्गळनारय्दु पुरो-वृद्धिगे•••मंगळ महा श्री

[जिनशासनकी प्रशंसा । जब (चालुक्य पदों सहित), त्रिभुवनमल्ल-
देवका बिजयराज्य चारों ओर प्रवर्द्धमान था और त्रिभुवनमल्ल•••
बनवासेपर शासन कर रहा था, बिणैय बम्मि-सेट्टिने एक जिनालय्य
बनवाकर उसे दान दिया और•••अग्रहारके हजारों ब्राह्मणोंके लिये
एक सत्र खोल दिया । (शिला-लेखका अधिकांश घिसा हुआ है) ।]

२२२

हरकेरे—कन्नड

[विना काल-निर्देशका, पर लगभग १०६० ई०]

[हरकेरे (क्षिमोगा परगना) में, रामेश्वर मन्दिरके रंग-मण्डपमें
उत्तर-पश्चिम स्तम्भपर]

खस्ति श्रीमन्महा-मण्डलेश्वर भुज-बळ-गंग पेर्माडि-बम्मदेव मण्डलिय-
तीर्थद पड्ड-वसदिये विट्ट दति (आगेकी दो पंक्तियोंमें दानकी चर्चा है)
मत्तमातन-पड्डरसि गङ्ग-महादेवी विट्ट वृत्ति सूळ्येयवयल्लु । मत्तमातन
मग मारसिंग-देव विट्ट वृत्ति आर्द्रवळ्ळि । मत्तमातन विट्ट तळ-वृत्ति
वसदियाप्रेय कोणरेयि मूडल्लु गदेगळेय मत्तलोन्दु बेदलेगळेय मत्तले-
रडु । मत्तमातन तम्म सत्य-गंग विट्ट वृत्ति सिरियूरु । मत्तमा-गदेयि
तेङ्गल्लु विट्ट तळ-वृत्ति गदेगळेय मत्तलोन्दु बेदलेगळेय मत्तलेरडु ।
मत्तमातन तम्म रकस-गंग हुलियकेरेय गदेयुमदर सुत्तण बेदलेयम
विट्ट । मत्तं हरकेरेय सीमे-पर्यन्त विट्ट गदेगळेय मत्तलोन्दु बेदले-
गळेय मत्तलेरडु । मत्तमातन तम्म भुजबळ-गंग हेगणलेय विट्ट । हर-
केरिय वृत्तिय केरेयोळगे विट्ट गदेगळेय मत्तलोन्दु । मत्तमाकेरेयि
हडुवण कोळ्द केळगे विट्ट साल-केयिगळेय मत्तलोन्दु मत्तमा-कोळदि
बडभल्लु विट्ट बेदलेगळेय मत्तलोन्दु । मत्तमातन मग मारसिंग-देव
नन्निय-गङ्ग-पेर्माडि वसदिय मुन्दे विट्ट गदेगळेय मत्तलोन्दु ।
मत्तं वसदिय बडगण हेगरेगे परिद काल-केळगे विट्ट बेदलेगळेय
मत्तलेरडुमदके सीमे मूडण कोळ हडुवळ्ळु मोरसर-कोळ । मत्तं वसदिय-
हळ्ळिय सुंकमं विट्ट । मत्तं तन्नाळ्वनाडू-ऊर्गोळ्ळु पम्मावति-देविगे
काणिकेयं कोट्ट शर ५ मित पणमना-चन्द्राक-तारं-वरं ॥ मत्तं वीर गङ्गन

पट्टके हिरियकेरेय केळगे विट्ट गदेगळेय मत्तलोन्दु (भागेकी ३ पंक्ति-
दोंमें दानकी चर्चा है)

[महामण्डलेश्वर भुजबल-गंग पेर्माडि-बर्मदेवने मण्डलि-तीर्थकी
पट्ट बसदिके लिये (उक्त) भूमिका दान किया और उसकी रानी गंग-
महादेवी, उसका पुत्र मारसिंग-देव, उसका छोटा भाई सत्य (नक्षिय)
गंग, उसका छोटा भाई रक्तस-गङ्ग, उसका छोटा भाई भुजबल-गंग, उसका
पुत्र मारसिंग-देव नक्षिय-गङ्ग-पेर्माडि, इन सबने (उक्त) भूमि-दान
किये ।

और अपनेद्वारा शासित नाड्के गाँवोंमें पद्यावती देवीको ५ पणका
उपहार दिया । यह उपहार तबतकके लिये जारी रहेगा जबतक आकाशमें
सूर्य, चन्द्रमा और तारे चमकते हैं ।]

[EC, VII, Shimoga tl. n° 6]

२२३

चिक्कहनसोगे—कन्नड

[विना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग १०८० ई०]

[जिन-बस्तिमें, नवरङ्ग-मण्टपके दरवाजेके ऊपर]

श्री-कोण्डकुन्दान्वय देशिय-गण पुस्तक-गच्छद श्री-दिवाक-
रनन्दि-सिद्धान्त-देवर ज्येष्ठ-गुरुगळ्प (भट्टार) दामनन्दि-भट्टार
सम्बन्दि ई-पनसोगेय चङ्गाळ्व-तीर्थदेळा बसदि-गळुमब्बेय बसदियुं
तोरे-नाड बेळ्विनेय बसदियुं तत्समुदाय-मुख्यम्

[कोण्डकुन्दान्वय, देशि-गण तथा पुस्तक-गच्छके, दिवाकरनन्दि-सिद्धान्त-
देवके ज्येष्ठ गुरु—दामनन्दि भट्टारक-के अधिकारमें इस पनसोगेके चङ्गाळ्व-
तीर्थकी सारी बसदियाँ (मंदिर) हैं । अब्बेय बसदि तथा तोरेनाडकी
बसदि भी उनके प्रधान शिष्य-गणके अधिकार-क्षेत्रमें हैं ।

भागोका शिलालेख ।

[इनसोगेमें, आदीश्वर-बस्तिके दाहिनी ओरके दरवाजेके ऊपर)

नोटः—यह लेख ऊपरके ही लेख-जैसा है । उसमें कुछ फेरफार नहीं है ।

[EC, IV, Yedatore tl. n° 23 and 27]

२२४

मदलापुर—कच्छड़-भद्र

[काल लुप्त,—पर संभवतः लगभग १०८० ई०]

[मदलापुर (मल्लिपट्टण परगना)में, गोणि वृक्षके नीचे एक पाषाणपर]

(सामने) स्वस्ति श्रीमनु.....वर्य-नल्लूरस.....अरकरेय बसदि
 माडितु इदके.....ल्वदु-गदे.....मण्णु अय्-गण्डुग पिरिय.....दोळ्यु-
 गण्डुग-मण्णु विसवूर-मण्णु अय्-गण्डुग कोटेय मण्णु मु-गण्डुग इनितु
 बसदिगे सल्ल-भूमि अदा-पदके अदटरादित्य अधिरत-पाण्ड्य्य बेळु
अरसर-कालदोळ् श्रीम.....मने-ग.....सिवय्य.....
 गुड्येय.....मण्डळ कलाचन्द्र-सिद्धान्त-देव-भट्टार शिष्य.....
 अमलचन्द्र-भट्टारकर्गे.....बसदिय माडि.....सल्लिसदु.....
 (हमेशाका अन्तितम श्लोक) ।

सेनबोव दे.....

[.....नल्लूरसने अरकरेकी बसदि बनाई । (उक्त) भूमिका दान
 उसके लिये किया । जो कोई इसे नष्ट करेगा, वह अदटरादित्यके क्रोधका
 पात्र होगा ।

.....अरसके समयमें,मण्डळ कलाचन्द्र-सिद्धान्तदेव-भट्टारके
 शिष्य अमलचन्द्र-भट्टारकने इस बसदिको बनवाया । हमेशाका अन्तितम
 श्लोक । सेनबोव दे.....]

[EC, V, Arkalgud tl. n° 102]

२२५

खजुराहो—संस्कृत

[सं० ११४२=१०८५ ई०]

[इस प्रतिमा-लेखके लेखका पता नहीं है, क्योंकि यह लेख एक खण्डित
 प्रतिमापरसे ए. कर्निघमने लिया है, जो कि प्रतिष्ठाकाल और प्रतिमाके
 नामके सिवा और कुछ नहीं बताता । इस प्रतिमाकी प्रतिष्ठा या स्थापना

श्रेष्ठी श्री वीरतसाह और उसकी पत्नी सेठानी पद्मावतीने की थी। इस लेखके ऊपरसे ए. कर्निघमने फलितार्थ यह निकाला है कि प्राचीन बौद्ध मन्दिर ग्यारहवीं शताब्दिके जैनोंद्वारा अपने काममें लाया गया था। संभव है बौद्धमतकी हीनताके समय खजुराहामें जैनोंकी संख्या अधिक होनेसे उन्होंने उस प्राचीन बौद्ध मन्दिरको अपना बना लिया हो; या हो सकता है कि कर्निघमका यह अनुमान ही गलत हो कि गन्धरई-भग्नावशेष जैनोंका न होकर बौद्धोंका था। अस्तु, जो कुछ हो। इन खण्डित दि० जैन मूर्तियोंसे उस समय खजुराहामें जैनधर्मकी प्रधानता द्योतित होती है।]

[A. Cunningham, Reports, II, p. 431, a.]

२२६

हुम्मच—संस्कृत तथा कन्नड

[शक १००९=१०८७ ई०]

(उत्तरमुख)

स्वस्ति-श्री-लसदुग्र-वंश-तिलकः श्री-वीर-देवात्मजः
 दृष्यद्-वैरि-निकाय-दर्प-दलन-प्रादुर्भवद्-विक्रमः ।
 सम्पूर्णन्दु-करावदात-सु-यशो-व्यालित-दिग्-भित्तिकः
 श्रीमान् विक्रमशान्तरो विजयते लक्ष्मी-वधू-वल्लभः ॥
 ओदेदु तटत्तटेम्ब पद-ताटनेयिन्दे दिशा-गजादिगल् ।
 मदमुडुगिळ्दुवञ्जि पुगुविर्षेडे गाणने नागराजनुम् ।
 कदळद गम्पदिन्दमेळे कम्पिसे कूडे कलङ्के सागरम् ।
 बिदिर्दलगिन्दे तारकि कळल् तरलोङ्गुगार्दडोडुगुम् ॥
 अदिरदे बर्ष चप्परिप कप्परि पार्दलगोत्ति शास्त्रमम् ।
 बिदिर्दु मरल् मरल्चेनुते कुत्तुव कुत्तिदोडान्तु कट्टिदान-
 पददोळे सुत्ति मुत्तिदवोल्लेरने तोरुव गेण विन्नणक् ।
 ओदुवुव विन्नणं नेगळलोङ्गुग नीनरसङ्क-गाळनै ॥

परिदुदराम्निं मरेदु तिन्द पेणङ्गळिनादजीर्णदिम् ।
 मरुळ बळाळि वैद्य-मरुळं बेसगोण्डडे दन्ति मदेनल् ।
 करियने नुङ्गि सूडुकोळे वैद्य-मरुळ् नगे वीर-लक्ष्मि नो-
 डरि-हर निन्निनाथितदेने विक्रम-शान्तरनादनोडुगम् ॥

अन्तेनिसिद विक्रम-शान्तर-देवर स्स(श्च)क-वर्ष १००९ नेय
 प्रभव-संवत्सरद शुद्ध-पाडिवदन्दु पञ्च-वसदिय पूजा-विधान-जीर्णो-
 द्वरणकमल्लिर्ण ऋषि-समुदायकाहार-दानार्थमुमागि ॥

सरसति निनगिनितु कला-।

परिणति नेगर्दजितसेन-पण्डितरिन्दम् ।

दोरेवेत्तु देवियादी-।

पिरियतनं निन्नदल्लितदवर महत्त्वम् ॥

एनिसिद परवादीभसिंहापर-नामधेय-श्रीमत्-अजितसेन-पण्डित-
 देवर कालं कर्चि धारा-पूर्वकमा-सम्बन्धद समुदायं मुख्यमागे कोट्ट
 प्रामङ्गळ् (यहाँ दानकी विस्तृत चर्चा तथा वे ही अन्तिम वाक्यावयव
 और श्लोक आते हैं) द्रमिळ-गणो लसतितरां निरुपम-धी-गुण-महितैः ॥

श्रीमत्-सेनबोवं शोभनय्यं दिगम्बर-दासि बरेदम् ॥

[स्वस्ति । वीर-देवके पुत्र विक्रम-शान्तरकी प्रशंसा । उसका मूल नाम
 ओडुग था । उसकी प्रशंसाके श्लोक । ओडुग 'विक्रम-शान्तर' हो गया ।

विक्रम-शान्तर-देवने (उक्त मितिको) पञ्चवसदिमें पूजाके लिये, मर-
 म्मत तथा ऋषियोंके आहारके लिये, वादीभसिंह इस द्वितीय नामसे प्रसिद्ध
 अजितसेन-पण्डित-देवके पैरोंके प्रक्षालनपूर्वक (उक्त) गौबोंका दान,
 संपूर्ण करोंसे मुक्ति दिलाकर, किया । वे ही अन्तिम श्लोक ।

द्रमिळ-गणकी अत्यन्त शोभा है । सेनबोव शोभनय्य दिगम्बर-
 दासिने इसे लिखा है ।]

२२७

कोणूर (जिला बेलगाँव)—कन्नड

[विक्रमादित्य चालुक्यका १२ वां वर्ष=१०८७ ई०]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं
जिनशासनं ॥

श्रीनारिप्रिये(य) कण्डु तन्न नयनद्वन्द्वाळकत्रातमं जैनान्निद्व(द्वि)नखा-
ळियोळमधुकरत्रातं सरोजाळियं तानैतिल्लेगो तन्दुदेन्दु बगोदळ्मुग्धत्व-
दिन्दा जिनं भूनाथेशधरेश मोक्षुनिधिगंगी गायुमं श्रीयुमं ॥

खस्ति श्री त्रैभुवनाश्रयं पृथुधराश्रीवल्लभं शूकरन्यस्तेद्धध्वजलाञ्छनं
नुतमहाराजाधिराजं यशोविस्तारं परमेश्वरांकपरमं भडारकं शात्रवोन्म-
स्तन्यस्तपदाब्जनूर्जितयशं चालुक्यकण्ठीरवं ॥

सत्याश्रयकुळतिळकं सन्य युधिष्ठिरननेकविद्यानिपुणं प्रत्यक्षविक्र-
मादित्याल्यंतयशोविळासि त्रिभुवनमल्लं ॥

तद्राज्यमुत्तरोत्तरवद्विप्रभुचन्द्रसूर्यरुळ्ळन्नेवरं भद्रं सल्लुत्तमिरे रिपुवि-
द्रावणतल्पियात्मजं जयकर्णं ॥

जयकर्णावनिपाळमासुरलसल्लाळाटिकं श्रीवधूनयनाळंकृतरूपनूर्जि-
तयशःश्रीकामिनीवल्लभं जयकान्तामुजदण्डनाहवगदादण्डं गुणोन्मण्डितं
नयदिं कूडिधराधिपत्यदोळिरल् चामण्डदंडाधिपं ॥

खस्ति समधिगतपंचमहास्तुत्यविराजमानशब्द महाश्रीविस्तारं
पृथुविमळगुणस्तोमं मण्डळेस्वरं सेननृपं ॥

वदनं निर्मळवाग्धूसदनवात्मीयोहवक्षं लसत्सदळंकाररमाविळास-
विळसल्लक्षं खदोईण्डवुनमदवीरारिशिरःप्रकन्दुकहतिक्रीडोददण्डं निजा-
भ्युदयं सर्वजनानुरागदुदयं श्रीसेनभूपाळन ॥

इभपतिथंतिरे दक्षिणशुभदोद्यत्कारविळासि भासुरतेजं सुभटमदकरट-
विघटनविभवं चामण्डरायनिरे निज सभेयोळ् ॥

शुभमति योगंधरनवोलभयप्रदन्व्यणव्यनार्जितसुयशोविभवं निजसभे-
योळिरल्पभुमन्नोत्साहशक्तिगुणसंपन्नं ॥ दुष्टोप्रविनिप्रहर्दि शिष्टप्रतिपाळ-
नदि निळेयनाळुतुं शिष्टेष्टप्रदम्नत्युक्कष्टदे राज्यैगीयुत्तमिरे सेननृपं ॥

श्रीरमणीभासि बळत्कारगणाम्भोधिकोण्डनूरोळ् निधिगं भूरमणी-
मकुटाळंकारदि नेसेदोपि तोर्प जिनमन्दिरमं ॥ एसेदिरे माडिसि
वृत्तियन सदळमेनलोसेदु बिडिसुतं निधिगं पेत्तिसिदनदेन्तेन्दडे
निजलसदाचार्यान्वयोद्भवप्रक्रमं ॥

श्रीलीलोभनयाक्षि निर्मळदयादेहं गुणोन्मल्लिकामालाकुन्तळभासि
भासुरतरश्रीजैनधर्मोद्भवं त्रैलोक्योदरवर्त्तिकीर्त्तिविळसत्स्याद्वादानामांकितं
मूलोक्कके निरन्तरं सोगधिकुं श्रीमूलसंघान्वयं ॥

जिनसमयमेम्ब सरसिज वनदोळगलद्दीपि तोर्प हेमाम्बुजदन्तनुप-
ममेने करमेसेबुदवनियोळ् सद्गुणगणं बळात्कारगणं ॥

वारिधिवेष्टिताखिलधरातळशोभितकीर्त्तितद्बळात्कारगणाम्बुजाकरवना-
न्तरदल्लि मराळलीलेयिं चारुचरित्रमार्गद जिनेशमुनीश्वरदुद्धपापहर्म्मा-
रमदेभकुंभबिल्लुठोत्कटशूरनेकरोपिदर ॥

उदयगिरीन्द्रदोळेसेवथुदितोदयवागि बळेप चन्द्रन तेरदन्तुदियिसिदं
कुवळयकभ्युदयकरं तद्गणाद्रियोळ्गणचन्द्रं । पक्षोपत्रासि देवनवक्षय-
तन्मुनिपदाब्जमधुकरशीळं रक्षितगुणगणनिळयमुमुक्षुजनानंदियप्प
नयनन्दिबुधं ॥

आ नयनन्दि य शिष्यं नानाविधाविळासनूर्जिततेजं श्रीनारीनाथ-
नवोळ् भूनुतना श्रीधराठ्ययतिपतितिळकं । तन्मुनिपदाब्जमधुकरनुम-

दमिथ्याकथाविमथनं मुनिपं सन्मार्गिं चन्द्रकीर्तिं वियन्मार्गद चन्द्रनस्ते
कुवळयपूज्यं ॥

अतिचतुरकविचकोरप्रतति दरस्मेरनयनमीटिदपुदु दंबित कर्ण-
चंचुपुटदिं श्रुतिकीर्तिमुनीन्द्रचन्द्रवाक्चन्द्रिकेय ॥

श्रीधरदेवं सुयशःश्रीधरनधिगतसमस्तजिनपतितत्व श्रीधरनेसेदं
सद्वाक्श्रीधरना चन्द्रकीर्तिदेवन तनयं ॥

आ मुनिमुख्यन शिष्यं श्रीमच्चारित्रचक्रि सुजनविळासं भूमिपक्किरि-
ताडितकोमळनखरशिमे नेमिचन्द्रमुनीन्द्रं ॥

श्रीधरवनजद सिरियं साधिपेनेम्बन्तिरेसेव मधुपन तेरनं श्रीधरपद-
सरसिजदोळ साधिप वोलेसेदु वासुपूज्यं पोल्तं ॥

त्रैविद्यास्पदवासुपूज्यमुनिपं स्याद्वादविद्यावचःप्रावीण्यप्रविभासि-
नोडनुडियल्-भव्याळिगाय्तुद्भवं नोवाय्तु प्रतिवादिगळिगे पिरिदुं भ्रान्ताय्तु
मिथ्यामदोद्गीवर्गेन्तु निजैकवाक्यदिननेकान्तत्वमं तोरिदं ॥

श्रीवाणीवदनांबुजातरसमं तन्नक्किरिं पीरुतुं लावण्यांगितपःप्रकृष्टवधुवं
व्यालिंगनंगेखुतुं जीवानन्ददयावधूवदनमं कूर्त्तीर्त्तियिं नोडुतुं त्रैविद्यास्प-
दवासुपूज्यमुनिपं तानिप्पनी धात्रियोळ् ॥

बृंहितपरमतमदकरिसिंहं त्रैविद्यवासुपूज्यानुजनुद्वांहस् संहरनेसेदं
संहृतकामं यशस्विमलयाळबुधं ॥

अतिचतुरकविकदम्बकनुतपद्मप्रभमुनीश राद्धान्तेशं श्रुतकीर्त्तिप्रियने-
सेदं यतिप्रत्रैविद्यवासुपूज्यतनूजं ॥

श्रीरमणीभासि बळात्कारगणाम्भोजमधुपरिरित्तिरे सततं चारुतरं
हिल्लेयरवतारं तद्गणसरोजगुणद वोलेसेगुं ॥

तत्कुल राजान्वयदोळ् सत्कविराज-प्रियावलोकनलीलोद्यत्कनका-
म्बुजदन्ते बृहत् किरणं सोरिगांकविभु धरेगेसेदं ॥

तत्सुत रमळिनसंकळजनोत्सवकर रुचिवचनरचनाळापर्मात्सर्ष्यप्रभुसु-
भटमरुत्सुतरा बल्लकलगामण्डबुधर् ॥ श्रीवधुगे भवतियन्ता भूविदितमे-
नत्केमानकांगियनन्ता श्रीविभुकलिदेवं बलदेवानुजनेम्ब कीर्त्तिगास्पद-
नादं ॥ अळिकुळकुन्तळे कुवळयदळलोचने चक्रवाककुचे कनकलतो-
ज्ज्वळमध्ये कनकिगामण्डल सत्तत्प्रभुमनोजसति रतियन्नळ् ॥

• वरचूतद्भ्रुमवेषनोज्ज्वळलतापुष्पांकुरोत्पत्तियन्तिरे तदपंतिगळिगे पुट्टि-
दनुरुश्रीजैनधर्मोत्सवं वरभव्याळिमनोनुरागविळसबाशीर्वचोविस्तरं पर-
मानंदयशोधिकं निधियमं सत्पात्रदानोधमं ॥

श्रीधरदेवपदाब्जश्रीधरनादोळिपनिं हृदब्जदोळीतं श्रीधरनादं नि-
धिगं साधितगुरुचरणनप्पवं पडेयुदुदें ॥ तत्पुत्रर् श्रीरमणीकनत्कनक-
कुण्डळ रावनिताविळाससस्मेरकटाक्षवीक्षणपरंपुरुषोत्तम मरुद्धकीर्त्तिगळ्
श्रीरम वासुपूज्यमुनिपादपथोरुहभृंगरोपुवर्चरुगुणाधरागि कलिदेवल-
सद्वल देवरीर्वरुं ॥


खस्ति श्रीमञ्चाल्क्यविक्रमकालद् १२ नेय प्रभवसंवत्सरद्
पौषकृष्णचतुर्दशीवङ्गवारदुत्तरायणसक्रान्तियन्दु श्रीमन्महाप्रभु निधि-
यमगामण्डं तन्न मान्यदोळगे हिंडादिय होलदोळ् सर्व्वबाधापरिहारवागि
कूण्डिय कोललिर्मत्तर्केय्युमं पनेरडु मनैयु मनोन्दु गाणमुमोन्दु तोष्टमुमं
तळवृत्तियागि माडि कोट्टना देवसं श्रीमन्महाप्रधा.....ण.....
गेयि.....तज्जिनालयवन्दनार्थं वन्दु श्रीमन्महामण्डळेस्वर.....
कन्नवृषं देवरंगभोगरंगभोगकं खण्डस्फटितजीर्णोद्धारकं तन्न सीवट-
दोळगण त.....वणनागि माडि.....श्रीधर-पंडितदेवर श्रीपा-

दप्रक्षालनं माडि.....पाळिसुत्तं तत्काळद ४६ नेय पुवसंव-
त्सरद पौषशुक्लत्रयोदशी.....दु.....श्रीमद्विक्रमचक्रिय प्रिया-
त्मजं जयकर्णं.....बसदिय भोगकं रि [षिजना] हार] कं....
धिगो.....प्य करंजगोहूरद.....यसाम्य.....रडु गधान.....
+ + +.....[श्री] मद्वासुपूज्य [मुनि] देवर पा (दप्रक्षा-
ळन)म(मं) मा(डि).....धर्मरक्षणा (फ)लं.....[गंगप्र]-
यागाकु-[रुक्षेत्र].....दान्त महा (?) (र) कित्त फळंगळं
पडगुम् [॥] तद्धर्म तत्तीर्थगाघातकं श्रीमूळसंघदुग्धाब्धोगुणोजनि-
बाळकारगणं बसदिय स्तंभस्थापनेयन्दु निधियमगामण्डं सर्वबाधापरि-
हारवागि कोट्ट.....केय्य मने ? कूण्डिय कोल कम्म०
१५० [॥]

[इस शिलालेखके प्रथम अंशका ऐतिहासिक भाग चालुक्य राजा
त्रिभुवनमल्ल या विक्रमादित्य द्वितीयके वर्णनसे शुरू होता है, और दूसरा
नाम उसके पुत्र जयकर्णका दिया है। फिर लेखमें जयकर्णके अधीनस्थ
दो शासकोंका उल्लेख आता है,—

दण्डाधिप (सेनापति) चामण्ड, जो कुण्डी देशका शासक था, और
मण्डलेश्वर सेन, जिसका शासन-क्षेत्र नहीं दिया हुआ है।

यह सेन संभवतः रट्टोंकी सूचीमेंका द्वितीय नाम है। तत्पश्चात् बला-
स्कारगणके व्यक्तियोंकी गणना आती है। ये कोरुके उच्च-गुरु थे। बादमें
'हिल्लेरु' खान्दानका परिचय, जिसके घरके लोग सेनके राज्यकालमें गाँवके
चौकीदार थे। हिल्लेरुको तो बलास्कारगणका ही बतलाया गया है, पर
सोरिगाङ्गके विषयमें कुछ नहीं बतलाया गया। इस खान्दानके लोगोंके ये
नाम दिये गये हैं:—



प्रथम दान लिधियमगामण्डने अपने बनाये हुए कोण्डनूरुके मन्दिरको शक वर्ष १००९ (१०८७-८ ई०) में, जो कि प्रभव संवत्सर था, किया था। उसी समय एक दान कल्ल नामको धारण करनेवाले दूसरे राजाने, जो इसी मन्दिरके दर्शन करनेके लिये आया था, दिया था। दूसरा दान शक सं. १०४३ (११२१-२ ई०) प्लवसंवत्सरमें, सम्राट् विक्रमके प्रिय पुत्र जयकर्णने अपने पिताके राज्यमें किया था। तीसरा दान लिधियमगामण्डका ही है। इस दानमें उसने कुण्डी-वृत्तमें एक मकान और १५० 'कम्म' भूमि दी थी।]

[JB, X, p. 179-181; p. 287-292, t. ; p. 293-298, tr; ins. n° 8, (1st part).]

२२८

दुबकुण्ड—संस्कृत

सं० ११४५=१०८८ ई०

[दुबकुण्ड ग्राममें स्थित जिनमन्दिरका शासनपत्र ।]

पं. १ ओं ॥ [ओं] न [मो] वीतरागाय ॥ आ -- द्र ि ट -
 ५५ टना- [चत्पा] दपीठं लुठन्मं[दा]रुत्तगमं[द]गुंज[द]
 लि[म]निष्ठयूत सांराविणम् । [त]-

- २ [त्पा] * * * वद्व[च]: *रसु---* [तां]सं* [द्वे[ग]-
मिवाकरोत्स ऋषभस्वामी श्रिये स्तात्सता[म्]॥वि (वि) भ्रा-
३ [णो] गुण[सं]ह[ति] हततमस्तापो निजज्योतिषा [यु] क्ता-
त्मापि जगंति संगतजय [श्च]क्रे सरागाणि यः । उन्माद्यन्म-
४ कर[ध्व]जोर्जितगजग्रासोल्लसत्केसरी संसारोग्रगदच्छिदेस्तु
स मम श्री सां(शां)तिनाथो जिनः ॥ जा[ड्यं]सखदखंडित-
५ क्षयमपि क्षीणाखिलोपक्ष[यं]साक्षादीक्षितमक्षिभिर्दधदपि प्रौढं
कलंकं तथा । चिह्नत्वाद्यदुपांतमाप्य सततं [जात]-
६ [स्तथा?]नंदकृच्चंद्रः सर्वजनस्य पातु विपदश्चंद्रप्रभोर्हंस
नः ॥ सो(शो)कानोकहसंकुलं रतितृणश्रेणि प्रणश्य [ङ्गम]-
७ - - [त्मा]ध्वगभूममुद्रतमहामिथ्यात्ववातध्वनि । यो
रागादिमृगोपघ्रातकृतधीर्ध्यानाग्निना भस्मसाद्भावं कर्म-
८ वनं निनाय जयतात्सोयं जिनः सन्मतिः ॥ प्रसाधितार्थ-
गुर्भव्यपंकजाकर[भा]स्करः । अंतस्तमोपहो वोस्तु गो-
९ तमो मुनिसत्तमः ॥ श्रीमज्जिनाधिपतिसद्बदनारविंदमुद्रच्छ-
दच्छतरवो(वो)धसमृद्धगंधम् । अध्यास्य या जगति पं-
कजवासिनी-
१० ति ख्या[ति]जगाम जयतु सु[श्रु]त देवता सा ॥ आसीत्क-
च्छपघातवंशतिलकखैलोक्यनिर्यद्यशःपांडुश्रीयुवराजसूनु-
११ समद्यद्भीमसेनानुगः । श्रीमा[न]र्जुनभूपतिः पतिरपाम्-
प्याप यत्तुल्यतां नो गांभीर्यगुणेन निर्जितजग[द्ध]न्वी धनु-
१२ विवधया ॥ श्रीविद्याधरदेवकार्यनिरतः श्रीराज्यपालं
हठात्कंठास्थिच्छिदनेकवाणनिवहैर्हत्वा महस्याहवे ।

- १३ [डिंडीरा]वलिचंद्रमंडल[मि]लन्मुक्ताकलापोज्व(ज्व)लैबैलोक्यं
सकलं यशोभिरचलैर्योजस्रमापूरयत् ॥ यस्य
- १४ प्रस्थानकालोत्थितजलधिरवाकारवादित्रशब्दा(ब्दा)वेगान्नि-
र्गच्छदद्विप्रतिमगजघटाकोटिघंटारवाश्च । संस-
- १५ पन्तः समंतादहमहमिकया पूरंभतो विरेमुर्नो रोदोरंभभागं
गिरिविवरगुरूद्यत्प्रतिध्वानमिश्राः ॥ दिक्च-
- १६ क्राक्रमयो [ग्य] मार्गणगणाधाराननेकान् गुणानच्छिन्ना-
ननिशं दधद्विधुकलासंस्पर्द्धमानद्युतीन् । [सू] नु-
- १७ [च्छि]न्नधनुर्गुणं विजयिनोप्याजौ विजित्यो [जि] तं
जातोस्मादभिमन्युरन्यनृपतीनामन्यमानस्तृणम् ॥ यस्या-
ल्य [द्युत]-
- १८ वाहवाहनमहाशस्त्रप्रयोगादिषु प्रावीण्यं प्रविकृत्यितं पृथु-
मतिश्रीभोजपृथ्वीभुजा । च्छत्रालोकनमात्रजात-
- १९ भयतो द्यतारिभंगप्रदस्यास्य स्याद्गुणवर्णने त्रिभुव[ने]
को लब्ध(ब्ध)वर्णः प्रभुः ॥ तुरगखरखुराप्रोत्खात-
[धात्री]-
- २० समुत्थं स्थगयदहिमरस्से(स्मे)मंडलं यत्प्रयाणे । प्रचुरतर-
रजोन्याशेषतेजस्वितेजोहतिमचिरत
- २१ एवा[शं]सतीवानिवारम् ॥ शरदमृतमयूखप्रेखदंशु-
प्रकाशप्रसरदमितकीर्तिव्याप्तदिक्चक्रवालः । अजनि
विजय-
- २२ पालः श्रीमतोस्मान्महीशः शमितसकलधात्रीमंडलेशलेस
(शः) ॥ भयं यच्छत्रूणां त्रिदशतरुणीवीक्षितरणे

- २३ क्रमेणाशेषाणां व्यतरदसदप्यात्मनि सदा । सतोप्यंशना-
दादव-[नि]वलयस्याधिकमतो बु(बु)धानामाश्चर्यं व्यत-
नुत
- २४ नरेन्द्रो हृदि च यः ॥ तस्माद्विक्र[म]कारिविक्रमभर-
प्रारंभनिर्भेदितप्रोत्तंगाखिलवैरिवारणघटोद्यन्मां[स]कुंभ-
- २५ स्थलः । श्रीमान्विक्रमसिंहभूपतिरभूदन्वर्थनामा समं
सर्व्वासा(शा)प्रसरद्विभासुरयशःस्फारस्फुरत्केसरः ॥
- २६ वा(त्रा) लस्यापि विलोक्य यस्य परिघाकारं भुजं दक्षिणं
क्षीणाशेषपराश्रयस्थितिधिया वीरश्रिया संश्रितम् । सर्वाङ्गेष्व-
- २७ वगूहनाग्रहमहंकारादहंपूर्विका राज्यश्रीरक्ता[ता]धिगस्य
विमुखी सर्वान्यपुंवर्गतः ॥ अत्यंतोद्दृप्तविद्विट्तिमि-
- २८ रभरमिदि च्छादितानी[ति]ताराचक्रे विश्वक् प्रकाशं सकल-
जगदमंदावकाशं दधाने । निःपर्यायं दिगास्यप्रसरदुरु-
- २९ क[राक्रां]तधात्रीघरेन्द्रे यस्मिन् राजांसु(शु)मालिन्यहह सति
वृथैवैषकोन्योशुमाली ॥ यद्विजयेवतरुरंगखुराग्रसं-
- ३० गक्षुण्णावनीवलयजन्यरजोभिसर्पत् । विद्वेषिणां पुरवरेषु
तिरोहितान्यवस्तूकारं प्रलयकालमिवादिदे-
- ३१ श ॥ तस्य क्षितीश्वरवरस्य पुरं समस्ति विस्तीर्णशोभम-
मितोपि चडोभसंज्ञम् । प्राप्तेप्सितक्रयसमग्रदिगागताङ्गि-
- ३२ व्यावर्ण्यमानविपणिव्यवहारसारम् ॥ ० ॥ आसीज्जायस-
पूर्व्वनिर्गतवणिग्वंशाव(ब)राभीशुमान् जासकः प्रक-
[टाक्षता]-

- ३३ धनिकरः श्रेष्ठी^१ प्रभाधिष्ठितः । सम्यग्दष्टिरमीष्टजैन[च]
रणद्वंद्वार्चने यो ददौ पात्रौघाय[चतु]र्विधं[त्रि]विबु(बु)-
- ३४ धो दानं युतः श्रद्धया । श्रीमज्जिने[श्वर]पदांबु(बु)रुह-
द्विरेफो विस्फारकीर्त्ति[ध]वलीकृतदिग्विभागः । पुत्रोस्य
वैभवपदं
- ३५ जयदेवनामा सीमायमानचरितोजनि सज्जनानाम् ॥ रूपेण
सी(शी)लेन कुलेन सर्व्वस्त्रीणां गुणैरप्यपरैः
- ३६ शिरस्सु । पदं दधानास्य व(ब)भूव भार्या यशोमतीति
प्रथिता पृथिव्याम् ॥ तस्यामजीजनदसावृषिदाहडाख्यौ
पुत्रौ प-
- ३७ वित्रवसुराजितचारुमूर्त्ती । प्राच्यामिवार्कस(श)शिनौ समयः
समस्तसंपत्प्रसाधकजनव्यवहार हे[तू] ॥ प्रोन्माद्यत्सकला-
- ३८ रिकुंजरशिरोनिर्दारणोद्यद्यशोमुक्ताभूषितभूरभूरपि भियान्नो-
न्मार्गगामी च यः । सोदाद्विक्रमसिंहभूप-
- ३९ तिरतिप्रीतो यकाभ्यां युगश्रेष्ठः श्रेष्ठिपदं पुरेत्र परम^१प्राकार-
सौधापणे ॥ ० ॥ आसीद्विशुद्धतरवो(बो)धचरित्रद-
- ४० छिनिःशेषशू(सू)रिनतमस्तकधारि[ता]ज्ञः । श्रीलाटवागट-
गणोन्नतरोहणाद्रिमाणिक्यभूतचरितो गुरुदेवसे-
- ४१ नः ॥ सिद्धांतो द्विविधोप्यवाधितधिया येन प्रमाणध्व[नि]
ग्रंथेषु प्रभवः श्रियामवगतो हस्तस्थमुक्तोपमः ।
- ४२ जातः श्रीकुलभूषणोखिलवियद्वासोगणप्रामणीः सम्यग्द-
र्शनशुद्धवो(बो)धचरणालंकारधारी ततः ॥ रत्नत्रया[भ]रण-

^१ शायद 'श्रेष्ठिप्रभा' में परिवर्तित । २ 'परमप्राकार' पढ़ो ।

- ४३ धारणजातशोभस्तस्मादजायत स दुर्लभसेनसूरिः । सर्वं
श्रुतं समधिगम्य सहैव सम्यगात्मस्वरूपनिरतो भवदिन्द्र-
- ४४ [वी]र्यः ॥ आस्थानाधिपतौ वु(बु)धा[दवि]गुणे श्रीभोज-
देवे नृपे सभ्येष्वंब(ब)रसेनपंडितशिरोरत्नादिषूद्यन्मदान् ।
योने-
- ४५ कान् शतशो व्यजेष्ट पटुताभीष्टोद्यमो वादिनः शास्त्रांभोनि-
धिपारगोभवदतः श्रीशांतिषेणो गुरुः ॥ गुरुचर-
- ४६ णसरोजाराधनावाप्तपुण्यप्रभवदमलवु(बु)द्धिः शुद्धरत्न-
त्रयोस्मात् । अजनि विजयकीर्तिः सूक्तरत्नाव-
- ४७ कीर्णां ज[लधि]भुवमित्रैतां यः प्रस(श)स्ति व्यधत् ॥
तस्मादवाप्य परमागमसारभूतं धर्मोपदेशमधिकाधिगत-
- ४८ प्रवो(वो)धाः । लक्ष्म्याश्च वं (वं)धुसुहृदां च समागमस्य
मत्वायुषश्च वपुषश्च विनश्चरत्वं ॥ प्रारब्धा (ब्धा) धर्मकां-
तारविदाहः
- ४९ साधु दाहडः । सद्विवेकश्च[क्]केकः सर्पटः सुकृते पटुः ॥
तथा देवधरः शुद्धः धर्मकर्मधुरंधरः । चं[द्रा]लिखि-
- ५० तनाकश्च महीचंद्रः शुभार्जनात् ॥ गुणिनः क्षणनाशि-
श्रीकलादानविचक्षणाः । अन्येपि श्रावकाः केचिद-
- ५१ कृते[धन]पावकाः ॥ किं च लक्ष्मणसंज्ञोभूद् हरदेवस्य
मातुलः । गोष्ठिको जिनभक्तश्च सर्व्वशास्त्र-
- ५२ विचक्षणः ॥ शृंगाम्रोल्लिखितांब(ब)रं वरसुधासांद्रद्रवापां-
डुरं सार्थं श्रीजिनमन्दिरं त्रिजगदानंदप्रदं सुं-

- ५३ दरम् । संभूयेदमकारयन्गुरुशिरःसंचारिकेत्वंव(ब)रप्रतिने-
च्छलतेव वायुविहतेर्षामादिश[त्पश्य-]
- ५४ ताम् ॥ ० ॥ अथैतस्य जिनेश्वरमंदिरस्य निष्पादनपूजन-
संस्काराय कालान्तरस्फुटितत्रुटितप्रतीका-
- ५५ रायं च महाराजाधिराजश्रीविक्रमसिंहः स्वपुण्यरासे(शे)
रप्रतिहतप्रसरं परमोपचयं चेतसि [नि] धायं
- ५६ गोणीं प्रति विंशोपकं गोधूमगोणीचतुष्टयवापयोग्यक्षेत्रं
च महा[चक्र]ग्रामभूमौ रजकद्रहपू-
- ५७ र्वदिग्भागवाटिकां वापीसमन्वितां । प्रदीपमुनिजनशरीरा-
भ्यंजनार्थं करघटिकाद्वयं च दत्तवान् । तच्चाचं-
- ५८ द्राकं महाराजाधिराजश्रीविक्रमसिंहोपरोधेन । “व (ब) ड्-
भिर्व्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरादिभिः । यस्य य-
- ५९ स्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फल”मिति स्मृतिवचना-
न्निजमपि श्रेयः प्रयोजनं मन्यमानैः सकलैरपि
- ६० भाविभिर्भूमिपालैः प्रतिपालनीयमिति ॥ ० ॥ लिलेखो-
दयराजो यां प्रस(श)स्ति शुद्धधीरिमाम् । उत्कीर्णवा-
- ६१ न् शिलाकूटस्तील्हणस्तां सदक्षराम् ॥ संवत् ११४५
भाद्रपदसुदि ३ सोमदिने ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥

[यह शिलालेख सन् १८६६ में कसान डब्ल्यू. नार. मैलविलीको बुबकु-
ण्डके एक मन्दिरके अभावशेषमें मिला था । इस लेखमें कुल ६१ पंक्तियाँ
हैं । ५४-६१ की पंक्तियोंको छोड़कर शेष लेख श्लोकोंमें हैं । इसको प्रशस्ति
(पंक्तियाँ ४७ और ६०) कहा है । इसको विजयकीर्ति (पं. ४६) ने
बनाया, उदयराजने (पं. ६०) लिखा और उत्कीर्ण करनेवाला

शिल्पी तिलहण (पं. ६१) था। इस सारे लेखमें 'ब' 'व' अक्षरसे लिखा गया है।

इस लेखका उद्देश्य एक जैनमन्दिरकी—जिसके कि पास यह शिलालेख मिला है—स्थापनाका उल्लेख करना है। इसकी स्थापना कुछ निजी आदमियोंने की थी और इस मन्दिरको कुछ दान महाराजाधिराज विक्रमसिंह (पं. ५४-५८) ने दिया था। इस शिलालेखके लिखनेके समय, विक्रम सं. ११४५ में, वे दुबकुण्डके आसपासके प्रदेशपर शासन करते थे। इस लेखके स्पष्टतः दो विभाग हो जाते हैं: पहले विभागमें (पंक्तियाँ १०-३२) युवराज विक्रमसिंह और उनके पूर्वजोंका वर्णन है; दूसरे में (पंक्तियाँ ३२-५१) मन्दिरके संस्थापकों (या प्रतिष्ठापकों) तथा उनसे सम्बद्ध कुछ मुनियोंका वर्णन है। प्रारम्भके छह श्लोकों (पं. १-१०) में कवि ऋषभस्वामी, शान्तिनाथ, चन्द्रप्रभ और महावीर इन तीर्थङ्करोंकी, तथा गणधर गौतम, ध्रुतदेवताकी जो पंकजवासिनीके नामसे जगत्में प्रसिद्ध है, स्तुति करते हैं।

युवराज विक्रमसिंहके वर्णन (पं. १०-३२) में ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार है:—

कच्छपघात (कच्छवाहा) वंशमें—

१ पांडु श्रीयुवराज (?) हुए। उनके बाद उनके लड़के—

२ अर्जुन हुए, जिन्होंने विद्याधरदेवके कार्यसे, युद्धमें राज्यपालको मारा। उनके पुत्र—

३ अभिमन्यु हुए, जिनके पराक्रमकी प्रशंसा राजा भोजने की थी। उनके पुत्र—

४ विजयपाल हुए; और फिर उनके पुत्र—

५ विक्रमसिंह हुए, जिनके कालकी तिथि यह शिलालेख संवत् ११४५ भाद्रपद सुदि ३ सोमवार बतलाता है।

दूसरे विभागके लेखका सार यह है कि विक्रमसिंहके नगरका नाम चंदोभा था। यह चंदोभा वर्तमान दुबकुण्ड ही होना चाहिये और उस समय यह एक बड़ा भारी व्यापारका केन्द्र रहा होगा। ३२-३९ की पंक्तियोंके श्लोकोंमें उस समयके दो प्रसिद्ध जैन व्यापारियोंका नाम—ऋषि और दाहड

दिया हुआ है। विक्रमसिंहने उनको 'श्रेष्ठि' की पदवी दी थी और इन्हींमें से एक—साधु दाहड़—मन्दिरके संस्थापकोंमेंसे हैं। ऋषि और दाहड़ दोनों ही जयदेव और उसकी पत्नी यशोमतीके पुत्र, तथा श्रेष्ठी जासूकके नाती थे। जासूक जायसवाल वंशके थे जो 'जायस' (एक शहर) से निकला था।

३९-४५ की पंक्तियोंमें कुछ जैन मुनियोंका वर्णन है। उनमेंसे अन्तिम विजयकीर्ति थे। उन्होंने न केवल इस शिलालेखका लेख ही तैयार किया था, बल्कि अपने धार्मिक उपदेशसे लोगोंको इस मन्दिरके निर्माणके लिये भी, जिसका कि यह शिलालेख है, प्रेरणा की थी। उल्लेखित मुनियोंमेंसे सर्वप्रथम गुरु देवसेन हैं। ये लाट-वागट गणके तिलक थे। उनके शिष्य कुलभूषण, उनके शिष्य दुर्लभसेन सूरि हुए। उनके बाद गुरु शान्तिषेण हुए, जिन्होंने राजा भोजदेवकी सभामें पंडित शिरोरत्न अंबरसेन आदिके समक्ष सैकड़ों वादियोंको हराया था। उनके शिष्य विजयकीर्ति थे।

मन्दिरके संस्थापकोंमेंसे पंक्तियाँ ४८-५१ उनका नामोल्लेख इस प्रकार करती हैं:—साधु दाहड़, कूकेक, सूर्यट, देवधर, महीचन्द्र, और लक्ष्मण। इनके अलावा दूसरोंने भी जिनका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, इस मन्दिरकी स्थापनामें मदद दी थी।

गद्यभागमें (५४ वीं पंक्तिसे शुरू होनेवाला) कथन है कि महाराजा-धिराज विक्रमसिंहने मन्दिर तथा इसकी मरम्मतके लिये तथा पूजाके प्रबन्धके लिये प्रत्येक गोणी (अनाजकी?) पर एक 'विंशोपक' कर लगा दिया था तथा महाचक्र गाँवमें कुछ जमीन भी दी थी तथा रजकद्दहमें कुँबासहित बगीचा भी दिया था। दिए जलानेके लिये तथा मुनिजनोंके शरीरमें लगानेके लिये उन्होंने कितने ही परिमाणमें (ठीक ठीक परिमाण जाना नहीं जा सका; शिलालेखके शब्द हैं 'करघटिकाद्वय') तेल भी दिया।

अन्तमें आगामी राजाओंको भी उपर्युक्त दानको चालू रखनेकी प्रार्थना करनेके बाद, ६०-६१ पंक्तियोंमें इस प्रशस्तिके लिखनेवाले और इसको खोदनेवाले दोनोंका नाम दिया है। लिखी जानेकी तिथिका उल्लेख करके यह शिलालेख समाप्त हो जाता है।]

२२९

श्रवणबेलगोला—संस्कृत

[विना कालनिर्देशका]

[देखो, जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग]

२३०

कणवे—संस्कृत तथा कन्नड़—भग्न

[वर्षं शुक्र. १०९० ई० ? (६० राहस) ।]

[कणवेमें, कल्लु-बस्तिमें एक समाधि-पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

साहस.....महिमं जित-शत्रु वि.....होयसळा.....
निळयेयं सम्यक्त्व-चूडामणियने नेगळदं भण्डारि-चन्दिमय्यन प्रियेयुं जिन-
पादाम्बुजमं स्मारियसुत दिवकेय्-दिदरेन्दोडे कृताःतर्धिरिन्नाइ विस्वावनि-
योळु ॥

खस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितं जिन-गन्धोदक-पवित्रीकृतोत्तमाङ्गनु
भव्य-रत्नाकरन सरस्वती-देवी-कर्ण-कुण्डलाभरणनप्प श्रीमन्महा-प्रधान
होयसळ-देवन भण्डारि चन्दिमय्यन हेण्डति बोप्पव्वेयु शुक्क-संव-
त्सरद पौष्य-मासदल्लु सन्यासनं गेय्दु समाधि-सहित सोमवारदेरडनेय-
जावदल्लु स्वर्ग-प्रापितरादरु

[जिनशासनकी प्रशंसा । प्रधान मंत्री होयसळ-देवके खजाञ्ची चन्दिम-
य्यकी पत्नी बोप्पव्वेने (उक्त मितिको), संन्यसन करते हुए, समाधिपूर्वक
'स्वर्ग' प्राप्त किया ।]

[EC, VIII, Tirthahalli tl., n° 198.]

२३१

बाळहोन्नूर—संस्कृत

[विना कालनिर्देशका;—पर संभवतः लगभग १०९० ई० का]

[बाळहोन्नूरमें, दूसरी चट्टानपर]

श्रीमद्वादीभसिंहस्याजितसेन-महा-मुनेः ।

अग्रशिष्येण मारेण कृता सेयं निशीधिका ॥

अगणितगुणगणनिलयो जैनागम-त्रार्धि-वर्द्धन-शशाङ्कः ।

...त्यूर्जित-मण्डलि...र-गणे नत-गणाधीशः ॥

[वादीभसिंह अजितसेन-महामुनिका यह स्मारक उनके प्रधान शिष्य मारेके द्वारा बनवाया गया था । ये गणाधीश अगणित गुणोंके निलय (स्थान) थे, जैनागमरूपी समुद्रके पानीको बढ़ानेके लिये चन्द्रमा थे ।]

[EC. VI, Koppa tl., n° 3.]

२३२

कणवे—संस्कृत तथा कन्नड

[वर्ष आङ्कितस, १०९३ ई० ? (ल० राइस) ।]

[कणवेमें, एक दूसरे समाधि-पाषाणपर]

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादादामोध-लाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

श्री-मूलसंघ-कोण्डकुन्दान्वय-देशीयगण-पुस्तकगच्छ लोकि-
यब्बे बसदिय प्र.....तळताळ बसदि

वळ.....रं बळ्ळुचुव लतान्त-सङ्गि.....दि सञ्- ।

चळिसि पळञ्चि तू.....रन नडिसि मेय्वगेयाद-दूसरिं ।

कळयदे निन्द कब्बुनद कग्गिद विडिनमरक्केवेत्त क- ।

तळमेनिसित्तु पुत्तडर्द मेय्य मळं मलधारि-देवर ॥

स्वस्ति श्रीमदाङ्गिरस-संवत्सर-पौष्य-मास-बहुल-सप्तमियादि-
त्यवारदन्दु अवर शिष्यरु शुभचन्द्र-देवर समाधिविधियिं स्वर्गस्थ-
रादरु ।

[जिनशासनकी प्रशंसा । श्री-मूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, देशिय-गण
और पुस्तक-गच्छ,—लोकियब्बे बसदिकी तलताल बसदिके मलधारि-देव
थे, कठोर तपस्यासे जिनका सारा शरीर धूल-धूसरित हो रहा था,
लोहेके समान बहुत समयतक जिसपर जङ्ग-सी चढ़ी हुई थी, और वल्मीक
(चींटियोंकी खोदी हुई मिट्टीका ढेर) के समान हो गया था । (उक्त
मितिको), उनके शिष्य शुभचन्द्र-देवने समाधिके बलसे स्वर्ग प्राप्त
किया ।]

[EC, VIII, Tirthahalli tl., n° 199.]

२३३

हले-बेलगोला—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक १०१५=१०९३ ई०]

(जैन शिलालेखसंग्रह, प्र० भाग)

२३४

सोमवार—कन्नड़-भम

[शक १०१७=१०९५ ई०]

[सोमवार (मल्लिपट्टण परगने)में, बसव मन्दिरकी एक सोटपर]

स्वस्ति....भद्रमस्तु जिनशासनाय स्वस्ति शक-वर्ष १०१७ नेय
युवसंवत्सरद भाद्रपद-मासद सुद्ध-सप्तमी-गुरुवारदन्दु मकर-लग्नं गुरुद-
यदल् श्रीमत्-सुराष्ट-गणद कल्नेलेय रामचन्द्र-देवर शिष्यन्तियरप्प
अरसब्बे-गन्तियर् (यहाँ स्वप्न हो जाता है) ।

[(उक्त मिति को) सुराष्ट-गणके कल्नेलेके रामचन्द्र-देवकी शिष्या अर-
सब्बे-गन्ति....]

[EC, V, Arkalgud tl., n° 96.]

२३५

दुबकुण्ड—स्तम्भपर-संस्कृत

[संवत् ११५२=१०९५ ई०]

संवत् ११५२—वैशाखसुदिपञ्चम्यां ॥

श्रीकाष्ठासंघमहाचार्यवर्यश्रीदेव-

सेनपादुकायुगलम् ।

[स्पष्ट है]

[A. Cunningham, Reports, XX, p. 102.]

२३६

सोमवार—कन्नड

[बिना कालनिर्देशका,—लेकिन संभवतः लगभग १०९५ ई०]

[सोमवार (मल्लिपट्टण परगना)में, बसवण्ण मन्दिरके मुख-मण्डपके सामनेके पाषाणपर]

पतिय सन्ततिय पति पेळ्द-मार्गादिम् ।

पति-हितनागि निस्तरिसि तत्पति माडिप जैनगेहमुन्- ।

नति-वेरसिर्....यनन्तदर्कहर- ।

प्पति-शशियुळ्ळिनं निरिसि जक्कनिदेम् सुकृतार्थनादनो ॥

दुद्दमल्ल-देवन बाणसि जक्कय्यं माडिसिदम् ॥

[अपने स्वामीके कुटुम्बमेंसे, उसी पद्धतिसे जिसे उसके स्वामीने बतलाया था, स्वामीके प्रति रहे हुए प्रेमसे उसने उसी मन्दिरको खड़ा किया जिसे उसका स्वामी बना रहा था । उसे आज्ञा थी कि यह मन्दिर तब तक खड़ा रहेगा जब तक आकाशमें सूर्य और चन्द्र चमकते हैं । जक्क कितना भाग्यशाली था ? दुद्दमल्ल-देवके रसोद्भये जक्कय्यने इसे बनवाया ।]

[EC, V, Arkalgud tl., n° 97.]

२३७

सौंदर्यि - संस्कृत तथा कन्नड

[विक्रमादित्य चालुक्यका २१ वाँ वर्ष=१०९६ ई०]

खस्ति समस्तभुवनाश्रय (यं) श्रीपृथ्वीवल्लभ (भं) महाराजाधि-
राज(जं) परमेश्वर (रं) परमभट्टारकं । सत्याश्रयकुळतिलक (कं)
चालुक्याभरणं श्री[म]त्रिभुवनमल्लदेवविजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-
प्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कतारंबरं सलुत्तमिरे ॥ तत्पादपद्मोपजीवि ॥ खस्ति
समधिगतपंचमहाशब्दमहामण्डलेश्वरं । लत्तल्लुर्पुरवराधीश्वरं त्रिवट्टीर्त्य-
निर्घोषणं । रडकुळभूषणं । सिन्धुरलाञ्छनं । विवेकविरिञ्चनं । सुवर्ण-
गरुडध्वजं सहजमकरद्व(ध्व)जं नामादिसमस्तप्रस(श)स्ति सहितं श्रीम-
न्महामण्डलेश्वरः कार्तवीर्यनृपः ।

रट्टवंशोद्भवः ख्यातो नन्नभूपस्य नन्दनः । श्रीमदाहवमल्लस्य
पादपद्मोपसेवकः ॥ सहस्रबाहुरिव ख्यातः कार्तवीर्यः प्रताप-
वान् । कुहुण्डदेशया(स्या)घाटं सादि(धि)तं तेन भूभुजा ॥
राजन्वत्यः प्रजा जाता दावरिनाम भूभुजा । तस्यानुजः
प्रतापी स्यात् कन्नकैरो महीपतिः ॥ तस्याग्रनन्दनो भाति वाद्या
विद्याविदो भुवि । एरगाख्यमहीपः स्यादनुजोस्याञ्कभूपतिः ॥ वाद्या
विद्याधरस्याग्रसूनुः श्रीसेनभूपतिस्तस्याग्रमहिषी जाता मैळलादेवि-
रूर्जिता ॥ श्रीकाळसेनभूपस्य तस्यासीदग्रनन्दनः [I] कन्नकैरनृपः
ख्यातो नृत्यगीतादिकोविदः ॥ तस्य गुरवः ॥ त्रैविद्यो राजते भूमौ
सर्वशास्त्रविशारदः । कनकप्र(भ)सिद्धान्तदेवो गणधरोपमः ॥
कनकप्रभदेवेभ्यः संक्रान्तो (न्तौ) सत्तियौ तदा । निवर्त्तनं द्वादश
(श) दत्तं नमस्यं (स्यं) नन्नभूभुजा ॥ तस्यानुजः ॥ गम्भीरेण समुद्रोसि
धि० २३

गौरवेणासि मन्दरः । श्रीकार्तवीर्यं लोका(नां) कल्पवृक्षोसि दानतः ॥
 तस्याग्रनन्दनः ॥ वृत्त ॥ श्रीरागतामळयशो वनिता सुयाता तत्र स्थिता
 जयवधू तत्र मण्डलाग्र (ग्रे) ॥ धारापथे सुभटमण्डलिकाग्रगण्य श्रीसेन-
 भूपकथमस्खळनेन चित्रं ॥

श्लोक ॥ सुगन्धवर्च्याह्वके प्रामे धर्मज्ञजनतावृते । श्रीकाळसेनभूपेन
 कारितं जिनमन्दिरं ॥ निवर्त्तनं द्वादशं(श) तस्मै । जिनगेहाय भक्तितः ।
 बृहदण्डेन संदत्तं । नमश्यं(स्यं)सेनभूमुजा ॥ वचनं ॥ वीरविक्रम
 'काळ'नामधेयसंवत्सरैकविंशतिप्रमितेष्वतीतेषु । वर्त्तमानधातुसंवत्सरे
 पुष्यबहुळत्रयोदश्यामादिवारोत्तरायणसंक्रान्तो (न्तो) । श्रीवीरपेर्माडि-
 देवेन कारेयबागुनामधेयखसीवटे द्वादशनिवर्त्तनं सर्वनमश्यं (स्यं)
 दत्तं ॥ तस्मिन्नेत्र सीवटे श्रीकन्नकैरेण खगुरखे द्वादशनिवर्त्तनं नमश्यं
 (स्यं) दत्तं ॥ तस्य सीमा । पूर्वस्यां दिसि (शि) हळसप्यसीवटाद(दा)
 रम्य पुलिगेरेवळ्ळिग्रामस्य सीमा । दक्षिणदिग्भागे सुगन्धवर्त्तिग्रा-
 मस्य सीमा । पश्चिमदिग्भिळये कुक्कुम्बाल्लु ग्रामस्य सीमा । उत्तरस्यां दिशि
 मळहारी नदी सीमा । सामान्योय धर्मसेतुर्नृपाणां काळे काळे
 पाळनीयो भवद्भिः । सवनिताम्भाविनः पार्थिवेन्द्रान् भूयो भूयो याचते
 रामभद्रः ॥ बहुभिर्वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिर्भ्यस्य यस्य यदा
 भूमिस्तस्य तस्य तदा फळं ॥ खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां ।
 षष्टिर्वर्षसहस्राणि विघ्नायां जायते कृमिः ॥ वृत्त ॥ इदनानन्ददे (दि)
 नोदि पाळिसिदवंगळ्ळं शुभं मंगळं । मुदमुत्साहमशेषसौख्यमेसेवायुं
 श्रीयुमन्तल्लदिन्तिदे तोनकेग.....न्द पूण्डु किडिसल्केन्दिर्प कष्टं निगोद
 (दि) दोडकेन्द (न्दु) गळ्ळिन्नं विषमदुःखावासमं पोर्दुगु ॥....
न्त ॥ गंगासागरयमुनासंगमदोळ् वारणासि गयेयेम्बी तीर्थगळोळो

[तु] कुळद्विजपुंगवगोकुळमनलि दरिन्तिदनळिदर ॥ वीरपेर्माडिदेवस्य जिनालयं ॥

[इस लेखमें चालुक्य राजा पेर्माडिदेवके द्वारा शकवर्ष १०१९ में जो धातु 'संवत्सर' था, १२ 'निवर्तन' भूमिके दानका उल्लेख है। तत्पश्चात् कन्नकेरके दानका उल्लेख है। यह दान उक्त दानसे पहलेका होना चाहिये। यह कन्नकेर, प्रथम या द्वितीय है, यह इस लेखपरसे कुछ पता नहीं चलता। अन्तमें यह लेख अपने साधारण तरीकेसे भूमिदान करनेके तथा पूर्ववर्ती राजाओंके दानोंकी रक्षा करनेके फायदोंके बतानेवाल श्लोकोंसे समाप्त होता है।]

[JB, X, p. 170-171 a; p. 194-198; t, p. 199, tr.,
ins. n° 2, (II part.).]

२३८

हुम्मच — कन्नड़-भग्न

[काल लुप्त, पर संभवतः १०९८ ई० ? (लुई राइस)]

[पंचबस्तीके प्राङ्गणमें, दक्षिणकी ओरके एक पाषाणपर]

खस्ति श्री-मूल-संघद पुस्तकगच्छदोळे प्रसिद्धि-वडेद श्री
..... भट्टारक-शिष्यरम्प लक्ष्मीसेन-भट्टारक-देवरु चिरकाल तपं
गेय्दु ॥ विदित-बहुधान्य कार्तिकशुक्ल तृतीयार्कज-
वार-सूर्योदय लक्ष्मीसेन-मुनिपरमरास्पदमं ॥
देवसेन-भट्टारक चारित्र-गुणोल्लसित-श्री-पार्श्वसेन-भट्टा-
रक एने जसं बडे ॥

विदित-बहुधान्य-नामा ।

न्ददोळोप्पुव-चैत्र-बहुळ-नवमी-कुजवा-।

† मूल लेखके अनुसार शक काल १०१८ बीतनेके बाद जो कि चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीयके राज्य प्रारम्भ होनेका २१ वाँ वर्ष था ।

रदोळोडि समाधियि.....।

धिदरनुपम-पार्श्वसेन-मुनिपर दिवमम् ॥

[स्वस्ति । श्री-मूलसंघ और पुस्तक-गच्छमें प्रसिद्ध.....भट्टारकके शिष्य लक्ष्मीसेन-भट्टारक-देवने बहुत समयतक तप किया । (उक्त मितिको), सूर्योदयके समय लक्ष्मीसेन मुनिने अमरपद प्राप्त किया ।

पार्श्वसेन-भट्टारककी प्रशंसा, जिन्होंने उसी वर्षमें, समाधि-विधिके द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया ।]

[EC, VIII, Nagar tl., n° 42.]

२३९

चिक-हनसोगे—कन्नड-भद्र

[शक १०२१=१०९९ ई०]

[जिन-वस्तिमें, अन्दरके दरवाजेके दक्षिणकी ओरके एक पाषाणपर]

भद्रं भूयाज्जिनेन्द्राणां शासनायाधनाशिने ।

कुतीर्थध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नघनभानवे ॥

वननिधि-परिवृत-सीमा-वनियोळ सले नेगळद कोण्डकुन्दान्वयदोळ ।

पनसोगे-निवासि-महा-मुनि-वरश्री-कर-[वि]मुक्तरागम-युक्तर ॥

यमि-नाथाग्रणि पूर्णचन्द्र-मुनिपर्त्त.....दामणंदि-मुनीन्द्र
तदपत्यरन्तवर शिष्य-श्रीधराचार्यर् आयमि-शिष्यर् म्मलधारि-देव-
रवर्गादर् चन्द्रकीर्त्तिव्रति-प्रमुखर्त्तनुजातराततयशर् स्सिद्धान्त-
चक्रेश्वरर् ॥

स्वस्ति यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-मौन.....परायणरूप श्री-मूल-
सङ्घद देशि-गणद पुस्तक-गच्छद श्री-दिवाकरनन्दि-सिद्धान्ति-देवर
.....न्तिर्बर्बेसववे-गन्तियर् सक-वरिष सायिरद इ १०२१ नेय

प्रमादि-संवत्सरद फाल्गुण-सुद्ध-पञ्चमी-आदिवारदन्दु.....य पाळि
मूलपरिग्रहं चरियल्ल ३० गद्याण.....चन.....

[जिनशासनकी प्रशंसा । कोण्डकुन्दान्वयमें पनसोगे-निवासी मुनिबोमें प्रधान पूर्णचन्द्र मुनि थे । उनके शिष्य दामनन्दि-मुनीन्द्र थे; उनके शिष्य श्रीधराचार्य्य थे; उनके शिष्य मलधारी-देव थे; उनके पुत्र चन्द्रकीर्ति-व्रती थे ।

मूलसंघ, देशिगण तथा पुस्तकगच्छकी, दिवाकरनन्दि सिद्धान्त-देवकी शिष्या, बेसववे-गन्तिने.....के करनेके लिये ३० गद्याण दिये ।]

[EC, IV, Yedatore tl., n° 24.]

२४०

चिक-हनसोगे—कण्ड

[बिना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग ११०० ई०]

[चिक-हनसोगेमें, शान्तीश्वर बस्तिके दरवाजेके ऊपर]

श्रीमूलसङ्घद देसिग-गणद होत्तगे-गच्छद समुदाय मुख्यते राम-
स्वामि विद्दीपरमेश्वर-दत्तिगे ॥

उपवास-प्रोन्नत-विधि- । युपवासानेक-वार-चान्द्रायणदिन्-

न्दप-मद-जयकीर्ति-मुनि- । प्रवरं श्री-पुस्तकान्वयाम्बुजसूर्य्य ।

दशरथसुतनुं लक्ष्मणाग्रजनुं सीता-वल्लभनुं इक्ष्वाकु-कुलजनुमप्य
रामन प्रतिष्ठे देसिग-गणद बसदि इल्लि ६४

रामम्माडे गङ्गर्षडि सलिसे बन्द-तीर्थद-बसदियं यादवरप्य चङ्गा-
व्वरोळगे श्री-राजेन्द्र-चोल-नभि-चङ्गाव्व-देवर पुनर्नवं माडिदरी-
पनसोगेयल्ल देसिग-गणद होत्तगे-गच्छद बसदि ४ के तले-कावेरिय
बसदिगळ्ळुं तत्समुदायमुख्यं

[रामस्वामीके छोटे हुए (!) परमेश्वर-प्रवृत्त (!) दानका प्रधान मूलसङ्घके
देशी गणके होत्तगे गच्छका समुदाय है । पुस्तकान्वयवृत्ती कमलके लिये

अक्षकीर्त्ति-मुनि सूर्यके समान थे । ये अनेक उपवास और 'चान्द्रायण' व्रत करनेमें विख्यात थे ।

यहाँ दशरथके पुत्र, लक्ष्मणके बड़े भाई, सीताके पति, इक्ष्वाकुकुलोत्पन्न रामके द्वारा प्रतिष्ठित देसिग-गणकी ६४ बसदियाँ हैं ।

बन्द-तीर्थकी बसदिको जिसे पहले रामने बनवाया था और जिसको गङ्गोंने दान किया था, चङ्गाळवंशी यादवीय^१ राजेन्द्रचोळ-नखि-चङ्गाळव-देवने फिरसे बनवाया ।

इस पनसोगेमें देसिग-गणके होतगे गच्छकी ४ बसदियों, और तल-कावेरीकी बसदियोंका वही समुदाय मालिक है ।]

[EC, IV, Yedatore tl., n° 26]

२४१

चिक्क-हनसोगे—कन्नड़

[विना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग ११०० ई० ?]

[चिक्क-हनसोगेमें, नेमीश्वर बल्लिके दरवाजेके ऊपर]

श्रीमद्-देसिग-गण पुस्तक-गच्छद श्रीधर-देवर शिष्यरेळाचार्य-
रवर शिष्यर्हामनन्दि भट्टारकरवर साधर्मिगळ् चन्द्रकीर्त्ति-भट्टारक-
रवर शिष्यर्हिवाकरणन्दि-सिद्धान्तदेवरवर शिष्यर्चान्द्रायणी-देवापर-
नामवेयरप्प श्रीमञ्जयकीर्त्ति-देवरादियागा-समुदाय-मुख्यमी-बसदिगळे-
छवर्कमासमुदायद वशमछदवरना-समुदायमिर्हु निर्दोडिसि पोर्मडिसि
कळेवुदु । रामस्वामि विट्ट परमेश्वर-दत्तिगे तोल्लडियिन्द वडगण
तुम्बिन नीरु वरिद नेलन विक्रमादित्यं विट्टं १८ गेण कोलिन्दं
१५०० कम्म मोदलेरियल्ल बेजिरिगट्टद केळ्ळो आ-कोलि(न्दं) २५०
कम्म मण्णं तोण्टके चङ्गाळवं मदुरनहल्लियुमनल्लि ५०० कम्म
मण्णं.....

[देसिंग-गण और पुस्तक-गच्छके श्रीघरदेव थे, जिनके शिष्य एळाचार्य थे, उनके शिष्य दामनन्दिभट्टास्क थे, उनके साथी चन्द्रकीर्ति-भट्टारक थे, उनके शिष्य दिवाकरनन्दि सिद्धान्तदेव थे, उनके शिष्य जयकीर्ति-देव थे जिनका दूसरा नाम चान्द्रायणी-देव भी था; इन सबका समुदाय इन बसदियोंका मालिक है। जो इस समुदायके अचीन नहीं हैं उन्हें यह समुदाय भगा देगा, बाहर भेज देगा।

चङ्गाळवने, १८ बिलस्तके दण्डके नापसे, विक्रमादित्यकी छोड़ी हुई और तोल्लिकी उत्तरीय नहर या मोरीसे सींची गई तथा परमेश्वरकी दी हुई और रामस्वामीकी छोड़ी हुई १५०० 'कम्म' (एक नापविशेष) जमीन दानमें दी; उसी नापसे बेजिरिगट्टकी २५० 'कम्म' जमीन बगीचेके लिये, और ५०० 'कम्म' मदुरनहल्लिमें दिये।]

[EC, IV, Yedatore tl., n° 28]

२४२

अङ्गडि—कन्नड—ध्वस्त।

[बिना काल-निर्देशका, पर संभवतः लगभग ११०० (?) ई० का]

[अङ्गडि (गोणीबीडु परगना)में, बसदिके पासके पाषाणपर]

भद्रमस्तु जिनशासनस्य श्री.....ण गङ्गदासि-सेट्टि सोमदि.....
.....धिय मुडिहिद प.....क्षके मग चटयं निलिसिद सासन

[जिन-शासनका कल्याण हो। गङ्गदास-सेट्टिके मर जानेपर, उसके पुत्र चटयने यह स्मारक उसके लिये खड़ा किया।]

[EC, VI, Mūdgere tl., n° 10]

२४३

सण्ड—संस्कृत तथा कन्नड—भग्न

[बिना काल-निर्देशका, पर संभवतः लगभग ११०० ई० का]

[सण्डमें, तालाबके प्रवेश-द्वारपरके एक पाषाणपर]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर
परम-भट्टारक सत्याश्रय-कुळतिळक चालुक्याभरण श्रीमत् त्रिभुवनमह
देवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानम्नाचन्द्रार्कितारम्बरं सल्ल-
त्तमिरे ॥ तत्पादपद्मोपजीवि ॥ स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-
सामन्ताधिपति महा-प्रचण्ड-दण्डनायक विबुधवर-दायक सुजन-प्रसन्न
नुडिट्टु मत्तेन्नं गोत्र-पवित्र पराङ्गना-पुत्र.....सोत्तुङ्गनथ्यन-सिङ्ग
नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्री.....वेर्गडे मने-वेर्गडे-दण्डना-
यकननन्तपाळय्यं गजगण्ड-अरुनूरुमं बनवासे.....मुम
सप्तार्द्ध-लक्ष्म(क्ष)यच्छ-पन्नाय-मुमं पडेदु सुख-संकथा-विनोददिं...
तत्पादपद्मोपजीवि ॥

श्री-वनिता-कुच-सम्भृत-।

पीवर-वक्ष-स्थळं लसद्गुण-मणी.....।

.....।

.....सकळ-विभु (बु) ध-जनता.....॥

आ-समस्त-गुण-गणाभरणनु विबुध-जन-पर.....विळसित-
जगद्-वळय.....वनुं रण-रङ्ग-भैरवनं सकळ-सु-कवि-जन-क.....
वीर-लक्ष्मी-विळासनुमनन्तपाळ-प्रसादनुदिताधिकार-लक्ष्मी-विळासनुं....
.....[गो]विन्दरसं बनवासे-पन्निच्छीसिरमुमं मेलपट्टेय बहु-
रावुळमु.....नोददिं प्रतिपाळिसुत्तमिरे ॥

श्रियं निज-भुज-बळदिम् ।

दायाद-बळ.....।

.....न-

जेयं रिपु-नृप-पयोज-सोमं सोमम् ॥

आनेग.....गळ महा.....बेयोगेवबोलानत-रिपु-वोगेद.....
महीपति-प्रतिम-प्रताप-निळयं निज-सन्ततिगोसुगे पुट्टे रिपु.....
पुट्टिदं सोवरस ॥.....जमदनणिमनाप्येने कट्टायदे चलदोळोदविदुन्नति-
नभमं.....रेम् पुट्टिदर ॥

शरणेमगेन्नदेवुदेमगे-बेसनावुदु बुद्धियेन्नदुम् ।

बरिसि नितान्तमेरिसिद बिल्लबोळुद्धत-वृत्तिय्-ने पेण-

डिर् केलदोळ् केळलदु बीरुव बिडे बीरुवधिक-त्रैरि-भू-

परनातनत्तर मरुळ तण्डम नोडने सोम-भूमिपम् ॥

किं कल्पद्रुम-वल्लरी किमु रतिः शृङ्गार-भङ्गी-गुरोः

किं वा चान्द्रमसी कला विगलिता लावण्य-पुण्या दिवः ।

सम्यग्दर्शन-रेवती किमु परा सोमाम्बिका राजते

राज्ञी सा बनवासि-सोम-नृपतेर्जाता मनोवल्लभा ॥

श्लोक ॥ क्षीर-सिन्धोर्यथा लक्ष्मीर्हिमांशोरिव दीधितिः ।

तथा तयोस्सुते जाते जिन-शासन-देवते ॥

पूर्वं वीराम्बिका जाता ततोऽजन्पुदयाम्बिका ।

इति भेदं तयोर्मन्ये सद्-गुणैस्समता द्वयोः ॥

किं देवेन्द्र-विमान एष किमुत श्री-नागराजाश्रयः

किं हेमाचल-शैल इत्यनुदिनं शङ्का दधानं जने ।

निश्शेषावनिपाल-मौलि-विलसन्-माणिक्य-मालाञ्चितम् ।

भाल्यत्युन्नतिमज्जिनेन्द्र-भवनं ताम्यां विनिर्मापितम् ॥

तोडरे तोडङ्कु मच्चरिसे गण्टल सिल्किद-गाळ बुक्के मार- ।

नुडिदडे जिहमं पिडिदु किष्प तोडिष्पिन पाशवेन्देडेन्त ।
 एडरुव (व) रेन्तु मञ्जरिपरन्तु करं कडि केन्दु दप्पम [म्] ।
 नुडिदपरण्ण वार्षु मुळिदम्बद जूजिनोळ्ण्य-भूसुजर ॥
 बिडदेडरे सेणसि चुन्न ।

नुडिवरी-मन्नेयर बेन्न वारं मिडियिम् । *

पेडेतले-वरम्माळपोत्तुव ।

कडु-गलि शसि-विशद-कीर्ति जूज-कुमार ॥

जवनेरे बच्चितेम्बिनेगमान्तरि-भूपरनट्टि कोन्दु कू- ।

गुव तवे तिन्दु तेगुव तडगडिदि....व बेन्न-वारनेत्- ।

तुव पिडिदच्चि मुक्कुव पसुगरिडि बडगिन्दियादुवा- ।

हव-भुज-शौर्यमं...लि-बीरदनेन्दोड् इन्नार्गेर पोगळ् न्नेगळ्द

कुमार-गजकेसरियं ॥

अरमनेयोळे..... ।

.....न्दु त्रिगिदु संगरमादन्दे ।

शिरलेय मुङ्गाल्गेणेयनि- ।

परसद् प्पोल्लतपरे कु..... ॥

.....डे मोगमं तिरिपुवारिन्...दडे नगुवरन्यरम्बद जूजं

मुनि.....यं रिपु-जनक्कमर्थि-जनक्कम् ॥ अनुपममे-

निसिद गुण.....वारितमेनिप दान-गुणदोळ्द मत्त-

वण दोरेय.....तळदोळ् ॥ आतनळिय ॥ खण्डदोळि

.....नेदु मूळेगळ्म्मूरि.....

.....

[जिन-शासनकी प्रशंसा । जिस समय, (चालुक्य उपाधियों सहित), त्रिभुवनमल्ल-देवका राज्य चारों ओर प्रवर्द्धमान था और तत्पादपद्मोपजीवी मने-वेर्गडे दण्डनायक अनन्तपालउद्य, गजगण्ड ६००, बनवासे १२०००, और ससार्द्ध-लक्ष (देश) अरुच-पद्मायको प्राप्त करके उनके ऊपर शासन कर रहा था; तत्पादपद्मोपजीवी, जिस समय (अनेक उपाधियों सहित) गोविन्दरस बनवासे १२००० तथा मेल्पट्टे 'वङ्ग-राजकु'की शान्तिसे रक्षा कर रहा था;—उसका पुत्र (प्रशंसासहित) सोम या सोवरस था, जिसकी पत्नी सोमाम्बिका थी । उनकी वीराम्बिका और उदयाम्बिका, ये दो पुत्री थीं । इन दोनोंने एक जिनमन्दिर बनवाया । अम्ब जूज-कुमारके, जिसे कुमार गजकेसरी भी कहते थे, पराक्रमकी प्रशंसा । उसका दामाद, ... (लेख बहुत घिसा हुआ है) ।]

[EC, VII, Shikarpur tl., n° 311]

२४४

गुप्ती—कन्नड़

[बिना कालनिर्देशका]

(देखो, जै० शि० सं०, प्र० भाग)

२४५

उदयगिरि (कटकके पास)—संस्कृत

[लगभग ईसाकी ११ वीं शताब्दि]

उद्योतकेसरीके समयका शिलालेख

नोट:—इस शिलालेखके लेखका कुछ पता नहीं है । इसका उल्लेख मात्र टी. ब्लॉक (T. Bloch) के Archaeological Survey of India, Annual Report 1902-1903, पृ० ४० के उल्लेख परसे हुआ है ।

[उद्योतकेसरीके समयका यह शिलालेख, जो कि ई० ११ वीं शताब्दिका है, शुभचन्द्रके कुल और गणका उल्लेख करता है । शुभचन्द्रके शिष्यका

नाम कुलचन्द्र था । ये (कुलचन्द्र) यहाँकी किसी गुफामें रहते थे और अपने गुरुकी तरह, अवश्य जैन रहे होंगे]

[T. Bloch, A S I, Annual Report 1902-1903, p. 40]

२४६

नेसर्गी (जिला बेलगाँव) :—कन्नड़

[बिना काल-निर्देशका, पर ई० ११ वीं या १२ वीं शताब्दिका (फ्लीट)]

बेलगाँव जिलेके सम्पगाँव तालुकामें नेसर्गीके एक छोटेसे तथा अर्द्ध-ध्वस्त जैनमन्दिरकी एक खड्गासनस्थ बुद्ध-प्रतिमाके चरणपाषाणपर निम्न-लिखित अभिलेख पुरानी कन्नड़के ई० ११ वीं या १२ वीं शताब्दिके अक्षरोंमें है:—

श्रीमूलसंघद बलात्कारगणद श्रीपार्श्वनाथदेवर श्रीकुमुदचन्द्रभट्टारकदेवर गुड बाडिगसात्ति-सेट्टियरु मुख्यवागि नख (ग ?) रङ्गलु माडिसिद नख (ग ?) रजिनालय ॥

[श्रीमूलसंघ बलात्कारगणके, श्रीपार्श्वनाथदेवके श्री कुमुदचन्द्र-भट्टारक-देवके शिष्य या अनुयायी बाडिगसात्ति-सेट्टि जिनमें मुख्य था ऐसे नगरके (व्यापारी लोगों) द्वारा 'नगरका जिनालय' बनवाया गया ।]

[IA, X, p. 189, n° 16, t. & tr.]

२४७

पेहोले—कन्नड़—भन्न

[विक्रमादित्य बालुक्यका २६ वीं वर्ष; शक १०२३=११०१ ई०

(फ्लीट)]

[पेहोले गाँवके दक्षिण-पश्चिम दरवाजेके बाहर ही हनुमन्तकी आधुनिक कालकी बेदी है । इसके सामने 'ध्वजस्तम्भ' नामका एक पाषाण है । इस ध्वजस्तम्भके पादुकातलमें एक धीरगल् या स्मारक पत्थर बनाया गया है जिसपर पुरानी कर्णाटकभाषामें एक शिलालेख है । इस लेखकी नकल भाग्यः Elliot MS. Collection पृ० ४१० पर दी हुई है ।

पत्थरका ऊपरी हिस्सा दृष्टिसे ओझल हो गया है । लेकिन लेखकी तीन पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं । इनमें सोमवार दिन तथा विषु संवत्सरके, जो कि चालुक्य विक्रम-कालका २६ वाँ वर्ष अर्थात्, शक १०२३ (=११०१ ई०) होता है, श्रावणमासके शुक्लपक्षकी एकादशीका काल निर्दिष्ट है । पाषाणके दूसरे हिस्सेमें भगवान् जिनेन्द्रकी मूर्ति है जो कि पद्यासन है और जिसके दोनों तरफ यक्षिणियाँ बैर दोर रही हैं । पाषाणका शेष हिस्सा दृष्टिमें नहीं आता है; लेकिन उसमें अश्यावोळे (ऐहोले) के पाँचसौ महा-जनोंद्वारा दिये गये दानका उल्लेख है ।]

[ई० ए०, ९, पृ० ९६, नं० ६९]

२४८

दानसाले—संस्कृत तथा कन्नड

[शक १०२५=ई० ११०३]

[दानसालेमें, दक्षिणकी ओर, बस्तिके पासके एक पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-वल्लभं महाजाराधिराजं परमेश्वर-परम-भद्रारकं सत्याश्रय-कुळ-तिलकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल-देवर विजय-राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कितारं सलुत्तमिरे तत्पादपद्मोपजीवि ॥ समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरनुत्तर-मधुराधीश्वर पट्टि-पोम्बुर्चपुर-वरेश्वरम्महोग्र-वंशल्लामं पद्मावती-लब्ध-वर-प्रसादासादित-विपुळ-तुळा-पुरुष-महादान-हिरण्यगर्भ-त्रयाधिक-दान वानर-ध्वज मृगराज-लाञ्छन-विराजितान्वयोत्पन्न बहु-कळा-सम्पन्न शान्तर-कुल-कुमुदिनी-शशाङ्क-मयूखाङ्कुर रिपु-मण्डलिक-पतंग-दीपाङ्कुरं तोण्ड-मण्डलिक-कुळाचळ-वज्रदण्डं विरुद-मेरुण्डं कन्दुकाचार्य्य मन्दर-धैर्य्य कीर्ति-नारायणं शौर्य्य-पारायणं जिन-पादाराधकं परबळ-

साधकं शान्तरादित्यं सकल-जन-स्तुत्यं नीति-शास्त्रज्ञं विरुद-सर्वज्ञं
नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितं श्रीमन्महा-मण्डलेश्वरं त्रिभुवनमल्ल-सा-
न्तर-देव ॥

॥ वृत्त ॥

कनकाद्रीन्द्रकमम्भोनिधिगमवनिगं पेम्पिनोळ् गुण्पिनोळ् तिण्-।
पिनोळेत्तुं ताने पोपासटि सरि समनेन्दन्ददावं सम-स्कन्-।
धनदावं पोलवनावं पडिय्ये निसुववं राज-सर्वज्ञनोळ् तै-।
लनोळ्त्थि-स्तोम-चिन्तामणियोळ्खिळ-भू-भागदोळ् नोर्पडेन्नुम् ॥

व ॥ अन्तेनिसिद कलि-काल-कल्पावनिजङ्गा-महानुभावङ्गे जन्म-
निळयमेनिसिद अखिळ-क्षत्रिय-कुलोत्तममुमद्वितीय मुमेनिसिदुर्गान्वया-
वतारमेन्तेन्दडे पार्श्वनाथ-सन्तानदोळनेकसमर-सम्मर्दित-रिपु-व्यूह-
राहने-म्बनुत्तर-मधुरा-पुरी-भुजङ्गनुं प्रतिपाळित-चतुस्समुद्र-मुद्रित-
रुद्रवरी-रंगनु-मेनिसि राज्यं गेय्दनातनिन्दनन्तरमर्थि-जन-कल्पभूरुहा-
कार-सहकारं राज्यभर-धुरन्धरनादनातन तनय ॥

क ॥ जगदोळगण नृपरेळ्ळम् ।

मृगदन्तिरलात्म-विक्रम-प्राभवदिम् ।

मृग-रिपुविनंतिरेसेदम् ।

नेगळ्दुग्रान्वय-नगेन्ददोळ् जिनदत्तम् ॥

व ॥ आ-नृपेन्द्रचूडामणि दुर्वार-भारत-समर-समय-समुदीर्ण-सौध्या-
तिरथ-समरथ-महारथार्द्धरथ-समूह-सम्मर्दन-लब्ध-विजयलक्ष्मीविवाहोऽसवनुं
त्रिविक्रम-कारुण्य-लब्ध-लसदेकशङ्खनुं धनञ्जय-दत्त-शाखामृग-ध्वजनुम-
तर्क्य-विक्रमोपात्त-कण्ठीरव-ध्वजनुमागि दिग्-विजय-यात्रा-निमित्तं दक्षिण-
दिशाभिमुखनागि विजयं गेय्दु समस्त-दैत्य-वंशध्वंसनं माडि पभावती-

पदारधना-लब्ध-सप्ताङ्ग-राज्य-राजधानी-पोम्बुर्चदोलु शान्तर-पट्टमं
ताळिद सान्तळिगेशायिरमुमनेक-च्छत्र-च्छाय-यिन्दाळ्दु शान्तरमेम्बे-
रडनेय पेसरं पडेदनन्दि बळिकमुग्रान्वयं शान्तरान्वयाभिधानमं
पडेदुदातनि बळिकमनेक-राज-सन्तानकमतिक्रान्तमागे तदन्वयदोलु ॥

वृ ॥ विरुदर मृत्यु बीरद तवर्मने चागद जन्म-भूमि शा- ।

न्तर-कुळ-वार्धि-वर्द्धन-शरत्-समयेन्दु समस्त-सत्-कळा-परिणत-
नङ्गना-जन-मनोभवनेन्दोसेदर्थियि बुधो-

त्करमभिवर्णिणसल्के नेगळदं धरेयोळ् विभु शान्तर-ओङ्ग ॥

क ॥ नव-जळददळि मिश्रुम-मुवुदुवदं शान्तरोङ्गं बाळ् गित्तन्- ।
तेवोलादुदेन्दु पोगळवं । भुवनाधिपनात्म-समेयोळा-भूपतिय ॥

आतननुज ॥

क ॥ अदटिनिदिरान्त-भूपर- । नदटलदेरदर्थि-निकरमं तणिपि जगद्- ।
विदित-यशं नेगळदं भू- । प-दिळीपं वैरि-वीर-काळं तैल ॥

तत्पुत्र ॥

क ॥ आयद कडळे मदवद्- ।

दायाद-नृपाळ-दर्प-विच्छेदनन- ।

त्यायत-दोर्-दर्पं जय- ।

जायापति दळित-वैरि-वीरं वीर ॥

अवन मनोरमे गङ्गा- ।

न्ववाय-पीयूष-वार्द्धि-सम्भवे लाव- ।

प्यवति मनोभव-राज्यो- ।

इव-विळसजन्म-भूमि बीरल-देवी ॥

अवरिर्व्वर्गम् ॥

भुजबल-शान्तरनत्यु-

दूध-जय-श्री-ललित-वन-मुजा-दण्डं भू- ।

भुज-वन्धनवर्गे ताना- ।

त्मजनादं रिपु-बळाटवी-दवदहन ॥

आतनि किरिय ॥

वृ ॥ शरणायात-शरण्यनर्थि-जन-कल्पक्षमाजनन्यावनी- ।

श्वर-सैन्यार्णव-बाडवानळनशेषाशावधि-न्यस्त-भा- ।

सुर-कल्हार-सुरापगा-निभ-यशश्श्रीवल्लभं नभि-शान्-

तर-देवं जगदेक-दानि नेगळदं विश्वम्भरा-भागदोळ ॥

तदनुजन्मनोङ्गनात ॥

क ॥ विक्रम-चक्रिय पुण्यदे ।

चक्रं पुरुष-स्वरूपदिं पुष्टितेनळ् ।

विक्रमदिन्देसेदातं ।

विक्रम-शान्तरनेनिष्प पेसरं पडेद ॥

व ॥ आतन मनोरमे पाण्ड्य-कुल-वियत्-तळ-चन्द्र-लेखेयु शफर-
पताक-जय-पताकेयुमेनिसिद चन्दल-देविग ॥

क ॥ उदयाचलदोळहिमकरन् ।

उदधियोळमृतकरनुदयिपन्तिरलवर्गन्द् ।

उदयिसिदं सकळ-कळा- ।

सदनं महिमा-निळिम्प-शैलं तैल ॥

अन्तु जगज्जनद पुण्यादिं कल्पवृक्षमे क्षत्रिय-स्वरूपदिं पुष्टितेनि ॥
पुष्टि सान्तळिगे-सायिरमुमनेक-च्छत्र-च्छायेयि सुखं राज्यं गेय्युत्तिरेसि

क ॥ अरुमुळि-देवन गाव- ।
 ब्बरसिय सुते वीर-भूपनत्तिगे वीर- ।
 ब्बरसियरप्रजे तैलप- ।
 धरणीश्वरनजि नेगळ्द-चट्टल-देवि ॥
 भुजबळन गोगिगयोङ्ग- ।
 न जय-श्री-कान्तनेनिप बर्मन तायि वि- ।
 श्व-जगद्-बन्धे तानव- ।
 निजेगमरुन्धतिगमधिके चट्टल-देवि ॥
 काश्ची-नाथ-मनः-प्रिये ।
 चञ्चजिन-समय-कामघेनु दिगन्त- ।
 प्राश्चित-कीर्ति-पताके वि- ।
 रञ्चि-रमा-सदृशे नेगळ्द-चट्टल-देवि ॥

व ॥ आ-जिन-समय-निदान-दीप-वर्त्ति भुजबळ-शान्तर नभि-
 शान्तर विक्रम-शा [न] तरं बर्मदेवं मोदलागि निज-नन्दन-
 समेतं सुखं राज्यं गेय्युत्तिहु राजधानि-पोम्बुर्चदोलु पञ्च-वसदियं
 माडिसि या-वसदिय खण्ड-स्फुटित-जीर्णोद्धारकमल्लिर्ष्य ऋषि-समुदा-
 यक्काहार-दानार्थमागि भुजबळ-शान्तर नभि-शान्तर विक्रमशान्तरनुं
 मूवरुमिहु विट्ट प्रामङ्गळु रावनाडोळगण अप्रहारमानंदूरुं (दूसरे स्थानों
 के भी नाम दिखे हैं) विट्टरा-पञ्च-वसदिय प्रतिबद्ध मागियानन्दूरुळ
 चट्टल-देवियुं श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल-शान्तर-देवनुं वीरब्बरसियर्गे परोक्ष-
 विनयमागि यी-वसदियं श्रीमद्-द्रविल-सङ्घदरुङ्गलान्वयद वादि-धरट्टनेनि-
 सिद श्रीमद् अजितसेन-पण्डित-देवर नामोच्चारणदिं केसर्-कल्लिकि-
 सिद-वराचार्यावलियेन्तेन्दे श्री-वर्द्धमानस्वामिगळ तीर्थ प्रवर्त्तिसे
 षि० २४

गौतमर् गणधररागे तत्-सनातनदोळनेकरतिक्रान्तरागे कलियुग-गण-
धरर् हयापाळ-देवरादरवरिं बळिक षट्-तर्के-षण्मुखापर-नामधेय
जगदेकमल्ल-वादिराज-देवरवरिं ओडेय-देवरवरिं श्रेयान्स-पण्डित-
रवरिं बळिक ॥

क ॥ दूरीकृत-दुरघं निर- ।

हारित-मदनं स्व-तर्के-विद्या-बळ-सम्- ।

हारित-पर-समयं वाक्- ।

श्री-रमणी-रमणनजितसेन-मुनीन्द्र ॥

प्रद्युम्न-मद-विदारणन्- ।

उद्यद्गुण रत्न-वार्द्धिनेगळदं पेरिदेन् ।

अद्यतन-गणधरं निर- ।

वद्यं श्रीमत्-कुमारसेन-व्रतिप ॥

तार्किक-चक्रवर्त्तियुं वादीभ-पञ्चाननमेनिसिद श्रीमदजितसेन-
पण्डितेवर गुड्ड ॥

क ॥ नृप-विद्याम्बुधि-पारगन् ।

अपरिमित-स्याग-गुणनराति-मुखेन्दु- ।

ग्लपन-रुहा-राहु रिपु- ।

द्विप-सिंहं शान्तरान्त्रयाम्बर-चन्द्र ॥

चागददगुन्ति याचकर- ।

आगिसिद्दु पलवरसैरं वीरददोन्द ।

ओगडिसदेळ्ळो वनचरर् ।

आगिसिद्दु पलवरहितरं तैलुगन ॥

अवननुजं निज-निखि- ।

श-विदारित-वैरि-नृप-मदेभ-शिरः-पी- ।

ठ-विमुक्त-मौक्तिक-द्युति- ।

धवळित-भू-भुवनननुपमं गोविन्द ॥

अवनिं किरियं बोपुगन् ।

अवनहित-क्षत्र-पुत्र-वित्रसनं भू- ।

भुवन-प्रस्तुत्यं रिपु- ।

युवती-वैधव्य-शीळ-शिक्षा-दक्ष ॥

व ॥ यिन्तीयरसुगळुमिर्दु सक-वर्ष १०२५ यदेनेय सुभानु-
संवत्सरद चैत्रद पुण्णमे बुधवार-सोम-ग्रहणद तात्कालदोल्लु
प्रतिष्ठेयं माडि आ-बसदिय खण्ड-स्फुटित-नव-कर्मकाहार-दानकं
देवरष्टविधाच्चने कारणमागि आ-बूरोळाद सेसे विर्दु बीयं देविदेरें
अडिगर्भु काणिके कय्गाणिके हालावु हव्वद बीय्य कुमारगधा-
णम्मोदलागि धारा-पूर्वकं सर्व्व-वाधा-परिहारं माडि विट्ट

(वे ही अन्तिम वाक्यावयव)

इदना-चन्द्रार्क-वर- ।

मुदितोदितमागि कादवं परम-सुखा- ।

स्पदनकुं पापदिनळि- ।

द दुरात्मं नरक-गतिगे गळगळनिळिगु ॥

(वे ही अन्तिम श्लोक) ।

[जिनशासनकी प्रशंसा । जब (उन्हीं चालुवय उपाधियों सहित)
त्रिभुवनमल्ल-देवका विजयी राज्य चारों ओर प्रवर्द्धमान था तब तत्पाद-
पद्मोपजीवी महामण्डलेश्वर त्रिभुवनमल्ल-शान्तर देव था । इसका साधारण
नाम तैल था, इससे किसीकी तुलना नहीं हो सकती थी ।

जो उग्रान्वय कलिकालके कल्याणका जन्मस्थान था और जिसमें उच्चवंशी क्षत्रिय कुटुम्बोंने जन्म लिया था, उसका अवतार (उत्पत्ति)। पार्श्वनाथके वंशमें एक राहु था, जो उत्तर मधुरा शहरके भुजङ्ग (वीर) के रूपमें प्रसिद्ध था। उसके बाद सहकार हुआ और उसका पुत्र जिनदत्त हुआ। उसने राजकीय नगर पोम्बुर्चमें शान्तर-मुकुट पहना और इस शान्तलिंगे-हजारपर एकच्छत्र राज्य करने लगा तथा दूसरा नाम 'शङ्कर' धारण किया। इसके बाद उग्रान्वय नाम 'शान्तरान्वय'में परिणत हो गया।

उसके बाद कई राजा क्रमशः व्यतीत हो गये। इस परम्पराके अन्तमें,— शान्तर ओङ्गुग हुआ। उसका भाई तैल हुआ। उसका पुत्र वीर हुआ। उसकी पत्नी वीरल-देवी थी। उन दोनोंके भुजबळ-शान्तर पुत्र हुआ। उसका छोटा भाई श्रीवल्लभ नमिशान्तर-देव था। उसका छोटा भाई ओङ्गुग, जिसने बादमें विक्रमशान्तर नाम धारण किया। उसकी पत्नी चन्द्रलदेवी थी। उनसे तैलका जन्म हुआ।

जब वह शान्तलिंगे हजारमें राज्य कर रहा था:—अरुमुक्ति-देवकी (पत्नी), गावबरसिकी पुत्री, राजा वीरके बड़े भाईकी पत्नी, वीरबरसिकी ज्येष्ठ बहिन, राजा तैलपकी नानी, चट्टल-देवी प्रसिद्ध थी। यह भुजबळ, गोगिग, ओङ्गुग और बर्मकी माता थी।

जिन-समुदायके उस दीपकने राजधानी पोम्बुर्चमें पञ्च-बसदि बनवायी और उसके लिये भुजबळ-शान्तर, नमिशान्तर, तथा विक्रम-शान्तर, इन तीनोंने (उक्त) गाँव प्रदान किये। और आनन्दूरमें, पञ्च-बसदिके सामने, चट्टल-देवी और त्रिभुवनमल्लशान्तर-देवने, वीरबरसिकी स्वर्गयात्राकी स्मृतिमें, एक बसदिकी नींवका पत्थर जमाया। यह काम उन्होंने अजितसेन-पण्डित-देवका नाम लेकर किया। ये 'वादि-घरट्ट'के नामसे प्रसिद्ध थे और द्रविकसंघ तथा अरुङ्गलान्वयके थे।

उनके आचार्योंकी परम्परा इस प्रकार थी:—वर्द्धमान-स्वामीके तीर्थमें गौतम-गणधर हुए। इस परम्परामें बहुत-से आचार्योंके होनेके बाद, एक कलियुग-गणधर दयापाल-देव हुए। उनके बाद, जिनका अपर नाम 'षट्-तर्कः-

षण्मुख' था ऐसे जगदेकमल्ल वाहिराज-देव हुए । उनके बाद ओडेय-देव, उनके बाद श्रेयांस-पण्डित, और उनके बाद परचक्रविजेता अजितसेन-मुनीन्द्र हुए । अद्वितीय कुमारसेन प्रतिप निर्विवाद रूपसे आधुनिक गणधर रूपमें प्रसिद्ध थे ।

ताकिक-चक्रवर्ती अजितसेन-पण्डित-देवके एक गृहस्थशिष्य राजा तैलुग थे । उनकी प्रशंसा । उनका लघु भ्राता गोविन्द था । उनसे छोटा भाई बोपुग था ।

इन राजाओंने (तैलुग, गोविन्द, बोपुगने) मिलकर, (उक्त मिति को) चन्द्रग्रहणके समय, बसदिकी स्थापना की, और उसकी मरम्मत, ऋषिवर्गके आहार, तथा देवकी अष्टविध पूजाके लिये (उक्त) दान दिये । वे ही अन्तिम श्लोक ।]

[EC, VIII, Tirthahalli tl, n° 192]

२४९

दावनगरे—(मैसूर) कन्नड़

[वि० चा० का ३३ वीं वर्ष=११०८ ई०]

निम्नलिखित श्लोक मूल लेखकी २१ वीं पंक्ति है:—

कोगळि-नाडोळगद कदम्ब-दिसायरदागरङ्गळोळ

देगुलकं जिना(य)लयकवारवेगं केरे बावि सत्रकम् ।

रागे तन्न पन्नयद सुङ्गदोळं दशवन्नवित्ति-

न्तागरमुळ्ळिनं नेगळ्द (ळद) बम्मरसं गुण-रत्तदागरम् ॥

अनुवाद:—“कदम्बोंके सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि स्थानोंमें अग्रगण्य कोगळि-देशमें, प्रसिद्ध बम्मरसने,—एक जैनमन्दिर, एक जिनकी वेदी, एक बगीचे, एक तालाव, एक कुर्छी (वापी) तथा एक दानशाला (सत्रक) के लिए,—“पन्नय”की,—तबतकके लिये जबतक कि वह कर जारी रहे,—बपनी तमाम सुङ्गीपर ‘दशवन्न’ सुडीसे दिये ।”

[IA, XXX, p. 107, t. & tr.]

१ ‘दशवन्न’से मतलब आधुनिक ‘दसवन्द’ या ‘दशवन्द’से है, जिसका अर्थ सि० राइसने यह किया है कि “जो व्यक्ति किसी तालाबकी मरम्मत या उसका

२५०

होन्नूर—कन्नड़

[लगभग शक १०३०=११०८ ई० (फ्लीट) ।]

[कोल्हापुरके पास कागलसे दक्षिण-पश्चिमकी ओर दो मील दूरपर होन्नूरमें जैनमन्दिरके भीतर एक प्रतिमाके अभिषेक-स्थल (पाण्डुक शिला) के सामने यह प्राचीन कन्नड़का लेख है । प्रतिमा खड्गगासनस्थ सिरपर सर्पके सप्तफगाधारी छत्रसे मण्डित पार्श्वनाथस्वामीकी है । इसके दोनों कोनोंमें एक-एक झुकता हुआ या बैठा हुआ आकार (मूर्ति) है । लेख १४ इञ्च ऊँची तथा २ फुट ७ इञ्च चौड़ी जगहको घेरे हुए है । यह कोल्हापुरके शिलाहारोंमेंसे बल्लाल और गण्डरादित्यके समयका है, अर्थात् लगभग शक १०३० (११०८-९ ई०) के समीपवर्ती है ।]

लेख

स्वस्ति श्रीमूलसंघद पो(पु)न्नागवृक्षमूलगणद रात्रिमतिकन्ति-
यर गुड् बम्मगावुण्डं माडिसिद बसदिगे श्रीमन्महामण्डलेश्वरं बल्लाल-
देवतुं गण्डरादित्यदेवन्म(नुम्) आहारदानके बिट्ट कम्मविन्नूरकं
अरुगयि मने.....

[स्वस्ति । श्रीमन्महामण्डलेश्वर बल्लालदेव और गण्डरादित्यदेवने श्रीमूल संघके (भेद) पुन्नागवृक्षमूलगणके रात्रिमतिकन्तिके गुड् (शिष्य या अनुयायी) बम्मगावुण्डके द्वारा निर्मापित बसदिके लिये, (तपस्वियोंको) आहारदान के लाभार्थ २०० 'कम्म' एवं छः हाथ या ३ गजका एक भवन दानमें दिया ।]

[IA, XII, p. 102, n° 6, t. & tr.]

निर्माण करता था उसको कुछ भूमि भेंटमें दी जाती थी; इसके सिवाय उस तालाबके फायदा उठानेवालोंसे तालाबके निर्माण करनेवालेको उत्पन्न (फसल) का १० वाँ हिस्सा या और कोई छोटा हिस्सा मिलता था । इसीका नाम 'दशवन्न' था ।

२५१

हेब्बण्डे—संस्कृत तथा कन्नड-भ्रम

[वर्ष ३५ चालुक्य-विक्रम=१११० ई०]

[हेब्बण्डेमें, तालाबके दक्षिण नष्ट हुए बाँधके पासके पाषाणपर]

श्रीमत्-परम.....॥

.....चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रिभुवनमल्लदेवर विजयराज्यमुत्तरो-
त्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमानम्माचन्द्रार्क-तारं सलुत्तमिरे ॥ आतन मगं एरेयङ्ग
(४ पंक्तियाँ नष्ट हो गई हैं) विष्णुवर्द्धन-म.....एनिसि
केतवेर्गडे (६ पंक्तियाँ नष्ट हो गई हैं) श्री-शुभचन्द्र-देव.....
.....तुण्डरुं वादि-क्रोळाहळ.....स्व-समय-रक्षण-पक्षपाति
.....एनिसिद कनक.....त्रैविद्यसिद्धान्तदेवर शिष्यरप्प
मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुड्डि केतव्वे.....चिट्टि-देवतुं
भुजबळ-गंग-पेर्माडियुं बम्म-गावुण्डतु नाळ-प्रभु चालुक्य-
विक्रम-कालद ३५ नेय विकृत-संवत्सरद फालगुन-मासद शुद्ध-
पञ्चमी बृहवारदन्दु.....मुख्य-स्थानवागि.....चन्द्रशेखर-वेर्गडे कट्टि-
सिद केरेय केळो गळ्दे कम्म मूवोत्तु आ-केरेय तेङ्गण-क्रोडियल्लु बेइले
मत्तरोन्दु मने आरु गाण वोन्दु (हमेशाका अन्तिम श्लोक) श्रीमत्
कनकनन्दि-त्रैविद्य-देवर गुड्डं सेनबोव-बोग-देवन बरह ॥ श्री

[जिनशासनकी प्रशंसा । जब (अपनी उपाधियों सहित) चालुक्य
त्रिभुवनमल्लका विजयराज्य चारों ओर प्रवर्द्धमान था । (इस स्थानपर
होसल्लोंके विवरण हैं, जो कि बहुत घिस गये हैं ।) शुभचन्द्र-देव (से
परम्परागत आये हुए) कनकनन्दि-त्रैविद्य-देवके शिष्य, मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-
देवके गृहस्थ शिष्य केतव्वेकी प्रशंसा ।

चिट्टिदेव, भुजबळ-गंग-पेर्माडि, बम्म-गावुण्ड (? तथा) नाळ-प्रभुने,
चालुक्य-विक्रम-कालके ३५ वें वर्षमें, जो कि विकृत वर्ष था, ६ मकान और

१ तेलकी चक्रीके साथ, (उक्त) भूमिका दान किया । हमेशाके अन्तिम श्लोक । यह लेख कनकनन्दि-त्रैविद्य-देवके गृहस्थ-शिष्य, सेनबोव बोग-देवके द्वारा रचा गया ।]

[EC, VII, Shimoga tl., n° 89]

२५२

महोबा*—संस्कृत

[संवत् ११६९, फाल्गुन सुदि ८ (१११२ ई०)]

यह लेख संभवतः जयवर्मदेवके कालका होना चाहिये, जो, जैसा कि इतिहास कहता है, सिर्फ ४ साल बाद, सं० ११७३ में शासन कर रहा था ।

[A. Cunningham, Reports, XXI, p. 73, a]

२५३

आलहळिळ—संस्कृत तथा कन्नड़-भग्न

[वर्ष ३७ चालुक्य विक्रम=१११२ ई०]

[आलहळिळ (होळलूर परगना) में, तलवारके खेतमें पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ॥

जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-त्रल्लभं महाराजाधिराज परमेश्वरं
परम-भट्टारकं सत्याश्रय-कुळ-तिलकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल-
देवर विजय-राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमा-चन्द्रार्क-तारम्बरं सल्लुत्त-
मिरे कल्याणपुरद-नेलेवीडिनोळ् सुख-संकथा-विनोददि राज्यं गेय्युत्तिरे
तत्पादपद्मोपजीवि ।

* महोबाके ये (नं० २५२, ३२५, ३३७, ३४९, ३६०, ३६९, ३६५)
अतिसंक्षिप्त शिलालेख ए. °कनिंघमको भग्न जैन मूर्तियोंके चरण-पाषाणपर मिले
थे । इनमेंके कुछ शिलालेख बहुत कामके हैं, क्योंकि उनमें जिस समय मूर्तिका
निर्माण या प्रतिष्ठा हुई थी उसका काल तथा उस समय शासन करनेवाले
राजाका नाम, ये दोनों चीजें ही हुई हैं । कुछमें शासक-राजा का नाम नहीं
मिलता, पर कालका उल्लेख मिलता है, कुछमें वह भी नहीं मिलता ।

खस्ति समस्त-वस्तु-गुण-भूषणनधि-परीत-भूतळ- ।
 प्रस्तुत-कीर्त्ति भावभव-मूर्त्तिं जया-वनिता-प्रपूर्णा-वृ- ।
 त्त-स्तन-हार***वाञ्छित-कल्प-कुजानुसारन- ।
 म्यस्त-कळागम-ज्ञनेने गङ्गरसं सरसं धरित्रियोळ् ॥
 विनयाधारमुदारमुन्नति कुलङ्ग***श्रयमेभ्व् ।
 इनितुं शोभिसे शोभे-वेत्तनेनुतुं धात्री-तळं कूर्तु-की- ।
 र्त्तने-गोयुं जयदुत्तरंगननशेष-श्री***वर्द्ध-प्रसं- ।
 गन्.....वितरण-व्यासङ्गनं गङ्गनम् ॥

अन्तेनिसि नेगई नीतिवाक्य-कोङ्गुणिवर्म धर्म-महाराजाधिराज
 परमेश्वरं कुवळाळपुरवराधीश्वरं नन्दगिरि-नाथं सकळ-गुण-सनार्थं मद-
 गजेन्द्र-लाञ्छनं परिपूर्णाकृत-विबुध-जन-मनोवाञ्छनं पद्मावती-लब्ध-
 वरप्रसादम् मृगमदामोदम् गङ्गकुळ-कुवळय-शरच्चन्द्रं मण्डळिक***द्रं
 दर्पोद्धताराति-मण्डळिक-वनज-वन-वेदण्ड दुर्द्धर-गण्ड नामादि-समस्त-
 प्रशस्ति-सहितं श्रीमन्महामण्डलेश्वरं त्रिभुवनमल्ल भुजबळ-गंग-पेर्माडि-
 देवर पट्टमहादेवी ॥

पुष्टिद***अनुजं । पट्टिग-देवङ्गे गङ्गवाडिगे तळेदळ् ।
 पट्टमनेसेदिरे गङ्गन । पट्ट-महादेवियन्तु नोन्तरुमोळरे ॥
 परिवार-सुरभिगन्तर्- । पुर-मुख्य-मण्डनेगे गङ्ग-मादेविगे नायकि ।
 यरनद्....ओडं सति । दोरे.....नृप.....पडेये ॥
 अन्तवर्गे ॥

गङ्ग-कुळ-तिळकरेनिसिद । गङ्ग-नृपं मारसिंग-नृप गोगिग-नृपं ।
 तुङ्ग-यशनेनिसिदं कलिय् । अङ्ग-नृपं नेगदरेळेगे कुमाराप्रणिगळ् ॥
 कोळालपुर-वरेश-नृ-पाळ-सुतर्मद-गजेन्द्र-लाञ्छनरारि-भू-
 पाळ-कुळ-वनज-वन-शुण्डाळनेगदरु स्समस्त-सु-भटाप्रणिगळ् ॥

अन्तेनिसि नेगर्दग ङ्ग-पेर्माडि-देवरुं गङ्ग-महादेवियरुं कुमार-वर्गमुं
मण्डळि-सासिरदोळ्ळगणेडेहळ्ळिय वीडिनोळ् सुख-संकथा-विनोददि राज्यं
गेय्युत्तमिरला-महा-मण्डलेश्वरनर्द्धाङ्ग-लक्षिम ॥

श्री-वधु जय-वधु कीर्त्ति- । श्री-वधु वाग्बधुवेनिष्प वधु गङ्ग-नृपङ्ग ।
ई-वधुवेनिसिद बाचल-देवियोळेगेयेन् बेनुळ्ळिद नृप-वनितेयरम् ॥

ई-चतुरम्बुधि-वैष्टित-भू-चक्रद सतियरेन्नलादडवेनो ।

बाचल-देविगे समन्-च-मणि-प्रतति दोरेये चिन्तामणियोळ् ॥

काम-मदेभ-गामिनिगेनमे पूज्यमेनिष्प पेम्पिनिन्दू ।

ईवमं तणुपि कल्प-कुजक्केणे..... ।

दूर-दान-गुण-भूषणे दान-विनोदे दान-चिन्- ।

तामणि दान-कल्प-लतेयेम्बिदु बाचल-देविगोष्पदे ॥

एरगदराति-भूमुजरनाजियोळ्ळिसिनिजाङ्गिगळ्गम् ।

एरगिसुतिर्ष दर्षद पोडगण्डनष्प त- ।

नेरेयनतनगे गङ्ग-महीभुजनं विलासदिन्दू ।

एरगिसिभाग्य-भरदुन्नति बाचल-देविगोष्पुगुम् ॥

अन्तुमल्लदे ॥

अरि-विरुद-पात्र-जगदळ । धरेगेळ्ळं नीने राय जगदळे नानी- ।

धरेगेळ्ळमेन्दु पिरिदान- । दरदिन्दूसि पात्र-जगदळे-वेसरम् ॥

कुडे राय जगदळे-पेसर- । वडेदडेय कडेय बडवुगळ्ळियळ् ।

पडेदळ् रायरोळ्ळपं कुडे बाचल-देवि पात्र-जगदळे-वेसरम् ॥

मत्तम् ॥

.....मेवुदे-नडे-तन्न महत्त्व-वृत्तियं ।

वेडदे नोडिरे नेगळ्द बाचल-देविय कीर्त्ति..... ।

आडि दिगङ्गना-नटियरोळ् तणिविल्लदे मत्तविन्नु.....।

.....बीर...पात्र.....मेले पात्रमुम् ॥

मत्तं खस्स्यनवरत-परम-कल्याणाभ्युदय-सहस्र-फळ-भोग-भागिनि
ललित-करण-गृहीत-भाव-प्रयोगिनि भुजबळ-गंग-भूपाळ-विशाळ-वक्ष-स्थळ-
निवासिनि । नृत्य-विद्या-प्रभाव-प्रभूत-निर्मळ-यशो-विभासिनि...स्थान-
पात्र-मुख-मण्डने । प्रतिपक्ष-गायिका-गान-मान-परिखण्डने । अनवरत-
दान-जनित-विबुध-जन-हर्षे । देवा.....न.....स.....तर्षे.....। चतुर-
विद्या-विनोदे । कस्तूरिकामोदे । अरि-बिरुद-पात्र-जगदळे । जिन-गन्धो-
दक-पवित्रीकृतविनीळ-नीळ-कुन्तळे । निखिळ-कुळ-पाळिका-गीयमान-वि-
शद-यशो-गीति...स्थान...जिन-शासन-साम्राज्य-यशस्-पताके । परोप-
कार-कमळाकारचक्रवाके । सौभाग्य-सची-देवि श्रीमद्-बाचल-देवियर्
बणिण्केरेय त्रिभोगाभ्यन्तर-सिद्धिधिन्द सुरवदिनिरप्प ।

जन-नुते बाचल-देविय...।

जननिगे सरि दोरे समानमेनल्के केळ-।

वनियोळ् पडवळति...।

जननिय.....जननियरेणेये ॥

पडेदोडमे दान-धर्म-। कोडळु विशेष-त्रतक्किवेने नेगळ्द जसं ।

बडेदडव्...मतिगे ।.....वसुधा-तळदोळ् ॥

आ-महानुभावेयोडपुट्टिदम् ॥

जिन-पदाम्बुज-भृङ्गं । जिन-समय-सरोजिनी-मार्ता... ।

.....प्रभ- । वेने नेगर्द बाहुबलि धरा-मण्डलदोळ् ।

एळ्यं मुरडियं कोट्ट् । अळिपदनब्जो..... ।

.....दिन्द्र । इळिसिदपं नम्म बाहु-बलिया-बलियम् ॥

अन्तेनिसि नेगर्द श्रीमद्-बाचल-देवि...हुबलियण्णनु धम्म-कार्थ्या-
लोचनमनाळोचिसि ॥

ई-भवनदोळेन्दुं परि- । शोभितं..... ।

.....एन्देन्दाहा- । राभय-भैषज्य-शास्त्र-दानमनेसेयल् ॥

माडुव बगेयिं मण्डलि- । नाडोळगण बन्नि*.....अनुनयदिन्दम् ।

माडिसिदळ् जिन-गृहमं । नाडाडिगळुम्बमेन्दु धरे पोगळ्विनेगं ॥

सङ्गळोळगिदुत्तम- । सङ्गं.....मूल-संगमा-संग-.... ।

तुङ्गं देसिग-गणमा- । सङ्गदोळा.....गुडि बाचल-देवि ॥

देसदोळुत्तममेनिसुव । देसिग-गणद.....माडिसिदळिदम् ।

देसिग-गणके मण्डलि- । सासिरकं तिळकमेनिप चैत्यालयमम् ॥

अल्लिगे देसिग-गणदव- । गल्लदे मत्ताव-गणदलार्गन्देडकूळ् ।

अल्लदे तेजं बोन्दिप- । गल्लददेन्तुं बुधाब्ज-वन-कळ-हंसा ॥

सुर-मनुज-भुजग-भुवना- । न्तरदोळ् मुन्दादविन्दुदिप्पुवाविन्तिम् ।

दोरेये जिन-भवनमल्लेम्- । बर मातु दिटं बुधाब्ज-वन-कळ-हंसा ॥

जळधि-परीत-भू-वळ्यदोळ् नेगदोप्पुव गङ्गवाडि-ना- ।

डोळगे नेगर्त्ते-वेत्तेसेव मण्डलि-नाळ्के मुखके मूगेनिप्पु ।

अळवियनान्त बन्निकेरेयोळ् नेरेदोप्पुव पार्श्वनाथनीग् ।

अळि-कुळ-नीळ-कुन्तळेगे बाचल-देविगमीष्ट-सिद्धियम् ॥

अन्तेनिसि नेगर्द श्री-पार्श्वनाथ-देवर्गे चालुक्य-विक्रम-वर्षद ३७

नेय नन्दन-संवत्सरद पौष्य-शुद्ध ५ बृहवारदुत्तरायण-सङ्क्रान्ति-

यन्दु मण्डलिसासिरद बलिय बाडं बूडङ्गेरेयल् बन्निकेरेयल् तळ-

वृत्ति गर्दे मत्तमूरु तोण्ट मत्तरोन्दु गाणवेरडु पुरद कोलियो.....आ-येरडूर

तळ-भण्डद सुङ्गवोळ्गागि यिन्तिनितुमं भुजबळ-गङ्ग-पेर्माडि-देवरं

गङ्ग-महादेवियरं वर्गडे-बाचल-देवियरं कुमार-गङ्ग-रसुं मार-
सिंग-देवतुं गोग्गै-देवतुं कलियङ्ग-देवतुं समस्त-प्रधानर नाड-प्रमु-
गळ सन्निधानदळ सर्व्व-वाधा-परिहार सर्व्व-नमस्यमागि देवर श्री-पाद-
पद्ममूळदोळ धारा-पूर्व्वकं माडि विट्टरु ॥

धरे पुसिवोगदे बेळगी- । धरेयं भुज-वळदिनाळद भुजवळ-गङ्गम् ।
परेदिकें जैन-धर्मम् । धरेयोळ् चन्द्रार्क-तारमुळ्नेवरम् ॥
सकलोर्व्वी-स्तुतमप्य धर्ममनिदं कादं चिरैश्वर्य-भुम् ।
भुकनकुं विपरीतदिं नडेदयंगा-गङ्गेया-वारणा-
सि-कुरुक्षेत्रदोळ्येदे गो-द्विज-मुनि-स्त्रीयर्कळं कोन्द पा-
तकनकुं बिडदिकुमा-पुरुषनेतुं रौरव-स्थानमम् ॥

(हमेशाके अंतिम श्लोकके बाद)

शासनमिदावुदेह्लिय । शासनमारित्तरेके सल्लिसुवे नानी- ।
शासनमनेम्ब पातक-ना-सकळं रौरवके गळगळनिळिगुम् ॥
देवर श्री-पाददोळु धारा-पूर्व्वकादि पुर-वर्गद सुङ्कवं देवर्गे विट्टरु
बनिकेरेयळ कळुकुटिग काळोज देव-दासिगळिगे विट्ट बेदले गळ्येयळ
मत्तरोन्दु ॥

श्री-देशी-गण-वार्धि-वर्द्धन- करश्वन्द्रोऽकलंकाङ्कितम् ।
स्थेयान् श्री-मलधारि-देव-यमिनः पुत्रः पवित्रो भुवि ॥
सद्-धर्मैक-शिखामणिर् जिनप...चिन्तामणिस् ।
स-श्रीमान् शुभचन्द्र-देव-मुनिपत्सिद्धान्त-रत्नाकरः ॥

श्री-लोक्यिगुण्डिय प्रभु एरकण्णं श्री-पार्श्व-देवरंग-भोगके वडि-
यिन्द-क्षयमागि कोट्ट लोक्किय गद्याणं १ ॥ मत्तं विट्ट गर्दे मत्तरोन्दु बेदले
मत्तरु मूरु ॥

[जिनशासनकी प्रशंसा । त्रिभुवनमल्ल-देवके विजय-राज्यमें तत्पादप-
शोपजीवी गङ्गरस था; इसको 'जयदुत्तरंग' नाम भी दे रक्खा था ।
नीतिवाक्य कोङ्कुणिवर्म धर्ममहाराजाधिराज परमेश्वर महामण्डलेश्वर त्रिभु-
वनमल्ल भुजबल-गंग-पेर्माडिदेवकी पट्टरानीने अपने छोटे भाई पट्टिग-
देवके लिये गङ्गवाडिका मुकुट धारण किया । तमाम रानियों और राजाओंसे
बहु ज्यादा प्रतिष्ठित थी ।

उन दोनोंके चार पुत्र उत्पन्न हुए—गङ्ग, मारसिंग, गोमिग, और
कलियङ्ग । ये सब महान योद्धा थे ।

जिस समय गङ्ग-पेर्माडि-देव, गंग महादेवी, और उनके लड़के मण्डलि
हजारमें अपने निवास-स्थान एडेहल्लिमें थे, उस महामण्डलेश्वरकी एक अन्य
अर्द्धाङ्गिनी बाचल-देवी (उसकी प्रशंसा) थी । उसने अपने पतिको 'पात्र-
जग-दळे'की उपाधि दी थी ।

जिस समय (अनेक उपाधियोंवाली) बाचल-देवी बन्निकेरेमें, अपनी
तीसरी पीढीकी खुशीसे विश्रब्ध होती हुई, सुखपूर्वक रहती थी, उसने
अपने बड़े भाई बाहुबलीसे परामर्श करके बन्निकेरेमें एक सुन्दर जिना-
लय बनवाया ।

बाचल-देवी मूलसंघ, देशीगणकी गृहस्थ-शिष्या थी । उस देशीगणके लिये
उसने चैत्यालय बनवाया । समुद्र-परिवेष्टित लोकमें गङ्गवाडि-नाइ प्रसिद्ध है
और उसमें मण्डलि-नाइ प्रसिद्ध है । उसमें चेहरेपर जैसे नाक है उसी
तरह बन्निकेरे था । पार्श्वनाथ भगवानके लिये चालुक्य विक्रमके ३७ वें
वर्षमें भुजबल-गङ्ग-पेर्माडिदेव, गंग-महादेवी, पेर्माडि-बाचल-देवी, और
कुमार गङ्गरस, मारसिंग देव, गोमिग-देव, कलियङ्ग-देव, और तमाम मन्त्रि-
योंने, नाइ-प्रभुओंकी उपस्थितिमें सब करों एवं चुङ्गियोंसे मुक्त, मण्डलि-
हजारके बूदङ्गेरे, बन्निकेरेकी कुछ ज़मीन, एक बगीचा, दो कोल्हू, और उन
दोनों शहरोंकी कुछ चुङ्गीकी आमदनीका दान किया । आशीर्वचन और
शाप । पाषाण-शिल्पी काळोज (शासनके उत्कीर्ण करनेवाले) का नर्त्तकियोंके
लिये दान । शुभचन्द्र-देव-मुनिपकी प्रशंसा । लोक्किगुण्डि प्रभु एरेकण्णने
भगवानके भोगके लिये १३ लोक्कि गद्याण, तथा कुछ भूमि दान की ।]

२५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१

श्रवणबल्लोला—संस्कृत तथा कन्नड

(देखो जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग ।)

२६२

मत्तावार—कन्नड-भग्न

[शक १०३८=१११६ ई०]

[मत्तावार पार्श्वनाथ बस्तिके प्राङ्गणमें एक पाषाणपर]

खस्ति श्री सक-वरुष १०३८ नेय दुर्मुकि-संवत्सरद चैत्र-
मासद कृष्ण.....यादिवार.....चेदल्लियु मायन.....मग
मावण्णान शिष्यरुं सन्यसन गेय्दु मुडिहिद निसिदि ।

[(उक्त मितिको), मायनका पुत्र और मावण्णका शिष्य सन्यसन
(संन्यास=समाधि) धारण करके मर गया । उसका यह स्मारक है ।]

[EC, VI, Chikmagalur tl., n° 51]

२६३

तिप्पूर—संस्कृत तथा कन्नड

[शक सं० १०३९=१११७ ई०]

[तिप्पूर (कुलगेरी-प्रदेश) में, गाँवके उत्तर-पूर्व, पहाड़ीपर]

भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे ।

अन्यवादिमदहस्तिमस्तकस्फोटनाय घटने पटीयसे ॥

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

खस्ति होय्सल-वंशाय यदु-मूलाय यद्भवः ।

क्षत्र-मौक्तिक-सन्तानः पृथ्वी-नायक-मण्डनम् ॥

खस्ति श्रीजन्मगेहं निभृत-निरुपमौर्वानल्लोद्दाम-त्तेजं ।

विस्तारोपात्त-भू-मण्डलममल-यशश्चन्द्र-सम्भूति-धामं ॥

वस्तु-त्रातोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्त्वावळम्बं गभीरं ।
प्रस्तुत्यं नित्यमम्मोनिधिनिभमेसेगुं **होय्सळो**र्वीश-वंशम् ॥

अदरोळ् कौस्तुभदोन्दनर्ध-गुणमं देवेभदुदाम-स-
त्त्वदगुर्व्वं हिम-रश्मियुज्वल-कला-सम्पत्तिपं पारिजा-
तदुदारत्वद पेम्पनोर्व्वने नितान्तं ताळिद तानलने पु-
ट्टिदन् उद्वेजितवीर-त्रैरि **विनयादित्या**वनी-पालकम् ॥

विनयादित्यनृपं सज्जनर्गं दुर्जनर्गमात्मविनयं तेजं ।

जनियिसे नयमं भयमं । विनूत नाळ्दो विशालभूमण्डलमं ॥

आ-विनयादित्य-त्रयु । भावोद्भव-मन्न-देवता-सन्निभे सद्-

भाव-गुण-भवनमखिलकलाविलसिते **क्येळ्येव्वरसि** येम्बळु पेसरिं
आ-दम्पतिगे तनूभवन् । आदं शचिगं सुराधिपतिगं मुनेन्त् ।

आदं जयन्तन् अन्ते विन पाद-विदूरान्तरङ्गन् **एर्येयङ्ग**-नृपं ॥

एर्येयन् अखिलोर्व्विगं एनिसिर्द्द । एर्येयङ्ग-नृपाल-तिलकन् अङ्गने चर्लिव्ग-
एर्येवद्दु शील-गुणदिं । नेरेद् **एचल-देविय्** अन्तु नोन्तरुमोळरे ॥

एने नेगळ्द अवरिर्व्वर्गं । तनूभवर् एगळ्दर अलते **बल्लाळं विष्णु-**
नृपालकन् उदयादि- । ल्यनेम्ब पेसरिन्दमखिळ-वसुधातळदोळ् ॥

अवरोळ् मध्यमनागियुं धरणिपं पूर्वापराम्भोधिप्य ए-
शुविनं कुडे निमिर्चुवोन्दु निज-त्राहा-विक्रम-क्रीडेयु-
द्भवदिन्दुत्तमनादनुत्तमगुणत्राैक-धामं धरा-

धव-चूडामणि यादवाब्ज-दिनपं श्री-**विष्णु-भूपालकम्** ॥

॥ कं ॥ एळेगेसेत्र **कोयतूर** तत्-न **तळवनपुर**मन्ते रायरायपुरस्वळ-

पळ बळेद् विष्णु-तेजो-न ज्वळनदे बेन्दवु बळिष्ठ-रिपुदुर्गङ्गळ् ॥

स्वस्ति समधिगत-पञ्चमहाशब्दं महामण्डलेश्वरं द्वारावती-पुरवरा-

वीश्वर यादवकुलाम्बरधुमणि सम्यक्त्व-चूडामणि मलपरोळ्-गण्डाघनेक-
नामावली-समलङ्कितर् अप्प श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल तलकाडु-गोण्ड मुज-
बळ वीरगङ्गविष्णुवर्द्धन-होय्सल-देवर-विजयराज्यप्रवर्द्धमानमाच-
न्द्रार्कतारं सल्लुत्तिरे तत्पादपद्मोपजीवी ॥

जनताधारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्दरी-

घन-वृत्त-स्तन-हारनुप्र-रण-धीरम्मारनेनेन्दपै ।

जनकं तानेने माकणब्बे विबुध-प्रख्यात-धर्म-प्रयु-

क्ते निकामात्त-चरित्रे तायेनलिदेनेचं महा-धन्यनो ॥

उत्तमगुणततिवनिता- वृत्तियनोळकोण्डुदेन्दु जगमेळ्ळं कै-

य्येत्तुविनममळ-गुण-सं- पत्तिगे जगदोळगे पोचिकब्बेये

नोन्तळ् ॥

अन्ते निसिदेचि-राजन पोचिकब्बेय पुत्रं श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायकं
द्रोहघरट्ट गङ्गराजं चोळन-सामन्तर इडियमं मोदलागि तळकाड-
बीडिनोळ् पडियिप्पन्तिर्हु चोळं कोट्ट नाडं कुडदे कादि कोळ्ळिमेने
विजिगीषु- वृत्तियिन्देत्ति बलमेरहुं सार्चिदल्लि ॥

इत्तण भूमि-भागदोळ् अदन्यरदेके भवत्प्रताप-सं-

पत्तिय वण्णना-विधिगे गङ्ग-चमूप-जिगीषु-वृत्तियिन्द् ।

एत्तिद निन्न कय्य निशितासिय तेमोने बेन्न-बारनेत्-

तुत्तिरे पोगि कञ्चि-गुरि-यप्पिनमोडिद दामनेय्दने ॥

आन् ओन्दे-मेय्योळ् एय्दि नरसिंग-वर्म्म-मोदलाद चोळन-साम-
न्तर एल्लरं बेड्कोण्डु नाड् आदुद् एल्लमनेक-च्छत्रम्माडि कुडे कृतज्ञं
विष्णु नृपति मेच्चिदेम् बेडिकोळ्ळिमेने ॥

अवनिपनेतगित्तपनेन- दवरिवर-बोलुळिद वस्तुवं बेडदे भू-
भुवनम्बण्णिसे तिप्पूर । वृत्तियं बेडिदं जिनाच्चन-लुधम् ॥
अन्तु बेडि कुडे पडेदु गाजळरु-कुडुगेरैय् ओळ्ळागद तिप्पूर

वृत्तियं शकवर्ष १०३९ नेय हेमण(ल?)म्बि-संवत्सरद
उत्तरायणसंक्रमणदन्दु तम्म गुरुगळु श्रीमूलसङ्गद काष्पूरगगणद
तिन्निणिक गच्छद श्रीमन्मेघचन्द्र-सिद्धान्त-देवर कालं कर्षि
धारापूर्वकं माडि बिट्ट दत्ति ॥

प्रियदिन्दितिदनेन्दे काव पुरुषर्गायुं महाश्रीयुं अक्-
के इदं कायदे काव्य पापिगे कुरु-क्षेत्रोर्वियोळ् बाणरा-
सियोळ् एक्कोटि-मुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाद्यरं कोन्ददोन्द-
अयसं सागुमिदेन्दु सारिदपुव् ई-शैलाक्षरं सन्ततं ॥

[EC, III, Malavalli tl., n° 31]

[जिनशासनकी प्रशंसाके बाद पोटल राजाओंके वंशकी प्रशंसा ।
हसी वंशमें विनयादित्य उत्पन्न हुआ उसकी प्रशंसा । उससे और उसकी
पत्नीसे प्रैयङ्ग उत्पन्न हुआ । उसकी पत्नी एचलदेवी । उनसे बल्लाल,
विष्णु, और उदयादित्य उत्पन्न हुए । उनमेंसे बीचके विष्णुने पूर्व समुद्रसे
पश्चिमतक सारी पृथ्वीपर कब्जा किया । उसके पराक्रमकी ज्वालाओंसे
मजबूत छोटे शाही किले कोयदूर, तलवनपुर (जो कि रायरायपुरका ही
दूसरा नाम है) नष्ट हो गये ।

उस समय वीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन होयसलदेव अपनी चरमो क्षतिपर पहुँच कर
राज्य कर रहे थे । पृषि-राजाके पिता मार, माता माकणब्बे और पत्नी
पोषिकब्बेकी प्रशंसा । उनके पुत्र महाप्रधान एवं दण्डनायक गङ्गराज हुए ।

चोलके अधीनस्थ शासक इडियम और दूसरे लोगोंने जब चोल राजाके दिये
हुए प्रदेशको देनेसे इन्कार कर दिया तब गङ्ग-धर्मपू (गङ्गराज) ने उनसे
वह प्रदेश लड़ाई लड़कर ले लिया । अकेले ही गङ्गराजने नरसिंग-वर्म्म और

चोलके अधीनस्थ अन्य तमाम विपक्षी शासकोंको भगा दिया और नाड देशको एक छत्रके नीचे लाकर विष्णुवर्धनको सौंप दिया, जिसपर उसने गङ्गराजसे अपनी इच्छाके माफिक कोई वर माँगनेको कहा । उत्तरमें गङ्गराजने तिप्पूर माँगा ।

इस प्रकार इच्छानुसार माँगे हुए और दिये हुए तिप्पूरका, जो कि गाजलूर और गौडुमेरीके बीचमें है, मूलसंघ, काणूर गण और तिम्रिणिक-गच्छके मेघचन्द्र-सिद्धान्त-देवको दान कर दिया ।]

२६४

चामराजनगर—संस्कृत तथा कन्नड

[शक १०३९=१११७ ई०]

[चामराजनगरमें, पार्श्वनाथस्वामीकी बस्तीके एक पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्दमहामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं
यादवकुलाम्बरद्युमणि सम्यक्त्वचूडामणि मलेपरोळ्गण्डाचनेकनामा-
वलीसमलंकृतरूप श्रीमद्भुजवल वीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन विट्टिग-होयस-
ल-देवरु गङ्गवाडि-तोम्भतरु-सासिर क्रोङ्गोळगागि एकच्छत्रछयेरियि
तलेकाडलुं कोळाल-पुरदलु सुख-सङ्कथा-विनोददि राज्यं गेयुत्तमिरे ।

श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रमुनिपो देवाकलङ्कस्तुतः

श्रीपूज्याङ्गिरुदात्तवृत्तनिलयो श्री-वादिराजाम्बुधौ ।

आचार्यो द्रविडान्वयो जिनमुनिःश्रीमल्लिषेण-ऋती

श्रीपालः परिपालिताखिलमुनिस्सोऽनन्तवीर्यक्रमः ॥

जिननिष्ठ-दैवमजितं । मुनिपति गुरु पोयसलेशनाब्दनेनल् सद्

विनुतं माडिसिदं श्री- । जिनगृहमं पुणस-राज-दण्डाधीशं ॥

मित्र-कुलाब्धि-वर्द्धन-सुधांशु विरोधि-बलान्तकं महा-
 माल्य-कुलोद्भवं सकळशासनवाचकचक्रवर्त्ति लो-
 कत्रयवार्त्तिकीर्त्ति **पुणिसम्म-चमूपनवङ्गे शुद्ध-चा-**
रित्रे पवित्रे पोचले मनः-प्रिय-वल्लभे तत्तनूभवर् ॥
 चावणनाश्रितामर-महीरुहनुद्धतमन्निपुणविद्-
 रावणनातर्नि किरिय कोरपनन्वितसत्कळा-कळा- ।
 पावृत-बोधनातननुजं सुजनाप्रणि नागदेवना-
 ज्ञावनतान्य-मन्नि-निचयं कवितागुण-पङ्कजासनम् ॥
पुणिस-चमूपनेम्बेसेव शासन-वाचक-चक्रवर्त्तिगेन्-
तेणिसलोडं पोगर्त्ते तनगागिरे पुष्टिद चामराज ना-
कण कुमरय्यनेम्ब रतुन-त्रय-मूर्त्तिय पुत्रनोपिदं ।
पुणिसम-दण्डनाथनुदितोदित-चाम-चमूप सम्भवम् ॥
 अवरोळ्मो पिरिय चावन । युवतियरप्परसिकब्बेगं चौण्डलेगं ।
 भुवन-प्रसिद्धरात्मोद्- । भव [रादर् प्] **पुणिसमय्यनुं** विट्टिगनुं
 कोळनेन्तम्भोजमुणमल् नलिदु महिमे-वेत्तिपुवन्तागळु श्री- ।
 निल्लयं विख्यातवृत्तं **पुणिसेगनवर्नि विट्टिगं पुडे मित्रर्ग-**
गळिगेळं सय्पू.....उद्धविसितखिळ-भव्य-व्रजं नाडेयुं निश-
 चळ-चेतोजातरादद्धरेयोळेसेदुदन्ता-महामाल्य-गोत्रम् ॥
 चावङ्गं सत्प्रियदि । भावकियेनिपरसिकब्बेगं सुतनोगेदं ।
 केवळमे नेगई पोय्सल- । भू-वनितेश्वरन सन्धिविग्रहि **पुणिसं ॥**
तोदवनदिर्पि कोङ्गरनडङ्गिसि पोलुवरं पोरळ्चि मा- ।
 णदे **मलेयाळरम्मडिपि काळ-नृपालन तोळ विङ्कमम् ।**
 बेदरिसि पोङ्कु नील-सिल्लेयं जयलक्ष्मिगे कीर्त्ति[....] मा-

डिद विभु बिट्टि-देवन महा-सचिवं पुणिसं बळाधिकम् ॥
 अदटि पोय्सळ-भूपनोर्म्मं बेस.....नीळाद्रियं कोण्डु तन्- ।
 ओदविन्दं मल्याळरं कदनदोळ् बेङ्कोण्डु तत्साहसा- ।
 भ्युदयं कैकोळे केरळाधिपतियागिर्हेम् बयल्-नाडनं ।
 पदपिं काणिसि कोण्डनिन्तु पुणिस-श्री-दण्डनाथाधिप ॥
 केडु नियोगि बिट्टु मोदल्लिछदे बन्द कृषीवलं मोदल् ।
 गेडु किशातनोलगिसलारदे सेवकनागे गेडुदम् ।
 कोट्टु निरन्तरं जगमनिन्तभिरक्षिप्तुतिर्पं पेम्पोडम्-
 बट्टिरे दण्डनाथ-पुणिसं नेगळ्दं भुवनान्तराळ्दोळ् ॥

दरमिर.....लीयदे गं- । गर परियिं गङ्गाडि-तोम्भत्तरु-सा-
 सिरद बसदिगळनाळङ्करिसिदपं पुणिस-राज-दण्डाधीशम् ॥

खस्ति श्रीमतु सक-वरुष १०३९ नेय दुर्म्भुस्त्री-संवत्सरद
 जेष्ठबहुळ १ व मूलार्कवारदन्दु तुलारासिय बृहस्पति-लग्नदल्ल एण्णे-
 नाड अरकोत्तारदल्ल श्री-सन्धि-विग्रहि दण्डनायकपुणिसमय्य माडिसिद
 त्रिकूटद-बसदियोळ्गागि बसदिगळ्णे बिट्टु गदे आ-ऊर हड्डवल्ल अण्ण-
 मारेय-नोरेय केळ्णे.....खण्डुग हड्डके गुळि १००० आ-ऊर तेङ्कण
 हेग्गेरेय कीळेरियल्ल गदे खण्डुग ऐदके गुळि ५०० बेइले.....
 हरदरि खण्डुग एरडके ९ गुळि ४००० आ-ऊर हळ्ळि सहित जक्कि-
 कोळग धर्म-गोळ दान-गोळग कळ्दु.....गुळि ओन्दु होरें गाण-
 दलोम्मान एण्णे तोण्टद गुळि १०० आ-ऊर बडगण कोडेयनहळ्ळि
 सहित.....पुणिस-जिनालयके धारा-पूर्वक माडि बिट्टु दत्ति (रीतिके
 अनुसार अन्तिम श्लोक)

बसदिगे बिट्टी-धम्मम- । न् ओसेदु करं सल्लिसदिईडं.....।

.....।.....ब्राह्मणन कोन्द गति समनिसुगुं ॥

[जिनशासनकी प्रशंसा या स्तुति । इस समय अनेक पदोंसे अलङ्कृत वीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन बिट्टिग-होयसलदेव कोङ्कु तककी गङ्गवाडि ९६००० की जमीनके ऊपर तलकाड और कोठाल-पुरमें सुखसङ्कथा-विनोदसे राज्य कर रहे थे ।

समन्तभद्र, देवाकलङ्क, पूज्यपाद, वादिराज, द्रविडान्वयके मल्लिषेण, श्रीपाल, और अनन्तवीर्य (इनका वर्णन किया गया है) । पुणिस-राज-दण्डा-धीशके देव जिन थे, गुरु अजित मुनिपति थे, और पोयसल राजा उनका शासकथा । उन्होंने एक जिनमन्दिर बनवाया । पुणिसम्मकी पत्नी पोचले थी । उनके पुत्र चावण, कोरप, और नागदेव थे । उनको क्रमसे चामराज, नाकण, और कुमरय्य भी कहते थे । वे रत्नत्रयमूर्तिके समान थे । उनके ज्येष्ठ पुत्र चावण तथा उनकी पत्नियों अरसिकब्बे और चौण्डलेसे पुणिसमय्य और बिट्टिग उत्पन्न हुए । चावन और अरसिकब्बेका पुत्र पोयसल राजाका सान्धि-विग्रहिक मञ्जी पुणिस हुआ । बिट्टिदेवका महा-सचिव पुणिस था । बिट्टिदेवने तोड़ लोगोंको डरा रक्खा, कोङ्ग लोगोंको भूगर्भमें भगा दिया, पोलुव लोगोंको कल कर डाला, मळेपाळ लोगोंको मार डाला, काल नृपतिको भयभीत कर दिया और नील-पर्वतपर जाकर उसकी चोटीको जयलक्ष्मीके स्वायत्त कर दिया । पुणिस-दण्डनाथाधिपने एक-वार पोयसल राजाकी आज्ञा मिलनेपर नीलाद्रिपर कब्जा कर लिया और मळेयाळ लोगोंका पीछाकर उनकी सेनाको कैदी बना लिया और इस तरह वह केरलाधिपति बन गया और इसके बाद फिर खुले मैदानमें आ गया । जो व्यापारी बिगड़ गये थे, जिन किसानोंके पास बोनके लिए बीज नहीं था, जिन हारे गये किरात-सरदारोंके पास कुछ भी अधिकार नहीं रह गया था और जो उसके नौकर हो गये थे, तथा सबको जिसका जो-जो नष्ट हो गया था वह सब उसने दिया और उनके पालन-पोषणमें मदद की । बिना किसी भय-सञ्चारक, गङ्गोंकी ही तरह, उसने गङ्गवाडि ९६००० की बसदियोंको शोभासे सजित किया ।

पुष्पे-नाइके अरकोट्टारमें अपने हास बनवाई गई त्रिफूट बसदिकी बसदियोंके लिये उसने मू-दान किया ।]

[EC, IV, Chamarajnagar tl., n° 83.]

२६५

मुगुलूर—कन्नड़

[वर्ष हेमलम्बी [१११७ ई० ? (ल० राइस)]

(इस लेखकी पहली १४ पंक्तियाँ इसी नामके तालुकेके ३८० वें लेखकी पंक्तियोंसे मिलती हैं)

.....पुष्पसेन-सिद्धान्त-देवरु अवर शिष्यरु वासुपूज्य-देवरु हेमलम्बि-संवत्सरद वैशाख-बहुल त्रयोदशी-बुधवारदन्दु सल्लेखन-स-माधि-मरणदि मुडिपि स्वर्गके सन्दरु मंगलमहा श्री श्री श्री

[द्रमिल संघान्तर्गत नन्दिसंघके अरुङ्गळान्वयकी प्रशंसा । पुष्पसेन-सिद्धान्त-देवके शिष्य वासुपूज्य-देवने (उक्त मितिको), सल्लेखना धारण करके, देहत्याग किया और स्वर्गको पहुँचे ।]

[EC, V, Hasan tl., n° 131.]

२६६

हलेवीड—संस्कृत कन्नड़-भम

[काल लुस, लगभग १११७ ई०]

[इसका लेख नहीं है, मात्र 'Mysore ins. Translated' में नं० ११७ के शिलाशासनमें लुई राइसके द्वारा अनुवाद दिया हुआ है]

[लेखमें सर्वप्रथम जिनेश्वर पार्श्वनाथको लक्ष्य करके मङ्गलाचरण है । पश्चात् राजा विष्णुवर्द्धन और उसके मन्त्री गङ्गराजकी प्रशंसा है ।]

[Mysore ins. translated, n° 117, tr.']

१ अनुवाद लम्बा होनेसे मूल लेख भी लम्बा मालूम पड़ता है ।

२६७

निदिगि—संस्कृत तथा कन्नड-भद्र

[वर्ष ४२ वि. चा०=१११७ ई०]

[निदिगि (बिदरे परगना)में, दोड्डमने नविकल्प-गौडके खेतमें

एक पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम्

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

खस्ति समस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर
परम-भट्टारकं सत्याश्रय-कुळ-तिलकं चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रिभुवन-
मल्लदेवर विजय-राज्यमुत्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कितारं-वरं
सलुत्तमिरे । तत्पादपद्मोपजीवि ।

उत्तममप्प.....तोम् ।

भत्तरु-सासिरं विषयमाप्तननिन्द्य-जिनेन्द्रनाजि-रन् ।

गात्त-जयं जयं जिनमतं मतमागिरे सन्ततं निजो- ।

दात्ततेयिन्दमा-दडिग-माधव-भूभुजराळदरुर्वियम् ॥

उत्तर-दिक्-तटावधिगे तागे म.....मूड तोण्डे-ना- ।

डत्तपराशेगम्बुनिधि चैर्वोळ्ळियिप्प.....कोड्डु म- ।

त्तित्तोळ्ळुळ्ळ वैरिगळ्ळनिक्कि परावृत-गङ्गवाडि-तोम् ।

बत्तरु-सासिरं-दले माडिदरिन्तुट्टु गङ्गुरुज्जुगम् ॥

.....गंगनि भय- । मिल्हद हरिवर्म्म विष्णु-नृपनि निजदिं ।

बल्ले तडङ्गाल्-माधव- । नल्लि बळि चुर्चुवाय्द-गङ्ग-नृपाळं ॥

श्रीपुरुषं शिवमारं । भूपाळ कृतान्त भूपना-सयिगोड्डुम् ।

द्वीपाधिपरोळ्ळरि-नृप- । कोपानल-शिखेयेनिप्प विजयादित्यम् ॥

म-येरिद मारसिङ्गना- । कुरुळ-राजिगं पेसर्वेत्ता- ।
 मरुळं तनृप-तिलकन । पिरियमगं सत्यवाक्यनचळितसौर्ष्यम् ॥
 शर्व्वद-गं...वसुधेयो- । लोर्व्वने कलि चागि शौचि गुत्तियगङ्गम्
 दोर्व्विक्रमाभिरामन- । गुर्व्विन कलि राचमल-भू-नृप-तिलकम् ॥
 तेङ्गं मु...हसिय कौ- । वुङ्गं पिडिटडसि कीळ्वना-मद-करियं
 पिङ्गद निलिसुव साहस- । तुंगं केवळ्मे नेगळ्द रकस-गङ्गम् ॥
 इन्तेनिसि नेगळ्द गङ्ग-वंशोद्भवरोळा-दडिगन मगं चुर्चुवाटद-गङ्ग
 नातन सुतं दुर्व्विनीतनातन तनेयं श्रीविक्रमनातन पुत्रं भूविक्रमं ।
 तत्सुनु श्रीपुरुष-महाराजम् । तत्-तनेयं सिवमार-देवम् । तत्-तन्-
 भवनेरेय...तत्पुत्रं वृत्तुगवेर्म्माडि । तदात्मजं मरुळ-देवं । तदनुज
 गुत्तिय-गङ्गनातन मर्मं मारसिग-देवनातन...गं क...ग-
 देवनातनमगं बर्म-देवनिन्तु गंग-वंशोद्भवुरु राज्यं गेथ्ये ।
 दक्षिण-देश-निवासी गङ्ग-मही-मण्डलिक-कुल-संधरणः ।
 श्री-मूलसंध-नाथो नाम्ना श्री-सिंहनन्दि-मुनिः ॥
 श्री-मूलसंध-वियदमृ- । तामळ-रुचि-रुचिर-कोण्डकुन्दान्वय-ल- ।
 क्ष्मी-महितं जिन-धर्म-ल- । लामं क्राणूरुगणं जनानन्द-करम् ॥

आ-गणदन्वयदोळु ।

मणिरिव वनराशौ मालिकेवामराद्रौ
 तिळकमिव ललाटे चन्द्रिकेवामृतांशौ ।
 इव सरसि सरोजे मत्त-भृङ्गी-निकायः
 समजनि जिनधर्मो निर्मलो बालचन्द्रः ॥

अवर शिष्यरु ।

विमल-श्री-जैनधर्म्माम्बर-हिमकरनुद्यत्-तपो-राज्य-लक्ष्मी- ।

रमणं भूमण्डलाधीशानुभय-सिद्धान्त-रत्नाकरं जं ।

गम-तीर्थं भव्य-वक्राम्बुज-खरकिरणं श्री-प्रभाचन्द्र-सिद्धा- ।

न्त-गुनीन्द्रं क्षीर-नीराकर विशद-यशो-वेष्टिताशा-विभागम् ॥

अवर शिष्यरु ।

गुणियेने जिनमत-रक्षा- । मणियेने कवि-ह्रमक-वादि-वाग्मि-प्रवरां- ।

अणियेने पण्डित-चूडा- । मणियेने गुणनन्दि-देवरेसेदद्धरेयोळ् ॥

तत्-सधर्मरु ।

अळवे पेळ् नुडियल्के •••विरुदं माण् माणेले सांख्य वा- ।

रब्रळमं नच्चदे नीनडङ्गेडरदिर् चार्वाकनैय्यायिका ।

मलेयल् बेडिरु मट्टमेके चलदिन्दी-बन्दपं केम्भनण्- ।

डलेयल् श्री-गुणचन्द्र-देवनमळं वादीभ-कण्ठीरवम् ॥

तत्सधर्मरु ।

गङ्गा-वारि-सु-शैवळं सुर-करी दानार्द्र-गण्ड-स्थळः ।

शम्भुः कण्ठ-विलग्न-घोर-गरळश्चन्द्रः कळङ्काङ्कितः ।

कैलासो वन-वल्लरी-परिवृतस्साम्यं कथं वच्च्यहम् ।

कीर्त्या. सह माघनन्दि-यमिनश्चन्द्रातपोद्यच्छ्रिया ॥

आ-चारित्र-चक्रेश्वर-मुनि-राज-राजन शिष्यरु ॥ स्वस्ति समधिगत-

पञ्च-महा-शब्द-महा-कल्याणाष्ट-महा-प्रातिहार्य-चतुस्त्रिंशदतिशय-विराज-

मान-भगवदहर्त्परमेश्वर-परम-भट्टारक-मुख-कमल-विनिर्गत-सदसदादि-व-

स्तु-स्वरूप-निरूपण-प्रवण-सिद्धान्तामृत-वार्द्धि-वार्द्धीत-विशुद्धेद्ध-बुद्धि-समृ-

द्धरं सकळ-भुवन-प्रसिद्धरं शम-दम-यम-नियम-नियमितान्तःकरणरं

वाक्सुन्दरी-स्तन-मण्डन-रत्नाभरणरुमप्य श्रीमत्प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देव-

रन्तेन्दडे ।

आशीदाशान्तराळ-प्रथित-पृथु-यशो-व्योम-गंगा-तरंगः ।
 चञ्चचारित्र-धात्री-भवदति-ललितोदार-गम्भीर-मूर्तिः ।
 वाक्-कान्तोत्तुंग-पीन-स्तन-कळश-लसन्नूत-चूत-प्रवालः ॥
 सिद्धान्त-क्षीर-नीराकर-हिमकिरणश्री-प्रभाचन्द्रदेवः ॥

अभिनव-गणधर-रूपं । त्रिभुवन-जन-विनुत-चरण-सरसिरुह-भृङ्ग ।
 शुभ-मति-त्रैविद्यारूपद-। नुभय-कवीन्द्रोत्तमं प्रभाचन्द्र-बुधम् ॥
 अवर सधर्मरु ।

शशि-विशद-कीर्ति निर्मद-।नसदृश-गुण-रत्न-वार्धि क्राणूर्गणसद्-।
 विसरुह-वनार्कनेम्बुदु । वसुमतियोळनन्तवीर्यसिद्धान्तिगरम् ॥
 तत्सधर्मरु ।

मन-वचन-काय-गुप्तिय-। ननुनयदि तळेदु पञ्च-समितिय वशदिन्-।
 दनुवशनाद तपोनिधि । मुनिचन्द्र-व्रतिपनखिळ-राद्धान्तेशम् ॥
 इन्तेनिसि नेगसेयं तळेद श्रीमत्-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुड्डं भुज-
 बळ-गंग-पेर्माडि-बर्म-देव ।

बळवद्-वैरिगळं पडल्पडिसि गेल्दुप्राजियोळ् माण्डने ।
 चळदिन्दं परिधिडु वैरि-पुरमं तत्-कोटेयं तद्-मही-।
 तळमं कोण्डु धरित्रि बणिणसुविनं श्री बर्म-देवं मही-।
 तळमं तोळ्-वळदिं निमिच्चिदनिदेम् पेर्माडि शौर्यात्मनो ॥
 भरदिन्दान्तदटङ्गं । शरणेन्द नृपङ्गवेरदु वन्द नरङ्गम् ।
 सुरगिरि वज्रागारं सुर-भूजं बर्म-देवनदटरदेवम् ॥
 इन्तेनिसिद बर्म-देवन पट्ट-महादेवियेन्तेन्दडे ।

जिनेन्द्र-पादाम्बुज-मत्त-भृङ्गी गुणावली-भूषण-भूषिताङ्गी ।
 नितम्बिनीनां कळशायमाना विराजते गङ्गमहाधिदेवी ॥

निजवेनिपी-नेगर्त्तय महागतिगुत्सवमं निमिर्चुवान्
 त्मजरेनिसिर्द तम्मुतोडडुडिदरोप्पुत्र मार.....।
 स-जयदे सत्य-गङ्ग-नृपनुं कलि-रकस-गङ्ग-देवनुं ।
 भुजबळ-गङ्ग-भू-भुजनुमार्जिसिदर्जसमं निरन्तरम् ॥
 स्थिरने मेरु-गिरी-ध्रनोळ् सेणसुवं शम्मीरने वार्धियोळ् ।
 पुरुडिपं कलिये सुरेन्द्र-सुतनं मेच्चं महा-चागिये ।
 सुर-भूजकोरे-गट्टुवं चदुरने पाञ्चाळनं गेल्दनन्-।
 दिरदी-धारणि वण्णिकुं रण-जय-प्रोत्तुंगनं गङ्गनम् ॥
 नुडिदुदे नन्नि माडिदुदे शासनमित्तुदे राम-रेसु मार-।
 प्पिडिदुदे वज्र-लेपमुरदिर्दुदे मृत्यु परोपकारदोळ् ।
 नडेदुदे बडे सद्दुणमे मेय्येने निन्नवोलिन्तु नीतियोळ् ।
 नडेव नृपेन्द्रनावनिळ्योळ् कलि-गंग-भूपती ॥

आतन तम्मम् ।

गज-रिपु-विष्टरादि-विभवोदय पार्श्व-जिनेन्द्र-पाद-पं- ।
 कज-मद-भृङ्ग-गङ्ग-कुळ-मण्डन-दण्डित-वैरि-वर्ग भा- ।
 वजनिभ-मूर्त्ति दिग्बलय-वर्त्तित-कीर्त्ति समस्त-धात्रियोळ् ।
 भुजबळ-गङ्ग-भूप निनगार दोरे मण्डळिकैक-भैरव ॥

आतन-पट्ट-महादेवि ॥

पट्ट.....रननुजं । पट्ट.....भूपङ्गे गङ्गाडिगे तळेदळ् ।
 पट्टमनेन्दडे गङ्गन । पट्ट-महादेवियन्तु..... ॥
 गङ्ग-महादेवियर्गं भुजबळ-गङ्ग-देवनप्र-तनूजनेन्तेन्दडे ।
 कलियनदिर्द.....एन्दु निमृदेत्तिद बाहुवे..... ।
लळद.....मरे.....सले..... ।

.....नासे- गेयन्.....अळवि.....**नन्निय-गङ्ग**निन्तु मण्डळिक ।
प्रद.....वेसरं देसेयन्तु वरं निमिर्चिद ॥
दाज्ञा-लते पर्वि-देण्-देसेयोळं विद्युज्जय-स्तम्भविन्तु ।
 इवेनल् दिगजवर्ति.....कडल् केडिदुत्तंग-हस्- ॥
 तवनान्तन्य-बळक्के दोर्प-नेवदि कोदण्डदत्तङ्गे नी- ।
 लुव नीन. ये गङ्गनात्मकर.....संप्राम-रङ्गाप्रदोळ् ॥
 जस.....अखिळाशा-देवतापाङ्ग-रश्- ।
 मि-सहस्रं चमरं करीन्द्र-रिपु.....विक्रमं.....आ- ।
 गे सु-साम्राज्य.....तामिबृद्धि विभवं मेच्चुत्तिरल्..... ।
इरे सत्य-गङ्गनेसेदं विश्वावनी-भागदोळ् ॥

खस्ति सत्यवाक्य-कोङ्गणिवर्म धर्म-महाराजाधिराज परमेश्वरं
कुवळाळपुरवराधीश्वरं **नन्दगिरि**-नाथ.....मद-गजेन्द्र-लाञ्छनम्
 चतुर-विरिञ्चनं पद्मावती-देवी-लब्ध-वर-प्रसादं विचकिळामोदं नन्निय.....
 त्तरंगं गंग-कुळ-कुवळ्य.....वेन्द्रं दर्पोद्धतांराति-वनज-वन-वेदण्डं कुसुम-
 कोदण्डं गण्डरगण्डं दुडुरगण्डं नामादि-समस्त.....श्रीमन्नन्निय-गङ्गं
 नेलेवीडिनळं सुख-संकथा-विनोददिं राज्यं गेयुत्तिरे श्रीमतु कळंबूरु-न-
 गराधिपति पट्टणस्थ.....माडिसिद वसदियेन्तेन्दडे ।

इदु भू-देवते होत्त होङ्गळशमो श्रेयस्सुधा-भार-पू- ।

रदिना.....त्रय-मण्डना- ।

स्पदमो तानेन्दु.....लोकं मनो- ।

मुददिं बणिणसे **वर्मि-सेट्टि** जिन-चैत्यावासमं माडिदम् ॥

भुवन.....महत्त्वदिं.....चातुर्वर्ण-संवक्क-मीष्टम-

नित्तेत्तिसि जैन-गेहमननुत्साह-सन्दोह.....

.....।
दनुजनिष्ठ-शिष्ट-जन-कल्प-कुजं सदनोपशोभिता-।
 भ्युदय-विभूतिगास्पदनुदात्त-कळाधिपनीतनेम्ब.....।
उदितोदितं नेगळदनी-वसुधा-तळदोळ् निरन्तरम् ॥

बर्मि-सेट्टिय वनिते ।

तनगनुवशेयेनिसि जग-। जन-संस्तुत-शील-गुण-गणाळ.....।
राजिसुतिईळ् ॥
 अवरिवेर्गमगण्य-पुण्य-जनित-श्रीरायुरारोग्य-वै-।
 भव-सम्पत्-महिमौघ.....।
माडुतिर्-।
 प्प विळासं बेरसोळपुवेत्तनवनी-चक्रं मनं-गोळ्विनम् ॥

अन्तवर् म्माडिसिद बसदिय पूजा-विधान.....

षियर्गाहार-दानकं श्रीमच्चालुक्य-विक्रम-कालद ४२ नाल्वत्तेरड-
 नेय मनुमथ-संवत्सरदुचरायण-संक्र.....पुण्यतियियन्दु
 श्रीमन्-नभिय-गङ्ग-पेर्माडि-देवनिन्दं कुडलु पडेदु बर्मिसेट्टियर
 म्मेषपाषाण-गच्छाम्बर-शरच्चन्द्र...शुभकीर्ति-देव-भङ्गाइकर कालं
 कर्चि धारापूर्वकं सर्व्व-नमस्यं सर्व्व-बाधापरिहारवागि बसदिगे कोइ वृत्ति
 (आगेकी ५ पक्तियोंमें दान और सीमाकी चर्चा है तथा अन्तिम वाक्य-
 पद्धति)

बहुभिर्व्वसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः ।

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥

(हमेशाके अन्तिम श्लोक)

[इस लेखमें नं० २७७ शि० ले० के अनुसार ही गङ्ग राजाओंकी वंशा-
 वली तथा क्राणूर-गच्छके सिंहनन्दी आदि आचार्योंकी परम्परा दी हुई है ।
 अन्तमें जिस बातके लिये यह लेख लिखवाया गया है वह यह है—

गङ्गा महादेवी और भुवनेश्वर गङ्गा-देवका (प्रशंसासहित) ज्येष्ठ पुत्र नक्षिय गङ्गा था, (जिसका छोटा भाई) सत्य गंग था ।

जिस समय सत्यवाक्य को कुणिवर्म्म धर्ममहाराजाधिराज परमेश्वर नक्षिय गङ्गा सुख-शान्तिसे राज्य कर रहे थे कलम्बूरु-नगराधिपति बर्मि-सेट्टिने एक जिनमन्दिर खड़ा किया (इसकी प्रशंसा) । अपनी बगवाई हुई बसदिकी पूजा तथा ऋषियोंके आहारदानके लिये (उक्त मितिको) नक्षिय-गंग-पेर्माडि-देवने (उक्त) भूमि दी और बर्मि-सेट्टिने उसे लेकर मेघ-पाषाण-गच्छके शुभकीर्ति-देव-भट्टारकको पाद-प्रक्षालनपूर्वक अर्पित कर दिया]

[EC, VII Shimoga tl. n° 57.]

२६८

श्रवणबेलगोल—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक १०३९=१११७ ई०]

[जै. शि. सं., प्र० भा०]

२६९

कम्बदहळिळ—संस्कृत और कन्नड़

[शक १०४६, वर्ष विलम्बि (१०४० शक=१११८ ई० [लु. राइस])

[कम्बदहळिळ (विण्डिगनवले प्रदेश)के, कम्बदराय स्तम्भपर]

(दक्षिणमुख) भद्रमस्तु जिन-शासनस्य ॥

श्री-सूरस्थ-गणे जातश्चारु-चारित्र-भूधरः ।

भूपालानत-पादाब्जो राद्धान्तार्णव-पारगः ॥

आदावनन्तवीर्यस्तच्छिष्यो बालचन्द्र-मुनि-मुख्यस्

तत्सूनुर्जितमदनस्सिद्धान्ताम्भोनिधिर्प्रभाचन्द्रः ॥

शिष्यं कलनेले(?)देवस्तस्याभूत्तन्मनीषिणस्तूनु-

र्विध्वस्तमदनदर्पो गुणमणिरष्टोपवासिगुनिमुख्यः ॥

तन्मौखो(?)विबुधाधीशो हेमनन्दिमुनीश्वरः ।
 राद्धान्त-पारगो जातस्वरस्य-गण-भास्करः ॥
 तदन्तेवासिनामाद्यो माद्यतामिन्द्रिय-द्विषाम् ।
 यतिर्विनयनन्दीति विनेताभूत्तपोनिधिः ॥

नाडोळगिदेसेद गोसने । बाडङ्गोरेगिदन्देमुनिवनितेयरोळ
 कुडिदनेम्बी-नुडियद- । नेडिपुदेले विनयनन्दि-देवरचरितं ॥
 ओन्दने केळि बुध-जन- । मेन्दिङ्गं साक्षि नीमे वसुधा-त्तळदोळ
 सन्दिब्द वधू-निवहं । तन्देय वधुवेन्दपोम् प्रियम्बद-दानि ॥
 व्रत-समिति-गुप्ति-गुप्तो । जितमोह-परीषहो बुध-स्तुत्यो ।
 हतमदमायाद्वेषो यतिपति तत्सूनुरेकवीरोऽभूत् ॥

(पूर्वमुख) दानद पेम्पु दीन-जनकोटिगे कल्प-कुजाळि नोडे सन्-
 मानद पेम्पु भव्य-जन-सङ्कुळमन्तणिपित्तु दान-सन्-
 मान-तपोपवास-गुण-सन्ततियं सले ताळिददर्जगन्-
 मानिगळेकवीर-मुनि-नाथरे जङ्गम-तीर्थवल्लरे ॥

तस्यानुजस्सकळ-शाख-महाण्णोऽभूद्
 भव्याब्ज-षण्ड-दिनकृन्मुनि-पुण्डरीको ।

विध्वस्त-मन्मथ-मदोऽमळ-गीत-कीर्त्तिश्-
 श्री-पल्ल-पण्डित-यतिर्जितपापशत्रुः ॥

पल्लकीर्त्तिर्द्यथा रूढः पुरा व्याकरणे कृती ।
 तथाभिमान-दानेषु प्रसिद्धर् पल्ल-पण्डितः ॥

पल्ल-पण्डित-नागेन ददता दानमद्भुतम् ।
 भूषितं कलि-कालेऽस्मिन् गङ्ग-मण्डल-काननं ॥

सूरस्य-गण-गीर्वाण-मार्गमालम्बतेऽधुना ।

दान-प्रभा-प्रकाशोऽयं पल्लु-पण्डित-चन्द्रमाः ॥

दान-वारि-परिपूरित-सिन्धुर्नष्टमोहतिमिरो गुण-बन्धुः ।

भव्यलोककुमुदाकरचन्द्रः पल्लुपण्डितमुनिर्हततन्द्रः ॥

नानादेशसमागतेन गुणिना लोकेन संसेवितो

जीर्णोनाभिनवेन नूतन-तनु-श्री-लक्षणैर्लक्षितः ।

शुभ-द्भूरिगुणालयो मतिमतां अप्रेसरो राजते

देशेऽस्मिन्नाभिमानदानिकमुनिस्सर्वार्थ-चिन्तामणिः ॥

विद्वज्जनानन्दनकारणेन दानेन भक्त्या मुनि-पुङ्गवेषु ।

दिगन्तविश्रान्तयशोनिधानं विराजते पण्डित-पुण्डरीकः ॥

(उत्तरमुख) नानाभिमानिजन-दान-विधान-धीतो

धीमानशेषजनता-मनसोऽभिरामः ।

जातोऽभिमानी-पद-पूर्वक-दानि-नाम्ना

ख्यातः खलीकृत-महा-कळि-काळ-दोषः ॥

साभिमाने जनेऽभीष्टमभिमानमखण्डयन्

जातोऽभिमानदानीह यथार्थः पल्लुपण्डितः ॥

अतिसयमागे दानदोळे बेर्वरिदोळपुनयोक्तियेम्ब सन्-

मतियोळे पुट्टि शास्त्रदोळे दाङ्गुडिवोगि विशेषमप्य सन्-

नुत-गुणदोळियिन्दे मडलागि दिगन्तमनेन्दे पल्लु-पण्-

डितर विलास-कीर्त्ति-लते पर्विदुदुर्विगे चोषमपिनम् ॥ .

सुर-करिय काम-धेनुव । सरदभ्रद कान्तियं पुदुङ्गोळिसुत्तं ।

शरदमळचन्द्रबिम्बद । दोरेगे मिगिल् पाल्यकीर्त्तिं देवरकीर्त्तिं ॥

दानमपरिमितमोळपभि- । मानं सत्कविते शास्त्रनिपुणते कीर्त्ति-

स्थानमेने सन्दरीगळ् । दानिगळभिमानदानिगळ् वसुमत्तियोळ् ॥
 वननिधि-वेष्टित-धात्रियो-न लनवरत-नेरेद दीन-जनरिङ्गळम् ।
 धन-कनकं माळपरस्सन्-न मनदिन्दं पाल्यकीर्ति-पण्डित-देवर् ॥
 ए-योगळ्बुदण्ण विमुध-ज-न। नावळिगं बेडिदत्ति-जनकभिच्चन् ।
 देवतरु कुडुव तेर्दन्-न तीवर्स्सले पळ्पण्डितर् वसुमत्तियोळ् ॥
 (पश्चिममुख) पुडवियोळ्गळ्भेगळ्द दानिगळिभिवररारो पेळ् ।
 नुडियदिरारुमं मरुळे कल्प-महीजद कोडिनन्ते कोड् ।
 उडुगदे नग्न-भग्न-नट-गायक-दीन-जनके सन्तोसं-
 वडे कुडुतिर्ण पेम्पिनळ्वच्चरिपास्तभिमानदानियोळ् ॥

खस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वरं त्रिभुवनमल्ल तलेकाडु-गोण्ड भुजवळ
 वीर-गङ्ग होयसळ-देवरु सुखसंकथाविनोददिं राज्यं गेयुत्तमिरे तत्पाद
 पद्मोपिजीवि महासमन्ताधिपति श्रीन्महाप्रधानि द्रोह-घरट्ट पिरिय-दण्ड-
 नायक गङ्ग-राज तलेकाडं कोळुवळ्ळि मुक्कोळ बेडि-कोण्डु गेल्दडे
 मेच्चिदेम् बेडिकोव्केने श्री-विण्डिगनविलेयतीर्त्यरके तळ-वित्तियम्बेडे
 श्रीविष्णुवर्धन-होयसळ-देवरु कारुण्यं गेयुदु कोडे कोण्डु शक-वरिस
 * १०४६ विलम्बि सम्बत्-सरद श्रीमूलसंघद देसिग-गणद पुस्तक-
 गच्छद कोण्डकुन्दान्वयद शुभचन्द्र-सिद्धान्त-देवर कालं कर्चि
 धारापूर्वकम्माडि बिट्ट दत्ति पिरिय-केरैय त्तिबिन बडगण हळ्ळदिं तेङ्कक्
 कौञ्जिन तोण्ट ओळगागि बिट्ट गदे सल्लिगे मूवत्तु हळ्ळियमुन्दण लक्क-
 समु.....म्म गट्टमुं अन्दूर-कि [रि] यकेरैयुं पक्षोपवासि.....
 बसदिय हडवण-देसे-वर । ई-धर्ममनळिदव गङ्गेय तडिय हदिनेण्डु-
 सासिर कविले कोन्द दोसदल्ल होद ॥

[जिनशासनकी समृद्धि-कामना । अनन्तवीर्य सुरस्वगर्भों उत्पन्न हुए । उनके क्षिप्र बालचन्द्र मुनि उनके पुत्र प्रभाचन्द्र, उनके क्षिप्र कल्पेक्षितेय, उनके पुत्र अष्टोपवासी मुनि उनके क्षिप्र हेमनन्दि मुनि । इसके क्षिप्रोंमें एक विनयनन्दि नामक बलि थे जिनके विषयमें बाद-देशमें यह प्रवाद फैला कि वे शहरोंमें आधिकारोंके पास जाते हैं; लेकिन यह प्रवाद सही नहीं था । विद्वानों, इस बातको सुनो कि इस विषयमें स्वयं तुम्हीं लोग साक्षी हो कि वे अपने पिताकी पत्नी (अर्थात् अपनी माँ) से जैसा वर्त्तन करते थे वैसा ही बर्त्ताव स्त्री-समुदायसे करते थे । उन अनन्तवीर्यका पुत्र एकवीर था जो अपने गुणोंसे 'जङ्गम तीर्थ' कहलाता था । उसका छोटा भाई पल्लु-पण्डित था । जैसे पूर्वकालमें पाण्ड्यकीर्ति व्याकरणमें प्रसिद्ध था वैसे ही दान देनेमें यह प्रसिद्ध था । आगे उसके दानोंकी प्रशंसा की गई है, उसको नाम भी 'अभिमानदायी' और 'पाण्ड्यकीर्तिदेव' दिये गये हैं ।

जिस समय वीर-गङ्ग-होयसल-देव ज्ञान्ति और बुद्धिमत्तासे अपना राज्य बका रहे थे; तत्पादपञ्चोपजीवी गङ्गराज महाप्रधानको, तल्लेकानुसर कब्जा करनेसे पहिले, उन्होंने कोई एक वर माँगनेको कहा । उत्तरमें गङ्गराजने विण्डिगन जिलेके लिये भूमि-दान माँगा और विष्णुवर्द्धन-होयसल-देवने उसको वह दिया । गङ्गराजने भी उक्त भूमि पाकर शुभचन्द्र-सिद्धान्तदेवके पादप्रक्षालन कर उन्हें सौंप दी । शुभचन्द्र-सिद्धान्तदेव मूलसंघ, देसिग-यव, पुस्तक-गच्छ तथा कोन्द-कुन्दान्वयके थे । शाप ।

[EC, IV, Nagamangala tl., n° 19]

२७०, २७१

श्रवणबेलगोला—संस्कृत तथा कन्नड़

[क्रमसः शक १०४१=१११९ ई० और

शक १०४२=११२० ई०]

(जे० क्षि० सं० प्र० भा०)

२७२

बङ्कापुर—कन्नड़

[बि० चा० का ४५ वीं वर्ष (=शक १०४२=११२० ई० [पत्नीट]) ।

[चारों हाथकी ओरके शिलालेखमें करीब १७-१७ अक्षरोंवाली ३७ पंक्तियाँ हैं। इसमें एक दानका उल्लेख है जो मादिगजुण्ड और दूसरे गाँव-प्रमुखोंके द्वारा शुभकृत संवत्सरमें, चालुक्य विक्रमके ४५ वें वर्षमें, किरिय बङ्गापुरके जिनमन्दिरको किया गया था।]

[IA, IV, 205, n° 7, a.]

२७३

मत्तावार—कन्नड़

[विना कालनिर्देशका पर संभवतः लगभग ११२० ई०]

[मत्तावारमें, पार्श्वनाथ-बस्तिके प्राङ्गणमें एक पाषाणपर]

मरुळहळि-जकवे हट्टिदेडे गे.....गन्ति मत्तवूरद बसदि तपसु
माडि सिद्धियादळु अब्बेय माजकून मग मारे[य] कळ निळिसिद
[मरुळहळिके जकवेके द्वारा प्रेषित गे.....गन्तिने मत्तवूरकी बस-
दिमें तपश्चरण करके सिद्धि प्राप्त की। अब्बेय माजकके पुत्र मारेपने यह
पाषाण स्थापित किया।]

[EC, VI, Chikmagalur tl. n° 52]

२७४

सुकदरे—संस्कृत तथा कन्नड़ भद्र

[काल लुप्त, पर लगभग ११२० ई०]

[सुकदरे (होणकेरी परगना), लक्ष्म मन्दिरके सामने पड़े हुए
पाषाणपर]

.....

..... ।

.....कल्पवृक्ष-सदृशं कीर्त्यङ्गनावल्लभम्

श्री.....पुण्याकरम् ॥

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

नमोऽस्तु ॥ स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं ॥ द्वार-
वतीपुरवराचीश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमणि सम्यक्त्वचूडामणि मलयरोलु गण्ड
श्रीमन्निभुवनमल्ल तलकाडु गोण्ड भुजबल.....वर्द्धन पोय्सळ-देवरु
सुख-संकथा-विनोददिं राज्यं गेय्युत्तमिरे.....व ।

जिननिष्ठदेव्यमजितं । मुनिपति गुरु पोय्सळेश.....

एचले तायेनेल्केनेसे-। दनो तां जकि-सेट्टि यात्रेय-गोत्रपवित्र ।

.....नेगळद जकि-सेट्टिय गुरु-कुलमदेन्तेन्दडे ।

श्रीमद्भाविडसंघ.....वळि-लीलेयिम् ।

श्रीमत्स्वामि-समन्तभद्रवरिं भट्टाकलङ्काख्य..... ।

.....हेमसेनवरिं श्रीवादिराजाङ्गरन्त्

आमाहात्म्यविशिष्टरिन्दजितसेन..... ॥

.....परम-मुनिय शिष्यर् । प्पापहरर्मल्लिषेण-मलधारि.....। .

.....र् । ष्भूपालस्तुत्यरेसेदरवनीतळदोळ् ।

धनदोळ् धनदं वि..... ।

साहसदिं चारुदत्तं चागदोळे जीमूतं जकि-सेट्टि..... ।

.....दानि विद्वज्- । जनविनुतं धर्मजलधिर्वर्द्धितचन्द्रम् ।

मनु-नीति-मार्ग..... ।जकि-सेट्टि गोत्र-पवित्रम् ॥

अन्तःप जकि-सेट्टि तम्भूर सुकु.....माडिसियदके विट्ट
दत्ति आवूर यीसान्यद केरेयं कहिसि.....केरेयुं बसदियि बडगळं
बेदले बेदे खण्डुग एरडु मत्त.....वायाव्यद किरुकेरे सहितवागिष्ठं
आ-ऊर देव-गोळग धर्म हारे-तिष्ये-सुङ्क गाणदलरवानेण्णे इन्तितुम
शक-वर्ष.....संवत्सरद् ज्येष्ठ शु० १२ वडुवार स्वातिनक्षत्रदन्दु

वसदि.....करणकवाहारदानकं दयापाल-देवर्गे धारापूर्वकं.....
(सदाका अन्तिम श्लोक) मङ्गलमहा श्री श्री नमोऽर्हत्पा..... ।

.....तन्नापिनि ।

मनमं तन्न वसके तन्दु बळियं सत्-क्षान्तियं.....न् ।

अनेक-पुष्प-वरिष-प्रभावदिं भावदिं..... ।

..... ॥

....सुर-दुन्दुभिगळेसेये सूर-गणिकेय.....पोगळ्विनेगं ॥

जकि-सेट्टिय तम्मं.....

[जिनशासनकी प्रशंसा । जिस समय (अपनी हमेशाकी उपाधियों सहित), विष्णुवर्द्धन पोयसळदेव शान्ति और बुद्धिमत्तासे अपने राज्यका शासन कर रहे थे:—

जात्रेय-गोत्रको पवित्र करनेवाले जकि-सेट्टिके 'जिन' इह्देष थे, अजित-मुनिपति गुरु थे, पोयसळ राजा थे और एचळ माता थी ।

उस प्रसिद्ध जकि-सेट्टिकी गुर्वावळी निम्न भीति है:—द्राविक (४) जें.....स्वामी समन्तभद्र हुए, -उनके बाद महाकलङ्क;...हेमसेन; उनके बाद वादिराज;.....अजितसेन; परममुनिके शिष्य, पापहर मल्लिषेण मळचारी ।

जकि-सेट्टिकी और भी प्रशंसा । इस जकि-सेट्टिने अपने गाँव सुकदरेमें एक 'वसदि' और उसके दक्षिण-पूर्वमें एक तालाब बनवाया । 'वसदि' और सरोवरके खर्चके लिये (लेखमें वर्णित) भूमिका दान दिया । साथमें दक्षिण-पश्चिममें स्थित एक छोटासा ताकाब, देवका 'कोळग' बोझोंका खर्च और खादके गद्दे, और तेलके कोरुहूर्जसे आधा मन तेल, ये सब चीजें उसवों और आहारदानके लिये दीं । ये सब चीजें दयापाल-देव-को सौंप दीं ।

जकि-सेट्टि और उसके छोटे भाईकी प्रशंसा ।]

२७६

मुत्तपि—कन्नड

[विना कालनिर्देशका; बहुत करके लगभग ११२० ई०]

[भास्करराय मन्दिरके नवंबरग मण्डपके चार खम्भोंपर]

(दक्षिण-पश्चिमी खम्भा) खस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महामण्ड-
लेश्वर द्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरधुम (उच्चर-पश्चिमी) जि
सम्यक्त्वचूडामणि तळेकाडु-गोण्ड मुजबल वीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन-पोस्तळ-
देवर विनयादित्य-दण्ड-(दक्षिण-पूर्व खम्भा) नायक माडिसिद
होस्तळ-जिनालयके विद्व दत्ति श्री-मूलसंघ देशिय-गणद पो(पु)स्तक-
गच्छद कोण्डकुन्दान्वयद श्रीमन्मेषचन्द्र-त्रैविद्य-देवर शिष्यरु
(उच्चर-पूर्वी खम्भा) श्री-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर्गे संक्रान्तिव्यतीपात-
दन्दु कालं कर्षि धारा-पूर्वकं माडि विद्व दत्ति हिरिय-कैरेय केळगे
मोदलेरिय गदे हत्तु-सल्लियेयदुं ओन्दु सलगे तोण्टेयदुं बसदिय मुन्तन
इम्मडलु बेदलेयुमं बल्लिगड्डमुमं बसदिय बडगण.....
(दक्षिण-पूर्वी खम्भा) विनयादित्यालय

[(अपने उन्हीं पदों सहित) विष्णुवर्द्धन-पोस्तळ-देवने (उक्त)
भूमिका वरन श्री-मूलसंघ, देशीय-गण, पुस्तक-गच्छ तथा कुन्दकुम्दान्वयके
मेषचन्द्र-त्रैविद्य-देवके शिष्य प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवको विनयादित्य-दण्ड-
नायकके द्वारा बनवाये गये होस्तळ-जिनालयके लिखे कथा ।]

[EC, V, Hassan tl., n° 112]

२७६

कोन्नूर (जि० बेळगोंव)—कन्नड-भण्ड

[विक्रमादित्य चालुक्यका ४६ वाँ वर्ष=११२१ ई०]

परिचय

[इस लेखमें रायण्य नायक, मारण्य नायक, तथा कोण्डनूरके दूसरे नायकोंके द्वारा किये गये दानका उल्लेख है। ये दान महातीर्थ तटेश्वरदेवके मन्दिरकी तरफसे किये गये थे। उस समय कुण्डी ३००० में महासामन्त राजा कार्तवीर्य राज्य कर रहे थे। इनकी उपाधियोंमें रट्ट-वंश बतलाया गया है। पूर्ववर्ती रट्ट शिलालेखोंकी अपेक्षा इनकी उपाधियाँ कलहोकी शिलालेखकी उपाधियोंसे ज्यादा मिलती हैं। इस लेखकी ४३ वीं पंक्तिमें उनका नाम 'कत्तमदेव' दिया हुआ है, और ये संभवतः कार्तवीर्य तृतीय हैं, जैसा कि आगेकी वंशावलीसे प्रकट होगा। कालकी पंक्ति घिस गई है।]

[JB, X. p. 181-182, p. p. 287-292, t.; p. 293-298, tr.; ins. n° 8, II part.]

२७७

कल्लूरगुडु—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक १०४३=११२१ ई०]

[कल्लूरगुडु (शिमोगा परगना)में, सिद्धेश्वर मन्दिरकी पूर्वदिशामें पड़े हुए पाषाणपर]

१ इस शिलालेखका लेख वही है जो शिलालेख नं. २२७ का अन्तिम भाग है। केवल अंश-भेद है। २२७ नं. का अंश पहिला है और इस लेखका अंश दूसरा है। पर यह अंश-भेद सूक्ष्मरीतिसे अवलोकन करने पर भी, सिवाय तिथि (काल)-भेदके, ठीक-ठीक नहीं मालूम पड़ता। अतः लेख (जो २२७ वें शिलालेखका द्वितीयांश है) यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पाठक अपनी बुद्धिसे ही उसे निश्चित करें, क्योंकि हमको उक्त (२२७) लेखमें 'रायण्य नायक' तथा 'मारण्य नायक' ये दो नाम (जिनके दानका उल्लेख इस लेखमें है) कतई नहीं मिले हैं। 'कोण्डनूर' का नाम अवश्य पाया जाता है, पर उसके अन्य 'नायकों'का कुछ भी पता नहीं। अतः हमें सन्देह है कि २२७ वें नं० के शिलालेखसे भिन्न कोई दूसरा लेख इस २७६ वें नं० का होना चाहिये। संभव है वह गल्लीसे लिखे जानेसे रह गया हो, या मूल 'JBX' पत्रिकामें ही छूट गया हो। सम्पादक

श्रीमत्परमगभीरस्याद्वादामोषलञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर
परम-भट्टारक सत्याश्रय-कुळ-तिळक चालुक्याभरणं श्रीमत्-त्रैलोक्यमल्ल-
देवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कतारं-बरं सलुत्त-
मिरे । गङ्गान्वयावतारमेन्तेन्दोडे ।

सले वृषभ-तीर्थ-कालं । सुललितमेने सकळ-भव्य-चित्तानन्दम् ।

कलि-काल-निर्जितं श्री- । ललना-लावण्य-वर्द्धनं क्रमदिन्दम् ॥

सोगयिसुत्र-कालदोळ् की- । तिगे मूल-स्तंभमेनिपयोध्या-पुरदोळ् ।

जगदधिनाथं पुष्टिद- । नगण्यनिश्वाकु-वंश-चूडारत्नम् ॥

धरेगे हरिश्चन्द्र-नृपे- । श्वरनोर्व्वने कान्तनागि दोर्व्वलदिन्दम् ।

बिरुदरनदिर्षिं विद्या- । परिणतिरिं नेरेदु सुखदिनिरे पलकालम् ॥

वृ० ॥ आतन पुत्रनिन्दु-हर-हास-निभोज्वल-कीर्ति सद्गुणो- ।

पेतनुदात्त-वैरि-कुल-भेदनकारि कला-प्रवीणनुद्- ।

धूत-मलं सुरेन्द्र-सदृशं भरतं कवि-राज-पूजितम् ।

ख्यातनतर्क्यपुण्यनिलयं सु-जनाग्रणि विश्रुतान्वयम् ॥

ऋजु-शील-युक्तेयेनिसिद । विजय-महादेवी तनगे सतियेने विबुध-

व्रज-पूज्यं भरतं भा- । वज-सदृशं ताने सकळ-धात्री-तळदोळ् ॥

आ-विजय-महादेविगे गर्भ-दोहलं नेगळे ।

तरल-तरंग-भंगुर-समन्वितेयं झष-चक्रवाक-भा- ।

सुर-कळहंस-पूरितेयनुद्-लताङ्कित-गात्रेयं मनो- ।

हर-नव-शैत्य-मान्द्य-शुभ-गन्ध-समीर-निवासेयं तळो- ।

दरि नेरे गङ्गेयं नलिदु मीवभिवञ्छेयनेये ताळ्दिदळ् ॥

कळहंस-न्याने पलहं । केळदियरोड बोगि पूर्ण-गङ्गा-नदियम् ।
 विळसितमं पोक्कु निरा कुळदिन्दोलाडि पाडि गाडियनान्तळ् ॥
 अन्तु मनदलम्पु पोगे गङ्गा-नदियोळ् ओलाडि निज-गृहके वन्दु
 नवमासं नेरेदु पुत्रनं पडेदातङ्गे ।

गङ्गा-नदियोळु मिन्दु ल- । ताङ्गि मगं^१बडेदळप्प कारणदिन्दम् ।
 माङ्गल्य-नामवोन्दुदि- । लाङ्गनेगधिपतिगे गङ्गदत्ताख्यानम् ॥
 आ-गङ्गदत्तङ्गे भरतनेम्ब मगं पुष्टिदनातङ्गे गङ्गदत्तनेम्बं पुष्टि ।
 गुण निधिगे गङ्गदत्त- । गणुगिन पुत्रं विवेक-निधि पुष्टि दया- ।
 प्रणियागि हरिश्चन्द्रं । प्रणुत-नृपेन्द्रं धरित्रियोळ् शोभिसिदम् ॥
 मत्तमा-नृपोत्तमङ्गे भरतनेम्ब सुतं पुष्टिदनातङ्गे गङ्गदत्तनेम्ब मगनागि-
 मिन्तु गङ्गान्वयं सल्लत्तमिरे ।

हरि-वंश-केतु नेमी- । श्वर-तीर्थ वसिसुत्तमिरे गङ्ग-कुळ्यं- ।
 बर-भानु पुष्टिदं भा- । सुर-तेजं विष्णुगुप्तनेम्ब नृपाळम् ॥
 आ-धराधिनाथं साम्राज्य-पदवियं कैकोण्डहिच्छत्र-पुरदोळु सुख-
 मिर्हु नेमितीर्थकर परम-देव- निर्वाण-कालदोळ् ऐन्द्रध्वजवेम्ब पूजेयं माडे
 देवेन्द्रनोसेदु ।

अनुपमदैरावतमं । मनोनुरागदोळे विष्णुगुप्तञ्जितम् ।
 जिन-पूजेयिन्दे मुक्तिय- । ननर्घ्यमं पडेगुमेन्दोडुळ्ळिदुदु पिरिदे ॥
 आ-विष्णुगुप्त-महाराजङ्गं वृध्वीमति-महादेविगं भगदत्तं भीदत्त-
 नुमेम्ब तनयरागे भगदत्तङ्गे कलिङ्ग-देशमं कुडलातनु कलिङ्ग-देशम-
 नाळु कलिङ्ग-गङ्गनागि सुखदिन्दिरे ।

इत्तलुदात्त-यशो-निधि । मत्त-द्विपमं समस्त-राज्यसुमं श्री- ।
 दत्त-नृपञ्जितं भू- । पोत्तमने कलिङ्ग-विष्णुगुप्त-नरेन्द्रम् ॥

अन्तु श्रीदत्तनिन्दित्तलानेयुण्डिगे सलुत्तमिरे ।

प्रियबन्धु-वर्मनुदयिसि । नयदिन्दं सकल-धात्रिषं पाळिसिदं
भय-लोभ-दुर्लभं ल- । क्ष्मी-युवति-मुखाब्ज-बण्ड-मण्डित-हासम् ॥

व ॥ अन्ता-प्रियबन्धु सुख-राज्यं गेय्युत्तमिरे तत्समयदोलु पार्श्व-
मङ्गारकर्गे केवल-ज्ञानोत्पत्तियागे सौधर्मेन्द्रं बन्दु केवळि-पूजेयं
माडे प्रियबन्धु तानुं भक्तिरियं बन्दु पूजेयं माडलातन भक्तिगिन्द्रं मेच्चि
दिव्यवप्पय्दु-तोडगेगळं कोट्टु निम्मन्वयदोलु मिथ्यादृष्टिगळागलोडं
अदृश्यङ्गळकुमेन्दु पेळ्दु विजयपुरकहिच्छत्रमेम्ब पेसरनिट्टु दिविजेन्द्रं
पोपुदुमित्तलु गङ्गान्वयं सम्पूर्ण-चन्द्रनन्ते पेच्चि वृत्तिसुत्तमिरे तदन्व-
यदोलु कम्प-महीपतिगे पद्मनाभनेम्ब मगं पुट्टि ।

तनगे तनूभवरिल्लदे । मनदोलु चिन्तिसुतमिर्दु पद्मप्रभनार- ।

पिन-कणि शासन-देवते- । यने पूजिसि दिव्य-मन्त्रदिं साधिसिदं ॥

अन्तु साधिसि साधित-विद्यनागि पुत्ररिवरं पडेदु राम-लक्ष्मणरेम्ब
पेसर-निट्टु ।

परमस्नेहदोळिर्ब्वरं नडपे लीला-मात्रदिं चन्द्रनन्तु ।

इरे संपूर्ण-कळांगरागि बेळेयल् विद्या-बलोधोगमुद्- ।

व्वरेयोल् चोद्यमेनल् सलुत्तमिरे कीर्त्ति-श्री दिशा-भागदोळ् ।

परेदाशा-गजमं पळञ्चलेये लक्ष्मी-भारदिन्दोप्पिदर ॥

अन्तु सुखदिन्दिर्पुदुमत्तलुअयिनी-पुराधिपति-महीपाल-तोडवुगळं

बेडियट्टि दोडे पद्मनाभं कृतान्तनन्ते रौद्र-वेशमं कैकोण्डु ।

एमगडनइल्कगदु । तमगे तुडल् योग्यमल्ल सन्तमिरल् वेळ् ।

समरके वन्दनपडे । निमिषदोळान्तिरिदु वीर-रसमं मेरेवेम् ॥

अन्तु नुडिदडे मन्नि-वर्गदोळालोचिसि तन्न तंज्जेयं कमेयुं नाल्वत्ते-
 प्परासरप्प विप्र-सन्तानमुं बेरसु कळपिदोडवर्दक्षिणाभिमुखरागि बरुत्तुं
 राम-लक्ष्मणगर्गे **दडिग-माधवरेन्दु** पेसरनिट्टु निच्च-पयणदिम् ।

बन्दवर्गळुचित-पदमनन-गुन्दलेयि कण्डरमल-लक्ष्मी-चित्तान-
 नन्दनमं **पेरूरं** । मन्दार-नमेरु-पुष्प-गन्धाद्रियुमम् ॥

व ॥ अन्तु **गङ्ग-हेरूरं** कण्डल्लिय तटाक-तीरदोलु बीडं विट्टु चैत्या-
 लयमं कण्डु निर्भर-भक्तिरि त्रि-प्रदक्षिणं गेय्दु स्तुतिरिसि समस्त-विद्या-
 पारावार-पारगरम् । जिन-समय-सुधाम्भोधि-संपूर्ण-चन्द्ररम् । उत्तम-
 क्षमादि-दश-कुशल-धर्म-रतरम् । चारित्र-भद्र-धनरम् । विनेय-जनान-
 न्दरम् । चतुस्समुद्र-मुद्रित-यशः-प्रकाशरम् । सकळ-सावध-दूररम् ।
क्राणूर्गणाम्बर-स्रहस्रकिरणरम् । द्वादश-विधतपोनुष्ठान-निष्ठितरम् ।
 गङ्ग-राज्य-समुद्धरणरम् । **श्री-सिंहनन्दाचार्यरं** कण्डु गुरु-भक्ति-
 पूर्वकं वन्दिसि तम्म बन्दभिप्रायमेळमं तिळिय-पेळे कैकोण्डवर्गे
 समस्त-विद्याभिमुखर्माडि केलवानुं देवसदिं **पद्मावती**-देवियं भक्ति-पूर्व-
 कमाह्वानं गेय्दु वरं बडेदु खळगमुं समस्त-राज्यमनवर्गे माडि ।

मुनि-पति नोडल् विद्वज्ज-जन-पूज्यं **माधवं** शिला-स्तम्भमनार-
 ईनुगेय्दु पोय्यलदु पुण्-मेने मुरिट्टुदु वीर-पुरुषरेनं माडर ॥
 आ-साहसमं कण्डु ।

मुनि-पति कार्णिणकारदेसळोळ् नेरे पट्टमनेय्दे कट्टि सज्ज-
 जन-जन-वन्दारं परिसि सेसेयनिक्कि समस्त-धात्रियम् ।
 मनमोसेदित्तु कुञ्चमनगुर्विन केतनमागि माडि बर्-
 र्पणित्तु परिग्रहं गज-नुरङ्गसुमं निजमागे माडिदर ॥

अन्तु समस्त-राज्यमं माडि बुद्धियनवर्गिन्तेन्दु पेब्दरुं ।
 नुडिदुदनारोळं नुडिदु तपिदोडं जिन-शासनकोडम्-।
 बडदडमन्य-नारिगेरेदडिदडं मधु-मांस-सेवे गेय्-।
 दडमकुलीनरप्यवर कोळ्कोडेयादोडमर्त्थिगर्त्थमम् ।
 कुडदोडमाहवाङ्गणदोळोडिदडं किडुगुं कुल-क्रमम् ॥
 एन्दु पेब्दु ।

उत्तममप्य नन्दगिरि कोटे पोळल् कुवळालमागे तोम्-।
 बत्तरु-सासिरं विषयमाप्तननिन्द्य-जिनेन्द्रनाजिरं-।
 गात्त-राज्यं जयं जिनमतं मतमागिरे सन्ततं निजो-।
 दात्ततेयिन्दमा-दडिग-माधव-भूमुजराब्दरुर्व्वियम् ॥
 मत्तमा-नाडिङ्गे सीमे ।

उत्तर-दिक्-तटावधिगे तागे मदर्कले मूड तोण्ड-ना-।
 डत्तपरासेगम्बुनिधि चेरमेनिप्पेडे तेङ्ग कोङ्गु मत्-।
 तित्तोळ्गुळ्ळ वैरिगळनिक्कि परावृत-गङ्गवाडि-तोम्-।
 बत्तरु-सासिरं दलेने माडिदरिन्तुदु गङ्गरुज्जुगम् ॥

अन्तु धरिन्निगाधिपतियागि दडिग-माधवरिर्व्वरुं कोङ्गण-विषय-सा-
 धन-निमित्तं बरुत्तं मण्डलियं कण्डरदर प्रभाव मेन्तेने ।

नुत-महेन्द्र-पुरं धरा-तळदोळोप्पुत्तिर्हिविख्यातियिम् ।
 कृत-कालं मदना-पुरं नेगळे मिक्का-त्रेतेयोळ् सज्जन-।
 स्तुत मण्डाल-पुरं तृतीय-पेसरिं द्वापारदोळ् सन्ततोन्-।
 नतियिं मण्डलियेम्बरिन्तु कलि-कालं सन्दुदिन्ती-पुरम् ॥

अन्ता-नाल्कु-युगकं नाल्कु-पेसरिन्दोप्पुव मण्डलिय बहि-र्भर्मागदोळु
 शौगन्धमं कूडे पसरिसुव सहस्र-पत्रवप्लर्द तावरेगळिं नाना-जलच्चरि-

युलिपदिन्दोप्पुव हेमोरेयं कण्डु बीडं विट्टु तद्-गिरिय रम्यं कण्डुमिड्डि
 चैत्यालयं माडिमेट्टु क्राणुगर्गण-तिलकर सिंहनन्दाचार्य्यर प्पेळे महा-
 प्रसादमेन्दु चैत्यालयं माडिसि केलवानु दिवसदिं क्केळालके पोगि
 सुखदिं राज्यं गेव्युत्तमिरे गङ्गान्वयं पेळिं वार्त्तिसुत्तिरे दडिगंगे माधव-
 नेम्ब सुतनागि राज्यं गेव्यलातन मगं हरि-वर्म्मनातन पुत्रं विष्णु-
 गोपनेम्बनागि मिथ्यात्वके सल्लुदुवन्ता-तोडवदश्यङ्गळगि पोगे आतन
 मगं पृथ्वी-गंगं सम्पट्टष्टियातन मगं बिरुदरं तडङ्गालु वोध्दडि-गिडि-
 सुव तडङ्गाल-माधवनातनमगम्

अविनीत-गङ्गनेम्बं । भुवनकधिनाथनागि पुट्टि बुधर्गुत्-
 सवमं पुट्टिसिदं माध-व-रायन मर्मनब्धियन्ते गमीरम् ॥

अन्तु शत-जीवियेम्बादेशं केळ्दु ।

भरदिन्दं चुर्चु-त्राण्दं पोगळे बुध-जनं बन्द कावेरियोळ् मी-
 करमागल् वीर-लक्ष्मी-नयन-कुमुदिनी-चन्द्रमं निन्दु नोडल् ।
 परिवारं तन्न कीर्त्ति-प्रमे बळसे दिशा-भागमं चोधमागल् ।
 परम-श्री-जैन-पादं नेलसे हृदयदोळ् मेरु-शैलोपमानम् ॥

अन्तु चुर्चु-त्राण्दु बर्बुद्धिदनातनन्वयदोळु दुर्विनीत-गङ्गनातङ्गे सु-
 ष्कर-नेम्बनादनातङ्गे श्रीविक्रमनातन मगं भूविक्रमनातन मगन्दिर
 अचकाम-श्रीएरगरवरोळु एरेयन मगनेरेयङ्गनातनिन्दुदयिसिदं श्रीव-
 ल्लभनातङ्गे श्री-पुरुषनादनातङ्गे शिवमारनेम्बनातङ्गे मारसिंहनुदयं
 गेध्दम् ।

अवयवदिन्दे साधिसिद माळववेळुवनेध्दे गङ्ग-मा-
 ल्लवेनलकरं बरेदु कल् निरिसुत्ते कळल्लिच चित्रकू-
 टवतुरे कभबुजेय-नृपानुजनं जयकेसियं महान
 हवदोळे मारसिंह-नृपनिधि निमिर्षिदनात्म-शौर्य्यमम् ॥

तनयं श्री-भारसिंहगनुपमित-जगत्तुंगानाद जगत्-पान-
वन-लक्ष्मी-ब्रह्ममङ्गिन्दुदियिसि नेगळ्द राचमल्लवनीशम् ।
मनु-मार्गं गङ्ग-बूडामणि जय-वनितापीश-भूवल्लभेशम् ।
जिनधर्म्माम्बोषि-चन्द्रं गुण-गण-निलयं राज-विद्याधरेन्द्रम् ॥

अन्तातन मर्म्मन्दिर् मरुळर्यं ब्रूतुग-पेर्म्मार्डि तदपत्यनेरेयपं
तत्सुत-वीरवेडङ्गनेम्बङ्गे ।

उदयं गेष्टं विद्या-। सुदतीशं भार-रूपनुचित-विळासम् ।

विदित-सकळार्थ्य-शाखं । मृदु-त्राक्यं राचमल्लनहितर-मल्लम् ॥

अन्ता-राचमल्लनिन्देरेयङ्गनातन मगं ब्रूतुगनातन मगं मरुळ-देव-
नातनात्मजं गुत्तिय-गङ्गनातनिन्दं मरेयेरिद भारसिंहनातन सुतं
गोविन्दरनातन पुत्रं सैगोडु-विजयादित्यनातनिन्दं राचमल्लनातनि
भारसिंहनातन सुतं कुरुळ-राजिगनातनिन्दं गर्ब्बद-गङ्गं गोविन्दरन
तम्भन मगनप्प मम्म-गोविन्दरम् ।

तेङ्गनुडिदडर्दु किळ्ळतं । कौङ्गं मिडुकदिरलेडद-कप्पोळ् मद-मा-।
तङ्गमने पिडिदु निलिसिद । गङ्गं सामान्य-नृपने रकस-गङ्गं ॥

तदनुजं कलियङ्गनातनिन्दुत्तरोत्तरं गङ्गान्वयं सलुत्तमिरे क्राणूर-
गणदाचार्य्यावितारवेन्तेन्दोडे ।

दक्षिण-देश-निवासी गङ्ग-मही-मण्डलिक-कुळ-समुद्ररणः ।

श्री-मूळ-संघ-नाथो नाम्ना श्री-सिंहनन्दि-मुनिः ॥

अवर तदनन्तरं अर्द्धल्लयाचार्यं वेङ्गुद-दामनन्दि-भङ्गारकर्ह
बाळचन्द्र-भङ्गारकर्ह मेघचन्द्र-त्रैविद्य-देवर्हं । गुणचन्द्र-पण्डित-दे-
वरवरिन्द ।

एळ्गे गुण-रुचियिनोळपग्न- गळिसिरे गुण-रुचि-विकाश-वाग्-रमि-
यिनुच-।

चळिसे वदनेन्दु पेम्पम् । तळेदं गुणान्दि-देव-शब्द-ब्रह्म ॥

अवरिं बळिकमकलंक-सिंहासनमनलंकरिसि नेगई तार्किक-चक्रे-
श्वरहं । वादीम-सिंहहं । पर-वादि-कुल-कमल-वन-मद-मातंगरुम् ।
बौद्ध-वादि-तिमिर-पतङ्गरुम् । सांख्य-वादि-कुळाद्रि-वज्रधरुम् । नैयायि-
काचार्य-भूजात-कुठारुम् । मीमांसक-मत-वनाधन-प्रचण्ड-पवनरुम् ।
सिद्धान्त-वार्धि-वर्द्धन-सुधाकरुम् । सकल-साहित्य-प्रवीणरुम् । मनोम-
वभय-रहितहं । जिन-समयाम्बर-दिवाकरुम् । अप्प श्री-मूल-संघद
कोण्डकुन्दान्वयद क्राणूरु-गण मेषपाषाण-गच्छद श्रीमत्प्रभाचन्द्र-सि-
द्धान्तदेवरवर शिष्यरु ।

अनवधाचारु म्मा- । घनन्दि-सिद्धान्त-देवरधिकृत-जिन-शा- ।
सन-संरक्षकरेसेदरु । जिनमतसद्धर्म-सम्पदं नेगळ्-विनेगम् ॥

अवर शिष्यरु ।

चतुरास्यं चतुरोक्तिर्यिं प्रमुतेयिन्दीशं गुण-व्यापक-।
स्थितिर्यिं विष्णु सु-बुद्धि-विस्तरणेर्यिं बौद्धं दली-जैन-पद्र-।
धतियिन्दिर्हुमिदेम् विचित्रतरमो चातुर्यमादी-समुन्-।
नत-सिद्धान्त-विभूषणङ्गेनिसिदं श्रीमत्प्रभाचन्द्रमम् ॥

अवर सधर्मरु ।

नुत-सिद्धान्तमनन्तवीर्य-शुनिगं शुद्धाक्षराकारदिम् ।
सततं श्री-शुनिचन्द्र-दिव्य-शुनिगं संवर्तिसुत्तिकुम-।
प्रतिमं तानेने पेम्पु-वेत्तरु दितोदान्तर् अगद-बन्धरु-।
जितरुघोतित-विश्वरप्रतिहत-प्रन्नरु म्मही-भागदोळ् ॥

अवर शिष्यरु ।

वादि-वन-दहन-हुतवह । वादि-मनोभव-विशाळ-हर-निटिलाक्ष
वादि-मद-रदनि-विदुवं । मेदिप मृगराज जयतु श्रुतकीर्ति-बुधम् ॥
कवि-गमकि-वादि-वाम्मिगळ् अवन्दिरं गेल्लु कनकनन्दि त्रैवि-
द्य-विलासं त्रि-भुवन-मल्ल-वादिराजं दलेनिसिदं नृप-समेयोळ् ॥

अवर सधम्मरु ।

चारित्र-चक्रि संयम-धारि क्राणूरुगणाप्रगण्यं सदयम् ।
श्री-रमणं सिद्धान्त-वि-शारदनति-विशद-कीर्त्ति माधवचन्द्रम् ॥

अवर शिष्यरु ।

वर-शास्त्राम्बुधि-वर्द्धन-हरिणाङ्क विरुद-वादि-मद-विस्फाळम् ।
निरुतं तानेनलेसेदं । धरेयोळ् त्रैविद्य-बालचन्द्र-यतीन्द्रम् ॥

श्री-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर शिष्यरु ।

वसुमतिगोष्पु-वेत्त धवलातपवारणवागि कीर्त्ति नर-
त्तिसुवुदु पेम्पु-वेत्त महिमोन्नति मेरुगे मण्डपन् दला-
गेसेवुदु सद्-गुण-प्रतति मौक्तिक-मालेय लीलैयं समर-
र्थिसुवुदु सज्जनके सहजातमेनल् बुधचन्द्र देवर ॥
करवं वारुणिगेन्दु नीडि पिरिटुं निस्तेजमेधिर्ददं तन्-
निरवं नोडदे सत्पद-प्रमुतेयं ताब्दिर्ष्य दोषाकरम् ।
दोरेये पेळेनुतं कळङ्क-रहितं सद्-वृत्तदिन्दं तिरस्-
करिपं चन्द्रननोष्पु-वेत्त बुधचन्द्रं सन्ततोत्साहदिम् ॥
नुडिगळ् सत्य-सुवर्ण-भूषण-गणं चित्तं सु-रत्नङ्गम् ।
मडगिट्ठिर्ष्य करण्डकं तनु तपस्श्री-भामिनी-भासियेन्-
बि० २७

दडे दुष्कीर्त्तियनान्त मत्तिन शठर् दुब्बोधरस्पृश्यरेम् ।
 पडिये सद्-बुध-सेव्यनप्प बुधचन्द्र-रूयात-योगीन्द्रनोळ् ॥
 सुर-वेनु व्रति-रूपमं तळेदुदो गीर्वाण-भूजातवी-
 धरेयोळ् तापस-रूपदिं नेलसितो पेळेम्बिनम् बर्पुदम् ।
 करेदर्थि-प्रकरके कोट्टु विपुळ-श्री-कीर्त्तियं ताळ्दिदम् ।
 निरुतं श्री-बुधचन्द्र-देव-मुनिपं वात्सल्य-रत्नाकरम् ॥

इन्तेनिसि नेगळ्दाचार्य-परमेष्ठिगळ्न्वय-तिळकरुं जिनसम्भ-निर्म्माप-
 णरुमप्प बुधचन्द्र-पण्डित-देवरु प्रवर्त्तिसुत्तिरे । प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-
 देवर गुड्ड ।

जय-जया-वल्लभनन्-। वय-वार्धि सीतरोचि भुवन-स्तुत्यम् ।

प्रिय-मूर्त्ति जिन-पदाब्ज-। द्वय-भृङ्गं बर्म्मदेव भुज-बळ-गङ्गम् ॥

अन्तेनिसि नेगर्द्द बर्म्मदेव भुज-बळ-गङ्ग-पेर्म्माडि-देवं मण्डलिय बेट्टद
 मेले मुनं दडिग-माधवर म्माडिसिद बसदियं तम्म गंगान्वयदवर् प्पडि
 सल्लिसुत्तुं बरल्लु तदनन्तरं मर-वेसनागि माडिसि मण्डलि-सासिरवेड-
 दोरे-एप्पत्तर बसदिगळ्ळिन्पुव मुन्नादुवक्कुं पट्टद-बसदिय प्रतिबद्ध-
 वागि समादेयर म्मुख्यवागि विट्ट दत्ति तट्टंकरे सर्व्व-बाधापरिहार
 मत्तं बसदियिं तेङ्गण केरेय केळ्गे तळ-वृत्ति गदे गळेय मत्तल्ल मरू
 बेहले गळेय मत्तल्लारुमिन्तु पट्टद-तीर्त्थद बसदिगे सल्लुत्तमिरे आतन
 तनूभवरु ।

जय-लक्ष्मी-पति मारसिंगननुजं सल्य-प्रियं सन्द नन्-।

निय-गङ्ग-क्षितिपाळकं तदनुजं तेजस्वि विक्रान्त-च-।

क्र-युतं रक्स-गंगनातननुजं वीराग्रगण्यं तद-।

न्वय-लक्ष्मी-गृह-दीपकं भुजबळ-श्री-गङ्ग-भूपाळकम् ॥

आ-मारसिंग-देवं आद्रवळ्ळियेम्बूरुमं बसदियाग्रेय-कोणरेयिम्मूडल्लु गदे गळ्ळेय मत्तलोन्दु बेदले मत्तलेरडुमं बिट्टम् । माघनन्दिसिद्धान्त-देवर गुड्डं मारसिंग-देवं मत्तवातन तम्म प्रभाचन्द्रसिद्धान्त-देवर गुड्डं नन्निय-गङ्ग-देवम् सिरियुरगे येम्बूरुममागदेयिं तेङ्कण कोळ्ळद केळगे गळ्ळेय मत्तलोन्दु बेदले मत्तलेरडुमं बिट्टम् । बर्म-देव सक मारसिंग नन्निय-गङ्ग ९७६ विज [य] ९८७ [विम्बाव] सु ९९२ सौम्य । अनन्तवीर्य-सिद्धान्त-देवर गुड्डं रक्स-गंगं नन्निय-गङ्ग बिट्ट गदेयिं तेङ्कल्लु हरकेरिय सीमे-वरं विट्ट गदे गळ्ळेय मत्तलोन्दु बेदले गळ्ळेय मत्तलेरडुं इन्ती-वृत्ति मण्डलिय होलद भूमियिन्ती-हनेरडु मत्तल्लु बेदलेय सीमे मूडण देसे तळवृत्तिय गदे । तेङ्क हरकेरिय सीमेय नट्ट कळ्ळु हडु-वल्लु पिरिवळ्ळु बडग मोरसर-कोळ मत्तं कटकद गोवं रक्स-गङ्ग हूलिय-केरेय गदेयुमदर सुत्तण बेदलेयुमं विट्टनदर सीमे मूडल्लु चिक्कवण-जिगनकेरे तेङ्कल्लु तट्टकेरेय गुड्डेय बडगद.....नीर्वरि हडुवल्लु नट्ट कळ्ळि वरल्लु गुड्डेय मूडण नीर्वरि बडगल्लु बडगण दिम्बिन नीर्वरि चिक्क-वञ्जिगनकेरेय बडगण कोडि ॥

मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुड्डम् ।

भुज-बळ्ळदि शत्रु-मही- । भुज-कुजमं कित्तु मुत्ति कोण्डेगळं कोण्- ।

डजित-बळ्ळनेनिसि नेगर्द । भुजबळ-गङ्ग-क्षितीशनवनिप-तिलकं ॥

इन्नेनिसि नेगर्द भुजबळ-गंग-पेम्माडि-देवं सक-वर्ष १०२७ नेय

सर्व्वजितु-फाल्गुण-मासद १ शुक्रवारदन्दु मण्डलिय पट्टद-तीर्थद बसदिय निल्य-निवेद्य-पूजेगं ऋषियर्गाहार-दानकं बिट्ट दत्ति हेगण-गिले येम्बूरं सर्व्व-बाधा-परिहारं माडि बिट्टन् (भागेकी ३ पंक्तियेमें

सीमाकी चर्चा है) प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुड्ड नभियगंग-
पेम्माडि-देव ।

आ-भुजवळगङ्ग..... ।वन-भ्राजित मग-बुद्धिद..... ।

.....दिक्-तटं रा- । ज्याभिषवाधिपतियेनिप नभिय-गङ्गम् ॥

देसेगळनेय्दे पर्विद नेलक्किदे तां ज्जेलगट्टेनिप्प बल्- ।

पेसेवुदु तोळ्ळेण्-देसेय गण्डर मीसेय मेले-मेले वर- ।

तिसुवुदु गण्ड-गर्वद जसं बडवाग्गिय बायनेय्दे बत्- ।

तिसुवुदु तेजमेनधिकनादनो नभिय-गङ्ग-भूमुजम् ॥

पद-नखदोळ् दशाननते नम्र-नृपालि-मुखाङ्गदिं जया- ।

स्पद-भुजदल्लि षम्मुखते दुर्जय-शक्ति-धरत्वदिं चतुर- ।

व्वदनते वक्त्रदोळ् चतुर-वाणियिनोप्पिरलेन्तु नोर्पडा- ।

भ्युदयमनेय्दिदत्तु पलवुं मुखदिं तवे कीर्त्तिं गङ्गनोळ् ॥

दिगिभमनोत्ति कीलिडिपनगगद केसरिवोले वाय्दडम् ।

सुगिये तळ-ग्रहारदोळे मगिपनुडुटदिन्दे मीण्टुवम् ।

नगमनिवं कवुडुडिव तेडुडिवन्नने सम्बुशैलमम् ।

नेगपिद पन्ति-दोळवननेळिपनेम्बुदु मारसिङ्गंन ॥

खस्ति सत्यवाक्य-कोङ्कुणि-वर्म धर्म-महाराजाधिराजम् परमे-
श्वरम् । कोळालपुर-वरेश्वरम् । नन्दगिरि-नाथं मद-गजेन्द्र-लाञ्छनम्
चतुर-विरिञ्चनं पद्मावती-देवी-लब्ध-वर-प्रसादम् विचक्किळा मोदं
नभियगङ्गं । जयदुरत्तङ्गम् । गङ्ग-कुल-कुवळय-शरच्चन्द्रम् । मण्डलिक-देवे-
न्द्रम् । दर्पोद्धताराति-वनज-वन-वेदण्डम् । कुसुमकोदण्डम् । गण्डर-
गण्डम् । दुट्टरगण्डम् । नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितम् । श्रीमन्न-

भिय-गङ्ग-पेर्माडि-देवम् तम्मज्जं बम्म-देवं माडिसिद मण्डलिय
 पट्टद-तीर्थद बसदियं कल्ल-वेसनागि माडिसिद पट्टद-बसदिगे सक-
 वर्ष १०४३ नेय शुभकृत्-संवत्सरद भाद्रपद-मासद शुद्ध ५
 बृहस्पति-वारदन्दु कुरुळिय-बसदियादियागि पञ्चविंशति-चैत्यालयमं
 धम्मप्रभावनेयिन्द माडिसिद प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर शिष्यर् मुख्य-
 वागि विट्ट वृत्ति बसदिय मुन्दे गद्देगळेय मत्तरोन्दु बेद्लेगळेय मत्तरेरुडु
 बसदियहळिय सुङ्गमुमं विट्टरु मत्तं नभिय-गङ्ग-देवतुं पट्ट-महा-देवि
 कञ्चल-देवियरुं पक्कावती-देविगे हरसि हेर्माडि-देवनं हडेदु काणि-
 केयं तन्नाव्व नाडुर्गळोलु शर-मित-पणवं कोट्टरा-चन्द्रार्क-तारं-वरं ।
 बुधचन्द्र-पण्डित-देवर गुड्डुम् ।

मुनिसिं दिग्दन्ति-दन्तङ्गळनवयवदिन्दोत्ति वेगं छळ्ळेम्- ।

बिनेगं कित्तेत्तने तारगेगळनदटिन्दालिकळन्ददिं सू- ।

सने वार्द्धि-त्रातमं सुरेने तवुविनेगं पीरने कोपदिं पोय्- ।

यने वेट्टं पिट्टु-पिट्टागिरे समरदोळी-वीर-पेर्माडि-देवम् ॥

(हमेशाका अन्तिम श्लोक)

[इस समय त्रैलोक्यमल्ल-देवका विजयराज्य प्रवर्द्धमान हैं । गङ्गान्वय
 (वंश) का अवतार इस प्रकार हुआ:—

वृषभ-तीर्थ-कालमें जब कि अयोध्यामें इक्ष्वाकु-वंशमें राजा हरिश्चन्द्रको
 राज्य करते हुए बहुत समय हो गया था, उसका पुत्र भरत हुआ । उसकी
 पत्नी विजय-महादेवी थी । जब उसको गर्भ-दोहद हुआ तो उसे जोरसे नृत्य
 करनेवाली लहरोंसे ओतप्रोत, मस्य, चक्रवाक पक्षी तथा चमकीले हंसोंसे
 पूरित गङ्गामें नहानेकी इच्छा हुई । अपनी इस इच्छाको पूरा करनेके बाद,
 नौ महीने पूरे होनेपर उसे एक लकड़ा हुआ । उस लकड़ेका नाम, चूँकि
 गङ्गामें नहानेके बाद वह उत्पन्न हुआ था अतः गङ्गदत्त रक्खा गया ।
 गङ्गदत्तका पुत्र भरत हुआ और उसका पुत्र गङ्गदत्त हुआ । इस गङ्गदत्तकी

लडकीका लडका हरिबन्धु हुआ, उसका लडका भरत हुआ और उसका फिर गङ्गदत्त ।

गंग वंशकी परम्परा इस प्रकार जारी थी,—जब कि नेमीश्वरका तीर्थ चल रहा था,—उस समय, राजा विष्णुगुप्तका जन्म हुआ । यह राजा अहिच्छत्र-पुरमें शान्तिसे निवास कर रहा था, उसी समय नेमि तीर्थकरका निर्वाण हुआ और उसने ऐन्द्रध्वज पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर देवेन्द्रने उसे ऐरावत हाथी दिया ।

विष्णुगुप्त-महाराज और पृथ्वीमति-महादेवीसे भगदत्त और श्रीदत्त नामके दो पुत्र हुए । पिताने भगदत्तको राज्य करनेके लिये कर्लिंग-देश दे दिया और वह उसपर 'कर्लिंग गंग' नामसे राज्य करने लगा । दूसरी तरफ, उसने वह मत्त हाथी तथा शेष संपूर्ण राज्य राजा श्रीदत्तको दे दिया । इस प्रकार जब श्रीदत्तके समयसे हाथीको मुकुटमें धारण किया गया था,—प्रियबन्धुवर्मेने उत्पन्न होकर अपनी नीतिसे सारी पृथ्वीकी रक्षा की ।

जिस समय वह प्रियबन्धु शान्तिसे राज्य कर रहा था, उस समय पार्श्व-भट्टारक (तीर्थकर)को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसकी पूजाके लिये सौधर्मेन्द्रने आकर केवली-पूजा की । इसी अवसरपर स्वयं प्रियबन्धुने भी आकर केवलज्ञानकी पूजा की । उसकी श्रद्धासे प्रसन्न होकर इन्द्रने पाँच आभरण (अलङ्कार) उसे दिये और कहा,—“अगर तुम्हारे वंशमें आगे कोई मिथ्यामतका माननेवाला उत्पन्न होगा, तो ये (आभरण) लुप्त हो जायेंगे ।” ऐसा कहकर, और अहिच्छत्रका 'विजयपुर' नाम रखकर इन्द्र चला गया ।

दूसरी ओर, पूर्ण चन्द्रमाके समान, गंग-वंश बढ़ता ही चला गया और इस वंशमें राजा कम्पके पद्मनाभ नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । पद्मनाभके, शासन-देवताकी कृपासे, दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने राम और लक्ष्मण रखा ।

जब ये दोनों कुमार शान्तिसे रह रहे थे, उज्जयिनी-शासक महीपालने उनको जा घेरा और उनसे इन आभूषणोंको माँगा । पद्मनाभने देवसे इन्कार कर दिया ।

इसके बाद अपने मन्त्रियोंकी सम्मतिसे, उसने अपने पुत्रोंको, अपनी कुमारी छोटी बहिन तथा ४० सुने हुए माझणोंके साथ बाहर भेज दिया, और चूँकि वे दक्षिणको जा रहे थे, उनका नाम बदलकर क्रमसे दक्षिण और माधव रख दिया ।

चलते-चलते वे एक अत्यन्त मनोरम स्थानपर आये, जहाँ उन्हें विशाल पेहरू (शायद कोई तालाब-विशेष) और एक पहाड़ी मिली जो पुष्पाच्छादित मन्दार, नमेरु तथा चन्दनके वृक्षोंसे आवृत थी । उस गङ्ग-हेरूको देखकर वहीं उन्होंने एक तालाबके किनारे अपने तम्बू तान दिये, वहाँ एक चैत्यालय भी उन्हें दिखाई दिया, जिसकी तीन प्रदक्षिणा करनेके बाद, स्तुति करते समय, क्राणूर-गण-आकाशके सूर्य, गङ्ग राज्यके प्रवर्धक श्री-सिंहनन्दाचार्य दिखाई दिये । गुरुमें श्रद्धा होनेके कारण उन्होंने उनकी विनय की और अपने जानेका उद्देश्य कहा । इसपर वे उनको हाथ पकड़कर ले गये और उन्हें विद्याकी कलामें प्रवीण किया, और कुछ दिनोंके बाद अपने श्रद्धा-बलसे पद्मावती देवीको प्रकट कर वर प्राप्त किया, और उन्हें एक तलवार तथा संपूर्ण राज्य दिया ।

जिस समय मुनिपति ऊपरकी ओर देख रहे थे, माधवने अपनी तमाम शक्तिसे एक पाषाण-स्तम्भपर प्रहार किया, और वह स्तम्भ कड़कड़ करते हुए नीचे गिर पड़ा । मुनिपतिने इस शक्तिको देखकर उनको कर्षिणकारके परागोंसे तैयार किया गया एक मुकुट पहिनाया, उनके ऊपर अनाजकी वृष्टि की और बहुत खुशीसे तमाम पृथ्वीका राज्य देते हुए, क्षण्डेके लिये अपनी पीछीको चिह्न बनाया, तथा बहुतसे सेवक, हाथी और घोड़े दिये ।

तमाम राज्यका अधिकार देते हुए उन्होंने उन्हें इस उपदेशसे सावधान किया:—अपनी प्रतिज्ञात बातको यदि वे नहीं करेंगे; अगर वे जिनशासनको स्वीकार नहीं करेंगे; अगर वे दूसरोंकी स्त्रियोंको ग्रहण करेंगे; अगर वे मांस और मद्युका सेवन करेंगे; अगर वे नीचोंसे सम्बन्ध जोड़ेंगे; अगर वे आवश्यकतावालोंको अपना धन नहीं देंगे; अगर युद्धभूमिसे भाग जायेंगे:—तो उनका वंश नष्ट हो जायगा ।

१ शिलालेख इस बातमें एक राय है कि यह प्रहार तलवारसे किया गया था ।

ऐसा कहनेके बाद,—उच्च नन्दगिरि उनका किला हो गया, कुवलाल उनका नगर बन गया, ९६००० उनका देश हो गया, निर्दोष जिन उनके देव हो गये, विजय उनकी युद्धभूमिकी साथिन हो गई, जिनमत उनका धर्म हो गया ।

भागो गङ्गवाडि ९६००० की चतुर्दिक्-सीमा दी है ।

राज्य प्राप्त करनेके बाद, दडिग और माधव दोनों, जब कोंकण देशको अधीन करनेके लिये आ रहे थे, उन्होंने मण्डलि देखी, जिसके बाहरी प्रदेशमें एक विशाल तालाबको सफेद जल-कमलिनी और हजारपत्तेवाले विकसित कमल तथा बहुत-सी मछलियोंके शब्दोंसे आकर्षक जानकर वहीं उन्होंने अपने तम्बू गाड़ दिये । पहाड़ीकी सुन्दरता देखकर सिंहनन्धाचार्यने उन्हें वहाँ एक चैत्यालय निर्माण करनेकी प्रेरणा की, जिसे उन्होंने मान्य किया ।

और कुछ दिनोंके बाद वे कोलाल चले गये और शान्तिसे राज्य करने लगे । जैसे जैसे गङ्ग-वंश बढ़ता गया, दडिगके माधव नामका एक पुत्र हुआ, जिसने राज्य किया । उसका पुत्र हरिवर्मा, उसका पुत्र विष्णुगोप, जिसके मिथ्यामतके माननेके कारण, वे भाभूषण विलीन हो गये थे । उसका पुत्र पृथ्वी गङ्ग हुआ, जिसने सत्यमत अङ्गीकार किया । उसका पुत्र तडङ्गाल माधव था ।

इसका पुत्र अविनीत गङ्ग था । यह अपनी शत-जीवी बातको सुनकर, परीक्षाके लिये, अत्यन्त भयानक वादवाली कावेरीमें कूद गया और फिर तैर कर निकल आया । यह पक्का जिनभक्त था ।

उसके बाद दुर्विनीत गङ्ग हुआ, जिसका पुत्र मुष्कर था । मुष्करके बाद क्रमसे एकके बाद एक श्रीविक्रम और भूविक्रम हुए । भूविक्रमके नव-काम और प्रग पुत्र हुए । इनमेंसे प्रगके परेयङ्ग पुत्र हुआ; उससे श्रीवल्लभ, उससे श्रीपुरुष, उससे शिवमार और इससे मारसिंह ।

मालव सप्तको स्वाधीनकर और एक पाषाणपर 'गङ्ग-मालव' खुदवाकर मारसिंहने कञ्चमुञ्जेके राजाके छोटे भाई जयकेसीको युद्धमें मारा ।

मारसिंहका पुत्र जगत्तुंग हुआ; उसके राचमल्ल हुआ जो जिनधर्म-समुद्रके लिखे चन्द्रमा था ।

उसके नाती मरुळय्य और वूतुगपेर्माळि हुए; वूतुगकी सन्तान प्रेयप, उसका पुत्र वीरवेडंग, और उसके राचमल्ल उत्पन्न हुआ।

राचमल्लसे प्रेयङ्ग उत्पन्न हुआ; जिसका वूतुग, जिसका मरुळ-देव, जिसका गुत्तिय-गंग, जिससे मारसिंग, उसका पुत्र गोविन्दर, उसका सैगोट्ट विजयादित्य; उससे राचमल्ल उत्पन्न हुआ; उससे मारसिंग, उससे कुरुळ-राजिग, उससे गर्वदगङ्ग; गोविन्दरके छोटे भाईका पुत्र मम्म-गोविन्दर था। (उसकी प्रशंसा) उसका छोटा भाई कलियङ्ग था। उसके बाद जिस समय गंगवंश चल रहा था:—

काणूरगणके आचार्योंकी वंशावली निम्न भाँति थी:—

दक्षिण-देशवासी, गङ्ग राजाओंके कुलके समुद्धारक, श्रीमूलसंघके नाथ सिंहनन्दि नामके मुनि थे। तदनन्तर अर्हद्वय्याचार्य, नेट्टद दामनन्दि भट्टारक, बालचन्द्र भट्टारक, मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव, गुणचन्द्र पण्डितदेव। इनके बाद शब्द-ब्रह्म गुणनन्दिदेव हुए। इनके बाद महान तार्किक एवं वादी प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव हुए। वे मूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, क्रानूर-गण तथा मेघपाषाण-गच्छके थे। उनके शिष्य माघनन्दि सिद्धान्तदेव हुए। उनके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए।

इनके सधर्मा अनन्तवीर्य मुनि थे; मुनिचन्द्र मुनि भी। उनके शिष्य श्रुतकीर्ति। उनके बाद कनकनन्दि त्रैविद्य हुए, जिन्हें राजाओंके दरबारमें 'त्रिभुवन-मल्ल वादिराज' कहा जाता था। इनके सधर्मा माधवचन्द्र थे। उनके शिष्य त्रैविद्य बालचन्द्र यतीन्द्र थे।

प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेवके शिष्य बुधचन्द्रदेव थे (उनकी प्रशंसा)। जिस समय आचार्य-परमेष्ठि-अन्वयके तिलकस्वरूप बुधचन्द्र-पण्डितदेव विराजमान थे:—

प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवके गृहस्थ-शिष्य भुजबल-गंग बर्म्मदेव थे।

इन प्रसिद्ध बर्म्मदेव, भुजबल-गंग पेर्माळि-देवने 'बसदि' बनवाई। यह वही बसदि है जिसे पूर्वमें दक्षिण और माधवने मण्डलिकी पहाड़ीपर बनवाई थी, और जिसके लिये उसके गंगवंशके राजाओंने पूजाका प्रबन्ध जारी रखा था, और जिसे बादमें उन्होंने ककवीकी बनवा दी थी,—यह

आजतककी बनी हुई तथा भविष्यमें जो मण्डलि-हजारकी पट्टदोरे-सत्तरमें बनेगी इन सभी बसदियोंमें मुख्य थी। इसका नाम पट्टद-बसदि (शाही बसदि) रक्खा था, और इसे (उक्त) भूमिदान दिया।

बर्मदेवके ४ लड़के थे—मारसिंग; उसका छोटा भाई नक्षिय-गंग; उसका छोटा भाई रक्स-गंग; उसका छोटा भाई भुजबल-गंग।

उक्त मारसिंग-देवने भार्गवलिमें (उक्त) कुछ भूमिका दान दिया। इसके अतिरिक्त, माघनन्दि सिद्धान्तदेवका^६ गृहस्थ शिष्य मारसिंह-देव (शक ९८७ विश्वावसु) और उसका छोटा भाई, प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देव-का शिष्य, नक्षियगङ्गदेव था। इन दोनोंने सिरियूरमें (उक्त) कुछ भूमिका दान दिया। (शक ९९२ सौम्य)

बर्मदेवका दानका समय—शक ९७६ विजय।

अनन्तवीर्य-सिद्धान्त-देवके गृहस्थ-शिष्य रक्स-गङ्गने (उक्त सीमा-सहित) भूमिका दान दिया। मुनिचन्द्र-सिद्धान्त-देवके गृहस्थ शिष्य भुजबल-गंगने शक १०२७ में, सर्वजितु वर्षमें, (उक्त) भूमिका दान किया। नक्षिय-गंग-पेमांडि देवका 'नक्षिय-गंग' नामका लड़का हुआ। (इसकी प्रशंसा), इसने शक वर्ष १०४३ शुभकृत् वर्षमें मण्डलिकी पट्टद-तीर्थ बसदिके लिये, २५ चैत्यालय और बनवानेके साथ-साथ, कुछ जमीनका दान दिया। इसकी पट्टमहादेवी कञ्जल-देवी थी।]

२७८

श्रवणबेलगोला—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक १०४३=११२१ ई०]

(जै० शि० सं०, प्र० भा०)

२७९

श्रवणबेलगोला—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक १०४४=११२२ ई०]

(जै० शि० सं०, प्र० भा०)

२८०

तेरदाळ—कन्नड

[शक १०४५=११२३ ई०]

[तेरदाळ दक्षिण महाराष्ट्रके सांगली जिलेका एक बड़ा गाँव है। इस स्थानकी जैन 'बस्ति' में एक पाषाण पीठ (stone tablet) है जिसपर ३ विभिन्न भागोंमें विभक्त एक अभिलेख है। यह लेख उसका प्रथम भाग है, यह इस समूचे लेखकी ५६ वीं पंक्तिपर जाकर समाप्त होता है।]

[IA, XIV, P. 14-26 (Lines 1-56)]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

श्रीमन्नमसुरासुरोरगलसन्माणिक्यमौळिप्रभा-

स्तोमालंकृतपादपद्मयुगलं कैवल्यकान्तामनः-

प्रेमं सन्मति-नेमिनाथ-जिननाथं तेरिदाळातिशय-

श्रीमत् (६) भव्यजनके माळ्कनुदिनं दीर्घार्थयुमं श्रीयुमम् ॥

क्षितिभृत्त्राणप्रभावोत्कारकरिमकरोद्यत्प्रयुक्ताब्धिवेला-

वृतजम्बूद्वीपमध्येद्भवकनकनगकीक्षिसल् दक्षिणाशा-

क्षिति कम्पोष्पिप्पुदेत्तं भरतविषयमा देशदोळ् कुन्तळोद्यत्-

क्षिति तोळ्के चेल्विनिं तद्वरणियोळेसेगुं कूण्डिनामोद्घदेशम् ॥

तद्विषयमध्येदेशदोळ् ॥

निरुपमगन्धशाळिवनदिं बनदिं कोळदिं तटाकदिं गिरिवन-तोय-
दुर्ग-कुळ दिन्दगळिं बुध-माधवार्क-शंकर-जिन-सम्भदिं विपणि-मार्गदिनो-
पुव तेरिदाळ पन्नरडर चेल्वनेय ॥

१ यहाँपर यह लेख सुस्पष्ट और सरलतासे पढ़नेके लिये पंक्तिवार न देकर नियमानुसार पठनीय साधारण शैलीसे दिया जाता है ।

पोगळ्कजनुं नेरयं धरित्रियोळ् ॥ तज्जनपदविलासवनितावदन-
 कमळके विशाळनयनकमळमेने सोगयिसि ॥ उपमातीतमेनल्कगळ्द-
 गळ कोटाचक्रदिं कूडे-कूप- पयोजाकर-कीर-भृङ्ग-वन-नाना-देव-भूदेव-वैद-
 यपवित्रास्पद- कोटियिं सुजनरिं श्री-तेरिदाळाभिधानपुरं तीवि करं स्थिरं
 प्रतिदिनं तोक्कुं जगच्चक्रदोळ् ॥ दुर्व्वारातीभ-पञ्चानन-निभ-सुभटानीकदिं
 विश्वविद्यागर्व्वोन्मत्त प्रसिद्धागमकुशळबुधव्रातदिन्दाश्रितर्गिन्द्रोर्व्वीजातो-
 पमानोन्नतचतुरजनश्रेणियिं तीवि तत्पनिव्वर्गावुण्डरिं कण्णोसेवुदसदळं
 भाविसल् तेरिदाळम् ॥ (श्लोक) भूविनुतचतुरस्समयमनावग मेसेवारु
 दर्शनङ्गळुंमं कैगावगद पनिव्वर्गावुण्डुगळिहुं रक्षिपर-त्तत्-पुरमं ॥ धन-
 दन नेवनेन्दु कोरचाडुव काडुव तम्म काञ्चन-निचयङ्गळिं मणिगणंगळ
 राशिगळिं नवीन-मण्डन-बहुवस्त्रदिं पयगळिं बहुधान्यदिनोपि तोर्प-
 नच्चिन परदक्कळिं भरितवागि करं सोगयिक्कु तत्पुरम् ॥ अन्तु सन्तमुं
 बसन्तमुमेने तीवि सन्ततं सकळधरित्रिगळकारमागे सोगयिसुव तेरि-
 दाळ पनेरडर मन्नेय वल्लमर्गे वल्लभराद कुन्तळ-महीतळ-चक्रवर्त्तिगळन्व-
 यावतारमेन्तेन्दडे ॥ वृ ॥

वनज-क्षमाधर-पद्म-सद्मजनजं प्रोज्झूत-हारीत-नं-
 दन-माण्डव्यनिनाद पञ्चशिखनिं बन्दा चळुक्यान्वया-
 वनिपम्मुं पलरागे मत्तहितरं गेल्लुर्व्वियं ताब्द तै-
 लनदोन्दन्वय मेरुवान्त निळयं श्रीरायकोळाहळम् ॥

वृ ॥ मत्तमा वंशदोळ् जयसिंहवल्लभनेम्ब सिंहपराक्रमनादम् ॥
 आतन तनयं दुष्टमहीतळ पतिगळननेकरं गेल्लुखिळोर्व्वी-
 तळमं तळेदं विख्यातं त्रैलोक्यमल्लनाहवमल्लम् ॥

- व ॥ अन्तु समस्तधात्रीवल्लभेगे वल्लभनादाहवमल्लदेवन
 प्रियतनूजन् ॥ घन-दोर-विवक्रान्तदिं गूर्जरनृपबळमं
 गेल्दु मारान्त चोळावनिपङ्गाभीळकाळानळमनोसेदु
 सड्भ्रामदोळ् तोरि भीतावनि पर्गातङ्कमं पुट्टिसदनुनय-
 दिं विश्वभूचक्रमं सज्जनवागल्लु रायकोळाहळनेने
 तळेदं राय पेर्माडिरायम् ॥
- व ॥ अन्तु कुन्तळमहीतळकान्ताकान्तनेनिसिद वीर-पेर्माडि-
 रायन कड्दिदलगेनिसिद तेरिदाळद वीर-गोङ्क-क्षितीश्वर-
 नन्वयदोळेनेबराणुं सले निज-जननिगं जनकर्गें पूर्वपुण्य-
 वेम्ब कळपावनिजके फलवुदयिसुवंते पुट्टि ॥ कलिंगं
 बेत्तिद वीरवान्तहितरं गेल्दुर्कु विद्विष्टमण्डलमं चक्रिगे
 साधिसित्तळवदेक च्छत्रवागल्लुके निर्म्मळकीर्त्थङ्गनेगार्त्तु
 कूर्त्तु कुडुंतुं श्रीतेरिदाळावनीतळनाथं नेगळदं नृपाळतिळकं
 लोके महीलोकदोळ् ॥
- वृ ॥ आतन नन्दनं च(व)ळदोळा रघुनन्दननेक-वाक्य-विख्या-
 तियोळर्कनन्दनननिन्दितशौर्यदोळिन्द्रनन्दनं नीतियोळब्ज-
 नन्दननेनिष्प महत्त्वमनप्पुकेय्दनुर्वीतळदोळ् बुधर्पोंगळ-
 ल्तिन्तेरगुर्विवरम् निरन्तरम् ॥
- व ॥ तन्नृपोत्तमप्रियपुत्रन् ॥
- वृ ॥ बल्लिदरागि पोगदिदिरान्तरिमन्नेयरन्नेयर्कळं बल्लहनो-
 ल्लु नोडे रणरङ्गदोळोडिसि तेरिदाळदोळ् वल्लभनागि निन्द
 जयवल्लभनं सितकीर्तिकामिनीवल्लभनेन्दु बणिणसदनावनो
 मन्नेय मल्लिदेवननु ॥ क ॥

आ वीर-मल्लिदेव-महीवल्लभनर्धनारि गुणमणिगणदि भू-वधुगेणेयेने
बाचलदेवि महीन्द्रजेगे सीतेगोरे दोरेयल्ले ॥ त्रि (वृ) ॥

अवरिवर्गनुरागदि सिरिगवा कञ्जोदरंगं मनोभवनद्विप्रियपुत्रिगं
 शशिधरंगं षष्मुखं बन्दु पुट्टुववोल् पुट्टि विरोधि-मन्नेयघरई **तेरिदाळ-**
 क्षितीश-विळासं परिरञ्जिपं भुवनदोळ् निशंकेयि गोङ्कर्मन् ॥

त्रि (वृ) ॥ कन्तु-विळास-लक्षिमयेनिपग्गद **बाचळदेवि** माते
 विक्रान्त-विभासि-मल्ल-महीपं जनकं मुनि **माघणन्दि** सैद्धान्तिकचक्रवर्त्ति
 गुरु नेमिजिनं मनदिष्ट-देख्वोरंतेने तेरिदाळद नृपाग्रणि गोङ्कनिदें कृता-
 र्थनो ॥ अडसुव कुत्तवोत्तरिप मृत्यु कडंगुव मारि कोय्विनि तोडर्व
 विरोधि पाय्व पुलि पोय्व सिडिल् पिडिवुप्र पन्नगं सुडुव दवाग्निवाघे
 कडेगंचुवुदेन्ददे तेरिदाळदी कडुगलि गोङ्क-भूपतिय भव्यते केवळवे
 निरीक्षिसल् ॥ पसिद सिताहि सोङ्कित्तोडे संकिसि मन्नद तंत्रदासेयिन्द-
 सुवरेयागि विट्टिरदे पञ्च-पदङ्गळनोदि तद्विषप्रसरमनेय्दे पिङ्गिसि जिन-
 व्रतदोळु दृढनाद तन्न पेम्पेसेदिरे **तेरिदाळ**दरसं नेगळदं कलि **गोङ्क-**
 भूभुजन् ॥ येत्तिसि **तेरिदाळ**दोळगोप्पे जिनेश्वरसन्नमं समन्तेत्तिसिदं
 जयध्वजमनुर्विगे दिग्-मुख-दन्ति-दन्तदोळ् तेत्तिसिदं निजाङ्क-महिमा-
 क्षरमाळिकेयं गडुन्दडेनुत्तमभव्यनो जिनमताग्रणि सद्गुणि **गोङ्क-**
 भूभुजन् ॥ सततं कीर्त्तिसदिर्पपरारुभुवनदोळ् भव्यर्जगत्सेव्यनं

जित-काळ्येय-कळङ्क-पङ्क-पटह-ध्वान्ताङ्कनं **गोङ्कनम्**
 प्रतिपक्ष-क्षितिनाथ-हृत्-सरसिजोधातङ्कनं **गोङ्कनम्**
 क्षितियोळ् रञ्जिप **तेरिदाळ**देसवी निशंकनं **गोङ्कनम्** ॥

१ 'म' अक्षर छन्दपूर्तिके लिये है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है ।
 २ यह दूसरा 'प' गलत है ।

अन्तेनिसिद गोळ्महीकान्त श्री-माघणन्दि-सिद्धान्तिकरं
 भ्रान्तेन्तो कोळ्गिरदिं [दं] तरिसि समस्त-भव्यरभिवर्णिपिनम् ॥
 तदाचार्यप्रभाववेन्तेन्दडे ॥ धरे दुग्धाब्धियिनब्धि चन्द्रनिनिमं
 तेजोग्नियिन्देन्त [म]न्तिरली पोस्तक-गच्छ-देसिग-गणं
 श्री-कोण्डकुन्दान्वयम्

निरुतं श्री-कुळचन्द्रदेव-यतिपोद्यच्छिष्यरिं सद्गुणा-
 कर-राद्धान्तिक-माघणन्दि-मुनियिं कण्णोपुगुं धात्रियोळ् ॥

क ॥ अगणित-गुण-जळधिगळेने नगधैर्य्यर्माघणन्दि-सैद्धान्तिकराव-
 म्मेसेवर्स्सन्-मतिरिं जगदोळ् सामन्त-निम्बदेवन गुरुगळ् ॥

वृ ॥ सन्ततवन्य-चिन्तेगळनोक्कु जिनास्यविनिर्गतागमात्थान्तरचिन्ते-
 योळ् नेरेदु निल्लदे सिद्धर सद्गुणंगळं चिन्तिसुतिर्ष कोळ्गिरदग्गद सन्मुनि
 माघणन्दि-सैद्धान्तिक-चक्रवर्त्ति जित-मन्मथ-चक्रियेनिष्पनुर्व्वियोळ् ॥

वृ ॥ अन्तरिसिर्द जैन-समयक्कोगेदं जिननीगळोर्व्वनेम्बन्ते जिनव्रतङ्ग-
 लनशेषजनक्कुपदेशमित्तु सामन्तनेनिष्प निम्बनेरगळ् नेगळ्दोप्पुव माघ-
 णन्दि-सैद्धान्तिक-चक्रवर्त्ति जिन-धर्म-सुधाब्धि-सुधांशुवागने ॥ अवर-
 प्रशिष्यरु ॥

क ॥ वादि-विषोरग-ताक्ष्य-कव्वादि-महा-गहन-दावदहनव्व्य (व्व्य)
 लवद्-वादीभसिहरेसेदर्मदिनीयोळ् कनकणंदिपण्डित-देवर ॥ तत्पर-
 वादीभ-पञ्चाननर स-धर्मर ॥ श्रुतकीर्त्ति-त्रैविद्य-त्र (त्र)तिपर्षट्-तर्क-
 कर्कशर

पर-वादि-प्रतिभा-प्रदीप-प्रवन जिंतदोषर नगळ्दरखिळ्भुवनान्तर-
 दोळ् ॥ तत्परवादि-शिखरि-शिखर-निर्भेदनोच्चण्डपवि-दण्डर सधर्मर ॥

वृ ॥ जित-कुसुमायुधाखरननिन्दितजैनमतप्रसिद्धसाधितहितशाखरं
विदळितोन्मद-मान-विमोह-लोभ-भूभृत्-कुलिशाखरं पदपिनि पोगळ्ळुं
धरे चंद्रकीर्त्ति-पण्डितरनतर्क्य-तार्किक-चतुर्मुखरं परवादिशूळरन् ॥
तत्परवादिमस्तकशूळर सधम्मर ॥

वृ ॥ धृति भूभृत्पतियं गमीरवमृताम्भोरपूशियं साले सन्मति वाच-
स्पतियं पळंचलेविनम्मेव्वेत्त सन्मार्ग-सन्ततियिन्दं नेगळ्ळिर्द देशिग-गणा-
धीश-प्रभाचन्द्रपण्डितदेवो ज्वळकीर्त्तिमूर्त्ति वडेदादं वत्तिकुं धात्रियोळ् ॥
तन्मुनीश्वरर सधम्मर ॥

परवादिप्रकर-प्रताप-महिभृत्-प्राप्रोप्र-वज्रगुणा-
भरणर श्रीवसुधैकबान्धवजिनेन्द्राधीश्वरोत्तुङ्गमं-
दिरदाचार्य्य नगेन्द्र-रुंद्र-निभ-धैर्य्यर्वर्द्धमान-त्रती-
श्वररन्ती धरेयोळ् नेगळ्ते-वडेदं त्रैविद्य-विद्याधरर ॥

यिन्तु नेगळ्तेगं पोगळ्तेगमधीश्वरराद वर्धमान-त्रैविद्यदेवरज-
गुरुगळ्पप श्री-माघणन्दि-सैद्धान्तिक-देवरदिव्यश्रीपादपद्मगळ्म ॥

खस्ति समस्तभुवनाश्रयं श्रीपृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वरं
परमभट्टारकं सत्याश्रयकुळतिळकं चालुक्याभरणं श्रीमद्-विक्रम-चक्रवर्त्ति-
त्रिभुवनमल्लदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कता-
रम्बरम् कल्याणपुरद नेलेवीडिनोळ् सुख-संकथा-विनोददिं राज्यं गेय्युत्त-
मिरे तत्पादपद्मोवजीवि ॥ खस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द-महामण्डले-
श्वरं लत्तनूरपुरवराधीश्वरं त्रिवलि-परेघोषणं रङ्कुलभूषणं सुवर्ण-गरुड-
ध्वजं सिन्धूर-लाज्ज्जनं विवेक-विरिञ्चनं गण्डमण्डलिक-गण्डस्थळ-प्रहारि
देसकारर-देव मूरु-रायरा-स्थान कलि-त्रिरुद्र-गण्ड नुडिदन्ते-गण्ड साह-
सोत्तुंग सेननसिंह नामादिसमस्तप्रशस्तिसहितं श्रीमन्महामण्डलेश्वरं

कार्तवीर्य-देवरसुख सुख-संकथा-विनोददि राज्य गेव्युत्तमिरल् तदात्रे-
 यिम् ॥ स्वस्ति समस्तप्रशस्तिसहितं श्रीमम्मण्डलिकं परबळसाधकं जीमू-
 तवाह्नान्त्रयप्रसूतं शौर्य-रघुजातं समर-जयोत्यु(त्तु)ङ्गं रणरङ्गसिङ्गं
 मयूर-पिच्छ-चञ्चद्-ध्वजं रूप-मकरध्वजं पद्मावतीदेवीलब्धवरप्रसाई
 जिनधर्म-केलि-विनोदं भावनं-ककार मण्डलिक-केदार नामादिसमस्तप्रश-
 स्तिसहितं श्रीमत् गोङ्क-देवरसु निज-राजधानियप्प तेरिदाळद मध्य-
 प्रदेशदोळ गोङ्क-जिनालयमं निर्म्मिसि श्री-नेमि-जिननाथ-प्रतिष्ठेयं राष्ट्रकूटा-
 न्वय-शिरः-शिखामणि कार्तवीर्य-महामण्डलेश्वरं मुख्यवागि सद्भक्तियि
 शुभदिनमुद्दत्तदोळ माडि तजिनमुनि-प्रधानरप्प देसिग-गण-पोस्तक-
 गच्छद श्रीकोण्डकुन्दाचार्यान्रयद. कोल्लापुरद श्री-रूपनारायणन बसदि-
 याचार्य्यं मण्डलाचार्य्यरु मेनिप्प श्रीमाघणन्दि-सैद्धान्तिक-देवरं बरिसि
 शक-वर्ष १०४५ नेय शुभकृत-संवत्सरद वैशाखद पुण्णमि बृहस्पति-
 वारदळ गोङ्क-जिनालयके पन्निर्व्वर्गावुण्डुगळुमं समस्तपरीवार-
 प्रजेगळुमं आ स्थळद सेट्टि-गुत्त-मुख्य-समस्त-नकरङ्गळुमं
 बरिसि नेमि-तीर्थेश्वरन बसदिय ऋषियराहारदानकं देवरष्टविधाच्चनेगं
 खण्डस्फुटितजीर्णोद्धारकं पेसद्-गोण्डु तन्मुनीश्वर दिव्य-श्री-पाद-पद्म-
 गळं दिव्य-तीर्थ-जळङ्गळि तोळेदु शातकुम्भ-कुम्भ-संभृत-जळङ्गळि धारा-
 पूर्व्वकं माडि तेरिदाळद पश्चिम-भागदोळ हारुनगेरिय बट्टेयि बडगळ्
 यिप्पत्तनाल्गेण-कोळल् कोट्ट मत्तरेप्पत्तेरडु देवियण-बावियि तेङ्कळा
 कोळल् कोट्ट तोण्ट मत्तरोन्दु अन्तु मत्तर् ७२ तोण्ट मत्तर् १ अल्लिय
 पन्निर्व्वर्गावुण्डुगळुमरुवत्तोक्कळुं हन्नि-धान्यक रासिगेळगे वं बिट्टर्
 अल्लिय सेट्टिगुत्त-मुख्य-नगरङ्गळ् तावु मार-कोण्ड मण्ड माणिक-
 पट्ट-सूत्रवादडं होगे वीस लाभायद अडके होगे हन्नोन्दु तावु तेगेद

येकेय हेरिगं अग(?)द (?)न्तरु वत्तिगरु तेगेद हेरिगं नूरेलेविन्ति-
 जितुवं विट्टर तेळिगरु मान्य-सान्यवेनदे देवर संजे-सोडरिगं धूपारितेगं
 गाणके सोळगे होरगणि बन्द एण्णेय कोडके सोळगे यिन्तव विट्टर
 गण-कुम्भाररु देवर अष्टविधार्धने आहारदान नडवन्तागि दानशालेगे
 आवगेगळन विट्टर हलसिगे-हनिच्छासिरदु हेव्वडेयल् नडेव गात्रिगरु
 देवरिगे अष्टविधार्धने नडवन्तागि हेरिगे नुरु वोळ्ळेलेय विट्टर ॥

[IA, XIV, p. 14-26 (lines 1-56), t & tr.]

२८१-८२-८३

श्रवणबेलगोला—संस्कृत तथा कन्नड

[शक १०४५=११२३ ई०]

(जै० शि० सं० प्र० भा०)

२८४

होसहोळलु—संस्कृत और कन्नड

[बिना कालनिर्देशका, पर संभवतः लगभग ११२५ ई० का]

[होसहोळलु (कृष्णराजपेट परगना)में, पार्श्वनाथ बस्तिके दक्षिणकी ओरके पाषाणपर]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

भद्रमस्तु जिनशासनाय । स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द-महामण्ड-
 लेखर-द्वारावतीपुरवराधीश्वर-यादवकुलाम्बरद्युमणिसम्यक्त्वचूडामणि मले-
 परोळु गण्डाधनेकनामालङ्कृत.....त्रिभुवनमल्ल तळकाडुगोण्ड
 मुजबळ वीरगङ्ग होटसळ-देव पृथिवि-यराज्य उत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रकर्ष-
 मानमाचन्द्रार्कतारम्बरं सल्लुत्तमिरे गङ्गवाडि-तोम्भकर्ह-सासिरमनेक-
 ष्ट्रच्छायदि पृथ्वी-राज्यं गेयुत्तिरलु तत्पादपद्मोपजीवि । स्वस्ति समस्त-

मुवनकिष्मात पञ्चस(श)तवीरशासनलब्धानेकरुणगणालकृत सप्त-
सौ(शौ)चाचा [र] चारुचारित्र वीर-बळजघर्म-प्रतिपालन विष्णु(शु)भ-
गुड-ध्वज-विराजिताम्बर साहसोत्तुङ्ग चलदङ्कराम साहसमीमं दीनानाथ-
धुधजन-कल्पवृक्षनुमप चउण्डादि-द्वितीय-नामधेय-दोरसमुद्रपट्टण-खामि
पोटपळ-सेट्टियराद नो [ळ] वि-सेट्टि श्री-शुभचन्द्र-सिद्धान्त-
देवर गुडन् आप्रभुविन मनो-नयन-वल्लमे जिन-गन्धोदक-पवित्री-
कृतोत्तमाङ्गेयुं आहाराभय-भैषज्य-शास्त्र-दान-विनोदेयरुमप देमिकब्बे-
सेट्टियु मेदिनीदेवर ।

वृत्त ॥ मरु निरतमरेंगे वदन-तेजमनोत्ति.....।

स्तरमनु.....।

.....।

.....नोळवि-सेट्टिय ॥

कन्द ॥.....देमाग्बिकेय । उत्तमनेने सकळ-जनम् ।

.....न ॥

आप्त-चउण्डादि-नामधेय.....देमिकब्बेयुं त्रिकुटजिनालयमं
माडिसि श्रीमूलसङ्घद देसिग-गणद पोस्तक-गच्छद श्रीकोण्डकुन्दान्वयद
श्री-कुकुटासन-मलधारिदेवर शिष्यरुप तम्न गुरुगळु श्री-शुभचन्द्र-
सिद्धान्तदेवर्गे कोट्ट बसदिगे अर्हनहक्लियुमं बसदिय बडगळु तेङ्गळुं
नट्ट कळु मेरैयागि मूळ केरें-वरं परिदे केरियुमं मरे नडुवण-दान-साल्य
मनेयुमं एरडु-गाणसुं एरडु तोष्टसुं...बेडु-नायक[न] मग गण्ड-
नारायण-सेट्टि कत्तरि घट्टद भूमियोळगे कणिय-समीपद कडवद कोळद
केरे एरडुमं आ-केरेंय-मूडण-कोडिधिं परिद पळ्ळदिं तेङ्गळु-पडुवलाद
गई बेडुलेयुमं विट्टनन्तिनितुम *...शुभचन्द्र-सिद्धान्त-देवर्गे धारा-

पूर्वकां माडि सर्व्वेनमस्यवागि नोळबि-सेट्टियरु कोट्टि.....श्री-मूलसंघद
पुस्तक-गच्छदवर्गेल्लरु साम्यमिल्ल इन्त् ई-धम्म्व (हमेशाकी तरह अन्तिम
बाव्यावली और श्लोक)

[जिनशासनकी प्रशंसा । जिस समय वीरगङ्ग-होयसल-देव इस पृथ्वीपर
राज्य कर रहे थे उस समय उनके पादपद्मोपजीवी, शुभचन्द्र-सिद्धान्त-
देवके गृहस्थ शिष्य नोळबि-सेट्टि नामके पोयसल-सेट्टि थे । देमिकब्बे
सेट्टिने त्रिकूट-जिनालय बनवाकर इसके खर्चेके लिये दानमें अर्हणहल्लि गाँव
दिया; इसीके साथ एक उत्तम तालाब, जिसके बीचमें दानशाला थी
ऐसी एक गली या सड़क, दो तेरुकी चक्रियाँ और दो बगीचे भी दिये ।
यह जिनालय उन्होंने मूलसंघ, देसिग-गण, पोस्तकगच्छ और कोण्ड-
कुन्दान्वय कुक्कुटासन मलधारिदेवके शिष्य और अपने गुरु शुभचन्द्रसिद्धान्त
देवको समर्पित कर दिया । बेट्ट नायकके पुत्र गण्ड-नारायण-सेट्टिने निर्दिष्ट
दूसरी जमीन दी । यह सब दान नोळबि-सेट्टिने शुभचन्द्र-सिद्धान्तदेव के
स्वाधीन कर दिया । और मूलसंघके पोस्तक-गच्छका जो कुछ था, उस सभीको
चुंगी और करसे मुक्त कर दिया ।]

[EC, IV, Krishnarajapet tl., n° 3]

२८५

श्रवणबेलोला—संस्कृत तथा कन्नड

[शक १०४५=११२३ ई०]

(जै० शि० सं०, प्र० भा०)

२८६

हिरे-आवलि—कन्नड

[विक्रमचालुक्यका ४९ वाँ वर्ष ?=११२४ ई०]

[हिरे-आवलिमें, रामलिङ्ग मन्दिरके सामने पड़े हुए पत्थरपर]

स्वस्ति श्रीमतु विक्रम-वर्षद ४ [] नेय साधा [रण]-सं-
वत्सरद माघ-शुद्ध ५ वृ०-वारदन्दु श्रीमन्मूल-संघद सेन-गणद

पोगरि-गच्छद चन्द्रप्रभ-सिद्धान्त-देव-शिष्यरूप माधवसेनभट्टा-
रक-देवरु

मनदिं जिनन पदङ्गळोळ् ।

अनुनयदिं निरिसि पञ्च-पदमं नेनेयुत्त् ।

अनुपम-समाधि-विधियिम् ।

मुनि माघ.....पडेदम् ॥

[स्वस्ति । (उक्त मिलिको), मूल-संघ, सेन-गण और पोगरिगच्छके चन्द्रप्रभ-सिद्धान्त-देवके शिष्य माधवसेन-भट्टारक-देव जिन-चरणोंका मनन करके, पञ्च-परमेष्ठिका स्मरण करके, समाधि-मरण धारण करके स्वर्गको गये ।]

[EC, VIII, Sorab tl., n° 127]

२८७

चह्ल(ल्य)—कन्नड़

[शक १०४७=११२५ ई०]

(जै० शि० सं०, प्र० भा०)

२८८

साबनूर—कन्नड़

[वर्षे लवङ्ग ११२८ ई० (ल. राइस) ।]

[साबनूरमें, मारि-कट्टेके दक्षिणमें पडे हुए एक पाषाणपर]

भद्रं भूयाज्जिनेन्द्राणां शासनायाधनाशिने ।

कु-तीर्थ-ध्वान्त-संघात-प्रभिन्न-घन-भानवे ॥

श्रीमत-परम-गम्भीर-स्याद्वादादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-मुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वल्लभ-महाराजाधिराज-परमेश्वर-
परमभट्टारक सत्याश्रय-कुळ-तिळक चालुक्याभरण श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल-
पेर्माडि-देवर विजय-राज्यमुत्तरोत्तराभिष्टुद्धि-प्रवर्द्धमानमा-चन्द्रार्क-ता-
रम्बरं सल्लुत्तमिरे तत्पादपद्मोपजीवि ॥

वृत्त ॥ वनधि-व्याप्तावनी-चक्रदोळति-सुभटं विक्रमायत्त-चित्तम् ।
मुनिसिं माराम्पनावं त्रिपुर-विजयिगं शूद्रकङ्गं सुपण्णी- ।
तनयङ्गं फल्गुणङ्गं दशरथ-तनुजङ्गं सहस्रार्जुनङ्गम् ।
दनुजप्रध्वंसिगं कौरव-नृप-रिपुगं पाण्ड्य-भूपालकङ्गम् ॥
भरदिन्दङ्ग-कलिङ्ग-वङ्ग-मगधं नेपाळ-पाञ्चाळ-गुर- ।
ज्जर-गौळ-द्रविळान्ध्र-माळव-तुरुष्का.....सौराष्ट्र-बर्- ।
ब्बर-काश्मीर.....मरोत्- ।
करमं वेङ्गोलुवं भयङ्क.....णं पाण्ड्य-भूपालकम् ॥

स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं काञ्ची-पुर-वरा-
वीश्वरं यदुवंशाम्बर-शुमणि सु-भट-चूडामणि निज-कुळ-कमळ-मार्त्तण्डं
परिच्छेदि-गण्डं राजिग-चोळ-मनो-भङ्गं श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल-देव-पादाब्ज-
शृङ्गं नामादि-प्रशस्ति-सहितं.....भुवन.....दक्षिण-भुजा-दण्डने-
निसि ॥

वृत्त ॥ सततं धर्मिये धर्मजं.....ळा- ।
न्वितने हुं कमळोद्भवं पर-हित-व्यापार.....भू-तळ- ।
स्तुत-विद्याधर.....सत्य-सङ्- ।
गतने भास्कर-सूनु विक्र.....नं श्री-सूर्य-दण्डाधिपम् ॥
प्रमु-मन्त्रोत्साह-शक्ति-त्रय-गुण-भरितं मान-सन्मान-दान- ।
.....नाराधकं नित्य-लक्ष्मी- ।

प्रसु-शौचाचार-सारं.....बळ-विळसत्-पाण्ड्य..... ।

.....सूर्य-दण्डाधिनाथम् ॥

.....अनवरत-विनुत-सुर-नर.....घटित-पद-कमल-युगल श्रीमदीश्वर-
पादाराधक विरोधि-निकुरुम्ब.....गण्ड पाण्ड्य-मण्डलिकसभा-
 मण्डन प्रचण्ड-दण्डनाथ.....विराजमान सतत-सं.....नाभिमान.....
मञ्जोत्साह-शक्ति-त्रय-गुण-गण.....त नियोगयौगन्धर निखिल-धर्म-
 धारण.....पाळ-मस्तक-खण्डन-प्रचण्ड-दोर-दण्ड पाण्ड्य-मण्डलिक-
 दक्षिण.....र्गर्व-पर्वतारूढनि ऊढ-प्रौढ-नितम्बिनी-निकुरुम्ब-
 दिव्य.....श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल परिच्छेदि-गण्ड पाण्ड्य-मण्डलिक.....
 शरणागतवज्र-पञ्जर । मृदु-मधुर.....दार-हित.....सतत.....
 दण्डनाथ-कुळ-कमळिनी-विकासन-सहस्रकिरण । वन्दि-जन-भरण.....
तन्नि सूर्य-दण्डाधिनाथम् ॥

कं ॥ आळापदिन्दे पाण्ड्य-वृ- ।

पाळङ्गेरगद विरोधि-वृप..... ।

.....सि पद-नतरं प्रति- ।

पाळिसिद सु-भट.....दण्डाधीशम् ॥

.....जिन-स्तवन.....सम्पू.....पवित्रोत्तमाङ्ग.....दरदि मुक्त
यिनुरुतर-वज्र.....करतळ-रुचियिन्दोप्युत.....नर्थदि भास्वर-कान्ता-
 रत्नमे..... ॥

कं ॥ मण्डळिय.....दडे.....केषेयेळु.....डगलेनरे

..... ॥

वृ ॥ दोरे मरु देवी.....ताम् ।

सरि नुत-लक्षिम तत्-सदृशमा-प्रियकारिणि देवियेन्दोडी-

धरेय.....काळियकनोळ् ।
 वर-गुण-वार्द्धियोळ् मुनि-जन-प्रिय दान-विनोद-चित्तेयोळ् ॥
 पडेदर्थं कळ्ळरिं दायिगरिमळिपरिं भूपरिं किञ्चिनिन्दम् ।
 किडुगं तानन्तदेम् शाश्वतमेनि.....शाश्वतं मर्षेनेन्दा- ।
 गडे पूर्ण्ड पूर्ण-चन्द्रानने जिनपूति-सद्-गोहमं **सेम्बनूरोळ् ।**
 कडु-रय्यं तानेनल् माडिसिदळधिक-सद्-भक्तिरिं **काळियकम् ॥**

खस्ति समस्तवस्तुविस्तार-गोचर.....जगान-जिनेश्वर-चरण-सर-
 सिरुहमधुकरोपमान-कुटिल-कुन्तळ-कळापे मृदु-मिधुर-सतत-सत्य-वचना-
 लापे । शृङ्गार विरचित.....जन्मभूत.....मान-सूर्य्य-दण्डाधिनाय-
 विशाल-वक्षसु-स्थळस्थित-लक्ष्मी.....ने सम्मान-दाने तार-हार-हर-
 हासा.....शशि-विशद-कीर्त्तिविराजित-प्रवर्द्धमान-गुणवति पद्मावती-देवी-
 लब्ध-वर-प्रसादे जिन-पूजा-विनोदे धवल-विशाळ-कुमुद-नेत्रे गोत्र-पवित्रे
 निःशंकादि-गुण-मणि-गण-विराजिते सम्यक्त्व-रत्नाकरे पञ्चाणुव्रत-गुणाकरे
 सकळ-विनेय-जन-चिन्तामणि वनिता-निकर-चूडामणि नामादि-प्रशस्ति-
 सहितेयप्प श्री-**सूर्य्य-दण्डनायकन** पिरिय-दण्डनायकित्ति काळियकम् ॥

वृ ॥ जिन-धर्मं प्राणि.....र्मं तनगदु कुल-धर्मं जिन-स्वामि देव्वम् ।
 जनकं मिक्काय्तवर्मं जननि तनगे जक्कव्वे भव्यर्कळेन्दुम् ।
 तनगास्रं तन्न त.....गुणि कळि-देवं लसत्- शौर्य्य-धैर्य्यं ।
 तनगीशं **सूर्य्य-दण्डाधिपनेने** तळेदळ् कीर्त्तियं काळियकम् ॥

सूर्य्य-चमूपन तम्मम् ।

धैर्य्य-महा-मेरु वैरि-जन-लय.....वत्-।

चौर्य्यं स्वामि-प्रिय-कर-।

कार्य्यं **दण्डाधिनाथनादित्याख्यम् ॥**

खस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-सामन्ताधिपति महाप्रचण्ड-
दण्डनायक चालुक्य-विक्रमादित्य-देव-सभानर्घ्य-वस्तुनायक प्रभु-
मन्त्रोत्साह-शक्ति-गुण-मणि-गणालङ्कृत-शरीर । भय-लोभ.....त्रिशुवन-
मह्य-पैर्माडि-देवदक्षिण-भुजा-दण्ड रिपु-काळ-दण्ड । प्रसिद्ध-सेनवर-
दण्डनाथ-प्रिय-पुत्र चारु-चरित्र । सतत-धार्मिक-धर्मनन्दन । स्वामि-
प्रिय-मरुन्नन्दन । हर-चरण-कमल****सळ-सततानत-मधुकर । सकळ-
गुणाकर । समप्र-वैरि-कुळ-कुधर-कुळिश-दण्ड । समर-प्रचण्ड । दुर्द्धर-
दुर्विनीत-दण्डनाथ-वंश-वन-कुठार । सङ्ग्राम-धीर****आयदा-चार्य्य
मन्दर-धैर्य्य आन्त्री-नीरन्ध्र-कुच-कळश-दर्पण वन्दि-सन्तर्पण कुन्तळी-
कुन्तळ-सुवर्ण-कुसुमाभरण अनिन्दिताचरण पुरुषार्थ-स्वार्थीकृत-जीमूत-
वाहन मान-विळसद्दन सतत-दान-सन्तर्पित-दीनानाथ-यूथ नामादि-
प्रशस्ति-सहितं श्रीमदादित्य-दण्डाधिनाथम् ॥

प्रभु-मन्त्रोत्साह-शक्ति-त्रय-गुण-गणदोळ् सन्ततैश्वर्य्यदोळ् सू-
क्त-भवोद्यद्-भक्तियोळ् सद-विनय-नय-सदाचारदोळ् चित्तभूसन्-
निभ-भद्राकारदोळ् तद्-वितरण-गुणदोळ् धार्मिक-स्वान्तदोळ् सत्-
प्रभवर्षेळिन्नरारेम्बिनमेसेदपनादित्य-दण्डाधिनाथम् ॥

श्रीमद्-द्रविळ-संघेऽस्मिन् नन्दि-संघेऽस्त्यरुङ्गळः ।

अन्वयो भाति योऽशेष-शास्त्र-वारासि-पारगैः ॥

अवदु-त्तटमटति झटिति स्फुट-पटु-वाचाट-धूर्जटेरपि जिह्वा ।

वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूप कास्थान्येषाम् ॥

इत्तेनिसिद समन्तभद्रस्वामिगळ सन्तानदोळ् ॥

एकत्र गुणिनस्सर्व्वे वादिराज त्वमेकतः ।

तस्यैव गौरवं तस्य तुळायामुन्नतिः कथम् ॥

अवर शिष्यरु ॥

इन्दोश्च कान्तमति-विस्तृतमम्बराच्च
भूमेश्च भूरि जळधेश्च गभीरमास्ते ।
मेरोश्च तुङ्गमजितेश यशस्तवोर्व्याम्
मत्तेभ-विम्बमिव मानव-तारकेऽद्य ॥

इन्तेनिसिदजितसेन-भट्टारकरप्र-शिष्यरु ॥

घन-बद्ध-क्रोध-धात्रीधर-कुळ-कुळिशं मान-माद्यद्-गजास्फा-
लन-भद्रेभारि माया-गहन-दहन-दावानळ संस्फुरल्लो- ।
भ-नितान्त-ध्वान्त-विध्वंसन-खर-किरणं श्राव्य-काव्य-प्रियं भ-
व्य-निकायाम्भोधि-संबर्द्धन-हिमकरणं मल्लिषेण-व्रतीन्द्रम् ॥

एने नेगळ्द मल्लिषेण-मलधारि-देवर शिष्यरु ॥

आळापं बेड नैय्यायिक निज-मतमं नच्चदिस् स्सांख्य माण् वा- ।
चाळत्वं सल्ल मीमांसक तोडरदेले बौद्ध पो पोगु वादि- ।
व्याळेभोत्तुंग-कुम्भ-स्थळ विदळन-कण्ठीरवं बन्दपं श्री- ।

पाळ-त्रैविद्य-देवं जिन-समय-सुधाम्भोधि-सम्पूर्णचन्द्रम् ॥

खस्ति श्रीमच्छालुक्य-विक्रम-कालद् ५३ य कीलक-संवत्सर-
दुत्तरायण-संक्रमणदन्दु श्रीमत्-सेम्बनूर स्तानाचार्य्य शान्तिशयन-
पण्डितर कय्यल्लु श्रीमत्-पिरिय-दण्डनायकिति काळिकल्वेगल्लु धारा-
पूर्वकं माडिसि कोण्डु पार्श्व-देवर कूटकं देवर बि...पूजारिय बियकं
हलकदद केळगे विट्ट गदे कम्म ४५० आ-केरेय हडुवण-कोडियोळगे
बेळदले मत्त १ इन्ती-धर्ममना रोर्वरल्लिय स्थानाचार्य्यरुं देवगुत्तरुं...
निर्व्वरुं बेस-वक्कळुं तप्पदे प्रतिपाल्लिसुवरु मत्तं स्थानि...केरेय केळगण

गर्हेयुं अदर वळसि वेदलेयुम्.....सं प्रतिपा (शेष पदे जानेके योग्य नहीं है) ।

[EC, XI, Davangere tl., n° 90]

[जिनशासनकी प्रशंसा । स्वस्ति । जब, (उन्हीं चालुक्य उपाधियों सहित), त्रिभुवनमल्ल-पेर्माळि-देवका विजयी राज्य प्रवर्द्धमान था तब तत्पादपभोपबीवी राजा पाण्ड्य था । पृथ्वीपर उसका सामना करनेवाला कोई भी न था । उसने शिव (त्रिपुर), शूद्रक, गरुड, अर्जुन (फाल्गुन), राम, सहस्रार्जुन, कृष्ण, भीम, इन सबको जीता था ।

उसका दण्डाधिप सूर्य यादव-वंशका सूर्य और राजिग-चोळके प्रयत्नोंका विफल करनेवाला था । उसकी पत्नी कालियके थी । जो धन चोरों, सगे-सम्बन्धियों, लोभियों, राजाओं, या अग्निसे नष्ट किया जा सकता है, उसकी प्राप्तिमें क्या स्थिरता है, इसलिपु उसने उसकी स्थिरताके लिये सेम्बनूरमें जिनपतिका एक उत्तम मन्दिर बनवाया । उसकी प्रशंसा । कालियकेके पिता आसुरर्मा, माँ जङ्गवे,कलि-देव थे ।

सूर्य-चमूपाका छोटा भाई आदित्य-दण्डाधिनाथ था । उसकी प्रशंसा । त्रिविण-संघके नन्दि-संघमें अरुणलान्यय चमकता है । उसमें समन्तभद्र, वादिराज, उनके शिष्य अजितेश (अजितसेन-भट्टारक) उनके ज्येष्ठ शिष्य मल्लिषेण-मल्लधारी, उनके शिष्य श्रीपाल-त्रैविद्य-देव हुए । प्रत्येकका एक-एक श्लोकमें गुणवर्णन ।

(उक्त मितिको), सेम्बनूरके मन्दिर-पुरोहित शान्तीशयन-पण्डितके हाथोंमें, ज्येष्ठ दण्डनायकिति कालियकवेने जलधारापूर्वक पार्श्वदेव और उनकी पूजा तथा पुजारीकी आजीविकाके लिये (उक्त) भूमिदान किया । कल्याणकामना और श्राप]

२८९-९०

श्रवणबेदगोला—संस्कृत तथा कन्नड

[शक १०५०=११२९ ई० (फील्डर्न)]

(जै० शि० सं०, प्र० भा०)

२९१

ऊर्द्धि—कण्ड

[विक्रम वर्ष कीलक ११२९ ई० (ल. राइस) ।]

[ऊर्द्धिमें चौथे पाषाणपर]

स्वस्ति श्रीमद्-विक्रम वर्षद कीलक संवत्सरद माग (घ)-शुद्ध
 १३ श्रीमन्महामण्डलेश्वरं एकलरस-देवरुद्रेयोळ् सुख-संकथा-विनो-
 ददिं राज्यं गेय्युत्तिरे ॥

परम-जिनेश्वरं तनगधीश्वरनुद्धलसच्चरित्रं....।

गुरु हरिण[न्दि]देव-मुनिपोत्तमनग्गद दण्डनायकम् ।

वर-गुणि-बोप्पणं जनकनुज्जत-शीलद नागियक्क मा-।

तरेयेनलेम् कृतात्थनो धरित्रिगे सिंगण-दण्डनायकम् ॥

गुणद कणि जैन-चूडा-।

मणि वैरि-वलक्के समर-मुखदोळ् सुभटा-।

प्रणि जिन-पदङ्गळं सिद्ध-।

गण-दण्डाधिपति नेनेदु सद्-गति-वेत्तम् ॥

[स्वस्ति । (उक्त मितिको), जिस समय महा-मण्डलेश्वर एकलरस-देव, शान्ति और बुद्धिमत्तासे राज्य करते हुए उद्धरेमें विराजमान थे उस समय सिंगण दण्डनायक था । वह बड़ा भाग्यशाली था, क्योंकि उसके परम-जिनेश्वर अधीश्वर (इष्ट देव) थे, हरिनन्दि-देव-मुनि उसके गुरु, महान् दण्डनायक बोप्पण उसके पिता, और नागियक्क उसकी माता थी । यह दण्डनायक अपने समयका जैन-चूडामणि था, समरमें सामना करनेवाले सुभटोंमें अग्रणी था,—जिनपदोंका ध्यान करते हुए उसको सद्गति मिली थी ।]

२९२

हनुशीकट्टि (जिला नेलगॉव)—कन्नड़

[शक १०५२=११३० ई० (डीट)]

- [१] स्वस्ति श्रीमद्-भूलोकमल्लदेवर वर्ष ६ नेय सावा
(धारण संव-
- [२] त्सरद फाल्गुन शु ५ आदिवारदन्दु श्रीमन्महामं-
- [३] डलेश्वरं मारसिंहदेवरसरु अप्रहारं कोडन-पूर्व-
- [४] दवल्लिय माणिक्यदेवर बसदिय सम्बन्धियेकसा-
- [५] लेय-पार्श्वनाथदेवर विविधपूजाविधानके विट्ट
- [६] गदेय सीमेय गुड्डे [||] मङ्गलश्री [||]

[मंगल हो । रविवार, साधारण 'संवत्सर' जो कि श्रीमान् भूलोकमल्ल-
देवका छठा साल था, फाल्गुन शुक्ला पञ्चमीको,—महामण्डलेश्वर मार-
सिंहदेवरसने कोडनपूर्वदवल्लि (गॉव) के माणिक्यदेव (देवता) की
बसदि (मन्दिर) के एकसालेय-पार्श्वनाथदेव (भगवन्त) की अनेकविध
रीतियोंकी पूर्तिके लिखे धान्य (चावल) के बहुतसे क्षेत्र दिये ।]

[इ० ए०, १०, पृ० १३१-१३२, नं० ९८]

२९३

हन्तूरु—संस्कृत तथा कन्नड़

[शक १०५२=११३० ई०]

[हन्तूरु (गोणी वीडु परगना) में, ध्वस्त जैन-बस्तिके पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

१ भूलोकमल्लका दूसरा नाम सोमेश्वर तृतीय भी है । यह राजा पश्चिमी
चालुक्य वंशका है ।

जयति सकळविद्यादेवतारत्नपीठम्
हृदयमनुपलेपं यस्य दीर्घं स देवः ।
जयति तदनु शास्त्रं तस्य यत् सब्व-मिथ्या- ।
समय-तिमिर-घाति ज्योतिरेकं नराणाम् ॥

स्वस्ति समधिगत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं द्वारावतीपुर-
वराधीश्वरं यदु-कुळ-कळश-कळित-नृप-धर्म-हर्म्यमूळ-स्तम्भन् । अप्र-
तिहत-प्रताप-विदित-विजयारम्भ । शशकपुर-निवास-वासन्तिका-देवी-
लब्ध-वर-प्रसाद । श्रीमन्मुकुन्द-पादारविन्द-वन्दन-विनोद-नित्यादि-नामा-
वळीसमन्वितरूप श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल तळकाडु-गोण्ड भुजबळ वीर-गङ्ग-
विष्णुवर्द्धन-होयसळ-देवरु मूडळ नंगलियघट तेङ्गळ कोङ्गु चेरमनमले
हडुवलु बारकनूर घट बडगळ साविमलेयिनोळगाद भूमियं भुज-बळाव-
ष्टम्भदिं परिपाळिसुतुं दौरसमुद्रद नेलेवीडिनोळु सुख-संकथा-विनोददिं
राज्यं गेथ्युत्तमिरे ।

वृत्तं ॥ प्रकटाटोपद चक्रगोडुदोडेयं सोमेश्वरं वल्के त- ।

न्न कराळासिय कूर्पनेम्मेरदनो गौडान्धकार-प्रचरण्- ।

डकरं माळव-मेव-जाळ-पवनं चोळोप्रकाळानळम् ।

त्रि-कळिङ्ग-त्रिपुर-त्रिणेत्रनदटं श्री-विष्णु-भूपालकम् ॥

इन्तेनिसि नेगर्द श्री-विष्णुवर्द्धन-अग्र-तनूज निज-वंशाम्बर-व्यमणि ।
वन्दि-जन-चिन्तामणि । सत्य-शौचाचार-सम्पन्न । बुध-जन-मनःप्रस-
न्नन् । आळिम्मुनिरिव सौर्यमं मेरेव । श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल कुमार-
बल्लाळ-देवननवरत-मनोरथावासियि राज्यं गेथ्युत्तमिरे ।

क ॥ कळके बयलुगेक्क तुळक्क । एळ्योळ् माराम्परिल्लदा-दिगधि-परम् ।

शेळट्टु नेलक्किक्कळ कौ- । वळिपुट्टु रिपु-नृप-कुमार-भैरवन मन ॥

आवङ्गमाव-धनमुम- । नीव महा-दानि युद्ध-विजयमना-मा- ।
देवङ्गमीयददटर । देवं बह्माल-देवनप्रतिम-बल ॥

अन्तेनिसि नेगर्द श्रीमत्कुमार-बह्माल-देवनप्रानुजे हरियब्बरसिये-
न्तप्पळ्ळन्दडे सरस्वतियेन्ते सत्-कळान्विते । सीतेयन्ते विनीते । सुसीमा-
देवियन्ते सुशीले रुग्मणियन्ते गुणाप्रणि । अनल्प-कल्प-शाखानीकद-
न्तनून-दान-जनित-जन-मनःपुळ्ळकेयुं । भगवदहत्-परमेश्वर-चरण-नख-म-
यूख-लेखा-विळसित-ललाट-पळ्ळकेयुम् । चातुर्वर्णा-वर्णिणतागण्य-पुण्य-
जन-शिखा-मणियुम् । सम्यक्त्व-चूडामणियुमेनिसि ।

वृत्त ॥ धरेयोळनन्त-दिव्य-यति-सन्ततिगन्नमनाद-भीतियिम् ।

बरे पलरञ्जलेम्बभय-वाक्यमनातुररागि बेर्णवर्गम् ।

इरदे शरीर-रक्षणमनोदल्लु शास्त्रमनीव पेम्पिनिम् ।

हरियवे ताळ्ळिददळ् पर-हितोक्त-चतुर्विध-दान-शक्तियम् ॥

पर-बळ-दानव-संहा- । रारुण जळ-लिप्त-खर्गनुन्नततेजम् ।

वर-विबुध-विभव-विभवं । हरि- कान्ता- कान्तनेसदपं विभुसिंग ॥

हरि-कान्तेयुमी-कान्तेय । दोरेगे वरळ् कोरळेम्ब निम्मदद गुणोत्-

करमनोळ्कोण्डु हरियबे । पर-हितदिं धरेयोळ्ळैदे जसमं तळेदळ् ॥

अन्तेनिसि नेगर्द श्रीमतु-हरियल-देवियर गुरुगळेन्तप्परेन्दडे
श्रीमूलसंघद कोण्डकुन्दान्वयद देसिग-गणद पुस्तक-गच्छद श्री माध-
गान्दि-सिद्धान्त-देवर शिष्यरु ।

वृ ॥ मोहान्धकार-रिपु-शाक्य-नवोत्पळारिश् ।

चार्वाक-चन्द्र-किरण-प्रतिनाश-हेतुस् ।

सद्-भव्य-वारिज-महोत्सव-तेज-राजिर ।

उज्जृम्भितो जगति गण्डविमुक्त-भानुः ॥

अन्तु जगद्विख्यातरप्प श्रीमत्-गण्डविमुक्त-सिद्धान्त-देवर गुड्डि हरियब्बरसियरु कोडङ्गि-नाड मलेवडिय हन्तियूरलेनेक-रत्त-खचित-रुचिर-मणि-कळश-कळित-कूट-कोटि-घटितमप्प उत्तुंगचैव्यालयमं माडिसि खण्ड-स्फुटित-जीर्णोद्धरणक्क निलय-पूजेगं ऋषियरजियक्कळाहार-दानक्कं सित-परिहारक्कं श्रीमत्-त्रिभुवनमल्ल-होय्सळ-देवर कय्यळु सव्वे-वाषा-परिहारवागि गुत्तिय चिण्णन दीवर बम्मनन्तिव्वरय्दु हणविन मण्णुमं विडिसिकोण्डु शक-वर्षद १०५२ नेय सौम्य-संवत्सर दुत्तरायणसंक्रान्तियन्दु तम्म गुरुगळप्प गण्डविमुक्त-सिद्धान्त-देवर कालं कर्षिं धारा-पूर्वक्कं माडि कोट्टरु ॥ (हमेशाके अन्तित्तम श्लोक)

श्रीमन्-मल्लिनाथं विरुद-लेखक-मदन-म्महेश्वरं वरेदम् । नागरादि-नागरिक-द्रविळ-समुद्धरणप्प माणिमोजन मगं विरुदरूवारि-वेश्या-भुजङ्ग बलकोजं कण्डरिसिदं मङ्गलम् ॥

[जिनशासनकी प्रशंसा । (अपने पदों सहित) विष्णुवर्द्धन-होय्सळ-देव अपने निवासस्थान दोरसमुद्रमें विराजमान थे । राजा विष्णुने चक्रगोष्टके स्वामी सोमेश्वरको अपनी तलवारकी धारसे डराया । वह गौड, मालव, चोळ, त्रिपुट, त्रि-कलिंग सबके लिये भयावह था । जब विष्णुवर्द्धनका ज्येष्ठ पुत्र श्रीमत् त्रिभुवनमल्ल कुमार बल्लालदेव राज्य कर रहा था:- (उसकी शूरवीरता और औदार्यकी प्रशंसा करते हुए उसकी स्तुति) । कुमार-बल्लाल-देवकी बहिर्नोंमें सबसे बड़ी हरियब्बरसि थी । उसका वर्णन:- (जैन रूपमें उसकी भक्तिका प्रदर्शन, उसकी प्रशंसा) । उसका पति सिंग था; (उसकी प्रशंसा) ।

उस हरियब्बर-देवीके गुरु श्री-मूलसंघ, कुन्दकुन्दान्वय, देसिग-गण तथा पुस्तक-गच्छके माघनन्दि-सिद्धान्तदेवके शिष्य गण्डविमुक्त-सिद्धान्तदेव थे; (उनकी प्रशंसा)

जगद्विख्यात गण्डविमुक्त-सिद्धान्त-देवकी गृहस्थ-शिष्या हरियब्बरसिने, कोडङ्गि-नाडके मलेवडिके हन्तियूरमें, गोपुरों या शिखरोंसे—जिनमें रत्नोंसे

अद्वित चोटियाँ थीं—समन्वित एक विशाल चैत्यालय, तथा मन्दिरकी मरम्मत करने, पूजाका प्रबन्ध करने, ऋषि और वृद्ध स्त्रियोंको आहारदाग देने, तथा शीतसे रक्षा करनेके लिये—त्रिभुवनमल्ल होटल-देवके हाथोंसे तमाम बुझियों व करोंसे मुक्त भूमि गुप्तिके सिद्ध और बम्म मल्लुपसे ५ हणके किरायेसे लेकर (उक्त मितिको), अपने गुरु गण्डविमुक्त-सिद्धान्त-देवके पैरोंका प्रक्षालन करके उन्हें दी। (हमेशाके अन्तिम श्लोक)

मल्लिनाथने इसे लिखा और माणिसोजके पुत्र बलकोजने उत्कीर्ण किया।]

[EC, VI, Mudgere tl., n° 22]

२९४

कम्बदहल्लि—कन्नड़-भग्न

[बिना काल-निर्देशका, पर सम्भवतः लगभग ११३० ई०]

[कम्बदहल्लिमें, जैन बस्तिके सामनेके पाषाणपर]

स्वस्ति यम-नियम-स्वाध्याय-ध्यान-धारण-मौनानुष्ठान-जप-समाधि-
शील-गुण-सम्पन्नरूप श्री-मूलसंघद कोण्डकुन्दान्वयद देशिय-
गणद पुस्तक-गच्छद श्री-प्रभाचन्द्रसैद्धान्तिकर शिष्यितियरूप्य....
.....कय रुकमव्वे जकवे कन्तियग्गे तव.....निसिधिय माडिसि
.....स्वर्गस्वर.....

[(सर्वसाधुगुणसम्पन्न) प्रभाचन्द्र-सैद्धान्तिककी शिष्याएँ रुकमव्वे
और जकव्वे-कान्तियर्की स्मृतिमेंस्वारक बनवाया ।]

[EC, IV, Nagamangala tl., n° 21]

२९५

तगदुरा—कन्नड़

[बिना कालनिर्देशका]

(जै० शि० सं०, प्र० भा०)

२२६

श्रवणबेलगोला—कच्छ

[बिना कालनिर्देशका]

(जै० शि० सं०, प्र० भा०)

२९७

आबल्लाडी—कच्छ-भक्ष

[शक सं० १०५३ (?)-११३१ ई०]

[आबल्लाडी (कोप्प तालुका) में, सीमाकी दीवालके पास]

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

खस्ति समधिगतपञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुर-वरा-
 धीश्वरं दसकाष्ठनिवास वासन्तिका-देवि-लब्ध-वर-प्रसाद दशदिशं
 तिलक किं.....कुन्दपादा.....तमन्द म.....करन्द नन्द.....रपा-
 ल्माथि.....क्यं अरि-भीमज रिपु.....ञ्जर.....ळु गण्डं विश्व-विद्या-
 विचार.....दला.....मदि समस्त.....गवाडि
 नोणम्बवाडि गोण्ड.....वीरगङ्गा.....वित्र.....यिसळ विष्णुवर्द्धन
दुष्टनिग्रहशिष्ट-प्र.....सु.....दोळे.....के जवर.....
विष्णु.....तारम्बरदोळु.....रण.....ळु मल्लिनाथ ॥ आतन
 समस्तभुवनख्याति.....गोत्र.....ळर सूत्र.....
 मारसमन्वित.....निरु.....गोत्र.....चूडा..... ॥ तत्पा.....
परम-ज.....धर्म.....भीमं ॥रङ्ग.....माचिकेय
 धर्म.....य बं.....पाद.....
न्द्र-जन.....नरुळ.....गरगं ॥यना.....जात
गेने पुण्य.....ळिगळु श्री तरव.....प्रातरुं सि.....साधराणि तत्

स...म...श्री मूलसंघ देशिक-गणद पुस्तक-गच्छद सि...द्राप्त-
चक्रवर्ति दर्भर्षण...तार-देवर सधर्मरष्य श्री...द्र-सिद्धान्त-देवर शि-
ष्यरु ॥ रामं...जदि-पुर-गत धूत-कषायर् अतुल-रत्नत्रय-स...
तदोळु श्रीमन्मयकीर्ति-भानुकीर्ति-मुनीन्द्र ॥ सतिय...कषोक्ष-बा
...हतिय् अदनोन्दु हृदयदळिप् सिगळ...लेम्बुदे नयकीर्ति-त्रतिना-
थनोळ् अतनु...दावानळनोळु ॥ विनुत...रुडकादान्वित विमल-
वियत्-तिग्म-रुग्-मण्डलं ब्रज...मेनित् अनित् आतलरु...नकरं
प्रस्फुरदर्प...डप्पन कोट्यज् ज...प्रहरणन् उपमानित-पुण्य...चा
...णिक...ति पतिने विश्वविद्यानिदानम् ॥ अरित-त्रातमुमतिशान्ततेयुं
...र-करनुव त्रात-किरणनुमूर्जि...दोळेसेवन्तिरेसगुं श्रुत-सरसिज-
भानु-भा...कीर्ति-त्रतियोलु ॥ आ-मुनि-मुख्यस्य यम...ड तन स
गरुगळे...रेया...हियाद...ळ गुण-शीळ-त्रत-निधि मल्लिनाथनोळु
मनुज...सि पोगर्ते नेगर्ते...पेर्गडे मल्लिनाथ...सदियं माडिसि
शक्र-वर्ष १...३ नेय साधारण-संवत्सरद फाल्गुण बहुळ ३
सोमवारदन्दु...कीर्तिभट्टार कालं कर्चि...पूजेगं खण्ड-स्फुटित-जी-
र्णोद्धारकं देवर केरैय केळगण...यलु हजेरडु सल्लिगे गदेयुं बसदि
...मह...रणज...ल्लघट्टमुं बिडिसिद नाम-
हरन प...क्षदोळु तदनुजम् ॥ बसं...वाग्-वि...
...णु-भूपर्ने वसु-मयनिरुतमा-
केयन् अहरयनं...लिया...श सिम...दिन पेम्पु
...सि श्री-पुल्लिन बसदि...गनिद त्रहि...गन् उद्व...
...सत्-सर...तरसु...समस्त-गुण...
...श्री चल्लुन विमळ...सबाद्धि-

व.....चक्रवर्तिगळ् एनिसि.....
हा.....सर्व्व.....हेगळ्.....पूजेयगळ्
तिरें यदा रा.....
सादी.....देन्दु.....द माचण

[जब कि (अपनी विशाल पदविधियोंके साथ) विष्णुवर्द्धन इस जगत्-
 पर राज्य कर रहे थे:—मूलसंघ, देशियगण और पुस्तकगच्छके.....द्व-
 सिद्धान्तदेवके शिष्य मुनि नयकीर्त्ति और भानुकीर्त्तिके भक्त वेगर्गडे महि-
 नाथने जैन-बसदिका निर्माण किया और इसे धनसे पुष्ट किया ।]

[EC, III, Mandya tl., n° 50.]

२९८

श्रवणबेलगोला—संस्कृत तथा कन्नड

[शक १०५३=११३१ ई०]

(जै० शि० सं०, प्र० भा०)

२९९

पुरले—संस्कृत तथा कन्नड

[शक १०५४, वर्षं नन्दन=११३२ (ठीक १११२) ई०]

[पुरले (बिदरे परगना)में, गाँवके दक्षिण-पश्चिम वीर-सोमेश्वर
 मन्दिरके सामने पड़े हुए एक पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादाभोधलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनम् ॥

स्वस्ति समस्त-भुवनाश्रयं श्री-पृथ्वी-त्रल्लभं महाराजाधिराज परमेश्वर
 परम-भेदारकं सत्याश्रय-कुळ-तिलकं चालुक्याभरणं श्री-त्रिभुवन-
 महोदयैव विजय-राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कतारम्बरं सलु-
 त्तमिरे ।

एनगेन्दा-विक्रमांकं गड निगळमनिक्किट्टनो बोगे कीना- ।
 शानबोळेस्तन्दु कार्थिय किल्लदे तलेयना-वीरनेम् माण्बने-गोय्- ।
 वेनेनुत्तं मीतियं-पट्टदने कनसु-गण्डुम्मळं-गोण्डु चोबम् ।
 ननसेन्देच्चट्टिरुत्...तन्नेय तलेयनति-आन्तनन्दिन्दु नोळ्कुम् ॥

तत्पादपद्मोपजीवि ॥ श्रीमदेरेयङ्ग-होय्सळनळियं हेम्माडियरसन
 कीर्त्ति-विशारदमेन्तेन्दे ।

इवनिन्दं कण्डेनेळुं-कडल कडेयनेळुं-कुमृत्-कूटमं दिग्- ।
 धव-दन्ति-त्रातमं लोकद पवणनेनुत्तुं यशो-लक्षिमं... ।
तं तन्नोन्दरिविनळवु तन्नार्पु तन्नेळ्ळो तन्न... ।
 ...विळासं तन्न पेम्पट्टळगमेनिसिदं हेर्म मान्धात-भूपम् ॥
 स्वस्ति श्री-जन्म-नोहं निभृत-निरुपमौर्वानळोद्दाम-तेजम् ।
 विस्तारोपात्त-भू-मण्डलममळ-यशश्चन्द्र-सम्भूति-धामम् ।
 वस्तु-त्रातोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्त्वावलम्बं गभीरम् ।
 प्रस्तुत्यं नित्यमम्भोनिधि-निभमेसेगुं होय्सळोर्वीश-वंशम् ॥
 अदरोळ् कौस्तुभदोन्दनर्ध-गुणमं देवेभदुद्दाम-स- ।
 त्वदगुर्व्वं हिमरश्मियुज्ज्वळ-कळा-सम्पत्तियं पारिजा- ।
 तद्दुदारत्वद पेम्पनोर्व्वने नितान्तं ताळ्दि तानल्ले पुट्- ।
 टिदनुद्वेजित-वीर-वैरि विनयादित्यावनीपालकम् ॥
 मदवद्भूप-बळान्धकार-हरणं तेजोधिकं सन्तता- ।
 म्युदयं संहृत-विद्विषत्-कुवळय-(यं) श्रीकं सुहृच्चक्र-सं- ।
 मद-सम्पादन-हेतु सत्पयगतं पद्मोद्भवोद्भावकम् ।
 विदितार्थानुग-नामनल्ले विनयादित्यावनीपालकम् ॥
 विनयादित्य-नृपं सज्जनर्गं दुर्जनार्गमात्म-विनयं तेजम् ।

जनियिसे नयमं भयमं । विनूतनाळदोम् विशाल-भूमण्डलमम् ।
 आ-विनयादित्यन वधु । भावोद्भव-मन्न-देवता-सन्निभे सद्- ।
 भाव-गुण-भवनमखिल-क- । ला-विळसिते केळयबरसियेम्बळ् पसरिं ।
 आ-दम्पतिगे तनूभव- । नादोम् सचिगं सुराधिपतिगं मुजेन्त् ।
 आदं जयन्तनन्ते वि- । षाद-विदूराक्षरंगनेरेयङ्ग-नृपम् ॥

वृ ॥ आतं चालुक्य-भूपालकन बलद-भुज-दण्डमुहण्ड-भूप- ।
 ब्रात-प्रोत्तुंग-भूमृद-विदळन-कुळिशं वन्दि-सश्यौघ-मेघम् ।
 श्वेताम्भोजात-देव-द्विरदन-शरदभ्रेन्दु-कुन्दावदात- ।
 धोत-प्रोद्यशश्री-धवळित-भुवनं धीरनेकाङ्ग-वीरम् ॥
 मालव-सेनेयं तुळ्ळिदु धारेयनोवदे सुदु तूळ्ळिद तच्- ।
 चोळननीब्दु तत्-कटकमं कडुपिन्नेरे सूरे-गोण्ड दोश- ।
 शाळि कलिङ्गनं मुरिदु भङ्गिसिदात्म-भुज-प्रतापमम् ।
 केळे दिशाधिपिं नेगळ्दनी-तेरदिन् [द्] एरेयङ्ग भूभुजम् ॥
 एरेयनखिळोर्व्विगेनिसिर्दे- । रेयङ्ग-नृपाळकनङ्गने चेळ्ळिक्- ।
 एरेवङ्ग शील-गुणदिं । नेरेढेचल-देवियन्तु नोन्तरुमोळरे ॥
 एने नेगळ्दवरिर्व्वर्गं तनूभवन्नेगळ्दरल्ले बळ्ळाळं वि- ।

ष्णु-नृपाळकनुदयादि- । त्यनेम्ब पसरिन्दमखिळ-वसुधा-तळदोळ् ॥

वृ ॥ अवरोल् मध्यमनागिधुं धरणिंयं पूर्वापराम्भोधियेयू- ।
 दुविनं कूडे निमिर्चुवोन्दु-निज-ब्राहा-विक्रम-क्रीडेयुद्- ।
 भवदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-ब्रातैक-धामं धरा- ।
 धव-चूडामणि यादवाब्ज-दिनपं श्री-विष्णु-भूपाळकम् ॥
 एळेगेसेव कौयतूद् तत्- । अळवनपुरमन्ते रायरायपुरं बळ- ।
 पळ बलद विष्णु-तेजो- । ज्वळनदे बेन्दुबु बलिष्ट-रिपु-दुर्गङ्गम् ॥

कमलाक्षं पुरुषोत्तमं.... काङ्गलादनं द्विष्ट-दै- ।
 ल्य-मद-ध्वंसननन्त-भोग-युतनुर्वी-भार-धौरेयनुत्- ।
 तम-सत्त्वान्वितनुद्घ-यादच-कुळाळंकारनेन्दिन्तु वि- ।
 ष्णु-महीशं सले ताने विष्णुवेनियं लक्ष्मी-वधू-वल्लभम् ॥
 क ॥ लक्ष्मी-देवि-खगाधिप- । लक्ष्माङ्गसेदिई विष्णुग् यन्तन्ते वलम् ।
 लक्ष्मा-देवि लसन्मृग- । लक्ष्मानने विष्णुगप्र-सतियेने नेगर्दळ् ॥
 अवर्गे मनोजनन्ते सुदती-जन-चित्तमनिष्कोळ्के साल्व- ।
 अवयव-शोमेयिन्दतनुवैम्बभिधानमनानदङ्गना- ।
 निवहमन्.....वीरनेच्चि युद्धदोळ् ।
 तविसुवनादनात्मभवनप्रतिमं नरसिंह-भूभुजम् ॥
 रिपु-सर्पद-दर्प-दावानळ-बहळ-शिखा-जाळ-काळाम्बुवाहम् ।
 रिपु-भूपोद्दीप्र-दीप-प्रकर-पट्ट [तर]-स्फार-ज(झ)ञ्जा-समीरम् ।
 रिपु-नागानीक-ताक्षर्यं रिपु-नृप-नळिनी-षण्ड-वेतण्ड-रूपम् ।
 रिपु-भूभृद्-भूरि-वज्रं रिपु-नृप-मद-मातंग-सिंहं नृसिंहम् ॥
 खस्ति श्री-यदु-वंश-मण्डन-मणिः क्षोणीश-चूडामणिस् ।
 तेजःपुञ्ज-विनिर्जिताम्बर-मणिस्सद्वन्ध-चूडामणिः ।
 यस्योद्यत्-सु-यशस्सुपर्व-सरिता लोकत्रयं शोभते ।
 जीयात् पाद-युगानमन्-नृप-कुळश्री-नारसिंहो नृपः ॥
 श्री-मूलसंघ-विख्याते मेषपाषाण-गच्छके ।
 क्राणूरु-गण-जिनावासो निर्मितं हेम्मभूभृतः ॥

खस्ति समधिगत-पञ्च-महाशब्द महा-मण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवरा-
 धीश्वरं.....दावानळ पाण्ड्य-कुळ-कमळ-वन-वेदण्ड गण्ड-भेरुण्ड
 मण्डलिक-बेण्टेकार परमण्डल-सूरेकार संग्राम-भीम कलि-काल-काम

सकल-वन्दि-वृन्द सन्तर्पण-समर्थ-वितरण-विनोद वासन्तिका-देवि-
लब्ध-वर-प्रसाद मृगमदामोद यादव-कुलाम्बर-शुमणि मण्डलिक-मकुट-
चूडामणि कदन-प्रचण्ड मलेपरोळ् गण्ड नामादि-समस्त-प्रशस्ति-सहितं
श्रीमत् त्रिभुवन-मल्ल तळेकाडु-कोङ्कु-नङ्गळि-गङ्गवाडि-नोळम्बवाडि-
बनवसे-हानुङ्गळ-हुलिगेरे-चेळवलं-गोण्ड. भुज-बळ वीर-गङ्ग प्रताप-
होयसळ-नारसिंहदेवरु सकळ-मही-मण्डळमं दुष्ट-निग्रह-शिष्ट-प्रतिपाळ-
नदि सुख-संकथा-विनोददि दोरसमुद्र नळेवीडिनोळु राज्यं गेय्युत्त-
मिरे । तत्पादपञ्चोपजीवि ।

तद्राज्ये बुध-कोटि-सम्पदवन-प्राज्ये प्रधानाप्रणीद् ॥

उन्मीळत्-सुकृताम्बुराशि...सम्पत्ति-चन्द्रोदयः; ।

श्रीमत्-तिप्पण-भूपतिस्समुदगादुद्धान-धारा-जलैर् ।

द्वात्री सम्प्रतिपद्यते प्रतिदिनं...मा...सस्याश्रया ॥

तस्य श्लाघ्य-गुणोदयस्य धरणी-बन्धोनुजातस्त्वयम् ।

श्रीमन्नाग-चमूपति.....यत्त यः ।

यत्तेजः-प्रकारैरजायत परं पद्मानुराग-प्रदैर्- ।

दृष्यद्-वैरि-तमो-घटा-विघटनैर्देवोऽप्र...ग्रामणीः ॥

श्रीमन्नामल-देवि भाति भवतीत्येवं बुधैर्य्या स्तुता ।

तद्वंशे गुण-संगमे नर-मणि.....णिः ।

सा जाता भुवनाभिराम-विभवैर्हार्वाण्य-पुण्योदयैर् ।

देवि (सम्प्रति) यन्मुखपङ्कजे विजयते वाणी जगत्पावनी ॥

गङ्गधात्रियोळवनी- । मंगळमेनिसिर्द...आ-स्त्री-रत्नम् ।

तुङ्ग-जन..... ।आगिरे कोट्टळ् ॥

वचन ॥ (य्) इक्षुवाक-(क्वाकु)वंशावतारमदेन्तेन्दडे ।

सले वृषभ-तीर्थ-कालं सु-ललितमेने सकळ-भव्य-चित्तानन्द ।

कलिकालनिर्जितं श्री- । ललना-लावण्य-वर्द्धन-क्रमदिन्दम् ॥
सोमेयिसुव-काळदोळ् की- । सिंगे मूल-स्तम्भयेनिषयोष्या-पुर-दोळ् ।
जगदधिनाथं पुष्टिद- । नगण्यनिष्वाङ्कु-वंश-चूडारत्नम् ॥
धरेगे हरिश्चन्द्र-नृपे- । श्वर नोर्व्वने कान्तनागि दोर्व्वळदिन्दम् ।
बिरुदरनदिर्षि विद्या- । परिणतियि नेरेदु सुखदिनिरे पल-कालम् ॥
वृ ॥ आतन पुत्रनिन्दु-दर-हासनिभोज्ज्वळ-कीर्त्ति सद्-गुणो- ।
पेतनुदात्त-वैरि-कुळ-भेदन-कारि कला-अवीणनुद्- ।
धूत-माळं सुरेन्द्र-सदृशं भरतं कवि-राज-भूजितम् ।
ख्यातनतर्क्य-पुण्य-निलयं सु-जनाप्रणि विश्रुतान्वयम् ॥
ऋजु-शील-युक्तेयेनिसिद । विजय-महादेवि तनगे सतियेने विबुव-
व्रज-पूज्यं भरतं भा- । वज-सदृशं नेगळे सकळ-धात्री-तळदोळ् ॥
वचन ॥ आ-विजय-महादेविगे गर्भ-दोहळं नेगळे ।
वृ ॥ तरळ-तरंग-भङ्गुर-समन्वितेयं ऋ(झ)प-चक्रवाक-भा- ।
सुर-कळ-हंस-पूरितेयनुद्ध-लताङ्कित-गात्रेयं मनो- ।
हर-नव-शैत्य-मान्द्य-शुभ-गन्ध-समीर-निभास्येयं तळो- ।
दरि नेरे गङ्गयं नलिदु मीवभिताञ्छेयनेध्दे ताळिददळ् ॥
कळ-हंस-याने पलरुं । केळदियरोड वागि पूर्ण-गङ्गा-नदियम् ।
विळसितमं पोक्कु निरा- । कुळदिन्दोलाडि पाडि गाडियनान्तळ् ॥
अन्तु मनदलम्पु पोम्पुञ्जि-वोगे गङ्गा-नदियोळोळाडि निज-गृहके
वन्दु नव-मासं नेरेदु पुत्रनं पडेदातङ्गे ।
गङ्गा-नदियोळु मिन्दु ल- । ताङ्गि मगं बडेदळ्प कारणादिन्दम् ।
माङ्गल्य-नाममादुदि- । ळङ्गनेगधिपतिगे गङ्गद-चाख्यानम् ॥
व ॥ आ-गङ्गद-ताङ्गे भरतेनम्ब मगं पुष्टिदनातङ्गे गङ्गद-चनेम्बं
मगं पुष्टिदम् ।

कं ॥ गुण-निधिगे गङ्गदत्तं- । गणुगिन पुत्रं विवेक-निधि पुट्टि दया- ।

प्रणियागि हरिश्चन्द्र- । प्रणुत-नृपेन्द्रं धरित्रियोक् शोभिसिदम् ॥

मत्तमा-नृपोत्तमाङ्ग भरतनेम्ब सुतं पुट्टिदनातङ्गे गङ्गदत्तनेम्ब
मगनागिन्तु गङ्गान्वयं सल्लत्तमिरे ।

कं ॥ हरि-वंश-केतु नेमी- । श्वर-तीर्थं वर्त्तिसुत्तमिरे गङ्ग-कुळ्यं- ।

वर-भानु पुट्टिदं भान-सुर-तेजं विष्णुगुप्तनेम्ब नरेन्द्रम् ॥

व ॥ आ-धराधिनाथं साम्राज्य-पदवियं कय्कोण्डु अहिच्छत्र-पुर-
दोळु सुखमिर्दु ।

व ॥ नेमि-तीर्थंकर परम-देवर निर्वाण-कालदोळैन्द्र-ध्वजमेम्ब
पूजेयं माडे देवेन्द्रनोसेदु ।

कं ॥ अनुपमदैरावतमं । मानोनुरागदोळे विष्णुगुप्ताङ्गित्तम् ।

जिन-पूजेयिन्दे मुक्तिय- । ननर्घ्यमं पडेगुमेन्दोडुळिदुदु पिरिडे ॥

व ॥ आ-विष्णुगुप्त-महाराजङ्गं पृथ्वीमति-महादेविगं भगदत्तं
श्रीदत्तनेम्ब तनयरागे ।

व ॥ भगदत्ताङ्गे कलिङ्ग-देशमं कुडलातनुं कलिङ्ग-देशमनाळु
कलिङ्ग-गङ्गनागि सुखदिनिरे ।

(य्) इत्तलुदात्त-यशो-निधि । मत्त-द्विपमं समस्त-राज्यमुमं ।

श्रीदत्त-नृपाङ्गित्तं भू- । पोत्तमनेनिसिर्दं विष्णुगुप्त-नरेन्द्रम् ॥

अन्तु श्रीदत्तनिन्दित्तलानेयुण्डिगे सल्लत्तमिरे ।

प्रियबन्धु-वर्मनुदयिसि । नयदिन्दं सकळ-धात्रियं पालिसिदम् ।

भय-लोभ-दुर्लभं ल- । क्ष्मी-युवति-मुखाब्ज-घण्ड-मण्डित-हासम् ॥

अन्ता-प्रियबन्धु सुखदिं राज्यं गेय्युत्तमिरे तत्-समयदोळु पार्श्व-मट्टार
कर्गे केवळज्ञानोत्पत्तियागे सौधम्मैन्द्रं बन्दु केवळि-पूजेयं माडे प्रिय-

बन्धुवं तानुं भक्तियि बन्दु पूजेयं माडलातन भक्तिगिन्द्रं मेच्चि दिव्यम-
 प्यब्दुं तुडुगे-गळं कोट्टु निम्मन्वयदोळु मिथ्याद्यष्टिगळागळोडं अदृश्यङ्गळ-
 कुमेन्दु पेळ्ळु विजयपुरकृद्विळ्ळुत्रमेन्दु पेसरनिट्टु दिविजेन्द्रं पोपुदित्तळ
 गङ्गान्वयं संपूर्ण-चन्द्रनन्ते पेच्चि वृत्तिसुत्तमिरे तदन्वयदोळु कम्प-मही-
 पतिगे पद्मनाभनेम्ब मगं पुट्टि ।

कं ॥ तनगे तनुभवरिल्लदे । मनदोळ् चिन्तिसुतमिर्हु पद्मप्रभना- ।

र्षिन कणि सासन-देवते- । यने पूजिसि दिव्य-मन्त्रदिं साधिसिदं

व ॥ अन्तु साधिसि (दि) शाधित-विद्यनागि पुत्ररिर्व्वरं पडेदु

राम-लक्ष्मणरेन्दु पेसरनिट्टु ।

वृ ॥ परम-स्नेहदोळिर्व्वरं नडपि लीला-मन्त्रदिं चन्द्रनन्- ।

तिरे संपूर्ण-कळाङ्गरागि बेळ्ळेयल् विद्या-बलोद्योगमुर्-

र्व्वरेयोळ् चोधमेनल् सल्लुत्तमिरे कीर्त्ति-श्री दिशा-भागदोळ् ।

पेरेदाशा-गजमं पळञ्चलेये लक्ष्मी-भारदिन्दोष्पिदर् ॥

व ॥ अन्तु सुखदिमिर्पुदु मत्तलुजेनिय-पुराधिपति-महीपाळना-
 तुडुगेगळं बेडियट्टिपडे पद्मनाभं कृतान्तनन्ते रौद्र-वेशमं कैकोण्डु ।

क ॥ येमगदनदल्लिकागदु । तनगे तुडल् योग्यमल्लु सन्तमिरल् वेळ् ।

समर्क्के वन्दनप्पडे । निमिषदोळान्तिरिदु वीर-रसमं मेरेवेम् ॥

व ॥ अन्तु नुडिदट्टि मन्नि-वर्गं डोळाळोचिसि तन्न तङ्गेयाळ्ळ्वेयुं
 नात्वतेणबरासरप्प विप्र-सन्तानमं बेरसि कळिपिदडवईक्षिणाभिमुखरागि
 वरुत्तं राम-लक्ष्मणगे दडिग-माधवरेन्दु पेसरनिट्टु निञ्च-वयणदिं
 वरुत्तमिरे ।

क ॥ बन्दवर्गळ्चित-पदमन- । गुण्डेलेयिं कण्डरमळ-लक्ष्मी-चित्ता- ।

नन्दनमं-पेरुरं । मन्दार-नमेरु-पुष्प-गन्धाद्रियुमम् ॥

व ॥ अन्तु गङ्गा-हेरूरं कण्डल्लिय तटाक-तीरदोल्लु बीडं बिट्टू चैस्सा-
 ल्यमं कण्डु निर्भर-भक्तियिं त्रि-प्रदक्षिणं गेय्दु स्तुतियिसिं समस्त-
 विद्या-पारावार-पारगरं जिन-समय-सुधाम्मोधि-संपूर्ण-चन्द्ररुमुत्तम-
 क्षमादि-दश-कुशळ-धम्म-निरतरं चारित्र-चक्र-धरं विनेय-जनानन्दरं
 चतुस्समुद्र-मुद्रित-यशः-प्रकाशरं सकळ-सावध-दूरं क्राणूर-गणाम्बर-
 सहस्र-किरणरं द्वादश-विधतपोनुष्ठा[न]-निष्ठितरं गङ्गा-राज्य-समुद्धरणरं श्री-
 सिंहनन्दाचार्यरं कण्डु गुरु-भक्ति-पूर्वकम् बन्दिदसि तम्म बन्दभिप्राय-
 भेल्लमं तिळिय पेळे कय्कोण्डवर्गे समस्त-विद्याभिमुखम्माडि केलवानु
 दिवसदिं पद्मावती-देवियं विधि-पूर्वकमाहानं गेय्दु वरं बडेदु खळ्गमुमं
 समस्त-राज्यमनवर्गे माडे ।

क ॥ मुनि-पति नोडल्लु विट्ट- । जन-पूज्यं माधवं शिलास्तम्भमना-
 ईनुगेय्दु पोय्यल्लदु पु- । प्मेने मुरिदुदु वीर-पुरुषरेनं माडर ॥

व ॥ आ-साहसमं कण्डु ।

च ॥ मुनि-पति कर्पिणकारदेसळोळ् नेरे पट्टमनेय्दे कट्टि स- ।

जन-जन-वन्द्यरं परसि सेसेपनिक्कि समस्त-धात्रियम् ।

मनमोसेदित्तु कुञ्चमनगुर्विन केतनमागि माडि वे- ।

र्पणितु परिग्रहं गज-नुरङ्गमुमं निजमागे माडिदर ॥

व ॥ अन्तु समस्त-राज्यमं माडि बुद्धियनिवर्गिन्तेन्दु बेससिदरु ।

च ॥ नुडिदुदनारोळं नुडिदु तप्पिददं जिन-शासनक्कोडम्- ।

वडदडमन्य-नारिगेरेदट्टिदडम्मधु-मांस-सेवे गे- ।

य्दडमकुञ्जीनर्पवर कोळ्कोडेयादडमर्त्थिगर्त्थमम् ।

कुडदडमाहवङ्गणदोळोडिदडं किडुगुं कुल-क्रमम् ॥

४ ॥ उचममप्य नन्दगिरि कोटे पोळल् कुवळालमाळ्के तोम्- ।

भत्तरु-सासिरं विषयमाप्तननिन्द्य-जिनेन्द्रनाजिरं- ।

गात्त-जयं जयं जिन-मतं मतमागिरे सन्ततं निजो- ।

दात्ततेयिन्दमा-दडिग-माधव-भूभुजराब्दरुर्वियम् ॥

उत्तर-दिक्-तटावधिगे तागे मोद [क्किं] ले मूड तोण्डे-ना- ।

डत्तपराशोगम्बुनिधि चैरोडेयिर्ष्य तेङ्क कोङ्क म- ।

त्तित्तोळ्गुळ्ळ वैरिगळनिक्कि परावृत-गङ्गवाडि-त्तोम्- ।

भत्तरु-सासिरं दळेले माडिदनिन्तुदु गङ्गनुजुगम् ॥

अन्तु शत-जीवियेम्बुदा-शब्दमं केळ्दु ।

भरदिन्दं चुर्चुवाय्दं होगळे बुध-जनं वन्दु कावेरियोळ् मी- ।

करमागल् वीर-लक्ष्मी-नयन-कुमुदिनी-चन्द्रमं निन्दु नोडल् ।

परिवारं तन्न कीर्ति-ग्रमे वळ्से दिशा-आगमं चोधमागल् ।

परम-श्री-जैन-पादं नेलसे हृदयदोळ् मेरु-शैलोपमानम् ॥

क ॥ कर...अरिद गङ्गनि भय- । मिहद हरिवर्म विष्णु-
भूपनि निजदि ।

बळे तडङ्गळ्-माधव- । नळिं बळि चुर्चुवाय्द-गङ्ग-नृपाळम् ।

श्रीपुरुषं शिवमारं ।...ळं कृतान्त-भूपना-सयिगोदृम् ।

द्वीपाधिपरोळ्ळरि-नृप- । कोपानळ-शिखेयेनिष्प विजयादित्यम् ॥

....रे येरिद मारसिंगना- । कुरुळ-राजिगं पेसद्-व्वेत्ता- ॥

मरुळं तन्नृप-तिळकन । पिरिय मगं सत्य-वाक्यनचळित-शौर्ष्य

गर्वद-गङ्ग वसुधेयो- । लोर्व्वने कलि चागि शौचि गुत्तिय-गंग ।

दोर्व्विक्रमाभिरामन- । गुर्व्विन कलि राचमल्ल-भूधृ..... ॥

तेङ्क मुरिवं हसिय क- । अङ्ग पिडिदडसि कीळ्वना-मद-करियम् ।

पिङ्गदे निलिसुव साहस- । तुङ्गं केवलमे नेगळद रकस-गङ्गम् ॥
 अवयवदिन्दे साधिसिद-माळवमेळुपनेन्दे गङ्ग-मा- ।
 ळवमेनलकरं बरेदु कल् निरिसुत्ते कळल्लिच चित्रकूट- ।
 मनुरे कक्षमज्जेय-नृपानुजनं जयकेसियं महा- ।
 हवदोळे मारसिंग-नृपनिक्कि निष्किंदिनात्म-शौर्यमम् ॥
 तनयं श्री-मारसिंहङ्गनुपम-जगदुत्तुंगनादं जगत्-पा- ।
 वन-लक्ष्मी-वल्लभङ्गित्तुदयिसि नेगळदं राचमल्ल्हावनीशम् ।
 मनु-मार्गं गङ्ग-चूडामणि जय-वनिताधीश-भूवल्लभेशम् ।
 जिन-धर्म्माम्भोधि-चन्द्रं गुण-गण-निळयं राज-विद्या-धरेन्द्रम् ॥

इन्तेनिसि नेगळद गङ्ग-वंशोद्भवरा-दडिगन मगं चुर्बुवाय्द-गङ्गनातन
 सुतं दुर्षिनीतनातन तनयं श्री-...नु श्रीपुरुषमहाराजं तत्-तनयं देव
 तत्-तनूभवनेरेयङ्ग-हेम्माडि तत्पुत्रं बृत्तुग-हेम्माडि तदात्मजरु-...
 देव तदनुज गुत्तिय-गंगनातन मोम्म मारसिंग-देवनातन मगं
 कलियङ्गदेवनातन मगं बर्म्म-देवनिना-गङ्ग-वंशोद्भवरु राज्यं गेय्ये ।

दक्षिणदेशनिवासी । गङ्ग-मही-मण्डलिक-कुळ-संघरणः ।

श्री-मूल-संघ-नाथो । नाम्ना श्री-सिंहनन्दि-मुनिः ॥

श्री-मूल-संघ-वियदमृ- । तामळ-रुचि-रुचिर-...जय-ल- ।

क्ष्मी-महितं जिन-धर्म्म-ल- । लामं काणूर-गण-जना-...करम् ॥

आ-गणद अन्वयदोळ ।

मणिरिव वनराशौ माळिकेवामराद्रौ

तिळकमित्र ललाटे चन्द्रिकेवामृतांशौ ।

इव सरसि सरोजे मत्त-भृङ्गी निकामम्

समजनि जिनधर्म्मं निर्म्मळो बालचन्द्रः ॥

अवर शिष्यरु ।

विमळ-श्री-जैन-धर्माम्बर-हिमकरनुद्यत्-त...लक्ष्मी- ।
 रमणं भूमण्डलाधीश-नुतनुभय-सिद्धान्त-रत्नाकरं जं- ।
 गम-तीर्थं भव्य-वक्त्राम्बुज-खर-किरणं श्री-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-
 त-मुनीन्द्रं क्षीर-नीराकर-विशद-यशो-वेष्टिताशा-विभागं ॥
 मनमं नियमिसलरिय- । तनुवं...तोर्ष्यं मुनियुं मुनिये ।
 मनमं तनुवं नियमिस- । लनुदिनमी-नेमि-देवनोर्व्वने बह्वं ॥

अवर शिष्यरु ।

गुणियेने जिनमतरक्षा- । मणियेने कवि-गमक-त्रादि-त्राग्मि-प्रवरा-
 मणियेने पण्डित-चूडा- । मणियेने गुणनन्दि-देवरेसेदर द्वरेयोळ् ॥
 तत्सधर्मरु ।

अळ्वे पेळ् नुडियल्के निन्न विरुदं माण् माणले सांख्य वा- ।
 ग्-बळमं नच्चदे नीनडङ्गेडरदिर्चाव्वाके नैटयायिका ।
 मलेयळ् बेडिरु मन्तमेके चलदिन्दी-भण्डपं केम्मनण्- ।
 डलेयळ् श्री-गुणचन्द्र-देवनमळं वादीभ-कण्ठीरवम् ॥

तत्सधर्मरु ।

गङ्गा-वारि सु-शैवलं सुर-करी दानार्द्र-गण्ड-स्थलः ।
 शम्भुःकण्ठ-विलग्न-घोर-गरलः चन्द्रः कळङ्काङ्कितः ।
 कैलाशो वन-वल्लरी-परिवृतस्साम्यं कथं वच्यहम्
 कीर्त्या तैस्सह माघनन्दि-यमिनश्चन्द्रातपोबच्छ्रिया (म्) ।

आ-चारित्र-चक्रेश्वर-मुनि-राज-राजन शिष्यरु स्वस्ति समधिगत-पञ्च-
 महा-शब्द महा-कल्याणाष्ट-महा-प्रातिहार्यं चतुर्विंशदतिशय-विराजमान-
 भगवदहृत-परमेश्वर-परम-भट्टारक-मुख-कमळ-विनिर्गीत-सदसदादि-वस्तु-

स्वरूप-निरूपण-प्रवण-राद्धान्तामृत-वार्द्धिवर्द्धन-रात्र्याभरणरुमप्य श्रीमतु-
प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवरेन्तेन्दडे ।

आसीदाशान्तराळ-प्रबळ-पृथु-यशो-व्योम-गङ्गा-तरङ्गः

चञ्चच्चारित्र-धात्रीभवदतिललितोदार-गंभीर-मूर्तिः ।

वाक्-कान्ता-तुंग-पीन-स्तन-कळश-लसन्नूत-चूत-प्रवाळः

सिद्धान्त-क्षीर-नीराकर-हिमकिरणः श्री-प्रभाचन्द्र-देवः ॥

अभिनव-गणधर*** । त्रि-भुवन-जन-विनुत-चरण-सरसिरुहयुगं ।

शुभमति**रुह-वनार्कनेम्बुदु । वसुमतियोळनन्तवीर्य-सिद्धान्तकरम् ॥

वादि-वन-दहन-हुतवह । वादि-मनोभव-(वादि)-विशाळ हर-निटलाक्षम् ।

वादि-मद-रदनि-विडुवं । मेदिप मृगराजं जयतु श्रि(श्रु)तकीर्त्ति-बुधं ॥

तत्-सधर्मरु ।

कवि-गमक-वादि-वाग्मिग- । ळेव्रेम्बरं गेल्लु कनकनन्दि-त्रैविद्य-

विळासं त्रिभुवन-म- । छ-वादिराजं दलेनिसिदं नृप-समेयोळ् ॥

अवर सधर्मरु ।

मन-वचन-काय-गुप्तियो- । लनुनयदिं तळदु पञ्च-समितिय वशदिन्-

दनुवशानाद तपोनिधि । मुनिचन्द्र-व्रतिपनखिळ-राद्धान्तेशम् ॥

अवर शिष्यरु ।

पिरिदं पोगळ्वडेङ्गळ । पुरुळुण्टे-माडलेन्दु-मुनि-पतियेम्बी- ।

वर-चिन्तामणि**** । कुरुळि सु-सन्मान-ध्यानदुरुळियेनिकुम् ॥

तपोनुष्ठा [न] निष्ठितरारेन्दडे ।

कनकचन्द्र-मुनीन्द्रन पादमं । मेनेव भव्य-समूहद पाप-सम्- ।

हननमप्पुदु तप्पदु निश्वयम् । मन*****निच्चुळुम् ॥

अवर सधर्मरु ।

मुनिय.....अनवद्याचा(च)रणे जैन-शा- ।
सन-रक्षामणि शान्तने सकळ-राग-द्वेष-दोष-प्रभञ्- ।
जननुर्वी-नुतने गुण-प्रणयितं तानेम्बिनं वीर मे- ।
दिनियो...**धवचन्द्र-देवनेसेदं चारित्र-चक्रेश्वरम् ॥**

तत्-सधर्मरु ।

वर-शास्त्राम्बुधि-वर्द्धन- । हरिणाङ्ग-विरुद-वादि-मद-विस्फाळम् ।
निरुतं तानेनल्लेसेदं । धरेयोळ् **त्रैविद्य-बालचन्द्र-मुनीन्द्रम् ॥**

अवर सधर्मरु ।

वृ ॥.....आळ्दुं धर्ममनुपेक्षिसि तक्केडेगीयदागळुम् ।
पीन-नितम्बमं घन-कुच-द्वयमं मरेगोण्डु म-थो- ।
द्यानमनोल्दु पोक्कु नेरे नीळ-पटाश्रितरप्प योगिगळ् ।
दान-विनोदनोळ् दोरेगे-वप्परे **माधवचन्द्र-देवनो...॥**
.....**सत्य-गङ्गं** कुडे कुरुळियोळादन्न-दान-प्रभा-वि- ।
स्तरदिं श्री-**बालचन्द्र-व्रति-पति** पडेदं दानदिं जीयनत्कुर-
व्वरेयं सम्पूर्णमागळ् तणिसिदमिदु बळ्-चोद्यमक्षीण-रिद्धि- ।
स्फुरितं क्युगणिम पोण्मुत्तिरे.....ज्यनादम् ॥

अवर सधर्मरु ।

चतुराश्य-क्रोटी-कूटदो- । व्यतिशयमेनिसिर्द **कोपण-तीर्थदोळीगळ् ।**
नुतियिप **वड्डाचार्य-** । **व्रतिपतिये नेमि-देवरिन्दमे पूज्य ॥**
स्थावर-जंगममनितुं । पावनमाद..... ।
...जीयेनिसि बाळ्वडिगळ । जीयं श्री-**नेमि-देवरुदयिसे शुभदं ॥**

अवर सधर्मरु ।

अधनर्गाश्रितर्गिष्ट-सन्ततिगे चातुर्वर्ण्य-संघके तान् ।
धि० ३०

अधिकोत्साहदिन्...व्यकेयम्बेर्ष्यमं वाञ्छेयम् ।

बुध-चिन्तामणि.....कूर्त्तित्तु मा- ।

धवचन्द्रं पडेदं समस्त-भुवन-प्रस्तुत्यमं स्तुत्यमम् ॥

अवर सधर्मरु ।

साधिसि गुरुपदेशदो- । ळाधिक्यतेयास्तु सकळ-षट्-कर्मगळु ।

वेदान्तर् म...दरिब- । गर्गोधूम-धरद्वनोडने तोडव्वम... ॥

शाकिनि-डाकि.....|-किनि-चोरारि-मारि-देव्येयरनितुं ।

लोकमरियल्के... । सकळमनरिये विरुदं देवेन्द्रनुमम् ॥

इन्तेनिसि नेगळ्तेयं तळेद श्रीमत्-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुड

भुजबळ-गङ्ग-हेर्माडि-बर्म-देव ।

बलवद्वैरिगळं पडल्-वडिसि गेल्लुप्राजियोळ् माण्दने ।

चलदिन्दं परियिट्टु वैरि-पुरमं तत्-कोटेयं तद्-मही- ।

तळमं कोण्डु धरित्रि बणिसुविनं श्री-बर्म-देवं मही- ।

तळमं तोळ्-वळदिं निमिर्च्चिदनिदम् हेर्माडि सौर्यात्मनो ॥

आतन पट्ट-महादेवियेन्तेन्दडे ।

जिनेन्द्र-पादाम्बुज-मत्त-भृङ्गी.....भूषण-भूषिताङ्गी ।

नितम्बिनीनां तिळकायमाना विराजते गङ्ग-महाधिदेवी ॥

वृ ॥ निजवेनिपी-नेगर्त्तैय महासतिगुत्सव [म] म् निमिर्च्चुवा- ।

त्मजरोनिसिर्दं तम्मुतोडद्विदरोप्पुव मारसिंगनुम् ।

स-जयदे सत्य-गङ्ग-चृपनुं कलि-रक्कस-गङ्ग-देवनुम् ।

भुजबळ-गङ्ग-भुजनुमार्जिसि पेर्जसमं निरन्तरम् ॥

गजरिपु-विष्टराजि-विभवोदय-पार्श्व-जिनेन्द्र-याद-पड् ।

कज-मट-भङ्ग गङ्ग-कळ-मण्डन दण्डित-वैरि-वर्गी भा- ।

वज-निभ-मूर्ति दिग्-वळ्य-वर्चित-कीर्ति समस्त-धात्रियोळ् ।

भुजबल-गङ्ग-भूप निनगादोरे मण्डलिकैक-भीरव ॥

आतन पट्ट-महादेवि ।

[.....]आळु-वरननुज । दिष्टभूपङ्गे गङ्गवाडिगे तळेदळ् ।

पट्टमनेन्दडे गङ्गन । पट्टमहादेवि यन्तु नोन्तरुमोळरे ॥

वृ ॥ मारिद्राशान्तमं बळ्ळदळ्ळेडुदधि-त्रातमं तूगे सन्दा- ।

मेरु-क्षोणीन्द्रमं त्राशिनोळेणिसि तरङ्गोण्डु नक्षत्रमं पेळ् ।

आरानुं बळ्ळरे बळ्ळडे पोगळ्ळो...विश्वम्भरा-भार-वीर- ।

श्री-रामालीढ-वज्र-द्रढिम-घन-भुज-स्तम्भनं गङ्ग निभम् ॥

अन्नेयवागिद्रूटिसुव.....मोले.....प्रकास येळ्वो ।

रत्नवे हेण्डिरोळ् मनेगोर्व्वरुदारैयरण्ण हुड्डरे ।

हुन्नियवुळ्ळडेम् जगदोळ्ळोर्व्वळे भागिये ताने लेस्ते हुह- ।

नन्नियोळ्ळिन्तु गर्ब्बितेयरार्गळ चन्दल-देवियन्ददिम् ॥

श्रीमद्-भुजबल-गंग-देवङ्ग गङ्ग-महादेविगं पुष्टिद सत्य-
गङ्गन प्रतापमेन्तेने ।

जसमुधद्धवलातपत्रमखिळाशा-देवतापाङ्गर- ।

हिम-सह.....गजेन्द्र-रिपु-पीठं विक्रमं तानदा- ।

गे सु-साम्राज्य-लताभिवृद्धि-विभवं मय्वेत्तिरळ् बळ्ळिदर ।

ब्बेसकेय्युत्तिरे सत्यगङ्गनेदं विश्वावनी-भागदोळ् ॥

आतन-अरसि ।

पति सत्य-गङ्ग-देवं । गति.....दार-लक्ष्मि तानेनिसि..... ।

.....तळेदळेम्.....।.....आरो राणि कञ्चल-देवि ॥

भावभवङ्गे रूपु मद-सामज-वैरिगे विक्रम-कर्म म्गेन- ।

द्रावनिजके दान-गुणमब्धिगे गुण्पमराचळके सं ।

भावित-धैर्यमगलिपुदेन्दडे गङ्ग-कुभृत्-कुमार" ।

.....पाळकंगे दोरेयप्परे मिक कुभृत्-कुमारकर ॥

.....यिन्दं क्षीराब्धियु- । मसवसदिं पेर्चुवन्ते गङ्गान्वयमुं ।

पसरिसे पेर्चुगे निन्निन्दसदळमौदार्य-शौर्य गङ्ग-कुमारा ॥

श्रीमन्महामण्डलेश्वरनेरेयङ्ग-होयसण-देवनळियं गण्डर दावणि
हुसिवर शूल मावन गन्ध-त्रारणं हेर्माडि-देवनेडेदोरे.....सायिरमुमं
हरिगेय नेलेवीडिनोळु सुखदिनाळुत्तिर्हु कुन्तलापुरदोळु चैत्यालयमं
माडि देवर पूजा-विधानकं चातुर्वर्ण-संघ-समुदाय-चतुस्-समयदाहार-
दानकं खण्डस्फुटित-जीर्णोद्धारकं समुदाय-मुख्य-स्थानं माडि येडदोरे-
मण्डलिनाडप्रभु-गावुण्डुगळंकरेयलट्टि धर्म आरक्ये येन्दु शक-वर्ष
९८९ नेय प्लुंग-संवत्सरद पुष्य-सु १३ दक्षि-गुरुवार-वुत्तरा-
यण-संक्रमणदन्दु तम्म गुरुगळु श्री-प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर कालं
कर्चि धारा-पूर्वक(कं)माडि विट्ट दत्तिया-ग्राम-दुभय...सर्व-नमस्य-
वळि हुट्टुवायदाय-सुङ्ग-निधि-निक्षेप सर्व-बाधा-परिहार ॥

मत्ता-राज-सर्वन्य सत्य-गङ्ग-देव नेडेहळिय नेलेवीडिनोळु सुखदि
राज्यं गेयुत्तिर्हळि कुरुळिय-तीर्थदळ गङ्ग-जिनालयमं माडि सक-
वर्ष १०५४' नेय नन्दन-संवत्सरद चैत्र-सुपुण्णमियादिवार-
सोम-ग्रहणदन्दु तन्न गुरुगळु श्री माधवचन्द्र-देवर कालं कर्चि
धारा-पूर्वकं माडि विट्ट दत्ति...वण्ण.....

खस्ति श्रीमन्-महामण्डलेश्वर गङ्ग-हेर्माडि-देवर सन्निधियळि
सर्वाधिकारि बागिय-हेगडे लोकिमटयन मग हेगडे-चन्दिमय्यं

कुरुक्षिय तम्म गौडिकेयं कलियर-मल्लि-शेट्टि मारं कोण्डु अरसर
सन्निधियल्ल बाळचन्द्र-देवर्गे धारा-पूर्वकं माडि विट्टरु ॥

मत्त सिरियम-सेट्टियुमातन मक्कळु.....आतन गौडिकेय नन्नि-
यरस-देव हळ्ळवुरदल्ल बाळचन्द्र-देवर्गे धारा-पूर्वकं माडि कोट्टरु ॥
अन्तुभय-ग्रामद.....साम्य सुक्क सहित सर्व्व-बाधा-परिहार.....
(भागेकी ५ पंक्तियोंमें सीमाओंकी चर्चा तथा हमेशाके अन्तिम श्लोक हैं)

[जिनशासनकी प्रशंसा । जिस समय त्रिभुवन-मल्ल-देवका राज्य
प्रवर्धमान था;—

आगेके श्लोकका प्रकरणसे कोई सम्बन्ध नहीं है, सिवाय इसके कि
विक्रमांकने, जो कि त्रिभुवन-मल्ल है, बहुत भय उत्पन्न किया ।

तत्पादपञ्चोपजीवी एरेयङ्ग-होय्सलका दामाद हेम्माडि-भरस था । उसकी
प्रशंसा ।

होय्सल राजाओंके वंशकी प्रशंसा । विनयादित्यसे लेकर नरसिंह तकके
राजाओंकी परम्परा ।

मूलसंघके मेघ-पाषाण-गच्छके क्राणूर-गणका एक जैनमन्दिर राजा हेम्मने
बनवाया ।

जिस समय प्रताप-होय्सल-नारसिंह-देव दोरसमुद्रमें राज्य कर रहा
था:—उसका प्रधान मंत्री (प्रशंसासहित) तिप्पण भूपति और उसका
छोटा भाई नाग-चमूपति था, जिसकी पत्नी चामल-देवी थी । उसने.....
का दान किया ।

पश्चात् इक्ष्वाकुवंशका अवतार दिया है । इस भागकी १७० पंक्तियोंमें
पूर्वके शिलालेख नं० २७७ और २६७ के भाग ज्यों-के-ह्यों मिलते हैं । नं०
२७७ “सले वृषभतीर्थ-कालं” से लेकर “परावृत-गङ्गवाहितोम्भत्तरु-
सासिरं” तक १०१ पंक्तियाँ; और “अन्तु शत-जीवियेम्बुदा-शब्दमं केरुदु”
से लेकर “मेरु-शैलोपमानम्” तक ५ पंक्तियाँ । नं० २६७ “कर...भरिद
गङ्गनि भय-” से लेकर “रक्तस-गङ्गम्” तक ११ पंक्तियाँ । नं० २७७
“अवयवदिन्दे” से लेकर राज विद्याधरेन्द्रम्” तक ८ पंक्तियाँ । नं० २६७
“हन्तेनिसि नेगरुद” से लेकर “अनन्तवीर्यसिद्धान्तकरम्” तक ४५ पंक्तियाँ ।

भुतकीर्तिकी प्रशंसा । पश्चात् क्रमसे सधर्मा कनकचन्द्रि, मुनिचन्द्र व्रती-
की प्रशंसा । मुनिचन्द्रके शिष्य कनकचन्द्र-मुनीन्द्र; उनके सधर्मा माधव-
चन्द्र-देव; उनके सधर्मा त्रैविद्य बालचन्द्र-मुनीन्द्र और उनके सधर्मा माधव-
चन्द्र-देव । सत्य गंगने कुरुळिमें बालचन्द्र व्रतिपतिको दान दिया । उनके
सधर्मा वङ्गाचार्य-व्रतिपति थे । उनके सधर्मा माधवचन्द्र थे ।

इसके बाद भुजबल-गङ्ग हेम्मांडि-बर्म-देवकी प्रशंसा । उनकी पट्टमहिषी
गंगमहादेवी तथा इन दोनोंके चार लड़के मारसिंग, सत्य-गंग, कलि-रङ्गस-
गंग और भुजबल-गंगका उल्लेख ।

भुजबल-गंगदेव और गंग-महादेवीसे सत्य-गङ्गकी उत्पत्ति । उसकी
प्रशंसा । उसकी रानी कञ्जल-देवी । (उनके पुत्र गंग-कुमारकी प्रशंसा) ।

जिस समय प्रेयङ्ग-होस्सल-देवका दामाद हेम्मांडि-देव हरिगेके निवास-
स्थानमें था और एडेडोरे-(मण्डलि) हजारका शासन कर रहा था,
कुन्तलापुरमें उसने एक चैत्यालय बनवाया और, उसके लिये तमाम करों
इत्यादिसे मुक्त, एक गाँवका दान दिया ।

इसके अतिरिक्त, जब सत्य-गङ्ग-देव, अपने एडेहल्लिके निवासस्थानमें सुख
और शान्तिसे राज्य कर रहा था, उसने कुरुळी-तीर्थमें गङ्ग-जिनालय बन-
वाया, और शक-वर्ष १०५४ में अपने गुरु माधवचन्द्र-देवके पैरोंका प्रक्षा-
लनपूर्वक,.....का दान किया ।

और गंग-हेम्मांडि-देवकी उपस्थितिमें सर्वाधिकारी, बागिके हेगगडे,
हेगगडे चन्दिमन्वने कुरुळीकी अपनी 'गौडिके' भूमि कलियर-मल्लि-सेट्टिको
बेची और उसने वह भूमि बालचन्द्र-देवको दान कर दी । और सिरियम-
सेट्टि तथा उसके पुत्रोंने इल्लवुरकी अपनी 'गौडिके' भूमि, नच्चियरसदेवके
सामने, बालचन्द्र-देवको भेंट कर दी । (यहाँ सीमाएँ और हमेशाके श्लोक
आते हैं ।]

[EC, VII, Shimoga tl., n° 64.]

१ ये अङ्क १०३४ होने चाहिये, क्योंकि शक वर्ष १०५४=विरोधिचन्द्र
नन्दन=१०३४ ।

३००

चन्द्रहस्तिका—कचद

[विक्रम वर्ष ५८=११३३ ई०]

[चन्द्रहस्तिकामें, अष्टेश्वर मन्दिरके सामनेके वीरकलके ऊपर]

स्वस्ति श्रीमतु विक्रम-संवत्सरद ५८ परिधावि-संवत्सरदास्त्र-
यिज-च ५.....श्रीमतु मूलसंघद देसिग-गणद श्री-माघणन्दि-
भट्टारक-देवर गुहं गङ्गवल्लिय दास-गावुण्डन मगं बोप्पयं समाधि-
विधियि मुडिपि स्वर्गस्थनादनु ॥

[स्वस्ति । (उक्त मितिको), मूलसंघ और देसिग-गणके माघणन्दि-
भट्टारक-देवके एक गृहस्थ-शिष्य, -गङ्गवल्लिय दास-गावुण्डके पुत्र बोप्पय,
समाधि-विधिसे मरण कर, स्वर्गको गये ।]

[EC, VIII, Sorab tl., n° 97.]

३०१

हलेबीड—संस्कृत और कचद

[वर्ष प्रमादिन्, ११३३ ई० (६० राइस)]

[हलेबीडसे लगी हुई बस्तिहस्तिकामें, पार्श्वनाथ बस्तिके बाहरकी
दीवालमें एक पाषाणपर]

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादा मोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

जयतु जगति नित्यं जैनसंघोदयार्कः

प्रभवतु जिनयोगीव्रातपद्माकरश्रीः ।

समुदयतु च सम्यग्दर्शन-ज्ञान-वृत्त-

प्रकटित-गुण-भास्वदू-भव्य-चक्रानुरागः ॥

जगन्नित्यवल्लभः श्रियमपप्यवागदुर्लभः ।

सितातपनिवारणत्रितयचामरोद्भासनः ।
 ददातु यदधान्तकः पदविनम्रजम्भान्तकः
 स नस्सकल-धीश्वरो विजय-**पार्श्व**तीर्थेश्वरः ॥

सिद्धं नमः ॥

श्रीमन्नतेन्द्रमणिमौलिमरीचिमाळा-
 माळार्चिताय भुवनत्रयधर्मनेत्रे ।
 कामान्तकाय जितजन्मजरान्तकाय
 भक्त्या नमो विजय-**पार्श्व**-जिनेश्वराय ॥
होयसळोव्वाश-वंशाय खस्ति वैरि-महीभृताम् ॥
 खण्डने मण्डलाप्राय शतधाराप्रजन्मने ॥

तदन्वयावतारम् ॥

नेगळ्ढा-ब्रह्मनिनत्रि सोमनेसेवा-श्री-**सोमजं** भूतलं
 पोगळ्त्तिर्ष-**पुरूरवो**र्व्वीपति सन्दायु-र्महीवल्लभं ।
 सोगयिप्पा-**नहुषं** ययाति यदुवेम्बुर्व्वीश-सन्तानदोळ् ।
 नेगळ्ढं श्री-सळनानतान्य-निकरं सम्यक्त्व-रत्नाकरम् ॥
 आ-**सळ**-नृपतिय राज्यश्री-संवर्द्धनमनेय्दे माडुव बगोयिं ।
 वासव-वन्दित-जिन-पूजा-सहितं सकल-मंत्र-विद्या-कुशलम् ॥
 मुददिं जैन-व्रतीशं **शशकपुरद** पद्यावती-देवियं मं- ।
 त्रदिनादं साधिसल् विक्रियेयोळे पुलि मेल् पाये योगीश्वरं कुं-
 चद-काविन्दान्तदं **पोयसळ** एनलभयं पोय्बुदुं पोयसळाङ्कम् ।
 यदु-भूपर्गादुदन्दिन्देसेदुदु सेळ्येयिं लोळ-शार्दूळ-चिह्नम् ॥
 आ-सन्द-यक्षी-वरदोळ् वसन्तं । लेंसागे तात्कालिक-नामदिन्दं ।
 वासन्तिका-देवतेयेन्दु पूजा- । व्यासङ्ग वं माडिदना-नृपाळम् ॥

कय्-साहिरे पुलि युण्डिगे ।
 कय्-साहिरे वीर-लक्ष्मी रिपु-नृप-राज्यम् ।
 कय्-साहिरे पलरादर ।
प्पोय्सळ-नामदोळे यादवोर्वापतिगळ् ॥
 सत्कुलदोळगिन्दु माही- ।
 भृत्-कुळदोळगचळ-नाथनेसेवन्तेसेदं ।
 तत्कुलदोळ् विजितारि-कु- ।
 भृत्कुळनादित्य-मूर्ति विनयादित्यम् ॥
 तदपत्यं रिपु-नृप-भुज- ।
 मद-मर्दननखिल-विबुध-जनता-सौख्य- ।
 प्रदनुदितोदित-महिमा- ।
 स्पदनेनिपेरेयङ्ग-भूपनङ्गज-रूपम् ॥
 एरेयङ्गन क्रूरसि तले- ।
 गेरगदे मुन्नरिदु बन्दु पदक्रेरगदवर् ।
 प्परिये तले मुरिये निडैल् ।
 ओरदुगे बिसु-नेत्तरेरगदिर्परे धुरदोळ् ॥
 ई-वसुधे पोगळलेचल- ।
देविगवेरेयङ्ग-नृपतिगं त्रै-पुरुषर् ।
 तावेनलादर्बल्ला- ।
 लावनिपति विष्णु-नृपतियुदयादित्य ॥
 अन्तवरोळ् विष्णु-मही- ।
 कान्तं निमिर्देसेये कूर्पुमाप्युं जसमा- ।

दन्तोळगि बेळगे पेर्मैय- ।

नान्तं नळ-नहुष-भरत-चरित-प्रतिमम् ॥

स्थिरमागि विष्णुवर्द्धन- ।

धरणीपाळंगे पट्टमागलोडं सा- ।

गरदन्तनहित-धरणी- ।

श्वरोडनेष्टिदत्तु विशदकीर्तिप्रसरम् ॥

पोडरदे साध्यमायतु मलेयेळमुना-तुळ-देशवेळमुं ।

नडेये कुमार-नाडु-तळकाडुगळेम्बिबु कयो सार्हुव- ।

त्तडिपिडे मुश्चि कश्चि बेसकेय्दुदु विष्णु-नृपं कृपाणमं ।

जडियदे मुने कोङ्ग-नृपरित्तरिभङ्गळनेम् प्रतापियो ॥

चोळ-नृपाळ-पाण्ड्य-नृप-केरळ-भूप-भुजावलेप-वि- ।

स्फाळननन्ध्र-गन्ध-गज-केसरी लाट-वराट-धारिणी- ।

पाळ-घनानिळं कदन-सूर-कदम्ब-वनाग्नि विष्णु-भू- ।

पाळनवार्य्य-शौर्य्य-निधियातन शौर्य्यमनारो कीर्तिपद् ॥

श्रीमन्महामण्डलेश्वरं । द्वारावतीपुरवरावीश्वरं । यादवकुलाम्बरद्युमणि
मण्डलिक-चूडामणि शशकपुर-वसन्तिका-देवी-लम्बवर-प्रसादम् । दर-
दळन्-मल्लिकामोदम् । परिहसित-शरदुदित-तुहिनकर-कर-निकर-हर-
हसन-सु-रुचिर-विशद-गशश्चन्द्रिका-श्री-विलासम् । निरतिशय-निखिल-
विद्या-विलासम् । विनमदहित-महिप-चूडालीढ-नूत-रत्न-रस्मि-जाल-
जटिलित-चरण-नख-किरणम् । चतुस्समय-समुद्धरणम् । कर-कराळ-
करवाल-प्रभा-प्रचलित-दिशा-मण्डलम् । वीर-लक्ष्मी-रत्नकुण्डलम् । हिर-
प्यगर्भ-तुळापुरुषाश्व-रथ-विश्वचक्र-कल्पवृक्ष-प्रमुख-मख-शतमखम् । राज-
विद्या-विलासिनीसखं । स्थिरिकृत-यादव-समुद्र-विष्णुसमुद्रोत्तुंग-रङ्गद-

बहळतर-तरङ्गौघाञ्जादित-दिशा-कुञ्जरम् । शरणागतवज्र-पञ्जरम् । आम-
 ल्क-फळ-तुळित-मुक्ता-लता-लक्ष्मी-लक्षित-वक्षम् । विबुध-जन-कल्प-
 वृक्षम् । विजयगज-घटोत्तरळ-कदलिका-कदम्ब-चुम्बिताम्बुदम् । प्रति-
 दिन-प्रवर्द्धमान-सम्पदम् । रिपु-नृप-लय-समय-क्षुभित-वार्द्धि-वीचि-चयोच्च-
 लित-जात्यश्व-हेषा-रवप्रूरित-दिशा-कुञ्जम् । शस्तोदात्त-पुण्य-पुञ्जम् । इन्दु-
 मन्दाकिनी-निश्वळोदात्त-गुण-यूथम् । गण्डगिरि-नाथम् । चण्ड-पाण्ड्यवे-
 दण्ड-कूट-पाकलम् । जगद्देव-बळ-कळकळं । चक्रकूटाधीश्वर-सोमेश्वर-
 मदमर्दनम् । तुळ-नृपासुर-जनार्दनम् । कळपाळ-तारक-मयूर-वाहनम् ।
 नरसिंह-ब्रह्मसम्पोहनम् । इरुञ्जोळ-बळ-जळधि-कुम्भ-सम्भवम् ।
 हत-महाराज-वैभवम् । दळितादियम-राज्य-प्रभावम् । कदम्बवन-दावम् ।
 चेङ्गिरि-बळ-काळानळम् । जयकेशी-मेघानिळनेन्दिवु मोदलागे समस्त-
 प्रशस्ति-सहितम् । तळकाडु-कोङ्गु-नङ्गलि-गङ्गवाडि-नोळम्बवाडि-
 मासवाडि-हुलिगेरे-हलसिगे-वनवसे-हानुङ्गळु-नाडु-गोण्ड
 त्रिभुवनमल्ल भुजबळ वीर-गङ्ग-होयसळदेवम् ॥

निरुपमिताङ्गियं रुचिर-कुन्तळ्यं नुत-मध्येयं मनो- ।

हरतर-काश्चियं धृतसरस्वतियं विलसद्विनीतेयम् ।

स्फुरदुरु-कीर्त्तिमन्मधुरेयं स्थिरवागिरे तन्न तोळोळोल्द ।

इरिसिदनुर्वराङ्गनेयनप्रतिमं विभु-विष्णु-भूभुजम् ॥

तदीय-पाद-पञ्चोपजीवि । निरन्तर-भोगानुभावि । जिनराज-राजत्-
 पूजा-पुरन्दरम् । स्वैर्य्य-मन्दिरम् । कौण्डिन्यगोत्र-पवित्रम् । एचि-
 राजप्रिय-पुत्रम् । पोचाम्बिकोदारोदन्वत-पारिजातम् । शुद्धोभयान्वय-
 सञ्जातम् । कर्णाटधरामरोत्तंसं । दानश्रेयांसम् । कुन्देन्दु-मन्दाकिनी-
 विशद-यशःप्रकाशं । मङ्ग-विद्या-विकाशम् । जिन-मुख-चन्द्र-वाक्-

चन्द्रिका-चकोरम् । चारित्र-लक्ष्मी-कर्णपूरम् । धृतसत्य-वाक्यम् ।
 मन्त्रि-माणिक्यम् । जिन-शासन-रक्षामणि । सम्यक्त्व-चूडामणि ।
 विष्णुवर्द्धन-नृप-राज्य-वार्द्धि-संवर्द्धन-सुधाकरम् । विशुद्ध-रत्नत्रयाकरम् ।
 चतुर्विधानूनदानविनोदम् । पद्मावती-देवी-लब्ध-वर-प्रसादम् । भय-
 लोभदुर्लभम् । जयाङ्गना-वल्लभम् । क्लृप्त-भट-ललाट-पट्टम् । द्रोह-
 धरदम् । विबुध-जन-फळ-प्रदायकम् । हिरिय-दण्डनायकं । अप्रतिम-
 तेजम् । गङ्ग-राजम् ।

मत्तिन मातवन्तिरलि जीर्ण-जिनालय-कोटियं क्रमं- ।
 बेत्तिरे मुन्निनन्ते पल-मार्गदोळं नेरे माडिसुत्तवत्य्- ।
 उत्तम-पात्र-दानदोदवं मेरुत्तिरे गङ्गवाडि-तोम्- ।
 वत्तरु-सासिरं कोपणवादुदु गङ्गण-दण्डनाथनिम् ॥
 नुडि तोदळादोडोन्दु पोणर्दञ्जिदोडन्तेरडन्य-नारियोळ् ।
 नुडिगेडेयागे मूरु मरे-वोक्करनोप्पिसे नाल्कु बेडिदम् ।
 पडेयदोडय्दु कूडिदेडेगोगदोडारधिपङ्गे तप्पि व- ।
 ईडे गडिवेळ्ळुवेळ्ळु-नरकङ्गळिवेन्दपनल्ले गङ्गणम् ॥
 आ-गङ्ग-चमूपतिगं ।

नागल-देवीगमधीत-शास्त्रं पुत्रम् ।

चागद बीरद निधियुम् ।

भोग-पुरन्दरनुमप्प बोप्प-चमूपम् ॥

परमार्थं विद्वदर्थं तविसदनधनं व्यर्थवेन्दर्थिसार्थम् ।

निरवचं ज्ञातविचं दळित रिपु-मनोधं तिरस्कारिताधं ।

धरे तन्नं कीर्त्तिपन्नं विबुध-ततिगे पोन्नं विपश्चित्प्रसन्नं

करेदीवं बोप्प-देवं समर-मुख दशग्रीवनुद्यत्प्रभावम् ॥

समरायाताहित-क्षोणिभृदतुळबळोधानदोळ् पावकानु- ।
 क्रमदिन्दं क्रीडिसुत्तं रिपु-नृपति-शिरः-कन्दुक-क्रीडितं तत्-
 समयोद्भूतारुणाम्भो-भरित-समर-धात्री-सरो-मध्यदोळ् वि- ।
 क्रम-लक्ष्मी-लोलनोलाडुवनेरेद-बुधर्गप्य दण्डेश-बोप्पम् ॥
 लोभिगळं पोलिपुदे य- ।
 शो-भाजननप्य बोप्प-दण्डेशनोळिन् ।
 ई-भू-भुवनदोळाहा- ।
 राभय-भैषज्य-शास्त्र-दानोन्नतियिम् ॥

तदीय-गुरु-कुलम् ॥

गौतम-गणधरिन्दा-यात-परम्परेय कोण्डकुन्दान्वय-विख्यात-
 मलधारि-देवर । प्यूत-तपोनिधिगळा-मुनीश्वर-शिष्यर् ॥ श्री-राद्धान्त-
 सुधाम्बुधि-पारग-शुभचन्द्र-देव-मुनिपर्व्विमळा-चार-निधि-गङ्ग-राजन ।
 धीरोदात्ततेयनाब्द बोप्पन गुरुगळ् ॥ जिन-धर्म-वनधि-परिवर्द्धन-
 चन्द्रं गङ्ग-मण्डलाचार्य्यर्-स्पावन-चरितरेन्दु पोगळ्वु [दु] जर्न
 प्रभाचन्द्र-देव-सैद्धान्तिकरम् ॥
 इवर्बोप्प-देवन देवतार्चन-गुरुगळ् ॥

जळजभवङ्गविन्तु बरेयल् कडेयल् करुविट्टु गेय्यल- ।
 त्तळगवेनिप्पुदं तोळप बेळ्ळिय-बेड्ढेने पोल्बुदं जगत्- ।
 तिलकमनी-जिनालयमनेत्तिसिदं विभु-बोप्प-देवन- ।
 गळ्ळिकेय राजधानिगळोळोप्पुव दौरसमुद्र-मध्यदोळ् ॥

गङ्ग-राजङ्गे परोक्षविनयवागि देवर्गे ।

सासिर दैवत्तैदेन-ला-शकनद्वं प्रमादि-माधव-बहुळ- ।
 श्री-सोमज-पञ्चमियो-ळैसेने बोप्पं प्रतिष्ठेयं माडिसिदम् ॥

प्रतिष्ठाचार्य्यर् श्री-नयकीर्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्तिगळ् ॥
 भ्रान्तिनोळेनो मुन्नेगळ्द चारण-शोभित-कोण्डकुन्देयोळ् ।
 शान्त-रस-प्रवाहवेसेदिर्पिनविर्द मुनीन्द्र-कीर्तिया- ।
 शास्तवनेय्दितन्तवर सन्ततियोळ् नयकीर्ति-देव-सै- ।
 द्धान्तिक-चक्रवर्ति जिन-शासनमं^० बेळगळे पुष्टिदं ॥

श्री-मूलसंघद देशिय-गणद पुस्तक-गच्छद कौडकुन्दान्वयद हन-
 सोगेय बळिय द्रोहधरद्व-जिनालय[म्]-प्रतिष्ठानन्तर
 देवर शेषेयनिन्द्रर् कोण्डु-पोगि विष्णुवर्द्धन-देवर्गे बङ्गापुरदोळ् कुडु-
 ववसरदोळ् ।

कवियेरिंगेन्दु बन्दा-मसणनसम-सैन्यङ्गळं विष्णु-भूपं ।
 तवे कोन्दा-प्राज्य-साम्राज्यमनतुळ-भुजं कोळ्बुदु पुष्टिदं भू-
 भुवनकुःसाहमागुत्तिरे बुध-निधि लक्ष्मी-महा-देविगागळ् ।
 रवि-तेजं पुण्य-पुञ्जं दशरथ-नहुषाचार-सारं कुमारम् ॥
 भूभृत्-पति-मद-करि-हरि-शोभास्पद नचळता-समुत्तुञ्जं श्री- ।
 प्राभवनुदिताखण्डळ-वैभवनेम् गोत्र-तिळकनादनो पुत्रम् ॥

अन्तु विजयोत्सवमुं कुमार-जन्मोत्सवमुमागे संतुष्ट-चित्तनागिर्द विष्णु-
 देवं पार्श्व-देवर प्रतिष्ठेय गन्धोदक-शेषगळं कोण्डु बन्दिर्दिन्द्रं कण्डु बर-
 वेळ्दिदिरेहु पोडेवद्व गन्धोदकमुं शेषेयुं कोण्डेनगी-देवर प्रतिष्ठेय-फलदिं
 विजयोत्सवमुं कुमार-जन्मोत्सवमुमादुवेन्दु सन्तोष-परम्परेयनेय्दि देवर्गे
 श्री-विजय-पार्श्व-देवरेम्ब पेसरुं कुमारंगे श्री-विजय-नारसिंह-देवनेम्ब
 पेसरुमनिद्व कुमारंगभ्युदय निमित्तमुं सकळ-शान्त्यर्थमुमागि विजयपार्श्व-
 देवरचतुर्विंशति-तीर्थङ्कर त्रि-काल-पूजार्चनामिषेकङ्कमी-बसदिय खण्ड-
 स्फुटित-जीर्णोद्धारणकं जितेन्द्रियरप्प तपोधनराहार-दानकं आसन्दि-

नाड जावगळुंमं बसदियि बडगण बैनकन-मण्ठेयदि मूडलु राज-हस्त-
दल् नुरेणभत्तु-हस्त-प्रमाण-भूमियोळिर्देरडु केरियुमनळिन्दाभ्रेयद गोण्टिनळि
नट्ट कळिन्दिर्ब्वडगलागिर्देरडुं केरियुं तेळिगरिप्पत्तोक्कलुवनळि पडुवल्
माधवचन्द्र-देवर बसदिवरविद् केरियुमनळि पडुवण हिरिय-दण्ड-
नायकर मनेयि पडुवल् तेङ्क-देशेय राज-वीथिय मूडण वेळुहूर केरिय
हित्तिल् मेरेयागिर्द भूमियुमनळि बडगल् शिरियङ्गडिये गडि आसिरि-
यङ्गडिय मूडण-कडे यरडङ्गडियु । जावगळु-सीमे (भागेकी ५ पंक्तिगोमै
सीमाकी चर्चा है) इन्ती-स्थळविनितुमं श्री-विष्णुवर्द्धन-होय्सळ-देवं
श्री-विजय-पार्श्व-देवर्गे धारा-पूर्वकं माडि कोट्टम् (वे ही अन्तिम छोक)

विदिताशेष-पदार्थ-नूत्न-विजय-श्री-पार्श्व-देवोलसत्- ।

पद-पूजा-निचयके दान-महितं केय् गवेयं पुण्य-बी- ।

जद पेच्चिङ्गे निवासमं सकळभव्याम्भोजिनीभास्करम् ।

मुददि तेळिगर-दास-गौण्ड-विभु कोट्टं सन्ततं सल्विनम् ॥

इदन्नुजितमेने नीम्मा- ।

ळपुदेन्दु तेळिगर-दास-गावुण्डं पु- ।

प्य-देव-पूजाकर-शान्- ।

ति-देव-विभुगमळ-वारि-धारेयनित्तम् ॥

दासगौण्डनहळिय कुम्भार-गट्टद केळगण-मडुविन मोहमेळिवेयलु
मूवत्तु-कोळग-गदे आ-यरडु-को.....नडुवण एरेय-केय्युळ्ळनितुं मूडलु ताव-
रेयकेरे हडुवलु होल सीमे गडियागिद् भूमियुळ्ळनितुमं तेळिगर-दास-
गावुण्डनुं राम-गावुण्डनुं उत्तरायण-संक्रमणदलु श्री-विजय-पार्श्व-दे-
वरष्ट-विधाञ्चनेगे सर्व्व-बाधा-परिहारवागि पूजकर शान्तप्यङ्गे धारा-पूर्वकं
कोट्टरु ॥

आरुं पोल्वरे युद्ध-दैत्य-विजय-श्री-पार्श्व-मह्वारको-
दार-श्री-पद-पङ्कज-भ्रमरनं सौजन्य-वाक्-सारनम् ।

सारोदार-जिनेश्वरार्चन-नियोगोद्योग-विश्रान्त**** ।

****श्री-वधु-कान्तनं पृथुल-कीर्त्याशान्तनं शान्तनं ॥

श्री-विजय-पार्श्व-देवर्गे विदु जावगल्लुं गङ्गऊरदलि खण्ड-स्फुटित-
जीर्णोद्धारके जावगल्लु । रङ्ग-भोगद विद्यावन्तरिगे गङ्गऊरु । श्रीमन्न-
यकीर्त्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगळ शिष्यरु नेमिचन्द्र-पण्डित-देवर
श्री-मूलसंघद समुदायङ्गलु अवर शिष्य-सन्तानगळे ई-धर्मवना-चन्द्रार्कि-
तारंवरं सलेसुवरु ॥

[जिनशासनकी प्रशंसाके बाद पार्श्व-जिनेश्वरका माहात्म्य । होयसल
राजाओंके वंशकी परम्परा:—

ब्रह्म-भ्रत्रि-सोम-पुरुरव-भायु-नहुष-ययाति-यदु, जिसके वंशमें सल उत्पन्न
हुआ । जिस समय, सलके राज्यकी समृद्धिके लिये, कोई जैन-व्रतीश मध्नों-
द्वारा शशकपुरकी पद्मावती देवीको वंशमें कर रहा था, एक चीतेने उछल
कर आक्रमण किया, चीता इससे उसकी सिद्धि भंग करना चाहता था ।
उसी समय योगीश्वरने अपने चामर (या पंखे) की मूठको पकड़कर कहा
'पोय् सल' (सल, मारो): इतना उनके कहते ही उसने निडर होकर उसे
मार दिया; उस समयसे यदु राजाओंका नाम 'पोयसल' पढ़ गया और
उनके झण्डेपर चीतेका चिह्न फहराने लगा । उस 'बक्षो' के प्रसादसे ऋतु
वसन्त हो गई और उसी ऋतुके नामसे राजाने उसका 'वासन्तिका' देवीके
नामसे पूजन किया ।

उसी वंशमें विनयादित्य उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र परेयंग था । उससे
एचल-देवीके द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी तरह, बल्लाल, विष्णु और
उदयादित्य उत्पन्न हुए । इन सबमें विष्णुका नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध
हुआ । (उसकी दिग्विजयका वर्णन, उसकी प्रशंसा)

(उसके पदों और उपाधियोंका वर्णन) उसने तलकाड्ड, कोङ्ग, नङ्गलि, गङ्गवाडि, नोळ्म्बवाडि, मासवाडि, हुळिगेरे, हलसिगे, बनवसे और हानुङ्गलपर अधिकार कर लिया था । इतना ही नहीं, अङ्ग, कुन्वळ, मध्यदेश, काञ्ची, विनीत और मधुरा (वर्तमानका मधुरा) ये सब उसीके अधीन थे ।

तत्पादपद्मोपजीवी पुराना दण्डनायक गङ्गराज था । (उसकी बहुत-सी उपाधियोंका उल्लेख) उसने अगणित ध्वस्त जैन मन्दिरोंका पुनर्निर्माण कराया । अपने अनवधि दानोंसे उसने गङ्गवाडि ९६००० को कोपणके समान चमकावा । गंगकी रायमें सात नरक ये थे:—झूठ बोलना, युद्धमें भय दिखाना, परदारारत रहना, शरणार्थियोंको शरण न देना, अधीनस्थोंको अपरितुष्ट रखना, जिनको पासमें रखना चाहिये उन्हें छोड़ देना, और स्वामीसे द्रोह करना ।

गंग-चमूपति और नागळ-देवीसे बप्प-चमूप उत्पन्न हुआ । (उसकी प्रशंसा) ।

उसका गुरु-कुल—गौतम गणधरकी परम्परामें विख्यात मलधारिदेव हुए, जो कुन्दकुन्दान्वयी थे । उनके दिग्ध शुभचन्द्रदेव बोप्पके गुरु थे । गंगमण्डलाचार्य प्रभाचन्द्र-देव-सैद्धान्तिक उसके पूजनीय गुरु थे ।

यह जिनमन्दिर—जिसकी शोभा रजतमय कैलाशके समान थी—बोप्पदेवने दोरसमुद्रके बीचमें बनवाया । गङ्गराज (अपने पिता) की मृत्युके स्मारकमें (उक्त तिथिको) बोप्पने मूर्तिकी स्थापना की; प्रतिष्ठापक नयकीर्त्ति सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती थे । (उनकी प्रशंसा) ।

श्री-मूलसंघ, देशिय-गण, पुस्तक-गण्ड, कोण्डकुण्डान्वय तथा हनसोगे-बलिके इस द्रोह-चरट्ट (पाप-नाशक) जिनालयकी स्थापनाके बाद, जिस समय पुरोहित (हन्द्रलोग) चढ़ाये हुए भोजन (शेष) को विष्णुवर्द्धनके पास बङ्गापुर ले गये,—उस समय राजा विष्णुने मलणको, जो अपार सेनाके साथ उसपर दूट पड़ा था, हराकर मार डाला, तथा उसका सारा साम्राज्य जप्त कर लिया, और उसी समय (रानी) लक्ष्मी-महादेवीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो गुणोंमें दशरथ और नहुषके समान था, (अन्य प्रशंसाएँ), तब
 शि० ३१

राजाते उनका स्वागत कर प्रणाम किया तथा यह समझकर कि इन्हीं पार्श्वनाथ भगवानकी स्थापनासे उसकी युद्धमें विजय तथा पुत्रोत्पत्ति तथा सुख-समृद्धि हुई है, उसने देवताका नाम विजयपार्थ तथा पुत्रका नाम विजय-वाराह-देव रक्खा ।

अपने पुत्रकी समृद्धि तथा विश्व-ज्ञान्तिको बढ़ानेके लिये उसने ब्राह्मण-नाइके जावगळका इस मन्दिरके लिये दान किया । और भी (उक्त) बहुत-से दान दिये ।

तेली दास-गौण्डने भगवानके लिये पुरोहित ज्ञान्ति-देवको भूमि-दान किया । पार्श्व-जिनकी अष्टविध पूजाके लिये दास-गौण्ड और राम-गौण्डने 'उत्तरायण संक्रमण' के समय (उक्त) दान दिये । ज्ञान्तिकी प्रशंसा । नेमिचन्द्र-पण्डित-देव इस कामकी व्यवस्थापर रक्खे गये । ये नयकीर्त्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिके शिष्य थे ।]

[EC, V, Belur tl., n° 124.]

३०२

कोल्हापुर—संस्कृत

[११३५ ई० (फ्लीट) ।]

मूल लेख अक्टूबर १९०० ई० तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ था, ऐसा मि० जे. एफ. फ्लीटका कहना है । उन्होंने जो इस लेखका उल्लेख या संकेत किया है वह एक पाण्डुलिपि परसे किया है ।

[यह लेख ११३५ ई० का है और कोल्हापुरमें पाया गया है । इसमें बताया गया है कि कवडेगोळके सन्तेय-मुद्गोडेमें 'महासामन्त' निम्ब-देवरसके द्वारा निर्मापित एक जैनमन्दिरके मूलनायक पार्श्वनाथ भगवानको कुछ स्थानीय महसूलोंका दान किया गया । लेखमें ७ व्यक्ति तथा उनके स्थानोंके नाम दिये हैं जिन्होंने दान किया था । वह दान कोल्हापुरकी रूपनारायण 'बसदि' के 'भाचार्य' श्रुतकीर्त्ति त्रैविद्यदेवके लिये किया गया था । इस लेखमें 'कुण्डपट्टन' नामके नगरका उल्लेख है । इस नगरके नामसे देशका नाम भी वही पड़ गया था ।]

[IA, XXIX, p. 280, a]

अनुक्रमणिका ।

[विशेष नाम-सूची]

इस अनुक्रमणिकामें जैन मुनि, आर्यिका, कवि, संघ, गण, गच्छ, प्रस्थ तथा राजा, रानी, गृहस्थों और सब प्रकारके स्थानोंके नाम समाविष्ट किये गये हैं । नामके पश्चात्के अंक लेख-नम्बर समझने चाहिये ।

अ [फक]	४४	अनन्तकीर्तिदेव	२०८
अकलङ्क	२०७, २१३, २१४, २१५, २१७, २७७	अनन्तपाळय्य	२४३
अकालवर्ष	९५, १२४, १२७	अनन्तवीर्य	२१३, २६४, २६७, २६९
अक्षपाद	२१५	अनन्तवीर्यसिद्धान्तकर	२७७, २९९
अंग	२	अनन्तवीर्यय्य	१५४
अङ्कदेव-भटार	१९३	अनवद्य-दर्शन	१४५
अङ्ग	२८८	अन्दरि (नगर)	१२१, १२२
अचलदेवि	२१३	अन्दरि-आलतूर	१४२
अचला	७३	अन्धकासुर	२१३
अजितसेन	२१५, २३१, २७४	अन्धासुर	२१३
अजितसेनदेव	२१४	अन्ध्र	३०१
अजितसेनपण्डित	१६८, २४८, २६६	अब्बलदेवि	२१३
अजितसेनपण्डितदेव	२२६	अब्बलब्बा	१४२
अजितसेन-भटारक	२८८	अब्बेय	२७३
अज्जनन्दि	१३४, १३५,	अंबरसेन	२२८
अङ्कलि	१४४	अभणन्दि (अभयनन्दि)	९५
अप्तिकाम्बिका	- १८६	अभयणन्दि-पण्डित-देवर	१५०
अप्तिलिनाण्डु	१४४	अभिनन्दनाचार्य्य	२१३
अदटरादित्य	२२४	अभिमन्यु	२२८
अधियछात्रा	७	अभिमानदानी	२६९
		अमळचन्द्र	२२४
		अमोघवर्ष	१२७, १४२, १८२

अमोहिनि	५	अर्यनन्दि	४९
अम्बलिमणुं	९५	अर्यवेरि	२९
अम्मराज	१४३, १४४	अर्यशिरीकी (संभोग)	८०
अयस [ङ] मि [क]	६३	अर्यक्षेर	२२
अयहाट्टि [कुल]	८०	अर्यगरिक	२१
अयोध्यापुर	२७७	अर्य [दत्त]	३१
अय्यणचन्द्रसङ्ग	२१३	अर्यदेव	५५
अय्यभिरत्त	५२	[अ] र्यपाल	३१
अय्यवेरि (शाखा)	५६	अ [र्यमि] [हि] लो]	२२
अय्यपं	१४४	अर्यसीह	३१
अय्यपोटि	१४४	अर्यहाट्टिकिय	१७
अरकमहळ्ळी	१८९	अर्हणन्दि	१४४, १६०, २०५
अरकेरे	२२४	अर्हदुभक्त	१५०
अरट्टि	१२०	अर्हद्वलि	२७७
अरसय्येगन्तियद्	२३४	अर्हनहळ्ळि	२८४
अरसाय्य	१३७	अलक्तक (नगर)	१०६
अरस्सर	२२४	अवन्ति	२१७
अरसिकब्बे	१९८, २६४	अवरवाडि	१२७
अरहं	६८	अविनीत ९५, १२१, १२२, १४२, २१३	
अरिष्टणेमि	२८	अविनीत-गङ्ग	२७७
अरुङ्गळ, १८८, १८९, १९०, १९२, २०२, २१५, २१६, २४८, २८८		अश्वपति	९१
अस्मुळिदेव	२१३, २४८	अष्टोपवासिगन्ति	२१०
अरुमोळि	१७१	अष्टोपवासिमुनि	२६९
अर्ककीर्ति	१२४	असा	८६
अर्जुनभूपति	२२८	अहरिर्षि	१०४
अर्जुनवाद (ड)	१०६	अहिच्छत्र-पुर	२७७, २९९
अम्मौनिदेव	१६०	अळवनपुर	२९९
		अळचपुर	१४२

आ		इन्देरेयप	
आचार्य भद्र	९१	इन्द्र	२१३
आजीविक	१	इन्द्रकीर्ति	१२७
आदित्यदण्डाधिनाथ	२८८	इन्द्रराज	१३०
आनंदरुह	२४८	इन्द्रराज	१२४, १४३, १४४, १६४
आन्ध्र	२१७, २८८	इरटपाडि	१७४
आन्धी	२८८	इरिववेडेऊ	१६६
आमीर	२०४	इस्कोल	३०१
आयवती	५	इरुलकोळु	१४४
आरुविल्लि	१४४	इलाडमहादेवि	१६७
आर्दबळ्ळि	२७७	इला (ड) राजर	१६७
आर्यसेन	१८६		
आर्यदेवर	२१३	ई	
आषाढसेन	६७	ईद्रपा (ल)	१०
आलतूर (नगर)	१२१, १२२	ईळ	१७४
आल्लुगु	१२७	ईळमण्डल	१७४
आहवमल्ल	२८०		
आहवमल्लदेव	२०४, २१३	उ	
आळ्वर	२१३	उगगनिहिय	८३
		उग्र (अन्वय)	२४८
		उग्र-वंश	२१३, २४८
इ		उच्चैनागरि	१९, २०, २२, २३, ३१, ३५,
इडिगूर (विषय)	१२४, २१८		३६, ५०, ६४, ७१
इडियम	२६३	उच्चशृङ्गि	१०३
इडियुरि	१४४	उज्जयिनीपुर	२७७
इडैतुरैनाडु	१७४	उज्जेनियपुर	२९९
इंगिणिवम्म	१४२	उझातिका	८८
इन्दगेरी	१२७	उडैयार	१७४
इन्दिर	१७४, २१२	उतरदासक	४
इन्दुगण्ड	१२७	उत्तर-भधुरा	१९८, २०३, २४८
इन्देरेयक	२७७	उत्तिरलाड	१७४

उदयराज	२२८	एरग	२३७, २७७
उदयादित्य	२०७, २६३, २९९, ३०१	एरेनितूर	१२१
उदयाम्बिका	२४३	एरेनछूरा	१२१
उनलारु	१२७	एरेय	२६७
उमुळिदेवङ्ग	२१३	एरेयङ्ग	२१३, २१८, २७७, २९९
उम्मलियन्ने	२१९	एरेयर्प	२७७
उरनूरार्हत (आयतन)	९४	एरेयङ्ग	२६३
उर्वी-तिलक	२१३	एरेयप्प-रस	१३८
		एरेय्य	१०९
ऋ		एळगामुण्ड	१०७
ऋषभ	९६	एळाचार्य्य	२४१
		एळे (रे) गङ्गदेव	१४२
ए		एळेव-जेडङ्ग	१६४
एकदेव	१४९		
एकवीर	२६९	ऐ	
एकसन्धि भट्टार	२१३	ऐरावत	२९९
एकलरस-देव	२९१		
एचल-देवि	१९२, २१८, २६३, २९९, ३०१	ओ	
एचले	२७४	ओखा	८८
एचिराज	३०१	ओखारिका	८८
एजलदेवि	२१३	[ओ] घ	३१
एडदोरे	२९९	ओडेयदेव	२१४, २१६, २४८,
एडय्य	१८३	ओङ्ग	२१३, २२६
एडेमले	१९३	ओङ्गमरस	२१३
एडेहळ्ळि	२९९	ओङ्गविषैय	१७४
एदेदिण्डे (विषय)	१२३	ओङ्गिटगे	१२७
एरकर्ण	२५३	ओद (शास्त्रा)	७६
एरकाट्टिसेट्टि	२१८	ओङ्गमरस	२१३
एरकोटि	१२७	ओहर्नदि	४७-८

क		कनकनन्दिपण्डितदेवर	२८०
ककसधस्त	५७	कनकप्रभदेव	२३७
ककुभ	९३	कनकप्रभसिद्धान्तदेव	२३७
ककराज	१२४	कनकसेन	१३७, १३९
कङ्कर्गण	१६०	कनकसेनदेव	२१४
कङ्कराज	१४२	कनकसेनपण्डितदेव	२१६
कच्चेयगङ्ग	२१३	कनकसेनभट्टारक	२१३
कच्चेयगङ्ग	१४२	करकगिरिय-तीर्थ	१३९
कञ्जरसस्त्रैगोष्ट-गङ्ग	१८२	कनकपुर	२१३
कञ्जरिगण्डु	१४४	कनियसिका (कुल)	७६
कञ्जलदेवि	२१३, २७७, २९९	कनिष्क	१९, २५
कञ्चि	२६३	कन्तियर-नाकय्य	२१०
कटकराज	१४३	कन्दवर्ममालक्षेत्र	१३७
कटकाभरण (जिनालय)	१४३	कन्दुकाचार्य	२१३, २४८
कणिष्क	२४	कज	१३०, २०५, २२७, २९९
कण्ठिका	१४३	कजकैर	२३७
कण्ठेश्वर	१२४	कज्जिगे	१८६
कण्ठवेना	२	कज्जपार्य्य	२०४
कदम्ब (कुल)	९५, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०४, १०५, १०८, ११४	कज्जमुञ्जे	२७७
		कजर-देव	१४०
		कजरसान्तर	२१३
कदम्ब-दिसायर	२४९	कन्याकुब्ज	२१३, २१९
कदम्मा (म्बा)	१०३	कमलदेव	१२८
कनक (कुल)	१४६	कमलभद्र	२१३
कनकचन्द्र	२९९	कम्प	२७७
कनकनन्दि	२७७	कम्पनाण्डु	१४३
कनकनन्दि-त्रैविद्य	२९९	कर	२१३
कनकनन्दि-त्रैविद्य-देव	२५१	करण्डिग	१०६
		करदूषण	२१३

करहड	१८६	कलिविद्वरसद्	१४०
करहाट	२०४	कलिविष्णुबर्द्धन	१४३, १४४
कर्कर	१२७	कलुकरे-नाड्	१७०
कर्कुहस्थ	५८	कलुचुम्बरु	१४४
कर्णाट	२०४, २०१	कल्नेके (?) देव	२६९
कर्ईमपटि	१०२	कल्नेके-देवद्	१७९
कर्नाट	१७२	कल्बप्पु तीर्त्	१३८
कर्प्पटि	११४	कल्याण	२१९
कर्पूरसेट्टि	२१८	कल्याणपुर	२५३
कर्म्भगल्लए	१०७	कल्पकुरु	१४३
कर्म्मटेश्वर	१४९	कविपरमेष्ठिस्वामि	२१३
कल	७५	कश्शपीय	६
कलक्षुरि	१०८	कसुथ	२२
कलसराजा	१४६	कस्तूरि-भट्टार	१८३
कलाचन्द्र-सिद्धान्त-देव	२२४	कळपाळ	३०१
कलि-गंग-देव	२१९	कळंबूरु-नगर	२६७
कलि-गङ्ग	२६७	कळम्बडि	१८६
कलिंगङ्ग भूपति	२१९	कळिङ्ग	२०४
कलिंग	२, ३	कयेळेयच्चरसि	२६३
कलिंग	१०६, १०८	कळालपुर	१३८
कलिंगाजिन	२	क्षेम	६९
कलिङ्ग	२१७, २८८, २९९		
कलिङ्ग-देश	२७७		
कलिदेव	२१७, २२७	का	
कलियङ्ग	२७७	काकुस्थराज	९९, १०२
कळियङ्ग-देव	२५३, २९९	काकुत्सवर्मा	९६
कळियङ्ग-नृप	२५३	काकुत्स्थवर्म्म	१००
कळियर मल्लि-शेट्टि	२९९	काकेयनूरु	१२७
कळि-र कस-गङ्ग	२६७, २९९	काकोपल	१०६
		काङ्गणि-वर्म्म	१२२

काचवे	२१८	काळोज	२५३
काशी	११४, २४८	कि	
काशीनाथ	२१४	किणयिग (ग्राम)	१०६
काशीपुर	१०८, २८८	कित्तौले	१२७
काशीधर	१०१	किबरी (क्षेत्र)	१०९
काडवमहादेवि	२१३	किरणपुर	१४३
काडुवेष्टि	२१३	किविरियय्य	१८४
काणूरगण	२६३, २९९	किञ्चुक्कूर (ग्राम)	१२२
काण्वायन	९४, ९५, १२१	की	
कातिकेय	११४	कीर्तिवर्म	१०७
कादम्ब (कुळ)	२०९	कीर्त्त (र्त्ति) नन्दाचार्य	१२१
कादलबलि	१८२	कीर्तिवर्मा	१०८, ११४
कारेय	१३०, १८२	कीर्त्तिदेव	२०९
कारेयबागु	२३७	कीर्त्तिनारायण	१६४
कार्तवीर्य	१३०, २३७, २७५, २७६	कीलबाड	१२७
कार्तवीर्यदेव	२८०	कु	
कार्तवीर्य	२३७	कुक्कुटासन-महधारिदेव	२८४
कालवङ्ग (ग्राम)	९८	कुक्कुम्बालु (ग्राम)	२३७
कालिदास	१०८, २१३	कुक्कुम-महादेवि	२१०
काल्क-देवयस्तरन् (अन्वय)	१४०	कुडछरद	१२०
कावेरि	१०८, २७७, २९९,	कुम्हकुन्द (अन्वय)	२०९
काश्मीर	२८८	कुम्हकुन्दाचार्य्यर्	२०९
काळ	२६४	कुनुन्गल (देश)	१२४
काळसेन	२३७	कुन्तलापुर	२९९
काळिदास	१९८	कुन्तळ	२०४, २०९, २८०
काळियक्क	२८८	कुन्तळी	२८८
काळिसेष्टि	२१८	कुन्दद	२१३
काळेयञ्जे	२१९	कुन्दवैजिनालय	१७४
		कुन्दशक्ति	१०९

कुंदाचि	१२१	कुरुळि	२९९
कुन्दूर (विषय)	१०३	कुरुळियतीर्थ	२९९
कुप्पट्टर	२०९	कुलचंद्र	२४५, २८०
कुबेरगिरि	१९८	कुलचन्द्र देवमुनि	२०७
कुब्जविष्णु	१४४	कुवलालपुर	८२, १३१, १३९, २१९,
कुब्जविष्णुवर्द्धन	१४३		२५३, २६७, २७७, २९९
कुमारमित	२६, ४२	कुहुण्डि (देश)	२३७
कुमारम्ब	२६४	कुहुण्डी (विषय)	१०६
कुमार-गङ्ग-रस	२५३		
कुमारगजकेसरि	२४३	[कृ] केकः	२२८
कुमारदत्त	१००	कृण्डि	२२७
कुमारनन्दि	६४, १२१	कूरगन्पाडि (ग्राम)	१६७
कुमारपुर (ग्राम)	९०	कूर्चक	९९, १०३
कुमार बलालदेव	२९३	कूविलाचार्य	१२४
कुमारभटि	४२		
कुमारमित्रा	४२	कृष्ण	१०५, १४२
कुमारसेनदेव	२१४	कृष्णराज	१२३, १३०, १४३
कुमारसेनदेवर	२१३	कृष्णवर्म	९५, १०५, १२१, १२२
कुमारसेन-व्रतिप	२४८	कृष्णवर्म	१४२
कुमार-सेनाचार्य	१३७	कृष्णवल्लभ	१३७, १४४
कुमारीपवत	२		
कुमुदचन्द्र भट्टारकदेव	२४६	कै	
कुम्बयिज	१०६	कैशगावुण्ड	२१९
कुम्बशिक	१४६	केतलदेविय	१८६
कुम्बसे-पुर	१४६	केतवेदेवि	२१८
कुम्मुदवाड	१८२	केतव्वे	२५१
कुर्	२०४	केतुभद	२
कुल्लराजिग	२६७, २७७	केदल	१२७
		केरल	१०६, १०८, ११४, १७४, २०४,
			२६४, ३०१.

कैशवनन्दि—	१८१	कोडगिनाड	२९३
कैसरिवर्म	१६७	कोडङ्गे	१४०
कैसवदेव	२०८	कोडनपूर्वदबलि (ग्राम)	२९२
कैलयबरसि	२९९	कोण्डकुन्द (अन्वय)	९५, १२२, १२३,
कैलेयब्वरसि	२१३	१५०, १५८, १६६, १८०, २०४,	
कैलेयब्वे	२१९	२२३, २३२, २३९, २६७, २६९,	
		२७५, २७७, २८०, २८४, २९४,	
			३०१
को [कु] न्तिदेवी	११८	कोण्डकुन्दाचार्य	२१३, २१४
कोक्किलि	१४३, १४४	कोण्डनूर	२२७
कोगळि—नाडोळ	२४९	कोन्दकुन्द (अन्वय)	१२७
कोङ्कण	१०८, २७७	कोपण—तीर्थ	२९९
कोङ्ग	२६४	कोप्परकेशरिपन्मरान	१७४
कोङ्गणि	९५	कोमारचे (ग्राम)	१०६
कोङ्गणिवर्म	९४, १३१, १४९, १५४,	कोमार—वेडेङ्ग	१४२
कोङ्गाळव	१८८, १९०	कोमारसेन—भट्टारद	१३८
कोहु	२९९, ३०१	कोम्मराज	१८६
कोहुणि	१८२	कोयतूर	२६३, २९९,
कोहुणिवर्म	९०, १४२	कोरप	२६४
कोङ्गोळ	२६४	कोरिकुन्द (विषय)	९४
कोळि	५	कोरुकोलनु	१४४
कोटिभडुवगण	१४३	कोलनूर	१२७
कोट्टन	१७४	कोलनूरात	१२७
कोट्टसे	१२७	कोल्लगिरि	२८०
कोट्टिय (गण)	३५, ५५, ५६, ५९, ६८,	कोल्लविगण्ड	१४४
	७०, ७४, ९२,	कोल्लापुर	२८०
कोट्टिया (कुल)	१८, १९, २०, २२, २३,	कोविराज कैसरिवर्मन्	१७१
	२५, २९, ३०, ३१, ४२,	कोशलैनाडु	१७४
	५४, ६०	कोशिकि	७१
कोडङ्गाळ	१८४		

कोसल	१०८	गङ्गण	३०१
कोठालपुर	१५४, २०७, २५३, २७७	गङ्गदत्त	२७७, २९९
कोळ्ळिप्पाकैयु	१७४	गङ्गदासि-सेट्टि	२४२
कौण्डिन्य	३०१	गङ्ग वृष	२१९, २५३
कन्नयूर (गण)	२०९, २१९, २६७, २७७, २९९	गङ्गपेर्म्माडि	१४९, २१९
		गङ्गपेर्म्मनाडि	२१५
ख		गङ्गमण्डल	१२२, १४२
खचर-कन्दर्प-सेनमार	१९३	गङ्ग-महादेवि	२१९, २२२, २५३, २६७, २९९
खर्ण	५६		
खस	२०४	गङ्ग-मादेवि	२५३
खारवेल	२	गङ्गमालव	२१३, २७७
खुडा	१९	गङ्गरस	२५३
खेटग्राम	९६, १००	गङ्ग-राज	२६३, २६६, २६९
[खो] ट्टमि [त्त]	३१	गङ्गचळ्ळिय	३००
ग		गङ्गवंश	२१३
गह [प्र] कि [व]	३७	गङ्गवाडि (गंगवाडि)	१२७, १८२, २५३, २६४, २६७, २७७, २८४, २९९, ३०१
गंगकूट	१४३		
गंग-नारायण	१४२	गङ्गहेरूर	२७७, २९९
गंगपेर्म्मनडि	१७२	गङ्ग-हेर्म्माडि-देव	२९९
गंगमण्डलेश्वर	१७२	गङ्गैथि	१६७
गंगर-मीम	२१९	गजसेलेय	९५
गंगराज (कुल)	९५	गण (उदार)	१२३
गंगवाडि (गङ्गवाडि)	२१९	गणधर	२४८
गङ्ग	१२३, १८२, २०४	गणपति	१२७
गङ्ग (कुल)	९९, १३८, २१३, २९९	गणेशेखरमरुपोरुचुरियर	१७१
गङ्गकन्दर्प	१४९	गण्ड-नारायण-सेट्टि	२८४
गङ्ग-कुम्भट-कुमार	२९९	गण्डरादित्य	२१८
गङ्ग-कुमार	२९९	गण्डरादित्यदेव	२५०
गङ्ग-गात्रेय	१४२		

गण्डविमुक्तसिद्धान्तदेव	२९३	गुणसेन	२०२, २१३,
गन्धिक	४१	गुणसेन-पण्डित	१७७, १९२.
गर्बद-गंग	२६७	गुणसेन-पण्डित-देव	१८८, १८९,
गलिङ्ग-गंग	२७७		१९०, १९१, २०१, २०२
[गं]गवाडि	२९७	गुप्ति	२९३
गव्द-गङ्ग	२७७	गुप्ति-गङ्ग	२६७, २७७, २९९.
गाढक	२३	गुम्सिमिय	१४४
गांगी	१४१	गुर्जर	१०८, १२३, २८८,
गान्धारी देवी	२१३, २१९	गुल्हा	२३
गामण्ड	२२७	गोगिग	२१४, २१६
गावब्बरसिं	२१३, २४८	गोगिगग	२१३, २१४.
गिचसेन	३६	गोगिग-नृष	२५३
गुञ्जण	२१९	गोगियोङ्ग	२४८
गुड्डम्	२७७	गोमौ-देव	२५३
गुडिगेरे	२१०	गोङ्क	२८०
गुडिवयल्ल	१९७	गोङ्कन	२८०
गुणकीर्ति	१३०	गोट्टिक	५४
गुणकीर्तिदेव	१८२	गोडल	१८९
गुणग-विजयादित्य	१४४	गोणसेन-पण्डित-भट्टारकर	१५४
गुणचन्द्र	९५	गोण्ड	१०६, ३०१,
गुणचन्द्र-देव	२६७, २९९	गोतिपुत्र	९
गुणचन्द्र पण्डित-देव	२७७	गोती	१०
गुणचन्द्रभटार	१५०	गोदास	४०
गुणणन्दि	९५	गोपाली	६
गुणदुत्तरङ्ग	१४२	गोरधगिरि	२
गुणनन्दि-देव	२६७, २७७, २९९	गोहनिगुण्ड	१४३.
गुणभद्रदेव	२१७	गोव	५५.
गुणवीरमामुनिबन्	१७१	गोवपय्यन्	११९

गोबर्धन	१३४	घोषको	८३
गोविन्द	१२७, १४४, २१३,	च	
	२१९, २४८	चक्रगोष्ट	२९३
गोविन्दचन्द	१७४	चंदणनिंद	९५
गोविन्दर्	२७७	चङ्गाळव	२४१
गोविन्दर	२१४	चङ्गाळवृत्तीयं	२२३
गोविन्दरस	२४३	चटयं	२४२
गोविन्दराज	१२४, २०४	चट्टलदेवि	२१३, २१४, २१५, २१६,
गोविन्दराजदेव	१२२, १२३		२४८
गोशर्म	९१	चट्टले	२१३
गोष्ठ	२४	चडोभ	२२८
गोळपय्यन (वसदि)	२०४	चन्दणनिन्दयय्यन	१५४
गौड	२९३	चन्दल-देवि	२४८, २९९
गौष्ठिके	२९९	चन्दवुर-पन्द-कवलि (ग्राम)	१०६
गौतम	२४८	चन्दिक्कवे	१६०
गौळ	२८८	चन्दिमय्य	२३०, २९९
ग्रहा	३५	चन्दिथक्के-गावुण्डि	१८३
[प्र] ह	४०	चन्द्रकीर्ति	२१२, २२७, २८०
ग्रहदत	६८	चन्द्रकीर्तिवति	२३९
ग्रहबल	५७, ५८	चन्द्रकीर्तिभट्टारक	२४१
ग्रहमित्रपालित	९२	चन्द्रक्षान्त	१०३
ग्रहशिरि	४०, ६१	चन्द्रगुप्त	१३८
ग्रहसेन	३६	चन्द्रनन्दी	९४, १२१
ग्रहहथ	३७	चन्द्रप्रभ-सिद्धान्त-देव	२८६
घ		चन्द्रार्थ	१३७
घकरव	५२	चन्द्रिकाम्बिका	१४९
घटिकाक्षेत्रम्	१०९	चाकिराज	१२४
घस्तुहस्ति	५४	चाकिसेट्टि	२१८
घोरः	१२७		

चागल-देवि	१९८	चिक्क-वीर-शान्तर	२१३
चाग्नि	२१३	चिष्ण	२९३
चाग्नि-समुद्र	२१३	चित्रकूट	२७७, २९९
चाग्निसान्तर	२१३	चीदि	७८
चाङ्कणार्थ्य	१८६	चुर्चुवाग्द-गङ्ग	२६७
चाङ्गिमय्य	१८६	चुलुक्य	१०८
चाङ्गळ (बसदि)	१८४	चेटिय	४५
चाङ्गिराज	१८६	चेतराज	२
चाणुक्य	२१८	चेर	५१, १०६,
चाण्डराय	१८१	चोक	१७०, २१३, २९३,
चान्द्रायणदमटार	१५०	चोल	१०६, १०८, ११४, १७१, १७२,
चान्द्रायणीदेव	२४१		२०४, २९९, ३०१,
चामण्ड	२२७	चोळप	१४४
चामराज	२६४	चौण्डलेसे	२६४
चामलदेवि	२९९		
चामुण्डपै	१७४	ज	
चामेकाम्बा	१४४	जकवे	२९४
चालुक्य १०६, १०८, १०९, ११४,		जकब्बे	२१७
१२२, १२३, १२४, १२७, १४३, १४४,		जक्य्य	२३६
१६०, १८६, १९८, २०४, २१०, २१७,		जक्कि	१९३
२१८, २२७, २३७, २६७, २९९		जक्कियब्बे	१४०, १८३, २१३
चालुक्यमीम	१४३	जक्कि-सेट्टि	२७४
चालुक्य-विक्रमादित्यदेव	२८८	जक्किलियोळ	१४०
चावण	२६४	जगत्तुंग	२७७
चावुण्डमय्य	२१७	जगत्तुङ्गदेव	१२७
चित्रकूटप्राय	२०८	जगदुत्तरङ्ग	२१३
चिळर्दे	२१३	जगदेकमल्लदेव	२०४
चिकार्थ्य	१३७	जगदेकमल्लवा.दिराजदेव	२४८
		जजाहुति	१८१

जम [क]	३५	जाकलदेवि	२१३
जम(व)म्मै	१६०	जाकियब्बे-गन्ति	१८५
ज[-मित्त]	३१	जान्हवेय (कुल)	९४,९५,१२१
जम्बहक्किल्लि	१९८	जायस	२२८
जय	२७	जाया	३६
जयकर्ण	२२७	जालमंगल	१२४
जयकीर्ति	१००	जामूक	२२८
जयकीर्तिदेव	२४१	जिहुळिगे	१८१,२१७
जयकीर्तिमुनि	२४०	जितसेनपण्डित	२१३
जयकेशि	२१३, २७७, २९९	जितामित्रा	४१
जयङ्गोण्हचोळमण्डल (विषय)	१७४	जिनचन्द्र	१८२
जयणान्दि	९५	जिनदत्त	१९८, २१३, २४८
जयदास	२३	जिनदत्तराय	१४६
जयदुत्तरङ्ग	१४२	जिनदसि	५२
जयदेव	२२, ४४, १४९, २२८	जिनदास	२१९
जयदेवपण्डित	११४	जिनदासि	६२
जयनाग	४४	जिननन्दि	१०६, १४३
जयभट्ट	३५	जिननन्दाचार्य्य	१०६
जयभ[ट्टि]	३१	जिनवम्म	१८६
जयभूति	२६	जीवदेव	२
जयवम्म	२५२	जीवा	६१
जयवाल	३०	जूजकुमार	२४३
जयासिंह	१०६, १४३, १४४, २१३	जेष्टहस्ति	२२, २३
जयसिंहवल्लभ	१०८	ज्येष्ठलिङ्ग (भूमि)	१०९
जयसिङ्ग	१७४		
जयसेन	१२	ठ	
जया	२४	ठानिया (कुल)	२९, ३०, ४०, ६८, ७९
जसहितदेव	१२१	ढ	
		ढुक	८२

	ण	तिनगर	१७४
गन्दि [आ] वर्त	५९	तिप्पण-भूपति	२९९
गेडेहळिक	२५३	तिप्पूर	२६३
	त	तिप्पेयूर	१३९
तक्कणलाड	१७४	तियक्कुडिय	२१३
तञ्जापुरी	१४२	तिरुनन्द	१७४
तट्टेकेरे	२१९	तिरुप्पानमलै	१६७
तडङ्गाल-माधव	२१३, २६७, २७७	तिरुमल	१७४
तण्डयुत्ति	१७४	तिवुळ (गण)	१९०
तपसीग्राम	१४९	तीर्थ्यदरुङ्गळ (अन्वय)	२१३
तर्द्धवाडि	१८६	तील्हण	२२८
तलकाडु	२६३	तुङ्ग	२५३
तलवनपुर	९५, १२७, २६३	तुङ्गभद्रा	१२३
तलेकाड	२६९	तुरुष्क	२०४, २८८
तले-कावेरि	२४०	तुळु	३०१
तलेयूर	१२७	तेरिदाळ	२८०
तळकाडु	३०१	[ते]-रसनंदिक	८१
तळताळ (बसदि)	२३२	तेवणी	७
तळविति	९५	तैल	२१३, २१४, २१६, २४८
तळेकाडु	२९९	तैलपदेव	१६०, २१३, २४८
तातबिक्कि	१४४	तैलहदेव	२१२
तालवृप	१४३	तैलुग	२४८
तालप	१४४	तैल्पदेव	२१३
तालराज	१४३	तोण्ड	२१३
तालिखेड	१२७	तोण्ड-मण्डळिक	२४८
ताळकोल (अन्वय)	२०४	तोद	२६४
तित्रिणीके	२०९	तोरणाचार्य	१२२, १२३
तित्रिणिक (गच्छ)	२६३	तोलापुरुष	१३३, १४५
		तोळडि	२४१

तिरतर	१७४	दति	४४
तेन्नवर	१७४	दतिलाचाध्य	९२
त्यागिसान्तर	२१३	दत्त	३२, ३७, ६२
त्रिकलिङ्ग	२९३	दत्ता	५६
त्रिकालमौनि	१६६	दधरे	१२७
त्रिपञ्चते	१०५	दधिक्लृण	४९
त्रिपुर	२९३	दधीचि	२१३
त्रिभुवनतिलक	१०६	दन्तिदुर्ग	१२७
त्रिभुवनमल २१३, २१७, २१८, २१९, २२१, २२७, २३७, २४३, २५१, २५३, २६३, २६७, २८०, २९९		दन्तिवर्मा	१४२
त्रिभुवनमल्लपेम्माडिदेव	२८८	दयापाल २१३, २१४, २४८, २७४	
त्रिभुवनमल्लसान्तरदेव	२४८	दयापाल मुनीश्वर	२१५
त्रिलोकचन्द्र	१५८	दविळ (गण)	५२, १९२
त्रैकालयोगीशः	१२७	दवुतवूर	१४०
त्रैलोक्यमल्लदेव १८१, १८६, १९७, १९८, २०३, २०४, २७७		दशाण्या	२०४
त्रैलोक्यमल्लवीरसान्तरदेव १९७, १९८		दस	६३
त्रैविद्यदेव	२१३	दसकाष्ठ	२९७
त्रैविद्य-बालचन्द्र	२७७	दं (? पं)-डीस (श)	१०९
त्र्यंबक	९०, ९४	दातिल	३०
त्र्यम्बक	९५	दानववलि (ग्राम)	१०६
थ		दानविनोद	२१३
थंभक	१७३	दामकीर्ति ९७, १००, १०१	
द		दामकीर्तिभोजकः	९९
दडिग २१३, २१९, २६७, २७७, २९९		दामणन्दि	२२३, २३९
दण्डाधिनाथनादित्य	२८८	दामन	२६३
दण्दा	८	दामनन्दिभट्टारक	२४१
दत्ता	६१	दावरि	२३७
		दास	७८
		दासगावुण्ड	३००

दासगौण्ड	३०१	देववर्म	१०५
दासोज	२०४	देवसिद्धान्त	२०४
दाहड	२२८	देवासिंह	१६०
दिगम्बरदासि	२२६	देवसेन	३६, १३६, २२८, २३५
दिनर	५२	देवाकलङ्क	२६४
दिना	३०, ५९, ८४	देवि	२२
दिवाकरनन्दि	१४३, १९७, २१२, २२३, २३९, २४१,	देविल	४०, ४९
दिवित	५४	देवेन्द्रभट्टारक	१४९, १५०
धीवलाम्बिका	१४२	देसिग (गण)	९५, १२७, १५०, १५८, १७५, १८०, २०४, २१८, २२३, २३२, २४०, २४१, २५३, २६९, २७५, २८०, २९४, २९७, ३००
दुग्गशक्ति	१०९	देहिकिया (गण)	२४, ६९
दुण्डु	१२१	दोणगामुण्ड	१०७
दुण्डुगामुण्डरा	१२१	दोरसमुद्र (पट्टण)	२८४, २९३, २९९, ३०१.
दुद्दमल्लदेव	२३६	द्वारावतीपुर	२१८, २६३, २७४, २७५, २९३, २९७, ३०१.
दुर्गराज	१४३	द्रमिळ (गण)	२१६, २२६
दुर्लभसेन	२२८	द्रविळ (अन्वय)	२६४
दुर्विनीत	१२१, १२२, १४२, २१३, २६७, २९९,	द्राविडसंघ	२७४
दुर्विनीत गङ्ग	२७७	द्रविण (अन्वय)	१७८
दुर्विनीत-दण्डनाथ	२८८	द्रविळ (गण)	१८८, १८९, २०२, २०४, २१५, २४८, २८८
देकरसं	१९८	द्रोहघरट्ट (जिनालय)	३०१
देमिकब्बे-सेट्टि	२८४	घ	
देव (गण)	१९, ६७, १०५, १९३	धनघोष	५
देवकीर्ति	१८२	धनञ्जय	२१३, २१९
देवज्ञेयि	१२१		
देवचन्द्र	१६०		
देवदास	६९		
देवदास	३०		
देवधर	१७६, २२८		

वनहृथि	६८	[न] निद	६७
धम्मनुरमु	१४३	नन्दिगच्छ	१४३
घर	५०	नन्दिगण	२१३, २१५
धर्म	१०५	नन्दिघोष	८१
धर्मनन्याचार्य	१०४	नन्दिणिग (प्रास)	१०६
धर्मकीर्ति	२१५	नन्दिपुत्रश	११५
धर्मपुरी	१४३	नन्दिवर्मा	११२
धर्मवृद्धि	४६	नन्दिदसङ्घ	१२१, १८८, १८९, १९०,
धर्म-सेहि	१८९		१९२, २०२, २१६, २८८.
धर्मसोमा	३३	नन्न	२०५, २३७
धवलजिनालय	११४	नन्नप्पयन्	१७४
धवल (विषय)	१३७	नन्नि-चङ्गाळ्व-देव	१९५, १९६
धामघोषा	१२	नन्निय-गङ्ग	१४२, २६७, २७७
धाम [था]	६८	नन्नियगङ्ग-पेम्माडि	२२२, २६७, २७७
धारागङ्ग	११	नन्नियरस-देव	२९९
धारावर्ष	१२३, १२४, १२७	नन्निशान्तर	२१३, २१४, २१५,
धारे	२९९		२१६, २४८,
धांगराज	१४७	नयकीर्ति	२९७, ३०१
धुसि	२	नयनन्दि	२२७
धोर	१२३	नरवर	९८
ध्वजतटाक	२१०	नरसिंग	२१३, २६३
		नरसिंघदेव	१४२
		नरसिंह	२९९, ३०१
		नरिदो	२
		नरिन्दक	१०६
		नरेन्द्रमृगराज	१४३, १४४
		नलमौर्यकदम्ब	१०८
		नल्लरस	२२४
		नवकाम	१२१, १२२, २७७
नगदत	३८		
नङ्गलि	३०१		
नङ्गलि	२९९		
नञ्जयन	२१३		
नण्डुवर कलिगं	१४०		
नन्द	४४		
नन्दगिरिनाथ	१५४, २५३, २६७, २७७		

न

नवनेदिक्कुल	१७४	[ना] दिव्य [रि]	३५
नवहस्ति	३६	नामणैक्कोण	१७४
नहुष	१०८, ३०१	नारणव	११५
नळ	३०१	नारसिंह	२९९
नंदगिरिनाथ	१३८	नारायण	९०, ९४
नंदराज	२	नाळकोटे	१४२
नाकण	२६४	निगंठ	१
नागचन्द्र-चान्द्रायण	२१८	निडुतद	१८९
नागचन्द्र-देव	१४५	निडुम्बरे	२१३
नागचन्द्रमुनीन्द्र	१८२	निधियगामण्ड	२२७
नागचमूपति	२९९	निन्नम	२९९
नाग [ण] न्दि	११५	निम्मडिबल्ल	२१८
नागदिन	३०	निम्मडिघोर	१५०
नागदिना	३०	निरवद्यधवल	१४३
नागदेव	१०६, १४२, २६४	निरवद्यय्य	१९३
नागदेव्य	१०६	निर्ग्रन्थ	९९
नागपुर (ग्राम)	१४९	निर्ग्रन्थमहाश्रमणसंघ	९८
नागभूतिक्रिया	२४	नीजिकब्ब	१६०
नागरखण्ड	१४०, २०७	नीजियब्बरसि	१६०
नागलदेवि	३०१	नीतिमार्ग	१३९, १४२, २१३
नागवर्म	१४०, १४२, १८१	नीतिवाक्य-कोट्टणिवर्म	२५३
नाग-वर्म-पृथ्वीराम	१२७	नीर्गुन्द	१२१
नागसेण	४५	नील	१०६
नागार्जुन	१४०	नीलगुन्दगे	१२७
नागार्थ्य	१३७	तृफ-काम	२१३
नागियक्क	२९१	नेपाल	२८८
नाडिक (कुल)	८२	नेमिचन्द्र	११
नाडु	३०१	नेमिचन्द्र	२२७, ३०१
नाणब्बेकन्ति	१५०	नेमिदेव	२९९
नादा	८	नेमीश्वरतीर्थ	२७७

नेमैस	१३	पदिकण्डुगं	१२१
नेरिल्लो	१२७	पद्य	२१९
नेल्लवति	२१९	पद्यणन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ति	२०९
नोक्कय्य	२१९	पद्यनन्दी	२०९
नोक्कय-सेट्टि	१९७, २१२	पद्यनाभ	९०, ९४, ९५, १२१, १४९,
नोक्कियब्बे	१९८	*	२७७
नोडंबराष्ट्र	१४३	पद्यप्रभ	२२७
नोडुग	२४८	पद्मावती	१९८, २१३, २४८, २७७,
नोणम्बवाडि	२९७		२९९, ३०१
नोळवि-सेट्टि	२८४	पनसवाडि	२१९
नोळम्बवाडि	२९९, ३०१	पनसोग	२२३, २३९, २४०
	प	पन्तिगणग	१०६
पंचाणचंद	११	पन्दङ्गचलि	१०६
पंडराजा	२	पप्पक	१७३
पङ्गळनाट्टु	१७४	परचक्रराम	१४३
पञ्चप्पळिळ	१७४	परमगूळ	१२१
पञ्चलदेव	२१३	परमेश्वर	१९६, २४०, २४१
पञ्चवसदि	२१३	परळर (गण)	१०७
पट्टण-स्वामि	१९७-२१२	परिधासिका (कुल)	६९
पट्टद (वसदि)	२२२	परियल-देवि	२०१
पट्टवर्द्धिक (अन्वय)	१४४	पर्म्मनडि	१७२
पट्टिग-देव	२५३	पर्म्मनडीय	१३१
पट्टिपोम्बुर्च्चपुर	२१३, २४८	पर्व्वत	१०५
पडियर-दोरपय्य	१५०	पर्श्व	८३
पडिल्लगेरि	१२७	पलाशिका	९६, ९९, १००, १०१, १०२
पण्डर	१०२		१०३, १०४
पण्डित	१७९	पल्लकीर्ति	२६९
पण्डित पारिजात	२१३	पल्लपण्डित	२६९
पतवर्म्म	३६०	पल्लव	९९, १०८, १२१, १२३,

पल्लवेन्द्र	१२१,१२२	पुगिस	२६४
प-व [ह]-[क] (कुल)	६६	पुंनागवृक्षमूल (गण)	१२४
पलेया	१२१	पुष्पागवृक्षमूल (गण)	२५०
प [क्] लिखन्दता	१६७	पुफक	८६
पाम्नाळ	२०४,२१७,२८८	पुम्बुडु	१४६
पाण्डीपुर	१०७	पुरिकर	१४२
पाण्डुरंग	१४३	पुरिगेरे	२१०
पाण्ड्य १०६,१०८,११४,२४८,२८८, २९९,३०१		पुरुरवा	३०१
पाण्ड्य-भूपाळ	२८८	पुलकेषि	१०६,१०८
पादरि-ऊळ्	१२३	पुलिकर (नगर)	११४
पाम्बम्बे	१५०	पुलिकळ	१२१
[पाम्ब] नगेरी	१२७	पुलिगेरे (नगर)	१०९,१४९
पार्श्व	९१,२९९,३०१	पुलिगेरेवळिळि (ग्राम)	२३७
पार्श्वनाथदेव	२४६,२४८	पुल्लुहूर	२१०
पार्श्वभट्टारक	२७७	पुन्यमित्र	१७
पार्श्वसेन-भट्टारक	२३८	पुन्यमित्री	३७
पाल	५,१९	पुष	४७
पालघोष	५	पुषदिन	४७
पाल्यकीर्ति	२६९	पुष्पनन्दी	१२२,१२३
पाषाण (अन्वय)	१९३	पुष्पसेन	२६५
पाहिल (ल)	१४७	पुष्पसेन-त्रतीन्द्र	२०२
पाळियक्कन बसदि	१४५	पुष्पसेनसिद्धान्तदेव	१७७,२१३,२१४ २१५
पिड्डग	१६०	पुस्तक (गच्छ)	१२७,१७५,१८०, १९५,२२३,२३२,२३८,२४०, २४१,२६९,२७५,२८०,२८४, २९४,२९७.
पिरिकेरें	९५	पूज्यपाद	२०७,२१३,२१७
पिरियदण्डनाथ	२८८	पूर्णचन्द्र	२३९
पिरिसिनि	१२७		
पिळ्ळगक्षेत्र	१३७		
पु [ग] ळालैमंग [ल] तु	११५		
पुगळिवप्पवर-गण्डर	१६७		

पूषबुधि	५१	पेर्माडिराय	२८०
पृच्छकराज	१२७	पेर्मानडि	१३८, २०४
पृथिवि-कोङ्कणि [म] हाधिराज	१२२	पेर्वडियूर	१२३
पृथिवीनिर्गुन्दराज	१२१	पेन्नगर	१२१
पृथुविकोङ्काळ्व	२०६	पेळिदको (ग्राम)	१०६
पृथुवीकोंगुणि	१२१	पेळ (नगर)	१२२
पृथुवीनीर्गुन्दराज	१२१	पोगरि (गच्छ)	१८६, २१७, २८६
पृथुवीगंग	२७७	पोगरिगोळ	९५
पृथुवीमति-महादेवि	२७७, २९९	पोचब्बरसि	१८८, १८९
पृथुवीराम	१३०, १६०	पोचले	२६४
पृथुवी-वल्लभ	२०७	पोचाम्बिक	३०१
पृथ	६३	पोचिकळे	२६३
पेङ्क-कलुचुबुवर	१४४	पोञ्जिय [क्] किय-[१] र	११५
पेण्णे-गडङ्ग	१३१	पोठघोष	५
पेतपुत्रिका (शाखा)	६९	पोठय	९
पेतवमिक	४७	पोन्नवाड	१८६
पेतिवामि [क]	३४	पोन्नळ्ळि	१२१
पेब्लोल्ल (ग्राम)	९०	पोम्बुच्च	१९७, १९८, २०३, २१२, २१३, २१४, २४८
पेरुमाळुदेव	२१८	पोप्सळ	२००, २७४, २८४, ३०१
पेरुंबाणपाडिकरैवल्लिमल्लियूर	१७४	पोप्सळाचारि	२०१
पेरूर	२७७	पोफळरे (नगर)	१२२
पेरुरेवानि-अडिगल	९४	पोफळरें	१२१
पेरेयङ्ग	३०१	पोलुवर	२६४
पेर्गंडे नोक्कय्य	२१९	पोलेयम्म	२१९
पेर्गंडे-हासम्	१७२	पोळ्ळो	१४६
पेर्गदूर	१५४	प्रतिकण्ठ-सिंग	२१७
पेर्माडिगावुण्ड	२१९	प्रभाकर	२१०
पेर्माडिदेव	२०४, २३७, २७७	प्रभाचन्द्र	१०७, १२२, १२३, २६७,
पेर्माडि-वर्म-देव	२१९		२६९

प्रभाचन्द्रदेव	१६०, १८०, २९९	बप्पय्य	१२३
प्रभाचन्द्रपण्डितदेव	२८०	बमदासिय	५०
प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तदेव	२१९, २६७, २७५, २७७, २९४, २९९, ३०१.	बम्म	२९३
प्रभूतवर्ष	१२३, १२४, १२७.	बम्मगावुण्ड	२५१
प्रवरक	६९	बम्मदेव	२१३
प्रियवन्द्यु-वर्म	२७७	बम्मघ्य	२१८
	फ	बम्मरस	२४९
फगुयश	१५	बम्मरहरियण	२०९
फाउ	१४१	बम्मियन्वे	२१८
	ब	बम्मि-सेट्टि	२६७
बरवुलिक	१०६	बर्वर	२८८
बङ्गापुर	२०७, २७२, ३०१	बर्मदेव	२१३, २१४, २१७, २२२, २४८, २६७, २७७, २९९
बङ्कियाळवर	२१३	बर्मन	२४८
बङ्केय	१२७	बर्मभूपाळक	२१९
बङ्गगेरि	२१०	बर्मिसेट्टि	२६७
बडिम [शि]	८४	बल	६०
बणिकेरे	२५३	बलकोज	२९३
बदणेगुप्प (ग्राम)	९५	बलत्रत	३५, ३६
बनवस	२०९, २१७, २९९, ३०१	बलदिन	२९.४२
बनवास	१८१, २४३	बल [वर्म]	४४, १२४
बनवाति	१४०, १४२, २०४, २२१, २४३	बलवर्मदेव	२१३
बनवासे	२०९	बलात्कार (गण)	२०८, २२७, २४६
बन्दणिका	२०९	बलि	२१३
बन्दणिके	१४०, २०७	बलोर-कट्ट	१७२
बन्द-तीर्थ	२४०	बल्ल	२२९, २९९
बन्द्युषेण	१००	बल्लवरस	२१७
बन्निकेरे	२५३	बल्लाळदेव	२५०, २६३, २९३, २९९
		बल्लिदेव	२१८

बहसतिमित्र	६	वीर-देव	१९७, २१२, २१३,
बह्मजिनालय	२०९	वीरञ्जरसि	२१३, २४८
बह्मदेव	२१५	वीरल-देवि	२१४, २४८
बह्मण	२	वीरलमहादेवि	२१४
बह्माधिराज	१९८	वीरलमादेवि	२१३
बळगार-गण	१८१	वीरवेङ्कट	२१३
बळिप्राम	२०४	वीर-शान्तर-देव	२१४
बळ्ळिगाव	१८१, १९८, २०४, २१७	वीरूग	२१४
बाकि	१८४	वीरोज	२१८
बाबलदेवि	२५३, २८०	वीळि	१८४
बाळिगसात्तिसेट्टि	२४६	बुकि	१८४
बाण	२१३	बुधचन्द्र-देव	२७७
बाणकुल	१२१	बुद्धधिरि	२४
बाणरायर	१३६	बुद्धि	४०, ४१, ४६
बाभन	१	बुबु	५२
बालचन्द्रदेव	१३४, २१८, २६७, २६९,	बूटुग	१४२
	२७७, २९९	बूटुगवेर्माणि	२१३
बाहुबलि	१६०, २५३	बूतुग	१४२, १५०, २७७
बाळवेश्वर	१४९	बूतुग-पेर्माणि	२७७
बिज्ज	१४२, १४४	बूतुग-वेर्माणि	२६७
बिज्जलदेवि	२१३	बूतुग-हेर्माणि	२९९
बिट्टि-देव	२६४	बूतुंग	२१३
बिट्टिग-होयसल-देव	२६४	बूवय्य	२१८
बिट्टिदेव	२५१	बेट्ट-नायक	२८४
बिणियब-सेट्टि	२२१	बेण्डनूर	१२७
बिणिय-बम्मि-सेट्टि	२२१	बेहोरैगरेयं	१५४
बिण्डिगनविले	२६९	बेरि	३०
बिमलचन्द्रपीडित	१६६	बेलेयम्म	१४०
बिळियूर	१३१	बेल्कनूर	१४९

वेल्लोळ	१३८	भद्रयश	७३
बेळेरू	१२७	भरत	२७७,२९९,३०१
बेसववे-गन्ति	२३९	भवणन्दि	१३६
बेहेरू	१२७	भागवत	७
बेळियूर	१३१	भागव्बे	२१७
बेळुगेरे	२१८	भानुकीर्ति	१५८,२९७
बेळुबर्ल	२९९	भानुवर्मा	१०२
बेळगोळ	१५४	भानुशक्ति	१०४
बोडेयदेवर	२१३	भारवि	१०८,२१३
बोडुग	२१४	भावदेव	१७३
बोहेगाड्कि	१४२	मीमसेन	१४४,२२८
बोधिनिदि	३७	भुजगेन्द्र (अन्वय)	१०९
बोप्पण	२९१	भुजबळगांग	२२२,२५१,२५३,२६७, २७७,२९९
बोप्पय	३००,३०१	भुजवळ-शान्तर	२१२,२१३,२१४, २१६,२४८
बोप्पवे	२१८,२३०	भुवनेकमल	२०४,२०५,२०७
बोप्पुगल	२४८	भूकियर-कावण्ण	२१०
बोम्म	२१४,२१६	भूलोकमलदेवर	२९२
बोम्मरसगौड	१४६	भूलोकमल सोमेश्वर	२१८
ब्रह्म	३६	भूविक्रम	१२१,१२२,१४२,२१३, २६७,२७७
ब्रह्मजिनालय	२०९	भूशु	१७४
ब्रह्मदासिका	१९,२०,२२,२३,३१,३५	भोजकर	२
ब्रह्मसेन	१८६	भोजदेव	१२८
भगदत्त	२७७,२९९	भगध	२१७,२८८
भट्टाकलङ्क	२७४	भंगली (प्राम)	१०६
भट्टारि (क्षेत्रम्)	१०९	भंगि	१४३
भट्टिभव	९२	भंगि युवराज	१४३
भट्टि [से] न	२६		
भट्टिसोमो	९३		
भद्रनदि	७३		
भद्रबाहु	१३८,२०९,२१३,२१४		

मंगुहस्ति	५४	मयूरखण्डि	१२४
मङ्गलीशः	१०८	मयूरवर्मा	२०९
मङ्गी युवराज	१४४	मरदे (ग्राम)	१०४
मज्जन्तिय	१२७	मरु-देवी	१४९, २८८
मक्षमा (शाखा)	६६	मरुवर्मा	१२१
मडिओडे	१२०	मरुळ	२१३, २६७, २७७
मणलेयार	१३९	मरुळहळि-जकवे	२७३
मण्डलि	२१९, २७७	[मल]...ण	७३
मण्डलिनाडु	२५३	मलधारि देव	२३२, २३९, २५३, ३०१
मण्डालपुर	२७७	मलियपूण्डि (ग्राम)	१४३
मण्णैक्कडक्क	१७४	मलेपरोल-गण्ड	२०१
मतिल	३०	मलेयाळ	२६४
मत्तवूरद	२७३	मलेवडि	२९३
मत्तिकेट्टे	१२७	मलकपद्	१४३
मत्तिकेरै	१७०	मल्ल	२१२
मदना-पुर	२७७	मल्लवे	२१८
मदुरनहळ्ळि	२४१	मल्लिकार्जुन	२०५
मदुरमण्डल	१७४	मल्लिदेव	२८०
मदुवङ्गनाड्	१८४	मल्लिनाथ	१९७, २९३, २९७
मद्र	९३	मल्लिषेण-मलधारि	२६४, २७४, २८८
मधुकेश्वर	२०९	महक्षत्रप	५
मधुरा	१९७	महन[न्दि]	४४
मनु	१२४	महलो	२३
मनुजपति	२१३	महा[चक] ग्राम	२२८
मनेवेगर्गडे	२४३	महामेघवाहन	२
मन्त्र	१८३	महाराष्ट्रक	१०८
मम्म-गोविन्द	२७७	महाविजय	२
मम्मणदेव	२१३	महावीर	६७, ६९, ८८
मयूर	२१३	महासेन	९७, ९८, १०४, १४३, १८६,
			२१७

महिन्द्रचन्द्रक	१४८	मादेय सेनबोव	१४५
महिलन	२१	माधव ९५, १२१, १२२, १४२, १४८,	
महीचन्द्र	२२८	१४९, २१३, २१९, २६७, २७७, २९९	
महीदेव-भटार	१९३	माधवचंद्र त्रैविद्य-देव	१४५
महीपाल	१४१, १७४, २७७, २९९	माधवचन्द्रदेव	३०१
महेन्द्रपुर	२७७	माधवत्ति	१०७
महेन्द्र-बोळ्ळ	१९३	माधववर्म	९०, ९४
महोत्र (कुल)	१३२	माधवसेन-देव	१९८
मळिहारि (नदी)	२३७	माधव-सेन-भटारक-देव	२८६, ४०४
माकणब्बे	२६३	मानव्यस (गोत्र) ९७, ९८, १००,	
माकलदेवि	२१८	१०३, १०४, १०५, १०६, ११४	
मागध	२	मान्धात-भूप	२९९
माघनन्दि	२०४, २६७, २७७, २८०,	मान्यखेट	१२७
	२९३, ३००	मान्यपुर	१२१, १२२, १२३, १२४
माघहस्ति	५५	मायन	२६२
माङ्ग्वरसि	२१३	मार	१७९, २३१
मांचय्य	२१८	मारय्य	२७६
माचवे	२१८	मारय्य-माचि-देव	२१८
माचिसेट्टि	२१८	मारसिंग	२१९, २२२, २५३, २६७,
माचेय नायक	२१८		२७७, २९९
माजक	२७३	मारसिंह	१२२, १४९, १९६, २१३,
माणिकनन्दिदेव	२१८		२७७, २९२
माणिक पोद्दसळाचारि	२०१	माराशर्व्व	१२३
माणिक्य	२१८, २९२	मारिषेण	९४
माणिमोजन	२९३	मारे [य]	२७३
मातृदिन	२९	मारेयनायक	२१८
मात्रिदिन	३३	मालव १०८, १२३, २०४, २०८, २८८,	
मादवे	२१८		२९३, २९९
मादिगुंड	२७२	मावण्ण	२६२

माविनूर	१२७	मूलसंघ	९०,९४,१२७,१७९,१८०,
माझुणितेश	१७४		१८६,२०४,२०७,२०९,२१७,२१८,
मासवाडि	३०१		२१९,२२७,२३२,२३८,२४०,२४६,
मासिगि	२७		२५०,२५३,२६३,२६९,२७५,२७७,
माहरखित	४		२८४,२८६,२९४,२९७,२९९,३००,
माळलदेवि	२०९		३०१
मि[तशि]रि	२८	मूळगुन्द	१३०
मित्र	६४	मृदुकोतूर(विषय)	९०
मित्रस	६९	मृगेश	९९,१००,१०२,१०३
मित्रा	३१	मृदुगुण्डि	१२७
मुगैनाट्टु	१७४	मेघचन्द्र	१२७
मुत्तलगेरि	१२७	मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव	२७५,२७७
मुदिरपड	१७४	मेघचन्द्र सिद्धान्तदेवर	२६३
मुदुळन्दूर	१२२	मेघनन्दि भट्टारक	१८१
मुद्द	१४०	मेलामेला	१४१
मुनिचन्द्र	२६७,२७७,२९९	मेलपटे	२४३
मुनिचन्द्र-देव	२०४	मेघपाषाण(गळ्ळ)	२१९,२६७,२७७,
मुनिचन्द्रसिद्धान्तदेव	२०८,२५१,		२९९
	२७७	मैलाप(अन्वय)	१३०,१८२
मुनिवल्ली	१२७	मैळला देवि	२३७
मुनिसिंह	१४१	मोगळि	८६
मुरिय	२	मोनि-सिद्धान्तद-ब(भ)टार	१३२
मुळूर	२०१	मोषिनि	२२
मुशङ्गि	१७४	मौनिदेवर	२१३
मुक्कर	१२१,१२२,१४२,२१३,२७७	मौर्य	१०८
मुस	१२७	यडेबळळे	१८५
मुंजुन्यरु	१४३	यदु	३०१
मुसिकनगर	२	ययाति	३०१
मुळगुन्द	१३७	यशोमती	२२८

यशोवर्म	१२४	रविचन्द्र	१५८, १६०, २०५
यादव(कुल)	१२३, १२७, २९९, ३०१	रविवर्म	१०२, १०४
यापनीय सङ्घ	९९, १००, १०५, १४३,	राक्षस गङ्गा	२१५
	१६०	राचमल्ल	१५४, २१४, २६७, २७७, २९९
यापनीयनदिसंघ	१२४	राजगह	२
यिडियूर	१४४	राजनीम	१४३, १४४
यिनिमिलि	१४३	राजमल्ल	१३३, १४२, १७९, २१३
युद्धमल्ल	१४३, १४४	राजमहेन्द्र	१४४
युधदिन	५१	राजमार्तण्ड	१४३
युल्लिकोडमण्डु	१४४	राजवर्मा	१४२
रक्षस	१५४	राजविद्याधर	२१३
रक्षस गङ्गा	२१३, २१४, २१६, २२२,	राजराजदेव	१७१
	२६७, २९९	राजशेखर	२१३
रक्षस-वोय्सल	२०१	राज-श्रीवल्लभ	१२१
रक्तपुर	११४	राजसिंह(?)	१०६
रजकद्रह	२२८	राजादित्य	१४२
रज्यवसु	५२	राजादित्यदेवङ्ग	२१३
रट्टकुळ(अन्वय)	१६०, २०५, २३७	राजेन्द्र-कोङ्गाळव	१८९
रठिक	२	राजेन्द्र-चोळदेव	१७४, १७५, १९०
रणकेशि	२१३	राजेन्द्र-चोळ-नन्नि-चङ्गाळव	२४०
रणपराक्रमाङ्क	१०९	राज्यपाल	२२८
रणराग	१०६, १०८	रात्रिमतिकन्ति	२५०
रणविक्रम	१३३	राम	१०६, १९६, २१३, २७७, २९९
रणशर	१७४	रामगानुण्ड	३०१
रणावलोक	१२३	रामचन्द्रदेव	२३४
रयगिनि	३५	रामदेवाचार्य्य	११४
रवि	१००, १०१, १०२	रामनगर(अहिच्छत्र)	५३
रविकीर्ति	१०८	राम(परमा)नदि-सिद्धान्तदेवर	२०७
रविकीर्ति-मुनीन्द्र	१७९	रामभद्र	९५

रामसेन	२१७	लक्ष्मीदेवि	२१३
रामस्वामि	११८, १९६, २४०, २४१	लक्ष्मीसेन-भट्टारक-देव	२३८
रामेश्वर(क्षेत्र)	१०९	लतनूरपुर	२८०
रायराचमल्लवसति	१४९	लतल्लूर	२०५, २३७
रायरायपुर	२९९	लल्लयन	२१३
रायशान्तर	२१३	लवाड	१६
राषण्य	२७६	लहस्तिनी	१४
राष्ट्रकूट	१२२, १२३, १३०, १४४	लहिवाडो(डो) (ग्राम)	१०६
राह	२१३, २४८	लाट	१०८, २०४, २२८, २०१
[रिठु] नंदि	४१	लाळ	२०४
रिना	२३	लुअच्छगिर	१२८
रुकमव्वे	२९४	लेणशोभिका	८
रुणिकच्छगोण्डिदेव	२१८	लोकजित	१९४
रुद्र	१०६	लोकतिलक	१२१
रुद्रदास	४३	लोक-त्रिनेत्रापर	१२२
रुद्रसोम	९३	लोकमहादेवी	१४३, १४४
रुडी	१४१	लोकियुण्ड	२५३
रूपसिद्धि	२१४, २१५	लोकियमय्य	२९९
रुविक(ग्राम)	१०६	लोकियव्वे	१४६, २१३, २३२
रेवण	२०४	लोवबिक्कि	१४४
रेवती	१०८	वडर(शाखा)	४२, ५९, ६८
रोद	२१८	वंग	२०४
रोहि	२१९	वंगपाल	७
रोहिणी देवी	२१३	वङ्ग	२१७, २८८
ल[ल ?]एय	१४२	वङ्गवाडि	१७९
लक्ष्म	२०४	वङ्गालदेश	१७४
लक्ष्मण	२०४, २१३, २२८, २७७, २९९	वड्डी	४
लक्ष्मरस	२०४	वच्छलिया	२७
लक्ष्मा-देवि	२९९	वज्रणगरि	१७, ४४

बज्रमगरी (शाखा)	८०	वादिराज	२१३, २१४, २१५, २१६,
बजरनथ	८४		२६४, २७४, २८८
बज्रणन्याचार्य्य	२१३	वादीमसिंह	२१४, २२६, २७७
बज्रदाम	१५३	वाद्या	२३७
बज्रपाणि-पण्डित-देव	१७९, १८५	वाधर	३१
बडुरावुळ	२४३	वाधिशिव	८४
बडुाचार्य्य-व्रतिपति	२९९	वानसर्वश	१८६
बतक	५६	वानसान्राय	१८६
बत्सराज	१२३, १२७, १६०	वारणा	१७, ३४, ३७, ४१, ५८, ७६, ८०
बनवासी	१०८, १७४, १८१, २०९		८२
बयरसिंह	१४१	वारिषेणाचार्यसङ्घ	१०३
वरण	४४, ४७, ५२	वाल्मीकि	२१३
वर [ण] हस्ति	२२	वासव	२१३
वरदत्ताचार्य्य	२१३	वासन्तिका	२९७, २९९
वराळ	२०४	वासवचन्द्र	१४७
वरुण	६९	वासा	८
वर्गडे-बाचल-देवि	२५३	वासुदेव	६२, ६५, ६९, १०७
वर्धमान	५, ८, ९, ३०, ३४, ३७, ४२, ५२	वासुदेवा	२०
	७५, १०७, १७३, २०४, २४८	वासुपूज्य	२२७, २६५
वर्म	२३	विक्रिमवीर	१७४
वलहारि	१४४	विक्रम	१२२, १४२, २१३, २६७, २७७
वल्लभ	१२२, १२३, १२४, १२७, १४४,	विक्रमचकि	२२७
	१४९, २१३, २४८, २७७	विक्रमशान्तरदेव	२१३, २१४, २२६,
वसुल	२६, ६३		२४८
वसुलवाटकं	१०३	विक्रमसिंह	२२८
वदसतिमित	२, ६	विक्रमादित्य	११४, १३२, १४३, १४४,
वागठ	२२८		१९६, २०४, २१७, २२७, २४१
वाणसकुल	१८६	विजयकीर्ति	९४, १२४, २२८
वातापिपुरी	१०८	विजयपार्श्वदेव	३०१

विजयपाल	२२८	विष्णुवर्द्धन	१४३, १४४, २६३, २६४,
विजयपुर	२७७, २९९		२६६, २६९, २७५, २९३, २९७, ३०१
विजय-महादेवी	२७७, २९९	विळन्द	१२२
विजयवैजयन्ति	९७, ९८, ९९	विळन्दा	१२१
विजयशक्ति	१०९	वीर	२४८
विजयाशीरि	५२	वीरगुप्त	२६३, २६४, २६९
विजयश्रीपार्श्वदेव	३०१	वीरगङ्गन	२२२
विजयसिद्ध	१७३	वीरगङ्ग-होयसळ-देव	२८४
विजयादित्य	११४, १४२, १४३, १४४,	वीर-देव	९०, २१३, २१६, २२६
	२१०, २१३, २६७, २९९	वीरनन्दि	१२७
विद्याधरदेव	२२८	वीरनारायण	१२७
विद्याधरी(शाखा)	९२	वीरबल्लालदेव	२१८
विनयनन्दी	१०७, २६९	वीरभूपाळ	१९८
विनयादित्य	११४, १८५, २००, २६३,	वीर-महादेवि	२१३
	२७५, २९९, ३०१	वीरमादेवि	२१३
विन्ध्य	१२३	वीरमार्माण्डदेव	२१३
विमलचन्दाचार्य	१२१	वीर-राजेन्द्र	१९५
विमलादित्य	१२४	वीरलदेवि	२१३
विमळचंद्र	१६६	वीरवेडङ्ग	१४२, २७७
विमळचन्द्रभट्टारक	२१३	वीरशोळ	१६७
विरिञ्चन	२७७	वीर-सान्तर-देव	१९७, २१२, २१३
विश्वकर्माचार्य	१२१, १२२	वीर(से)न	१३७
विष्णुगुप्त	२७७, २९९	वीरसेनसिद्धान्त-देव	१५४
विष्णुगोप	९०, ९४, ९५, १२१, १३२,	वीराम्बिका	२४३
	१४२, २१३, २७७	वृद्धहस्ति	५६
विष्णुनृप	२६७	वृधहस्ति	५९
विष्णु[भ]व	५२	वृषभ	११८
विष्णुभूप	२९९	वृषभतीर्थ	२७७
[वि]ष्णु[,] [र]म	१२८	वृषिदाहड	२२८

शुहस्पखर	९७	शान्तर	१९७, २१२, २१३, २४८
वेङ्गीश्वर	१२३	शान्तर-देव	२०३
वेङ्गिलैवीर	१७४	शान्तरादित्यदेव	२१३
वेणि	२६	शान्तरान्वय	२४८
वेन्दनूरु	१२७	शान्तरोडुगं	२४८
वेणैल्करनि(ग्राम)	९४	शान्तलि (देश)	२०३, २१२
वेरा	५४	शान्तिदेव	२००, २१३
वेरि	४०	शान्तिनाथ	१७६, २०४
वेरेयङ्ग	३०१	शान्तियञ्जे	१६६
वेंगि	१४३	शान्तिवरवर्मा	९९
वेंगिनाथ	१४४	शान्तिवर्म	९७, १६०
वैगवूर	१७४	शान्तिवर्मा	१००, १०२
वैजय	१०७	शान्तिशयन	२८८
वैरमेघ	१२४	शामा	२३
वैरा (शाखा)	५५	शामाढ्या	९२
वैहिदरी	७	शाल्मली (ग्राम)	१२२, १२३
वोडुग	२१५	शांतिषेण	२२८
वोडुग	३१४	शिमित्रा	९
व्याघ्र	९३	शिरिक (संभोग)	४२, ८५
व्यास	२१३	शिरिका	३०
शक	१०८	शिरिग्रह	५२
शकरकोट्ट	१७४	शिरिग्रिह	२२
शंखतीर्थवसति	११४	शिरित	४४
शङ्खजिनेन्द्र	१०९	शिलाग्राम	१२४
शरिक	८८	शिवकोट्याचार्य	२१३
शशकपुर	२९३, ३०१	शिवघो [षक]	७२
शंकर	९१	शिवणन्दि	१३१
शर्कराकर्ष	१४४	शिवद [त]	८५
शान्त	१६०	शिवदिता	८८

शिवदेव	३६	श्रीधरदेव	२२७, २३९, ३४१
शिवमार	१२१, १२२, १३३, १४२, १८२, २१३, २७७, २९९	श्रीनन्द	२१०
शिवयशा	१५	श्रीपाल	१०७, २१३, २६४
शिवरथ	१०३	श्रीपाल-त्रैविद्य-देव	२८८
शिवापर	२६७	श्रीपुर	१०६, १२१
श्रीलभद्र	९५	श्रीपुरुष	११९, १२०, १२१, १२२, १३३, १४२, १५४, २१३, २६७, २९९
शुभकीर्ति	१८२	श्रीपोलिकेशीवल्लभ	११४
शुभकीर्तिदेवमठार	२६७	श्रीभोज	२२८
शुभचंद्रदेव	१८०, २३२, २४५, २५१, २५३, ३०१	श्रीमदेळे (रे) गंगदेव	१४२
शुभचन्द्रसिद्धान्तदेव	१६०, २६९, २८४	श्रीमान्दिरदेव	१४३
शुभगुणवल्लभ	१२७	श्रीमृगेश्वरवर्मा	९७
शैगोता	१४२	श्रीविजय	११४, १२२, १२३, २१३, २१४, २१५, २१६, ३०१
शोडास	५	श्रीविजयवसति	१४९
शोनकायन	७	श्रीविजयशिवमृगेश-वर्मा	९८
शोभनय्य	२२६	श्रीविष्णुवर्मा	१०१
शौच-कम्भ-देव	१२३	श्रीवुरदा	१२१
श्रियादेवि	२१३	श्रुतकीर्ति	९६, २७७
श्रीकल्याचार्य (अन्वय)	१२४	श्रुतकीर्ति-त्रैविद्य	२८५
श्रीकीर्ति	१०१	श्रुतकीर्तिबुध	२९९
श्रीकुन्द	११८	श्रुतकीर्तिभोज	१००
श्री-कुमारगुप्त	९२	श्रुतकीर्ति	२२७
श्रीकेशि	२१३	श्रेयांसपण्डित	२१३, २१४, २१५, २४८
श्रीगृह	२९, ३१, ५४, ५५	श्वेतपटमहाश्रमणसङ्घ	९८
श्रीजिनदेव सूनि	१७३	सक	५६
श्रीदत्त	२७७, २९९	सकलचंद्र	१४४, १९७, २१२
श्रीदेव	१२८	सधसिंह	३०
श्रीदेवेन्द्रमुनीश्वर	१२७		

सङ्गमिक	२६	सङ्गतय्य	२१६
सङ्गम	९१	सङ्गिता	६२
सङ्गमहला	१४३	सङ्गतर	१३९, १४५, २१३, ३४८
सत्यार्पण	२२२, २६४, ३९९	सङ्गतल्लिगे	२१३
सत्यनीतिवाक्य	१४२	सङ्गतल्लिगेशाखिर	२४०
सत्यवाक्य	२१३, २६७	सङ्गतल्लिगे-साखिर	१९७
सत्यवाक्य-कोङ्गमिवर्म	१४९, २७५	सङ्गतल्लिगे-साखिरम	१९८
सत्यवाक्य-जिनालय	१३१	सङ्गितयन्त्रासि	२१३
सत्याश्रय	१०६, १०८, १०९, ११४, १४३, १४४, १८६, २१७, २१८, २२७, २३७, २४८	सङ्गतोज	२१९
सथिसहा	१७	साधरिवादो (डो) (मस)	१०६
सथि	३५	सामिय	१४९
सन्ति	२९	सामियन्त्रे	१४५
सन्दिग	१४०	सामिभार	१०६
सन्धि	३६	सासल-बम्मय्य	३१८
स [न्धि] क	२४	सासवेवादु	१३७
समण	१, २	सि [किमत्रि?] गिरि [पि] डडु	१३७
समन्तभद्र	२०७, २१३, २१४, २१७, २६४, २७४, २८८	सिङ्ग	२१७
सथिगोट्ट	२६७	सिङ्गण्ण	२१०
सथ्य-दण्डाधिप	२८८	सिङ्गिदेव	३१३
सर्व्वषण्डि	१३१, २०४	सिङ्गनन्दि	१०६
सङ्कार	२१३, २४८	सिङ्गान्तरत्नाकरदेव	२१३
सळ	३०३	सिगकिपु	७५
संकित्त	१४३	सिन्देश्वर (क्षेत्रम्)	१०९
सुंणय	१२७	सिरिपन्दि	२१०
सुंणवधि	६०	सिरिपति (प्राम)	१०६
साङ्गवा	१३९	सिरिपुर	१९३
सातकथि	२	सिरियनन्दि	२१०
		सिरियमसेट्टि	२९९
		सिरियुर	२४७

सिवदास	४३	सून्दी	१४२
सिवमार-देव	२६७	सुरस्थ-गण	१८५, २६९
सिवार	१०६	सूर्पट	२२८
सिंहक	७१	सूर्य-चमूप	२८८
सिंहदत्ता	४४	सूर्य-दण्डनायक	२८८
सिंहनादिक	७१	से (जे) ऋकेतन	१२७
सिंहमित्र	१७	सेदोजन	१३१
सिंग	१२०, २९३	सेन	४७, ४८, ६२, १८६, २०५, २१७, २२७, २३७, २८६
सिंगण-दण्डनायक	२९१	सेनबोव	२१०, २२६
सिंगण-दण्डाधिपति	२९१	सेनबोव-बोग-देव	२५१
सिंहनन्दि	२६७, २७७, २९९	सेनवर-दण्डनाथ	२८८
सिंहनन्द्याचार्य	२१३, २१४, २७७, २९९	सेन्द्र	१०९
सिंहपथ	२	सेन्द्रक	१०४, १०६
सिंहरथ	२१३	सेम्बनूर	२८८
सिंहल	१०६	सैगोट्ट	१८२, २१३
सिंहसेनापति	१०३	सैगोट्ट-पेर्मानिकि	१८२
सीवट	१६०, २७७	सैगोट्ट-विजयादिल	२७७
सीवटे	१३०	सोम	२१७, २४३, ३०१
सीह	३२, ५५	सोमाम्बिका	२४३
मुकोशल	२०४	सोमिल	९३
मुगन्धवर्ति	१३०, १६०, २३७	सोमेश्वर	२०४, २९३, ३०१
सु [चि ल]	२९	सोरिगांव	२२७
सुन्दर	१७४	सोबरस	२४३
सुब्बय	२१८	सोसबूर	१७९, १८५, १९४
सुमतिभट्टारक	२१३	सोसेबूर	२००
सुय्यदेव	२१८	सौराष्ट्र	२१७, २८८
सुराष्ट्र (गण)	२०४, २३४	स्कन्दगुप्त	९३
सुल्हाटवी	१४२	स्थानिय (कुल)	४२, ५४, ५५, ५६, ८३
सुल्ल	१२७		

स्थिर	२२	हस्तहस्ति	५५
हगनूर	१२७	हळळुवर	२९९
हृगिर्नदि	४५	हानुज्जु	२९९, ३०१
[ह] ग्यु [देव]	३१	हारिती	९७, ९८, १००, १०३, १०४,
हट्टिकिय	४४		१०६, ११४
हट्टण	२१८	हास्वनहळ्ळि	१८९
हनूमान	१०६	हिरण्यगर्भ	२१३
हन्तियूर	२८३	हिरियकेरे	२२२
हळ्वण	२१०	हिरियदण्ड-नायक	३०१
हरकेरे	२२२	[हु] क्ष	३८
हरदेव	२२८	हुगियवे	२१८
हरि (वंश)	२९९	हुलिगेरे	२९९, ३०१
हरिगे	२१९	हुलियकेरे	२२२
हरिण (न्दि) देव-मुनि	२९१	हुलियमरसतुं	१२७
हरितमालकडि	४५	हुविष्क	३९, ४३, ४५, ५०, ५६
हरिति	५	हुवगणगिले	२७७
हरियन्बरसि	२९३	हेमनन्दि	२६९
हरियलदेवि	२९३	हेमसेन	२७४
हरिवर्म	९०, ९४, ९५, १०३, १०४,	हेमसेनमुनि	२१३, २१५
	१२१, १२२, १४२, १४९, २१३, २६७,		
	२७७, २९९	हेम्माळि	२७७, २९९
हरिश्चन्द्र	२१३, २१९, २७७, २९९	हैहय	१२२
हर्म्म	२९९	होतगे (गच्छ)	२४०
हर्ष	१२७	होनेश्वर (क्षेत्रम्)	१०९
हलसिगे	३०१	होय्सळ	२३०, २३३, २९९, ३०१
हलोजन	२१८	होसंजल्लु	१२७
हलुम्बे	१६६		

वीर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय

काल नं० _____

लेखक विजयप्रति

शीर्षक जैनशिलालेख संग्रह

खण्ड द्वितीय भाग क्रम संख्या ४०९३

दिनांक | लेने वाले के हस्ताक्षर | वापसी का